

हमारा सर्वश्रेष्ठ आलोचनात्मक साहित्य

प्रेमचन्द जीवन्, कजा और कृतिरव	हंसराज 'रहबर'	६॥)
सुमित्रानन्दन पंत	शचीरानी गुट्टे	६)
महादेवी घमा	शचीरानी गुट्टे	६)
जयशंकर प्रसाद	महावीर अधिकारी	८)
आलोचक रामचन्द्र शुक्ल	गुलाबराय-स्नातक	६)
हिन्दी के आलोचक	शचीरानी गुट्टे	८)
महाकवि सूरदास	नन्ददुलारे बाजपेयी	४)
कबीर-साहित्य और सिद्धान्त	यज्ञदत्त शर्मा	२॥)
जायसी-साहित्य और सिद्धान्त	यज्ञदत्त शर्मा	२॥)
सूर-साहित्य और सिद्धान्त	यज्ञदत्त शर्मा	२॥)
प्रबन्ध-सागर	यज्ञदत्त शर्मा	५॥)
हिन्दी काव्य-विमर्श	गुलाबराय	३॥)
हिन्दी-नाटककार	जयनाथ 'नलिन'	५)
हिन्दी-निबन्धकार	जयनाथ 'नलिन'	६)
कहानी और कहानीकार	मोहनलाल जिज्ञासु	३)
तुलनात्मक अध्ययन	शर्मा-रस्तौगी	३)
मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ	डा० सावित्री सिन्हा	८)
कामायनी-दर्शन	सहल तथा स्नातक	४)
काव्य के रूप	गुलाबराय	५)
सिद्धान्त और अध्ययन	गुलाबराय	६)
रोमांटिक साहित्य शास्त्र	देवराज उपाध्याय	३॥)
साहित्य-विवेचन	प्रेमचन्द्र सुमन - योगेन्द्रकुमार मल्लिक	७)
साहित्य-विवेचन के सिद्धान्त	" "	३)
हिन्दी काव्यालंकारसूत्र	आचार्य विरवेश्वर, स० डा० नगेन्द्र	१२)
वक्रोक्तिजीवितम्	आचार्य विरवेश्वर, स० डा० नगेन्द्र	१६)
साहित्य, शिक्षा और संस्कृति	डा० राजेन्द्र प्रसाद	५)
भारतीय शिक्षा	डा० राजेन्द्र प्रसाद	३)
कला और सौन्दर्य	रामकृष्ण शुक्ल 'शिलीमुख'	३॥)
समीक्षायाण	कन्हैयालाल सहल	३)
दृष्टिकोण	कन्हैयालाल सहल	१॥)
प्रगतिवाद की रूपरेखा	मन्मथनाथ गुप्त	७)
साहित्य-जिज्ञासा	ललिताप्रसाद सुकुल	३)
सन्तुलन	प्रभाकर माचवे	४)
साहित्यानुशीलन	शिवदानसिंह चौहान	६)
अनुसन्धान का स्वरूप	डा० सावित्री सिन्हा	३)
हिन्दी साहित्य और उसकी प्रगति	स्नातक तथा सुमन	३)
साहित्यशास्त्र का पारिभाषिक शब्दकोष	राजेन्द्र द्विवेदी	८)
आलोचना के सिद्धान्त	व्यौहार राजेन्द्रसिंह	३)

हिन्दी अनुसन्धान परिषद् ग्रन्थमाला, ग्रन्थ ६

सूफीमत और हिन्दी-साहित्य

लेखक

डॉ० विमलकुमार जैन

एम. ए., पी-एच. डी.

१९५५

हिन्दी अनुसन्धान परिषद्
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली,
की ओर से

आत्माराम एण्ड संस
प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता
काश्मीरी गेट
दिल्ली-६
द्वारा प्रकाशित

मूल्य ८)

प्रकाशक

राखलाल पुरी

आत्माराम एण्ड संस

काश्मीरी गेट, दिल्ली-६

(सर्वाधिकार प्रकाशक के आधीन)

**हिन्दी अनुसन्धान परिषद्
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, के ग्रन्थ**

हिन्दी काव्यालङ्कारसूत्र	आचार्य विश्वेश्वर, सं० डॉ. नगेन्द्र १२)
वक्रोचितजीवितम्	आचार्य विश्वेश्वर, सं० डॉ. नगेन्द्र १६)
मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ	डॉ० सावित्री सिन्हा ८)
अनुसन्धान के स्वरूप	सं० डॉ० सावित्री सिन्हा ३)
हिन्दी नाटक—उद्भव और विकास	डॉ० दशरथ ओझा ९)
सूफीमत और हिन्दी-साहित्य	डॉ० विमलकुमार जैन ८)

आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली-६

मुद्रक

अमरजीतसिंह नलवा

सागर प्रेस

काश्मीरी गेट, दिल्ली-६

हमारी योजना

‘सूफीमत और हिन्दी-साहित्य’ हिन्दी अनुसन्धान परिषद् ग्रन्थमाला का छठा ग्रन्थ है। हिन्दी अनुसन्धान परिषद्, हिन्दी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, की सस्था है जिसकी स्थापना अक्टूबर १९५२ ई० में हुई थी। इसका कार्य-क्षेत्र हिन्दी भाषा एवं साहित्य-विषयक अनुसन्धान तक ही सीमित है और कार्यक्रम मूलतः दो भागों में विभक्त है। पहले विभाग पर गवेषणात्मक अनुशीलन और दूसरे पर उसके फल-स्वरूप उपलब्ध साहित्य के प्रकाशन का दायित्व है।

गत वर्ष परिषद् को और से तीन ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। ‘हिन्दी काव्यालङ्कारसूत्र’, ‘मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ’ तथा ‘अनुसन्धान का स्वरूप’। ‘हिन्दी नाटक—उद्भव और विकास’, ‘हिन्दी बक्रोक्तिजीवित’ तथा ‘सूफीमत और हिन्दी-साहित्य’ हमारे इस वर्ष के प्रकाशन हैं। इन ग्रन्थों में ‘हिन्दी काव्यालङ्कारसूत्र’ तथा ‘हिन्दी बक्रोक्तिजीवित’ आचार्य वामन के ‘काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति’ तथा आचार्य कुन्तक के प्रसिद्ध ग्रन्थ ‘बक्रोक्तिजीवितम्’ के हिन्दी भाष्य हैं। ‘अनुसन्धान का स्वरूप’ अनुसन्धान के मूल सिद्धान्त तथा प्रक्रिया के सम्बन्ध में मान्य आचार्यों के निबन्धों का संकलन है। ‘मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ’, ‘हिन्दी नाटक—उद्भव और विकास’ और ‘सूफीमत और हिन्दी-साहित्य’ दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत पी-एच. डी. के गवेषणात्मक प्रबन्ध हैं। इस योजना को कार्यान्वित करने में हमें दिल्ली की प्रसिद्ध प्रकाशन-संस्था—आत्माराम एण्ड संस से वाञ्छित सहयोग प्राप्त हुआ है। हिन्दी अनुसन्धान परिषद् उसके अध्यक्ष श्री रामलाल पुरी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है।

नगेन्द्र

अध्यक्ष, हिन्दी अनुसन्धान परिषद्

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

ता० ७-४-५५ ई०

प्रस्तावना

प्रस्तुत गवेषणात्मक प्रबन्ध की रचना स्वर्गीय महामहोपाध्याय डॉ० लक्ष्मीधर जी शास्त्री के निरीक्षण में हुई थी परन्तु हमारा यह दुर्भाग्य है कि पण्डित जी अपने आशीर्वाद को फलीभूत देखने के लिए आज इस संसार में नहीं हैं। पण्डित जी आर्य तथा मामी दर्शन और हिन्दी-संस्कृत के साथ-साथ उर्दू-फ़ारसी के भी प्रकाण्ड विद्वान् थे। सूफ़ी दर्शन उनका अपना विशिष्ट विषय था और मुझे विश्वास है कि उनके मार्ग-दर्शन में सम्पन्न यह अनुसन्धान अपने औचित्य को सिद्ध करेगा। इस ग्रन्थ में कदाचित् पहली बार सूफ़ी सिद्धान्तों का हिन्दी-माध्यम से विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है। अनुसन्धाता ने अत्यन्त परिश्रम के साथ वैज्ञानिक पद्धति पर अपने विषय का प्रतिपादन किया है। सूफ़ीमत से सम्बद्ध इतनी प्रभूत और सुविचारित सामग्री कम-से-कम हिन्दी में अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। अनुसन्धाता ने आगमन और निगमन दोनों शैलियों का उपयोग करते हुए सूफ़ी सिद्धान्त और हिन्दी-साहित्य के पारस्परिक सम्बन्ध का उद्घाटन किया है। प्राचीन काव्य के विषय में उनके निष्कर्षों से असहमत होना प्रायः कठिन ही है परन्तु आधुनिक काव्य के विषय में सम्भव है मेरी भाँति औरों को भी उनकी स्थापनाओं के प्रति शंका हो और हो सकता है कि उर्दू को हिन्दी का अंग मानने में भी अनेक विद्वानों को आपत्ति हो परन्तु लेखक का मत भी अपने ढंग से आदरास्पद है; साहित्य में मतैक्य साधारणतः सम्भव भी नहीं होता।

देश के मान्य विद्वानों द्वारा प्रशंसित और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत यह प्रबन्ध अपनी सिद्धि आप ही है, इसी मेरे किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है—

नहिं कस्तूरी गन्ध काँ चहियतु सपथ-प्रमान ।

अन्त में अपनी शुभ कामनाओं सहित डॉ० जैन के इस ग्रन्थ को साहित्य-मर्मज्ञों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ !

नगेन्द्र

अध्यक्ष, हिन्दी विभाग

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्राकथन

यह ग्रन्थ दिल्ली विश्वविद्यालय की पी-एच. डी. उपाधि के निमित्त प्रबन्ध रूप में लिखा गया था । उच्चतम उपाधि का लालसा तथा 'एक पन्थ दो काज' के अनुसार हिन्दी-साहित्य को एक तुच्छ उपहार भेट करने की कामना में मैंने महामहोपाध्याय डॉ० लक्ष्मीधर जी शास्त्री के श्रीचरणों का सुखद आश्रय लिया । उन्हीं की सत्प्रेरणा के परिणामस्वरूप अपनी रुचि के ही अनुकूल मैंने अब तक प्रायः उपेक्षित इस रहस्यात्मक विषय को चुना और अपने बुद्धि-बल के अनुसार उनके आशीर्वाद से इसे यथाविधि सम्पूर्ण किया ।

यह विषय अब तक अधिकांशतः उपेक्षित ही था । यद्यपि आचार्य श्री चन्द्रबली पाण्डे ने 'तसव्वुफ अथवा सूफीमत' नामक ग्रन्थ में सूफीमत पर विचार किया है परन्तु उन्होंने केवल इसके उद्गम और उद्भास पर ही प्रकाश डाला है । भारतीय सूफीमत और सूफी सन्तों का विवेचन उनकी विषय-परिधि से बाहर रहा है । इसी प्रकार इतिहासकारों तथा अन्य विद्वानों ने सूफीमत के स्वरूप का निदर्शन तो किया है परन्तु सामूहिक रूप से हिन्दी के मान्य सूफी सन्तों की रचनाओं के आधार पर सूफी सिद्धान्तों की खोज नहीं की । प्रस्तुत ग्रन्थ में मैंने इस गुह्यतर विषय को अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार यथावत् विकसित करने का प्रयत्न किया है । कबीर आदि निर्गुणिए सन्तों तथा मीरा सहस्र सगुण भक्तों के काव्य के अतिरिक्त मैंने आधुनिक युग के छायावाद और हालावाद आदि को भी सूफी प्रभाव के अन्तर्गत ग्रहण किया है । उधर उर्दू का मूल स्रोत हिन्दी ही है अतः उर्दू-साहित्य पर भी सूफीमत के प्रभाव का विवेचन करते हुए मैंने इसमें शरीरगत के स्थान पर अधिकांशतः हकीकत का ही प्रभाव माना है । हिन्दी में यह विषय भी नया ही है । इस प्रकार प्रायः एक नये विषय को ही मैंने अपने शोध-कार्य का विषय बनाया है । परन्तु मेरी उपलब्धि मेरी विद्या-बुद्धि के समान ही अत्यन्त सीमित है, फिर भी यदि इसे पढ़कर भावी अनुसन्धाताओं को थोड़ा-बहुत भी लाभ हा सका तो मैं अपने परिश्रम को सफल मानूंगा ।

मैंने इस विषय को दो भागों में विभक्त-सा कर प्रतिपादित किया है । पहले सूफीमत के निकास-से विकास तक का विवेचन किया है, फिर भारतीय वातावरण में घोषित सूफियों की हिन्दी-रचनाओं के आधार पर सूफी-सिद्धान्तों की खोज की है । और अन्त में हिन्दी तथा उर्दू-साहित्य पर उसका प्रभाव निर्धारित किया है । आरम्भ से अन्त तक मैंने वैज्ञानिक पद्धति का ही अवलम्बन किया है । यत्र-तत्र विद्वानों से मतभेद होने पर मैंने विषय को अपने मतानुसार ही व्याख्यात

सूफीमत और हिन्दी-साहित्य

किया है, यथा—श्री निकलसन आदि विद्वानों द्वारा मान्य सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सफ़् (ऊन) से न मानकर मैंने ग्रीक शब्द सोफिथा (ज्ञान=सं०—स्वभास) से मानी है क्योंकि सूफी भी अन्तर्दृष्टि से ही ईश्वर का अभेद रूप में साक्षात्कार करते हैं ।

अन्त में मैं उन विद्वानों का, जिनकी कृतियों का अनुशीलन कर मैंने इस ग्रन्थ को लिखा है, धन्यवाद करता हुआ दिवगत गुरुवर्य डॉ० लक्ष्मीधर जी शास्त्री की पुण्य-स्मृति में भाव-पुष्पाञ्जलि अर्पित करता हूँ, जिनके मार्ग-प्रदर्शन द्वारा मैं इस प्रबन्ध के निर्वहण में सफल हो सका । मैं डॉ० नगेन्द्र, अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, दिल्ली विश्व-विद्यालय, दिल्ली, का भी परम आभारी हूँ जिन्होंने त्रुटियों के समुत्सारण में मुझे सामयिक सम्मति देकर हिन्दी अनुसन्धान परिषद्, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, के तत्वावधान में इस ग्रन्थ के प्रकाशन की व्यवस्था की है ।

दिल्ली कालेज

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

ता० ७-४-५५ ई०

विद्वज्जनानुचर

विमलकुमार जैन

विषयानुक्रमणिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ
१.	सूफीमत का आविर्भाव	१
२.	उद्भास	१८
३.	सूफी-आस्था	४३
४.	सूफी-साधना	६३
५.	सूफीमत का भारत-प्रवेश	७६
६.	भक्ति-मार्ग	९२
७.	हिन्दी-साहित्य में सूफी कवि और काव्य	११२
८.	हिन्दी-काव्य में सूफी-सिद्धान्त	१३६
९.	हिन्दी सूफी काव्य में निराकार देव की उपासना	१४६
१०.	सृष्टि	१६५
११.	जीव	१७५
१२.	गुरु	१७६
१३.	प्रेम और विरह	१८४
१४.	भारतीय सूफी-साधना	१९८
१५.	आचार	२११
१६.	सूफीमत का हिन्दी-साहित्य पर प्रभाव	२१७
१७.	सूफीमत का उर्दू-साहित्य पर प्रभाव	२४०
१८.	उपसंहार	२५५
	परिशिष्ट १	२६१
	परिशिष्ट २	२६३
	परिशिष्ट ३	२६४
	परिशिष्ट ४	२६५
	परिशीलित ग्रन्थावली—आगल ग्रन्थ	२६७
	परिशीलित ग्रन्थावली—हिन्दी-संस्कृत ग्रन्थ	२७०

सूफीमत और हिन्दी-साहित्य

प्रथम पर्व

सूफीमत का आविर्भाव

विद्वानो ने सूफीमत का व्यवहार मुस्लिम रहस्यवाद के लिए किया है। सूफी शब्द के मूल स्रोत के विषय में बड़ा मतभेद है। अनेक सूफियों, अध्यात्मशास्त्रियों तथा भाषा-विज्ञानियों ने इसकी व्युत्पत्ति करते हुए अपने मत प्रकट किये हैं। अधिकांश व्यक्ति इसकी व्युत्पत्ति 'सफा' शब्द से मानते हैं। उनका कहना है कि जो लोग पवित्र थे, वे सूफी कहलाये। कुछ का कथन है कि मदीना में मुहम्मद साहब द्वारा बनवाई मसजिद के बाहर 'सुफफ' अर्थात् चबूतरे पर गृहहीन जिन व्यक्तियों ने आकर शरण ली थी तथा जो पवित्र जीवन बिताते हुए ईश्वराराधना में लीन रहते थे, वे सूफी कहलाये। एक दल ने इसका उद्गम 'सफ' (पवित्र) से माना है। उनके अनुसार वे लोग सूफी कहलाये जो निर्णय के दिन पवित्र एवं ईश्वर-भक्त होने के कारण अन्य व्यक्तियों से पृथक् पवित्र में खड़े किये जायेंगे। कोई शरब की 'सफफ' नामक जाति से इसका विकास मानता है। अबू नम्र अल सर्राज ने लिखा है सूफी शब्द 'सूफ' अर्थात् ऊन से निकला है।^१ मुहम्मद साहब के पश्चात् जो यति या सन्यासी ऊन के वस्त्र धारण करते थे, वे सूफी नाम से प्रसिद्ध हुए। कतिपय व्यक्तियों ने इसकी व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द 'सोफिया' (ज्ञान) से की है। इसमें कुछ यथार्थता दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि सूफी लोग अनुभवसिद्ध ज्ञान को ही महत्त्व देते हैं। सोफिया, सूफी और स्वभास (संस्कृत) शब्दों में बड़ा सामंजस्य भी है। सूफी भी अन्तर्दृष्टि से हृदय में ईश्वरीय प्रकाश का भेद रूप से साक्षात्कार करते हैं।

यह सूफी शब्द मुहम्मद साहब के देहावसान से दो सौ वर्ष पश्चात् सत्ता में आया जान पड़ता है, क्योंकि सूफीमत का पर्यायवाची अरबी शब्द तमव्वुफ हिजरी सन् ३६० ई० में मशहूर सिद्ध में नहीं पाया जाता।^२ सूफी शब्द का प्रयोग अवश्य सन् ८६९ ई० में अरबी लेखक बसरा के जाहिज^३ द्वारा हुआ जान पड़ता है।

१. "The author of the oldest extant Arabic treatise on Sufism, Abu Nasr-al-Sarraj, declares that in his opinion the word Sufi is derived from Suf (Wool)."—(*Encyclopædia of Religion and Ethics*, Vol. XII, P. 10)

२. *Islamic Sufism*, P. 16.

३. "So far as the present writer is aware the first writer to use the word 'Sufi' is Jahiz of Basra (A. D. 869)".—(*Encyclopædia of Religion and Ethics*, Vol. XII, P. 10)

जामी^१ के अनुसार इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ई० सन् ८०० से पूर्व कूफा के अबू हाशिम के लिए हुआ था, जो सन् ७७८ ई०^२ में विद्यमान था। अब कुशेरी के अनुसार हिजरी सन् की द्वितीय शताब्दी से पूर्व अर्थात् सन् ८११ ई०^३ में यह शब्द प्रचलित हुआ। पुनः पचास वर्ष के अन्दर ईराक के तथा दो सौ वर्ष में सभी मुस्लिम रहस्यवादियों के लिए इसका प्रयोग होने लगा।^४

यह शब्द अवश्य आठवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रचलित हुआ परन्तु इसमें अन्त-निहित भावना उतनी ही प्राचीन है जितना विकसित मानव-हृदय, क्योंकि सूफी-भावना भी मानव में सदैव से तरंगित रहस्य की जिज्ञासा का ही परिणाम है। सृष्टि के आदिकाल से ही मनुष्य प्रकृति के रहस्यों को खोलने की इच्छा करते रहे हैं। मनुष्य भी, मैं कौन हूँ, प्राणियों का मूलस्रोत क्या है, सूर्य, चाँद और तारे मय इस विश्व का संचालन कैसे होता है, इत्यादि प्रश्नों का समाधान देश-कालानुसार सदैव से करता रहा है। आधुनिक जगत के सम्पूर्ण देशों के प्राचीनतम इतिहासों पर दृष्टिपात करने से इसी बात की पुष्टि होती है। प्रागैतिहासिक एव इतिहास के प्रारम्भिक काल में विभिन्न देशों में अनेक देवताओं की पूजा होती थी। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में ही, 'ओ३म् अग्नि मीले पुरोहितम्' इत्यादि वाक्यों से हम अग्नि की वन्दना पाते हैं।^५ इसी प्रकार चीन, जापान, मिस्र, अरब, फिलस्तीन, बेबीलोनिया, ग्रीस, रोम तथा कैल्टिक प्रदेशों के धर्मों के प्राचीनतम रूपों का इतिहास देखने से हमें उनमें बहु-देवतावाद की अखंड भावना मिलती है। चीनी तो ईसा से लगभग २५०० वर्ष पूर्व देवों के अतिरिक्त ईश्वरीय सत्ता^६ को मानने लगे थे। मिस्र-निवासियों के लिए धर्म का प्रयोजन ही दैवी प्रसाद को पाना^७ था।

रोमन लोग भी देव-प्रसाद के अतिरिक्त दैवी सर्वोच्च सत्ता से प्रभावित थे।^८ प्लेटो के अनुसार यूनान के आदिम निवासी पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा तथा तारों

^१ — as Jamī states, it was first applied to Abu Hashim of Kufa (ob. before 800 A.D).—(A Literary History of the Arabs, P. 229)

^२ Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. XII, P. 10.

^३ A Literary History of Persia, P. 417-18.

^४ "Within Fifty years it denoted all the mystics of the Irak... and two centuries later Sufya was 'applied to the whole body of Muslim mystics as our term 'Sufi' and 'Sufism' still are to-day".—(Encyclopaedia of Islam, P. 681-82)

^५ ऋग्वेद मं० १, सूक्त १।

^६ The Religion of Ancient China, P. 9.

^७ The Religion of Ancient Egypt, P. 11.

^८ The Religion of Ancient Rome, P. 96.

को देवरूप समझते^१ थे। 'पुरुष एवेदं सर्वम्' ऋग्वेद^२ के इस वाक्य से यह ज्ञात होता है कि भारतीय आर्य भी प्राचीन काल से एक अदृष्ट पुरुषश्रेष्ठ की सत्ता मानने लगे थे।

उपर्युक्त विवेचन से प्रतीत होता है कि सभी देश किसी न किसी रूप में प्रकृति को रहस्यमय देखते रह रहे हैं और इन रहस्यों से प्रभावित हो देवी अथवा ईश्वरीय प्रभाव को मानते रहे हैं। विभिन्न देशों में उद्भूत आदिम बहु-देवतावाद भी अन्त में एकेश्वरवाद में ही पर्यवसित हुआ है यह भी एक निश्चित तथ्य है। विकास का नाम ही उत्थान है, अतः मानवीय मन और मस्तिष्क ज्यों-ज्यों विकास को प्राप्त हुए त्यों-ही-त्यों हृदयगत भावनाएँ भी उत्थान को प्राप्त हुईं और विश्व की उस विभूति की खोज में लगी जो एक नित्य एवं व्यापक रहस्य है। यही कारण है कि नाना भूमियों पर उत्पन्न रहस्यवादियों की वाणी में शब्दों के अतिरिक्त कोई भेद नहीं दीख पड़ता। रूमी की एक फारसी गज़ल, जर्मन रहस्यवादी ऐकहर्ट तथा उपनिषद् का एक वाक्य उसी एक शाश्वत सत्य के उद्घाटन में प्रयत्नशील-से दीख पड़ते हैं। केवल आवरण में ही अन्तर है, आत्मा में नहीं। जहाँ गीता^३ यह कहती है कि मेरे परायण हुआ निष्काम योगी सर्व कर्मों को करता हुआ भी मेरे प्रसाद से शाश्वत तथा अक्षय पद को प्राप्त होता है, वहाँ ऐकहर्ट^४ भी यही कहता है कि जो व्यक्ति अपने सम्पूर्ण कर्मों में ईश्वर को ही साथ रखता है तथा जो ईश्वर के अतिरिक्त किसी की अपेक्षा नहीं करता वह ईश्वर से एक रूप हो जाता है। अनेक सूफियों द्वारा की गई सूफीमत की परिभाषाओं से भी यही ज्ञात होता है कि सूफीमत के गर्भ में भी बाह्याचारो के विरुद्ध यही रहस्योन्मुख भावना निहित है।

अबुल हसन अलनरी^५ के अनुसार सूफीमत संसार के प्रति वृणा और प्रभु के

१ "Plato says that the earliest inhabitants of Greece, like many of the barbarians, had for their gods the sun, moon, earth, the stars and heaven. .".—(*The Religion of Ancient Greece P. 17*)

२ ऋग्वेद मं० १०, सूक्त ६०, २।

३ सर्वं कर्माण्यपि सदा कुर्वासो मद्द्व्यपाश्रयः।

मन्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥ गीता, अ० १८, ५६।

४ "Whoever has simply and solely God in mind in all things, such a man carries God in all his works and in all places within him, and God does all his works. He seeks nothing but God, nothing appears good to him but God. He becomes one with God in every thought."—(*Mysticism East and West, P. 125*)

५ It must never be forgotten that Sufism was the expression of a profound religious feeling—"hatred of the world and love of the Lord".—(*A Literary History of the Arabs, P. 392*)

प्रति प्रेम-रूप गम्भीर धार्मिक भावों का प्रकाशन था । जुनेद^१ का कहना है कि तसव्वुफ ईश्वर द्वारा पुरुष में व्यक्तित्व की समाप्ति और ईश्वरत्व की उद्बुद्धि का नाम है । अल गजाली^२ भी उसी को सूफी मानता था जो शान्ति से रहता हुआ ईश्वर में अविराम लीन रहे । शिब्ली^३ ने ईश्वर के अतिरिक्त अखिल विश्व के त्याग को तसव्वुफ कहा है । अल हुजविरी^४ अमृतं तत्त्व को ही सूफीमत कहता है । अबू सईद^५ ने सूफीमत की अनेक परिभाषाएँ करते हुए यह लिखा है कि ईश्वरीय विधि तथा निषेध में वैयं तथा दैवापतित अवसरों पर पूर्ण आत्म-समर्पण तथा अगीकरण का नाम ही सूफीमत है ।

इस प्रकार विविध व्याख्याओं और परिभाषाओं से यही परिणाम निकलता है कि विधि-विधनों से मुक्त निखिल विश्व में व्याप्त इस शाश्वत तथा अमूर्त शक्ति की भलक सर्वत्र पाकर मुस्लिम-साधकों ने जो रहस्य अभिव्यक्त किये उन्हीं के सामंजस्य का नाम सूफीमत है । अतः सूफीमत या तसव्वुफ भी रहस्यवाद ही है जो अन्तर्निहित भावना के सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक होते हुए भी मूलतः मुस्लिम सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखता है । विश्व में सचाई एक है । रहस्यवाद, चाहे वह सूफीमत हो या अद्वैतमत, उसी सचाई के आविष्करण का नाम है । ईश्वर एक है, सत्य एक है, अतः रहस्यवाद भी एक ही है । मुस्लिम, हिन्दू तथा ईसाई रहस्यवाद का लक्ष्य एक ही है । नाना रूपों में सभी साधक उसी एक परम विभूति की साधना करते हैं । हाँ, साधन भिन्न हो सकते हैं । गीता^६ में भी ऐसा ही कहा है । वास्तव में सम्पूर्ण भाव का ऐक्य ही रहस्यवाद का मौलिक या तात्त्विक सिद्धान्त है । इसमें ईश्वरीय वैभव के प्रकाशन में अपनी अयोग्यता जान मनुष्य इन्द्रिय और मन को वशीभूत कर ध्यान में उम दिव्य प्रकाश की भाँकी लेता है । यह वह भक्तिमान अनुभव है जिसमें

१ "Tasawwuf" said Junayd, "is this that God should make thee die from thyself and should make thee live in him" - (*A Literary History of the Arabs*, P. 92)

२ "To be a Sufi," he said, "means to abide continuously in God and to live at peace with men" - (*Al-Ghazzali the Mystic*, P. 104)

३ Abu Bakr Shibli has said : "Tasawwuf is renunciation, i.e., guarding oneself against seeing 'other than God' in both the worlds." - (*Islamic Sufism*, P. 20)

४ "Sufism is an Essence without form" says an ancient Sufi of the XIth century, Al-Hujwiri, in his great work, the *Kashf Al-Mahjub*. - (*The Sufi Quarterly* P. 112)

५ "Sufism is patience under God's commanding and forbidding and acquiescence and resignation in the events determined by divine providence." - (*Studies in Islamic Mysticism*, P. 49)

६ वेऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।

तेऽपि मामेव कीर्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ गीता, अ० ६, श्लोक २३ ।

ईश्वरीय भावरूपता अपनी चरम सीमा पर होती^१ है। कहना होगा कि यह एक ऊर्ध्वमुखी अन्त प्रवृत्ति है। इसका सम्बन्ध न दर्शनशास्त्र से है और न तत्त्वज्ञान से। न यह कोई विशिष्ट जातीय भावना ही कही जा सकती है और न चमत्कार। यह तो वह ईश्वरोन्मुख आत्म-गमन है जिसमें देवी प्रेम का पूर्ण परिपाक होना है। रोमन कैथोलिक लेखको^२ ने इसे शारीरिक विधान का अतिमानुषी नियमन कहा है। सूफी भी उसे ही एक सूफी कहते हैं जो अनन्त में अग्रसर होता जाता है, जिसे अपने पथ-प्रदर्शक द्वारा लक्ष्य ज्ञात हो गया है, जो त्रिरही होता हुआ भी आनन्द-मग्न है और जो संसार से मुख मोड़ सृष्टि-स्रोत की ओर मुड़ गया है।

अन्य रहस्यवाद की भाँति सूफीमत भी केवल आदर्शवाद से कोई सम्बन्ध नहीं रखता। आदर्शवाद सम्पूर्ण भेदो को मानता है जब कि रहस्यवाद उन्हें मिटा^३ देता है। आदर्शवाद के साथ-साथ बौद्धिकवाद भी इसके क्षेत्र से बाहर है। क्योंकि बौद्धिकवादियों के लिए ईश्वर केवल ज्ञानरूप होता है जब कि रहस्यवादियों के लिए प्रेमरूप। आदर्शवाद तथा बौद्धिकवाद दोनों में ममत्व की प्रधानता होती है जब कि एक सूफी अपने को अपने प्रियतम में खो देता है। इस सूफीमत को हम धर्म की चरम सीमा कह सकते हैं, क्योंकि धर्म^४ एक मानसिक झुकाव है जो इन्द्रिय बोध तथा तर्क-बुद्धि से स्वतन्त्र हो विविध नाम एवं रूपों में मनुष्य को ईश्वर का परिचय कराने में योग्य बनाता है। धर्म भी तभी जीवित रहता है जब वह ईश्वर में केन्द्रित हो और जब यह आत्म-केन्द्रित होता है तभी नाश को प्राप्त होता है। फ्रीड्रिकवान^५ हुगल ने रहस्य-मय प्रवृत्ति को धर्म के तीन तत्वों में से एक तत्व माना भी है। इस प्रकार सूफीमत केवल आदर्शवाद से परे तथा बौद्धिक स्तर को आधार न बनाता हुआ एक धर्म है जिसमें रहस्य के प्रकटन का प्रधान्य होता हुआ भी चमत्कार को कोई स्थान नहीं है। चमत्कार तो इन्द्रजाल या मन्त्रयोग का ही अभिधान है। इन्द्रजाल में आदान की भावना होती है जब कि रहस्यवाद^६ में प्रदान की। रहस्यवाद में सकल्प इन्द्रिय

^१ Mysticism has been described as a "religious experience in which the feeling of God is at its maximum of intensity" — (*E. Cavd., the Evolution of Theology in the Greek Philosophers) Studies in early Mysticism in the near and Middle-East, P. 2.*

^२ In Roman Catholic writers, "mystical phenomena" means "super-natural suspensions of physical law" — (*Christian Mysticism, P. 5*)

^३ *The Theory of Mind as Pure Act, P. 266-67.*

^४ *Lectures on the Origin and Growth of Religion, P. 22*

^५ "There are three elements in religion (three means of religious apprehension), the first, institutional and authoritative, the second, intellectual and ethical, the third, mystical and experimental" — (*Mysticism Old and New, P. 17*)

^६ The fundamental difference between the two is this. Magic wants to get, mysticism wants to give .. 2.—(*Mysticism, P. 70*)

जगत के ऊपर चढ़ने के लिए उत्कृष्ट भावों से मिला होता है जिससे आत्मत्व प्रेम द्वारा प्रेम के उस नित्य तथा अन्तिम विषयभूत पदार्थ से मिल जाये जिसकी सत्ता हृदय में अन्तर्दृष्टि द्वारा जानी जाती है । जादू में भी संकल्प का उद्भाव होता है परन्तु इसमें संकल्प इन्द्रियागम्य ज्ञान के लिए उत्कट अभिलाषा में बुद्धि से मिला होता है । चाहना दोनों में होती है परन्तु एक में हृदय की भूख है तो दूसरे में बुद्धि का विलास ।

इस मीमांसा से यह स्पष्ट है कि मानव-मन निसर्गतः एक-सा है जो सदा आत्मा के मूल की खोज में प्रकट या अप्रकट रूप से विकल रहता है । मुस्लिम साधकों के हृदय में भी वही भावना देश-काल के साधन पाकर उद्बुद्ध हुई और अन्त में सूफी-मत के रूप में संसार के समक्ष आविर्भूत हुई । यद्यपि कुरान में रहस्यवाद के बीज विद्यमान थे तथापि इस्लाम के अनुसार कुरान को दैवी ग्रन्थ मानते हुए भी व्यावहारिक दृष्टि से हम उसे देश-काल के प्रभाव से अछूता नहीं मान सकते । अतः सूफीमत के आविर्भाव में कारणों की खोजने से पहले इस्लाम से पूर्व तथा पश्चात् के वातावरण का पर्यालोचन करना परम आवश्यक है ।

इस्लाम से पूर्व अरब के लोग पूर्ण भाग्यवादी थे । इस विचार ने उनमें मृत्यु के प्रति घृणा तथा मनुष्य-जीवन के लिए पूर्ण अवहेलना उत्पन्न कर दी थी । मूर्ति-पूजा, सघर्ष, भ्रष्टाचार, बहु-विवाह, द्यूतक्रीड़ा तथा सुरा-सेवन आदि अनेक कुप्रथाएँ विद्यमान थी जो यहूदी तथा ईसाई प्रभाव के अतिरिक्त भी अपनी छाप लगाये हुए थीं । ईसा से पाँच शताब्दी पूर्व ही यहूदी लोग अरब में प्रवेश कर गये थे । वहाँ पर निश्चित रूप से जम जाने पर उन्होंने अपना धर्म प्रचारित किया । ईसा से पूर्व तीसरी शताब्दी में अरब के दक्षिण प्रान्त यीमैन के बादशाह धून-वास^१ ने इस धर्म की दीक्षा ली और पुनः धीरे-धीरे यह सम्पूर्ण अरब में अधिकांशतः एक मान्य विश्वास हो गया । डा० लक्ष्मीधर^२ शास्त्री ने भाषा-विज्ञान के आधार पर यह सिद्ध किया है कि इस्लाम से पूर्व दक्षिणी अरब और यीमैन की सभ्यता का उद्गम भारतीय था । उदाहरणतः यहूदी शब्द यूरुसलेम या जेरूसलेम उसी शब्द वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं जिससे तामिल शब्द शैलम या चेरम । इसी प्रकार “रव”, “धम्माल”, “कनीडिया” आदि शब्दों से

^१ “About the third century B.C., the King of Yemen, Dhu-Nawas by name, embraced Judaism.”—(*Muhammad the Prophet*, P. 24)

^२ “Indeed the pre-Islamic culture of South Arabia and Yemen was imported from South India, directly, or through the ancient Sumerian culture of Mesopotamia that was of Indian origin; and through the Harranian culture of the Medians who were Aryans.”—(*Sah Barakatulla's Contribution to Hindi Literature, Introduction*, P. 3)

समानता दिखाते हुए उन्होंने यह सिद्ध किया^१ है कि भारतवर्ष ही मेसोपोटामिया और अरब की सभ्यता का स्रोत था । भारत की चेरा जाति का नेता अब्राहम भारतीय सभ्यता को अरब में ले गया था । “इस्लाम” शब्द की व्युत्पत्ति से भी यही ज्ञात होता है कि यह इस्लेम से मिलता-जुलता है जिसका अर्थ उत्तम धर्म है और जो अब्राहम की परम्परा से सम्बन्ध रखता था । उत्तरी अरब के लोगों का विकास आदम से ही माना गया है^२ जो अब्राहम (इब्राहीम) के पुत्र इस्माईल का वंशज था ।

इसके अतिरिक्त बौद्ध प्रचारक भी ईसवी सन् से पूर्व ही मिश्र, ऐलेग्जेंड्रिया आदि स्थानों पर पहुँच चुके थे जिनका यहूदियों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा था । रमन^३ के अनुसार फिलस्तीन में भी ईसा से पूर्व ही बौद्ध प्रचार प्रारम्भ हो गया था । ईसा से दो सौ पचास वर्ष पूर्व अर्थात् अशोक के समय से ही यूनान तक बौद्ध यतियों की पहुँच हो चुकी थी । अशोक के एक शिलालेख से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उसने यहूदी तथा यूनानी राजा एंटीओकस से सन्धि^४ की थी । प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जैन-प्रभाव भी पड़ा था, क्योंकि ईसाई सन्तो एव सूफियों में ऊनी परिधान अर्थात् सादा वस्त्र की प्रथा हमें जैन एवं बौद्ध मत के अपरिग्रह सिद्धान्त के प्रभाव का ही परिणाम जान पड़ता है जो वहाँ ईसाइयों से पूर्व ही विद्यमान था । इससे हम इस परिणाम पर आते हैं कि बौद्ध धर्म ने यहूदी जीवन पर छाप अंकित कर आगे भक्ति-प्रधान ईसाई धर्म के सन्यस्त जीवन का द्वार खोला होगा ।

अरब तथा उसके समीपवर्ती देशों में इस प्रकार ईसा के पूर्वकाल से ही अरबी, यहूदी तथा भारतीय विद्वांसों का सम्मिश्रण हो गया था । ईसा की तीसरी शताब्दी में ईसाई प्रचारकों ने अरब में पग रखे और नजरान^५ में आकर बसे । ईसाई साधु इतस्ततः भ्रमण करते तथा हनीफ लोगों को मूर्ति-पूजा के त्याग और एकेश्वरवाद की शिक्षा देते थे । साथ ही सन्यस्त जीवन को अपना देने के लिए उत्साहित करते थे और सादा वस्त्र एवं अनेक प्रकार के भोजनों से निवृत्ति की शिक्षा भी देते थे ।

मुहम्मद साहब के जन्म के समय तक अरब में ईसाई धर्म यहूदी प्रभाव को समाप्त कर चुका था परन्तु अभी सस्कार विद्यमान थे । स्वयं पैगम्बर साहब पर ईसाइयों का प्रभाव पड़ा था । अरब में अनेक जातियों ने अधिक या न्यून अंश में ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था । मुहम्मद साहब का अनेक ईसाइयों से परिचय

¹ *Sah Barakatulla's Contribution to Hindi Literature, P. 315-318.*

² *A Literary History of the Arabs, P. 18*

³ “Reman also traces of this Buddhist propagandism in Palestine before the Christ era.” (*Buddhism in Christendom, P 75*)

⁴ *Gita Rahasya (Hindi Ed., P. 592).*

⁵ *Muhammad the Prophet, P. 35.*

था। अबीसीनिया से आये हुए कुछ दास तो उन्हीं के यहाँ भृत्य^१ थे। कुरान^२ में भी यहूदियों की निन्दा और ईसाइयों की प्रशंसा मिलती है।

अनेक बातों में विभिन्नता पाते हुए भी हम इस प्रभाव का प्रत्यक्ष दर्शन कुरान में पाते हैं। आदम का निषिद्ध फल के भक्षण से स्वर्ग से निष्कासन, शैतान का आदम की पूजा न करने के अपराध में स्वर्ग से पतन, नूह, अब्राहम आदि पैगम्बरों का प्रेरण, पवित्र पुस्तकें, रक्षक देव तथा निर्णय का दिन ये सब बातें बतलाती हैं कि इस्लाम ईसाईमत के कितना समीप है और उनमें कितनी समानताएँ हैं। प्रार्थना के सम्बन्ध में इस्लाम में जो नियम तथा आदेश हैं उनका मूल स्रोत भी ईसाई^३ ही है। हाँ, एक बड़ा भेद हम पाते हैं कि मुहम्मद साहब सन्यस्त जीवन के लिए भी अविवाहित रहना उपयुक्त नहीं समझते, तथापि यह निश्चितप्राय है कि यतिचर्या ईसाइयों से ही अधिकांशतः आई थी जो हमारे विचार में मूलतः बौद्ध और जैन मत की देन थी। नेस्टोरियन ईसाई तो विवाह को बड़ा महत्व देते थे और सन्तानोत्पत्ति आवश्यक समझते थे। ईसाइयों^४ की भाँति इस्लाम^५ ने भी एकेस्वरवाद को माना। परन्तु इस एकेस्वरवाद के प्रकाश में जहाँ ईसाईमत आध्यात्मिकता से भौतिकता का निरूपण करता था वहाँ इस्लाम भौतिक रूप में अध्यात्म का निरूपण करता था। ईसाइयों का अवतारवाद मुसलमान और ईसाइयों में संघर्ष का कारण हुआ।

यह पहले कहा जा चुका है कि इस्लाम से पूर्व अरब में बहु विवाह प्रचलित था। वह प्रथा मुसलमानों में भी आई। ईसाईमत इस विषय में प्रभाव न डाल सका। अनेक मुहब्ब मण्डलियाँ भी थी तथा देव-दासियों का भी प्रचार था, जिनके द्वारा रति को प्रदीप्त मिल रही थी। साधकों ने इस रति-भाव को देव-परक कर दिया जिसमें कुरान में वर्णित, ईश्वर सबका है, विश्व के सारे धर्म उसी एक की आराधना करते हैं, भिन्न-भिन्न रूपों में वही किसी महापुरुष^६ द्वारा सद्ज्ञान प्रचारित करता है अतः

^१ *The Life of Mohomet, P. 105-6*

^२ "Thou wilt find the most vehement of mankind in hostility to those who believe (to be) the Jews and the idolaters And thou wilt find the nearest of them in affection to those who believe (to be) those who say, 'Lo! We are Christians' That is because there are among them priests and monks, and because they are not proud."—(*The Glorious Quran, S. 5, 82*)

^३ "Muhammad's regulations and injunctions with regard to prayer also suggest a Christian origin".—(*Studies in the Early Mysticism in the Near and Middle East, P. 138*)

^४ "For there is one God" —(*The Holy Bible, I Timothy, Chapter, 2, 5*)

^५ "Allah is the creator of all things, and He is the One, the Almighty." —(*The Glorious Quran, S. 13, 16*)

^६ "And for every nation there is messenger."—(*The Glorious Quran, S. 10, 48*)

दृश्य भिन्नरूपता नगण्य है, इन शिक्षाओं ने उदाराग्यों के हृदय में विश्व-बन्धुत्व उत्पन्न कर बड़ा योग दिया। आगे चलकर यही रतिभाव सूफीमत का आधार बना। सूफी साधको ने इसी सासारिक प्रेम को दैवी प्रेम की सीढ़ी माना।

मुहम्मद साहब के जीवन का अध्ययन हमें बतलाता है कि वे ससार से विरक्त भी थे। ससार का अन्तर्द्वन्द्व उन्हें कभी-कभी विकल कर देता था और वे एकान्त चिन्तन में लीन रहते थे। चालीस वर्ष की अवस्था से कुछ पूर्व वे हेरा की गुफा में चले जाते थे और कई दिनों पर्यन्त ईश्वरीय ध्यान में निमग्न रहते^१ थे सन ६०६ ई० रमजान के दिनों में एक रात उसी गुफा में उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा प्राप्त हुई। उनमें दैवी गिरा अवतरित हुई। कुरान उसी का परिणाम है। उन्होंने अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित कर दिया। हेरा की गुहा का यही चिन्तन भावी सूफीमत के चिन्तन का प्राथमिक आधार बना। इस प्रकार आदि सूफियों को अन्तिम रसूल के जीवन में सूफीमत के बीज मिले। कुछ सूफियों का कथन^२ है कि सूफीमत का आदम में बीज वपन हुआ, नूह में अकुर जमा, इब्राहीम में कली खिली, मूसा में विकास हुआ, एवं मसीह में परिपाक और मुहम्मद में फलागम हुआ।

मुहम्मद साहब के अतिरिक्त उनके समय में ही मक्का के पैतालीस आदमियों ने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया था और वे ध्यान में लीन रहते^३ थे। वान क्रैमर^४ के मतानुसार इस्लाम में एकान्तवास की प्रथा को इस्लाम से पूर्व ईसाई प्रभाव से ही उन्नेजना मिली थी। मुहम्मद साहब के जीवन-काल में ही लॉग उपर्युक्त विभिन्न विश्वासों तथा संस्कृतियों के मम्मिश्रण में, प्रधानतः ईसाई प्रभाव से पवित्र जीवन बिताने के महत्त्व को समझने लगे थे। ईश्वरीय प्रेरणा की प्राप्ति के पश्चात् उन्होंने जिस धर्म का झण्डा अपने हाथों में लिया, वह गीघ्र ही इस्लाम के नाम से अरब तथा अन्यान्य पार्व्वर्ती देशों में प्रसरित हो गया। इन कार्य-सिद्धि के लिए उन्होंने साम और दण्ड दोनों नीतियों का आश्रय ले विधर्मियों को परास्त कर इस्लाम के मार्ग को निष्कण्टक बना दिया। इस विषय में मुसलमान लेखकों का कथन है कि रसूल ने इस्लाम का प्रचार और प्रसार तलवार के बल पर नहीं किया वरन् उन्होंने भ्रष्टाचार और कुप्रथाओं का उन्मूलन करने के लिए ईश्वरीय इच्छा और कार्य को ही सम्पादित किया।

^१ *Muhammad the Prophet, P. 53.*

^२ तसव्वुफ अथवा सूफीमत, पृष्ठ ४।

^३ *Islamic Sufism, P. 15-16.*

^४ "Can we trace the origin of these early recluses? Von Kremer (Hench, P. 67) considers this type as a native Arab growth developed from pre-Islamic Christian influence."—(*Arabic Thought and its Place in History, P. 185*)

हमें यहाँ पर यह विवाद नहीं करना है कि मुहम्मद साहब ने इस्लाम को तलवार के बल पर फैलाया या नहीं, हमें तो यह देखना है कि इस्लाम की मूल भावना क्या थी। यह तो बहुदेवतावाद, अवतारवाद एवं तात्कालिक कुरीतियों के विरुद्ध एक उद्गत मोर्चा था जिसके समक्ष यहूदी, ईसाई तथा अन्य मतावलम्बी न ठहर सके। मुहम्मद साहब ने मूर्तिपूजा का घोर विरोध किया और एक परमात्मा की आराधना का उपदेश^१ दिया। उन्होंने ईश्वर में विश्वास, प्रार्थना, जकात (दान), उपवास तथा भक्ता की यात्रा को इस्लामी जीवन का अंग बना दिया। ये इस्लाम के पाँच स्तम्भ कहलाये। मुहम्मद साहब की शिक्षाओं में हनीफ लोगों का पूरा हाथ दृष्टि-गोचर होता है, जिन्होंने^२ ईसाइयों से इन शिक्षाओं को ग्रहण कर मुहम्मद साहब पर अत्यधिक प्रभाव डाला था। उन्होंने बतलाया कि प्रार्थना द्वारा आराधना की स्थापना करो^३, ईश्वरीय मार्ग में जो कुछ तुम व्यय करोगे उसका पूर्ण प्रतिफल तुम्हें मिलेगा^४, उपवास बुराई से आत्मरक्षा^५ करता है। कुरान के आविर्भाव काल रमजान में इस उपवास का विशेष महत्त्व बतलाया।

इस्लाम के इन पाँच स्तम्भों को यद्यपि सूफियों ने पूर्णरूपेण ग्रहण न किया तथापि उन्होंने अपने को मुसलमान कहा और कुरान को अशतः ईश्वरीय प्रेरणा मानकर उपवास आदि पर विश्वास किया। उन्होंने मुहम्मद साहब के इन आदेशों में से ईश्वरीय विश्वास, दान और उपवास को अपनाया, यद्यपि इनमें भी आगे अनेक परिवर्तन हुए। हज के स्थान पर उन्होंने मानस यात्रा को उचित समझा और प्रार्थना का महत्त्व मानते हुए भी ध्यान को अधिक श्रेष्ठ माना।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सूफीमत अथवा तसन्नूफ के आविर्भाव में पैगम्बर साहब की शिक्षाओं एवं उनके निजी व्यक्तित्व ने पर्याप्त सहयोग दिया। कुरान में ईश्वर के ऐक्य (तौहीद) पर बड़ा बल दिया गया है। मुहम्मद साहब द्वारा इस सिद्धान्त

^१ "Those who believe do battle for the cause of Allah, and those who disbelieve do battle for the cause of idols."—(*The Glorious Quran* S. 4, 76)

^२ *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol. II, P. 100.

^३ "Recite that which hath been inspired in thee of the Scripture, and establish worship."—(*The Glorious Quran*, S. 29, 45)

^४ "Whatsoever Ye spend in the way of Allah, it will be repaid to you full, and ye will not be wronged."—(*The Glorious Quran*, S. 8, 60)

^५ "O ye who believe! Fasting is prescribed for you, even as it was prescribed for those before you, that ye may ward off evil;..."—(*The Glorious Quran*, S. 2, 18)

का प्रतिपादन कोई नवीन वस्तु नहीं था वरन् वैदिक^१ तथा ईसाई^२ एकेश्वरवाद का ही यह प्रतिरूप था। अस्तु, हमे इससे कोई तात्पर्य नहीं, परन्तु इतना अवश्य मानना पडता है कि ईश्वर का जो स्वरूप कुरान में वर्णित है, उसमें सूफियों के लिए रहस्यवाद के बीज विद्यमान थे। ईश्वर एक^३ है, दयालु है, सर्वव्यापक है, और सर्वज्ञ^४ है। छावापृथ्वी में जो कुछ है, उसी का है और अन्त में सभी पदार्थ उसी को लौट जाते^५ हैं। सांसारिक जीवन केवल भ्रमपूर्ण सुख^६ है। ईश्वर अनन्त सौन्दर्यमय^७ है। अल्लाह उन्हें प्यार करता है जो भले^८ हैं और जो अधम हैं उनके लिए वह कठोर दण्डदायी^९ है। प्रारम्भ में ईश्वरोन्मुख प्रवृत्ति का प्रधान कारण कुरान में वर्णित ईश्वरीय भय ही हुआ। साथ ही ईश्वरीय वैभव, उसकी सार्वजनीनता और अनन्त सौन्दर्य भी साधको के लिए परम आकर्षण और प्रेम के निमित्त बने। प्रेम करना नैसर्गिक है फिर भी सूफियों को कुरान में अल्लाह के भय की प्रधानता होते हुए भी प्रेम की अति मात्रा मिली। अल्लाह रसूल अर्थात् आदसं पुरुष को विशेष प्यार करता है इसी-लिए मुहम्मद साहब को (हबीबुल्ला) अल्लाह का प्यारा कहा गया है तथा उन्ही के प्रीत्यर्थ उसने विश्व का निर्माण भी किया है। यही कारण है कि सूफी ईश्वर को भय का कारण न मानकर प्रेम का पात्र मानते हैं। ईश्वर के इस वैभव के समक्ष बाह्याचार आडम्बर से ज्ञात हुए अत. विचार-स्वातन्त्र्य का आना स्वाभाविक था। परन्तु यह विचार-स्वातन्त्र्य दण्डभय से प्रथम शनैः शनैः प्रसरित हुआ।

कुछ लेखकों का विश्वास है कि सूफीमत का मूल स्रोत कुरान ही है, जिसका रहस्यपूर्ण अर्थ केवल सूफियों के हृदय में ही प्रकाशित हुआ था। मुस्लिम परम्परा ने इसमें महत्त्वशाली भाग लिया। यही कारण है कि निकल्सन^{१०} आदि विद्वानों ने बाह्य

१ 'पुरुष एवेदं सर्वम्' ऋग्वेद १०, ७, ६०, २।

१ "For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus."—(*The Holy Bible, Timothy, Ch. 2, 5*)

३ "Your God is one God; there is no God save Him, the Beneficent the merciful."—(*The Glorious Quran, S. 2, 163*)

४ "Allah is All-embracing, All-knowing."—(*The Glorious Quran, S. 2, 261*)

५ "Unto Allah belongeth whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth; and unto Allah all things are returned"—(*The Glorious Quran, S. 3, 109*)

६ "The life of this world is but comfort of illusion."—(*The Glorious Quran, S. 3, 185*)

७ "Allah is infinite beauty."—(*The Glorious Quran, S. 57, 4*)

८ "Allah loveth those who are good."—(*The Glorious Quran, S. 3, 148*)

९ "Allah is severe in punishment."—(*The Glorious Quran, S. 3, 11*)

१० "Sufism is atonce the religious philosophy and the popular religion of Islam."—(*Studies in Islamic Mysticism, P. 65*)

प्रभाव मानते हुए भी सूफीमत को इस्लाम का धार्मिक तत्त्वज्ञान बतलाया। डी० वी० मेवडोनल के अनुसार मुस्लिम धार्मिक विचारधारा, परम्परा, बुद्धि और रहस्य-प्रकाशन इन तीन तत्वों से बनी हुई थी। ये तीनों ही मुहम्मद साहब के मस्तिष्क की उपज थीं अतः सूफियों का रहस्यवाद^१ भी निःसन्देह मुस्लिम विचारधारा में गूँथा गया था।

मुहम्मद साहब की मृत्यु सन् ६३२ ई० में मदीना में हुई। यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि मुस्लिम समाज का नेतृत्व किसी के हाथों में सौंपा जाय। इसके लिए अबूबकर को उपयुक्त समझा गया और वे खलीफा बना दिये गये। ये मुहम्मद साहब की स्त्री आशिया के पिता थे। इनके पश्चात् उमर इस पद पर आसीन हुए। इनके समय में मुसलमानों ने दमस्क और जेरूसलम को भी ले लिया। फारस को शीघ्र ही रौंद डाला गया और मिश्र को भी घुटने टेकने पड़े। अरब में उस समय कोई काफिर निवास न कर सकता था। अरब लोग विजय पर विजय पा रहे थे। परन्तु वे सब कृच्छ ईश्वर के नाम पर ही कर सके। उमर की मृत्यु के अनन्तर तृतीय खलीफा उस्मान हुए। ये उम्मैया वंश से सम्बन्ध रखते थे अतः ये अपने को मुसलमान की अपेक्षा उम्मैया अधिक मानते थे। इसी कारण इनका वध कर दिया गया और पैगम्बर साहब के जामाता अली को सिंहासनारूढ किया गया। परन्तु सन् ६६० ई० में अली की भी हत्या कर दी गई और इनके साथ खलीफा शासन समाप्त हो गया जो रसूल के मार्ग का अनुयायी^२ था। अल फ़ख़ी ने कहा है कि खलीफा सयमी थे और आत्म-सयम द्वारा विषय-वासनाओं से अपने को पृथक् रखने का प्रयत्न करते रहते^३ थे।

उपरिलिखित ऐतिहासिक पर्यालोचन से हमारा तात्पर्य केवल चारों खलीफाओं के शासनकाल में मुस्लिम-भावना का ही प्रदर्शन है, जिसने पैगम्बरीय मूल परम्परा का अनुसरण करते हुए भी सघर्षमयी होने के कारण उद्वेलित मानव मन को रहस्योन्मुख कर दिया, जैसा कि प्रायः हुआ करता है। सूफियों में चारों खलीफाओं की प्रतिष्ठा होती हुए भी अली को विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। क्योंकि ये कर्मनिष्ठ एवं सयमी थे और चिन्तन-प्रिय भी थे। ये मुहम्मद साहब के ईश्वर-नियुक्त उत्तराधिकारी समझे गये। यद्यपि विरोधियों ने उन्हें तथा उनके पुत्र हसन और हुसेन को

^१ "It was not long before Sufi came to mean mystic, and the third of the three great threads was definitely woven into the fabric of Muslim thought."—(*Development of Muslim Theology*, P. 130-31)

^२ "But with Ali ends the revered series of the four Khalifs who followed a right course..."—(*Development of Muslim Theology* P. 22)

^३ "The Historian al-Fakhri, describing the abstemious life of the first Khalif says that they endeavoured by this self-restraint to wean themselves from lusts of the flesh."—(*Arabic Thought and its place in History*, P. 183)

मोत के घाट उतार दिया तथापि इस संघर्ष ने जनता को ईश्वर में अनुरक्त कर दिया ।

इस्लाम के सस्थापक के देहावसान के होते ही इस्लाम के नाम पर जो संघर्ष उठ खड़े हुए उन्होंने कुरान के आधार पर अनेक विद्वांसों को जन्म दिया । मुर्जी लोग विश्वास को कर्म से अधिक महत्त्व देते तथा ईश्वरीय प्रेम और भलाई पर बल देते थे । कादरी भी इसी विश्वास के पक्षपाती थे । जद्वियो के मतानुसार मनुष्य अपने कृत्यों के लिए उत्तरदायी नहीं कहे जा सकते । मुतजिलियों ने ईश्वरीय गुणों की उसके ऐक्य से असंगति होने तथा प्रारब्धवादिता का उसके न्याय से विरोध के कारण तर्क-शक्ति के आधार पर अध्यात्म विद्या का निर्माण किया । अशरी लोग इस्लाम के विद्याभिमानी अध्यात्मवादी थे । इन्होंने बड़े कठोर आध्यात्मिक सिद्धान्तों की परम्परा का विधान किया । आगे चलकर इन सभी विचारधाराओं ने यूनानी अध्यात्म-विद्या एवं तत्त्वज्ञान से प्रभावित होकर सूफीमत पर पूर्णतः प्रतिक्रिया^१ की ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि यहूदियों की मूर्तिपूजा, ईसाइयों की अवतारवादिता तथा मूल जनता की कुरीति-परता के विरुद्ध मुहम्मद साहब द्वारा जो प्रतिक्रिया हुई वही मुसलमानों में परस्पर इस्लाम के नाम पर कुरान को आधार मान विविध विश्वासों के रूप में प्रगटित हुई । इन विश्वासों के विवेचन में हम देखते हैं कि जहाँ ईश्वर की कुरान के आधार पर प्रतिष्ठा हुई वहाँ मुतजिली आदि स्वतन्त्र विचार के भी पुरुष थे । वह बढ़ती हुई स्वतन्त्र विचारधारा ही सूफीमत के बीज में अंकुर का कारण हुई । परन्तु सूफीमत मुतजिलियों के स्वतन्त्र चिन्तन की भाँति एक चिन्तन-परम्परा नहीं थी, वरन् जीवन का एक क्रियात्मक धर्म और नियम^२ था ।

सूफीमत का स्वतन्त्र विचारधारा तथा चिन्तन में सम्बन्ध होने के अतिरिक्त भी अधिकांशतः सूफी अपनी वंश-परम्परा का उद्गम अली और उनके द्वारा मुहम्मद साहब से खोजते हैं । कतिपय अबूबकर को भी अपना पूर्वज मानते हैं । फरीदुद्दीन अत्तार^३ ने छठवे इमाम जफर अस सादिक को प्रथम रहस्यवादी सन्त माना है ।

सूफीमत के प्रारम्भिक काल में आचार-नीति प्रायः ईसाइयों में अपनाई गई थी । साधु ऊनी वस्त्र धारण करते थे । मुहम्मद साहब भी धर्मनिष्ठ व्यक्तियों के

^१ "All three speculations, influenced as they were by Greek theology and philosophy, reacted powerfully upon Sufism."—(*The Mystics of Islam, Intro*, P. 5-6)

^२ "It was not a speculative system, like the Mutazilites Heresy, but a practical religion and rule of life."—(*A Literary History of the Arabs, P. 230.*)

^३ "In the Taskrat-ul-Awlia of Faid-ud-din' Attar the first place in the list of mystic saints is given to Jafar-as-Sadik, the sixth apostolical Imam."—(*The Spirit of Islam, P. 460*)

लिए इन्ही वस्त्रों को श्रेष्ठ समझते थे ऐसा अनेक हदीसों से पता चलता^१ है। सूफी-मत का पूर्व-रूप चिन्तन-प्रधान की अपेक्षा सयम-प्रमुख एवं भक्ति-प्रधान था। ईश्वर को कुरान में पापियों के प्रति कठोर^२ बताया गया था। तत्कालीन मुसलमानों के हृदय में ईश्वरीय भय घर कर चुका था किन्तु इसके विपरीत 'वह न्यायी है, और सदाचारियों को प्रेम करता^३ है' इस भावना ने उन्हें दैवी प्रेम के लिए भी उत्साहित किया था। कुरान में विहित ईश्वरीय चिन्तन एवं विश्वास से ही 'धिक्र (स्मृति और जाप) और तवक्कुल (ईश्वरीय विश्वास) के सिद्धान्त का विकास^४ हुआ था। अतः तसव्वुफ में दो प्रमुख कर्त्तव्य समक्ष आये, एक मुस्लिम विधान के अनुसार आचरण और दूसरा ध्यान एव अनुभव^५। इन्हें हम शरीअत और तरीकत कह सकते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ईसा की सातवीं शताब्दी में सूफीमत उस समय अंकुरित हो रहा था जब मुस्लिम जगत् में ईसाई प्रभाव से सन्यस्त जीवन के लिए एक महान् क्रान्ति हो रही थी। बसरा^६ उस समय विधि-विधानों तथा कृपथाओं के विरुद्ध व्यक्तियों का केन्द्र था। ये लोग यति जीवन का उच्च आदर्श चाहते थे, जिसमें वहिः प्रवृत्ति की प्रधानता थी अर्थात् अशन-वसन की अपेक्षा विनम्रता पर विशेष ध्यान था। परन्तु सीरिया के सन्त अभी वाह्याचार को ही महत्त्व देते थे।

वर्तमान अद्वैतवाद एव प्राचीन धर्मान्धता में महान् अन्तर देख पूर्वकाल के कुछ विद्वानों ने लिखा^७ है कि सूफीमत का आविर्भाव वाह्य प्रभाव का प्रतिफल था। मानीमत, न्योप्लेटोनिज्म (नव अफलातूनीमत), जोरोस्ट्रियनिज्म, (जरनुस्तमत), बुद्धमत एवं भारतीय वेदान्त ने मिलकर एक नूतन विश्वास की नींव डाली, जो सूफीमत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अनेक प्रतिष्ठित मुस्लिम लेखकों ने इसका घोर विरोध किया है। उनके अनुसार सूफीमत इस्लाम की अपनी देन है। इस्लाम में धर्म के गुह्य रूप से ही इसकी अभिव्यक्ति हुई है। इसके प्रमाणभूत उनका कहना है कि मुस्लिम समाज में नव अफलातूनी मत का अध्ययन हिजरी सन् की तीसरी शताब्दी में अर्थात् मामून के

^१ "numerous Hadiths (handed down and probably invented by Djawhiyori) even make it Muhammads' favourite dress for a religious man."—(*The Encyclopædia of Islam*, P. 682)

^२ "Allah is severe in punishment."—(*The Glorious Quran*, S. 3, 11)

^३ "Allah loveth those who are good."—(*The Glorious Quran*, S. 3, 148)

^४ "From the injunctions which they found in the Koran to think on God and trust in God they developed the practice of dhikr and the doctrine of tawakkul."—(*The Idea of Personality in Sufism*, P. 8)

^५ *Islamic Sufism*, P. 20.

^६ *Encyclopædia of Religion and Ethics*, Vol. XII, P. 11.

^७ *The Encyclopædia of Islam*, P. 684.

शासनकाल में प्रारम्भ हुआ^१ था। वह भी उसके तथा उसके उत्तराधिकारी मंसूर के राजत्वकाल में केवल कुछ यूनानी ग्रन्थों का अनुवाद मात्र हुआ था। यह अनुवाद-क्रम ६५० तक^२ चला। इससे स्पष्ट है कि सूफी सन्तो पर यूनानी प्रभाव किञ्चिन्मात्र भी न था। इसी प्रकार भारतीय तत्त्वज्ञान का प्रभाव भी नौवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में पड़ा।

मुस्लिम तथा अमुस्लिम विद्वानों की सम्मतियों का अध्ययन हमें इस निष्कर्ष पर लाता है कि सूफीमत का बीजारोपण मुस्लिम मानस में हुआ, जो बाह्य प्रभाव के कारण विधि-विधान एवं बाह्याचारों के विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप में मुहम्मद साहब के व्यक्तित्व की छाप, कुरान की शिक्षा एवं मुस्लिम परम्परा का ही परिणाम था क्योंकि यह तो वह रहस्यमयी प्रवृत्ति है जो किसी विशेष धर्म, जाति, देश तथा काल की अपेक्षा नहीं करती। कुरान हमें बतलाता है कि ईश्वर का वैभव अतुलनीय है। वह अद्वितीय शक्ति एक दिव्य सिंहासन पर बैठती है, जिसके समक्ष देवता सदैव भृत्य की भांति खड़े रहते हैं। उसका एक शब्द सृष्टि की आदि और अन्त का कारण हो सकता है। प्रकृति के नाना रम्य रूपों में उसी का प्रदर्शन है। वह पापियों के लिए कठोरतम है परन्तु हमारे अति निकट है। जो उस पर विश्वास करते हैं तथा सन्मार्ग पर चलते हैं वे आनन्द का उपभोग करते^३ हैं। देशकालातीत उस ईश्वरीय वैभव ने मनुष्य को विस्मित कर दिया जो विधि-विधानों से प्राप्य नहीं है। उस पर विश्वास एवं सत्कृत्यों से आनन्द की भावना ने उन्हे उत्साहित किया। मुहम्मद साहब के घोरतम मूर्ति विरोध ने ईश्वर को निर्गुण और ध्यान का विषय बना दिया। 'ईश्वर परम लावण्यरूप^४ है' इस विचार ने साक्षात्कार की भावना जागृत की और अल्लाह के आदर्श पुरुष के प्रति प्रेम तथा सांसारिक रति ने दैवी रति भाव को उत्तेजना दे ईश्वर को प्रियतम का रूप दे दिया। इस प्रकार पैगम्बर साहब तथा उनके कतिपय अनुयायियों द्वारा समाहत यति जीवन शीघ्र ही रहस्योन्मुख हो गया। हाँ, इस मान्यता का पोषण करते हुए भी इतना कहना पड़ता है कि तत्कालीन अपिच तदनन्तर अधीन या समाहत विश्वासों ने इस पर बड़ा प्रभाव डाला और बढ़ती हुई इस रहस्योन्मुख भावना में अनेक नूतन सिद्धान्तों का स्रजन कर सूफीमत को पूर्णतः वास्तविक रूप देने में निमित्तता प्राप्त की। निकल्सन ने भी सूफीमत की मूल रूप-रेखा को मुस्लिम तथा अरबी मानते हुए भी इसमें बाह्य

^१ "The Muslims started to study Neoplatonic philosophy in the third century of Islam's birth during the reign of Mamun."—(*Islamic Sufism*, P. 17-18)

^२ *Islamic Sufism*, P. 18.

^३ "Those who believe and do right:—Joy is for them, and bliss (their) journey's end."—(*The Glorious Quran*, S. 8, 29)

^४ "Allah is of infinite beauty."—(*The Glorious Quran*, S. 57, 4)

योग को माना है^१। बाउन^२ ने सूफीमत की निष्पत्ति में चार सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, इस्लाम की गुह्य विद्या, आर्यों की पतिक्रिया, नव अफलातूनी मत, और विचार-स्वातन्त्र्य।

यह बनलाया जा चुका है कि कुरान में रहस्यवाद के बीज विद्यमान थे। ध्यान में पैगम्बर साहब को दैवी वाणी की प्रेरणा भी गुह्य विद्या की ही द्योतक है। परन्तु इस सिद्धान्त को पूर्णतः माना नहीं जा सकता क्योंकि सूफीमत में अद्वैत एव फना के सिद्धान्त गृह्यतः भारतीय परम्परा के ही हैं जिसे हम अग्रिम पर्व में व्याख्यात करेंगे। परन्तु इन सिद्धान्तों के बल पर हम सूफीमत का मूलस्रोत भारतीय भी नहीं मान सकते क्योंकि यद्यपि छठवीं शताब्दी नौगेरखां के शासनकाल में भारत तथा फारस के मध्य विचार-विनिमय हुआ था तथा बहुत पहले भारतीय धार्मिक विचार खुरासान तथा पूर्वी फारस में पहुँच चुके थे तथापि सन् १००० से पूर्व मुस्लिम विचारधारा पर हम कोई स्थायी भारतीय साहित्यिक प्रभाव नहीं देखते^३। हाँ, उस समय तक यूनानी प्रभाव अवश्य कुछ घर कर चुका था। इममें पूर्व भारतीय विश्वदेवतावाद सूफियों में प्रवेश पा चुका था परन्तु वह भी पूर्णतः नौवीं शताब्दी के उत्तरार्ध एव दशवीं शताब्दी के पूर्वार्ध^४ में ही। कुरान में तौहीद का सिद्धान्त विद्यमान था, जिससे तात्पर्य था कि ईश्वर एक है। सूफियों के अद्वैतवाद के आधार पर इसे 'वहदतुल वजूद' व्याख्यात किया। अर्थात् जब ईश्वर एक है तब उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसके मानने वालों में प्रमुख फारसी कवि विस्ताम के वायजीद और बगदाद के जुनेद का नाम उल्लेखनीय है। फारसी स्रोत भी हमें मान्य नहीं क्योंकि पूर्व-विवरण से हम यह जान चुके हैं कि सूफीमत के आविर्भाव में मुहम्मद साहब तथा उनकी शिक्षाओं का कितना हाथ था। नव अफलातूनी मत (न्यो प्लेटोनिज्म) को भी हम उद्गम नहीं मान सकते। हम पहले कह आये हैं कि मुसलमानों ने नव अफलातूनी मत का अध्ययन हिजरी सन् की तीसरी शताब्दी अर्थात् मासून के शासनकाल में आरम्भ किया था^५। चौथा सिद्धान्त विचार-स्वातन्त्र्य है। स्वतन्त्र विचारों से ही सूफीमत उद्भूत हुआ यह पूर्णतः

^१ "But if the initial frame work of Sufism was specifically Muslim and Arab, it is not exactly useless to identify the foreign decorative elements which came to be added to this frame work and flourished there."—(*The Encyclopaedia of Islam*, P. 684)

^२ *A Literary History of Persia*, P. 418-421.

^३ "Again, the literary influence of India upon Mohammadan thought before 1000 A. D. was greatly inferior to that of Greece,"—(*A Literary History of the Arabs*, P. 390)

^४ "It is with Sufis like Abu Yazid (Bayazid) of Bistam, Persian, and Junayd of Baghdad (also, according to Jami, a Persian), that, in the later part of the ninth and the beginning of the tenth centuries of our era, the pantheistic element first makes its infinite appearance."—(*A Literary History of Persia*, P. 426-27)

^५ *Islamic Sufism*, P. 17-18

मान्य नहा है। यद्यपि सूफीमत में शरीअत की मर्यादा का उल्लंघन कर स्वतन्त्र विचार ने प्रमुख कार्य किया जिसके लिए हल्लाज आदि को सूफी का मुख चूमना पडा तथापि अनेक वाते अनेक सूफियो द्वारा शरीअत के अनुसार ही ग्रहण की गई।

इस सम्पूर्ण प्रतिवाद से हमारा तात्पर्य केवल इतना ही है कि सूफीमत के आविर्भाव से हम किसी एक भावना को कारण नहीं मान सकते। सुटरी^१ के कथनानुसार हम मुस्लिम तत्त्वज्ञान को पूर्वी और पश्चिमी विचारो का सम्मिश्रण मानते है, जिसमें मुस्लिम सिद्धान्तों का प्राधान्य है। सूफीमत भी इस्लाम का एक धार्मिक तत्त्वज्ञान हो है।

सूफीमत की बढ़ती हुई इस भावना पर हम प्रधानतः पाँचों मतों का प्रभाव मानते है, ईसाईमत, नव अफलातूनीमत, नास्टिकमत, बुद्धमत और अद्वैतमत। निकल्सन^२ ने अद्वैतवाद को नहीं माना है। इन प्रभावों के अतिरिक्त एक विशेष प्रभाव जो हमारे मत में सूफीमत पर पडा हुआ जान पड़ता है वह है, इस्लाम के पूर्वकाल मे अध्यात्मवाद का प्रचार जो अरब देश में बाहर से आकर वर्ग विशेष मे प्रचलित हुआ था। कुरान मे 'सअबी' का उल्लेख मिलता है, जो एकेश्वरवाद को मानने वाले थे और जीवन मे पवित्रता पर अधिक बल देते थे। ये लोग आर्य वंश के बतलाये जाते है, जो प्राचीन ईरान तथा भारतवर्ष मे मन्द (मीडियन) जाति के नाम से प्रसिद्ध थे। इन लोगो के वंशधर अब तक अपने धर्म को पालन करते हुए अरब के आसपास के प्रदेशों मे पाये जाते है। ईसाई प्रभाव को हमने सूक्ष्मतः दिग्दर्शित कर दिया है। न्यो प्लेटोनिज्म (नव अफलातूनीमत) का व्याख्याता प्लोटीनस २०५ ई० मे उत्पन्न हुआ था। छठवीं शताब्दी मे वह मत स्वतन्त्र सत्ता मे न रहा^३ वरन् शीघ्र ही ईसाई व मुस्लिम रहस्यवाद के रूप मे कुछ परिवर्तित होकर पुनः प्रकट हुआ। नास्टिक मत का प्रवर्तक साइमन था। नास्टिकों की जीर्णवस्था मे मानी ने उसी के ध्वसावशेष पर एक नूतन भवन खडा किया था। अद्वैतमत और बुद्धमत का निर्वाण सिद्धान्त भारतीय मत थे जो अबू याजीद (वायजीद) के समय मे अंशतः फारस मे व्याख्यात^४ हुए थे। इन मतों के किन सिद्धान्तों ने सूफीमत के विकास मे सहयोग दिया इसका विवेचन हम अग्रिम पर्व में करेंगे।

^१ "Muslim philosophy is a blend of Western and Eastern thoughts under the dominating influence of Islamic doctrine."—(*Outlines of Islamic Culture, Vol. II, P. 344*)

^२ "The four principal sources of Sufism are undoubtedly Christianity, Neo-platonism, Gnosticism, and Buddhism."—(*A Literary History of the Arabs, P. 390*)

^३ "In the sixth century Neo-platonism ceased to be an independent philosophy but soon, as already suggested, reappeared modified in the form of Christian and Muslim mysticism."—(*Out-lines of Islamic Culture, Vol. II, P. 334*)

^४ *The Legacy of Islam, P. 215.*

द्वितीय पर्व उद्भास

पिछले पर्व में यह बताया जा चुका है कि सूफीमत के विकास में कई कारण थे। मुहम्मद साहब के समय से पूर्व ही ईसाई अरब तथा आस-पास के प्रदेशों में पर्याप्त मात्रा में अपने धर्म का प्रचार कर चुके थे। उनके साथ स्थान-स्थान पर जाकर एकेध्वरवाद की स्थापना करते तथा मूर्तिपूजा के विरुद्ध उपदेश देते थे। मुहम्मद साहब ने भा एकेध्वरवाद को अपनाया और मूर्तिपूजा का घोर विरोध किया। ऊनी वस्त्र धारण करने की प्रथा ईसाई साधुओं में थी।¹ मुस्लिम सन्तो ने भी इस रीति को अपनाया।² इस्लाम के प्रारम्भिक काल में तो कोई धार्मिक सम्प्रदाय थे और न कोई निश्चित मठ। परन्तु एकान्तवास एवं मौन-साधन का अभ्यास हम स्वयं रसूल के जीवन तथा उनके सहचरों के समय से ही पाते हैं। यह भी सम्भवतः ईसाई प्रथा का अनुकरण था।³ यहाँ हम इतना अवश्य कह देना चाहते हैं कि ये बातें प्रत्यक्षत भले ही ईसाइयों से आई हों परन्तु इनके मूल में बौद्धमत, जैनमत और मन्द जाति का बड़ा हाथ था जो इस्लाम से पूर्व ही ईराक, अरब आदि प्रदेशों में फैल चुके थे।

इस्लाम में प्रार्थना का बड़ा महत्त्व है। दिन में पाँच बार नमाज का विधान है। ईसाई भी तीन बार प्रार्थना करते थे। विदित होता है कि यह प्रार्थना की प्रथा भी ईसाइयों में आई,⁴ जिसका समय तीन बार से पाँच बार कर दिया गया। सूफियों ने इस पंचकालिक नमाज को तो नहीं अपनाया परन्तु इसके महत्त्व पर उनकी दृष्टि अवश्य पड़ी और उन्होंने ध्यान में परमात्मा के साथ मौन सम्भाषण के रूप में अवराम प्रार्थनाओं को अपने जीवन का अंग बना लिया। इस्लाम में ऋजु जीवन के साथ उपवास तो आत्म-शुद्धि का एक साधन समझा गया था। इसीलिए उसे पंच-स्तम्भों में से एक माना गया। कुरान⁵ से ज्ञात होता है कि ईसाइयों में इसका प्रचार था

¹ *The Mystics of Islam, Intro. P. 10*

² "The old Muslim ascetics who clothed themselves in wool borrowed this practice from Christian hermits or monks"—(*Encyclopaedia of Religion and Ethics VOL XII, P 10*)

³ ". but the customs of going into retreat, and observing vows of silence, both customs probably of Christian origin, were practised by these early ascetics"—(*Studies in the early Mysticism in the Near and Middle East, P 157*)

⁴ "Muhammad's regulations and injunctions with regard to prayer also suggest a Christian origin."—(*Studies in the Early Mysticism in the Near and Middle East, P 158*)

⁵ "O ye who believe. Fasting is prescribed for you, even as it was prescribed for those before you, that ye may ward off (Evil)."—(*The Glorious Quran, S. 2, 183*)

और वे विधानानुसार इनका आचरण करते थे । सूफियों ने भी आत्मशुद्धि के लिए उपवास को उपादेय माना ।

इनके अतिरिक्त आदम, शैतान तथा रक्षक देवों के विषय में हम ईसाई एवं मुस्लिम विधानों में कोई अन्तर नहीं देखते । मनुष्य को दोनों ने ही ईश्वर का प्रतिरूप माना है ।^१ कुरान तथा बाइबिल^२ को समान रूप से ईश्वरीय पुस्तक माना गया है । हजरत ईसा एव मुहम्मद साहब^३ को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हुए उन्हें ईश्वर और मनुष्य का मध्यस्थ पद दिया गया है । सूफियों ने भी मुहम्मद साहब को ईश्वरीय दूत, कुरान को दैवी वाणी और मनुष्य को प्रभु का प्रतिरूप माना । सर्वप्रथम सूफियों ने आदम, शैतान एव रक्षक देवों की सत्ता और स्थिति को उसी रूप में ग्रहण किया परन्तु स्वच्छन्द प्रवृत्तिवग कालान्तर में इनमें अनेक परिवर्तन आये । कुरान को अपनी विचारधारा के अनुरूप ही व्याख्यात किया एवं मनुष्य को ईश्वर का प्रतिरूप ही नहीं वरन् हिजरी सन् की तृतीय शताब्दी में अद्वैत की स्वीकृति के पश्चात् उसे तद्रूप माना ।

इन प्रकार मुहम्मद साहब ने स्वयं अपने जीवन में ईसाइयों की अनेकों धार्मिक रीतियों को ग्रहण कर इस्लाम का अग्र बना दिया था । यद्यपि हम स्थान-स्थान पर कुरान में हजरत ईसा तथा ईसाइयों की प्रशंसा देखते हैं, तथापि कतिपय बातें ऐसी थीं जिन्हें मुसलमानों ने सम्मान की दृष्टि से न देखा । उदाहरणतः ईसाइयों का वानप्रस्थ एवं सन्यस्त जीवन इस्लाम में उसी रूप में ग्राह्य न हुआ । फलतः सर्वाद्धित रति-भावना ने सूफीमत में ईश्वरीय प्रेम-साधना को बड़ा बल दिया । ईसाई अवतारवाद ने ईसाई और मुस्लिम जगत में भेद-भाव उत्पन्न कर दिया और शीघ्र ही दोनों जातियाँ गन्तु हो गईं । इनके मध्य प्रारम्भ होने वाले पवित्र धार्मिक युद्धों का मूल कारण धार्मिक मतभेद ही था ।

इस्लाम धर्म उदय के पश्चात् ही विजली की भाँति अरब, सीरिया आदि प्रदेशों में फैल गया था । पुनः उत्तरी अफ्रीका और वहाँ से पश्चिमी भाग में प्रसारित हुआ । ईसाई लोग इनके सघर्ष में आये और अनेक वर्षों तक युद्ध चलते रहे । परन्तु

1 "So God created man in his own image."—(*The Holy Bible, Genesis, Chapter 1, 27*)

"So, when I have made him and have breathed into him of My spirit"—(*The Glorious Quran, S. 15, 29*)

2 "He hath revealed unto thee (Muhammad) the scripture with truth, confirming that which was (revealed before it, even as he revealed the Torah and the Gospel."—(*The Glorious Quran, S. 2, 2*)

3 "For there is one God, and one mediator between God and man, the man Christ Jesus."—(*The Holy Bible, 1st Timothy, Chapter 2, 5*)

"Muhammad is not the father of any man among you, but is the messenger of Allah and the Seal of the Prophets;"—(*The Glorious Quran, S. 33, 40*)

वास्तविक धार्मिक युद्ध उस समय से प्रारम्भ हुआ जब से रोमन साम्राज्य ने ग्रीक साम्राज्य को मित्र बना बढ़ते हुए इस मुस्लिम प्रवाह को रोकने के लिए पूर्व की ओर हाथ बढ़ाये। रोमन और ग्रीक दोनों ही ईसाई साम्राज्य थे। इधर मुसलमान भी दो भागों में विभक्त थे। तुर्क, जो उत्तर में कृष्ण सागर से दक्षिण में लाल सागर तक शासन करते थे, सीरिया के विवाद-ग्रस्त प्रदेश में मिश्र के विरोध में संलग्न थे।

सातवीं शताब्दी के अन्त तक अरबों ने उत्तरी अफ्रीका के बर्बरो को आधीन कर लिया। पुन अरबों और बर्बरो ने सम्मिलित हो ७१८ ई० तक स्पेन को भी जीत लिया। नौवीं शताब्दी के तृतीयांश में उत्तरी अफ्रीका ने सिसली पर विजय प्राप्त कर ली। तत्पश्चात् मुसलमानों ने उत्तरी इटली और स्विट्जरलैंड तक आक्रमण किये। स्पेन और सिसली में मुस्लिम प्रभाव कुछ ही समय में व्याप्त हो गया और इसकी प्रतिच्छाया फ्रांस और इटली पर भी पड़ी। यहाँ तक कि पैरिस विश्व-विद्यालय में मुस्लिम तत्त्वज्ञान का अध्ययन होने लगा। परन्तु अनेक सघर्षों के पश्चात् भी १२वीं शताब्दी के अन्त तक मुसलमानी प्रभाव केवल स्पेन और उत्तरी अफ्रीका में ही रह गया। हिजरी सन् की ७वीं शताब्दी (ईसा की १३वीं शताब्दी) में सूफीमत स्पेन में पहुँचा।^१ परन्तु वह कट्टर परम्परा से अधिक सम्बन्ध रखता था और एशियाई रहस्यवाद से भिन्न था।

जेरूसलम ईसाइयों का तीर्थ-स्थान था, जहाँ वे पाप-मुक्ति के लिए यात्रा किया करते थे। जब तुर्कों ने सन् १०७० ई० में जेरूसलम तथा १०७१ ई० में एशिया माइनर को वशीभूत कर लिया और उन्होंने ईसाइयों से सहायता माँगी तो ईसाइयों ने पोपों के आदेशानुसार युद्ध छेड़ दिया। यह प्रथम धर्म-युद्ध था। ये संघर्ष चार सौ वर्ष तक चलते रहे। इन धर्म-युद्धों ने ईसाई और मुसलमानों को परस्पर प्रभावित करने का बड़ा अवसर दिया। वास्तव में सम्य जगत् में बड़े-बड़े विचारक तत्त्वज्ञानी इन धर्म-युद्धों के पश्चात्^२ ही हुए और रहस्यवाद ने भी इनके पश्चात् ही वैज्ञानिक रूप धारण किया।

उपर्युक्त विवेचन से विदित होता है कि दोनों जातियों को सघर्ष में लाकर पारस्परिक विश्वासों के अन्तर्मिलन में इन धर्म-युद्धों का कितना हाथ रहा है। बाइबिल

^१ "In the following (seventh) century Sufism appeared in Spain, but it arrived as transmitted through an orthodox medium, and differs from Asiatic mysticism."—(*Arabic Thought and its Place in History*, P. 204)

^२ "In the great world of culture, philosophy developed its greatest thinker after the Crusades and the connection with the Arabs which they brought: even mysticism assumed a scientific character..."—(*The Legacy of Islam*, P. 51)

में अनेक स्थलों पर हम रहस्यवाद के बीज पाते हैं ।^१ 'परमात्मा प्रेम है, परमात्मा प्रकाश है'^२, इन दोनों वाक्यों में वर्णित परमात्मा के गुण वे गुण हैं जो हमें उसके व्यापक भाव का परिचय दे उसका साक्षात्कार करने के लिए उत्सुक कराते हैं । कुरान में भी ईश्वर को अपार सौन्दर्य रूप कहा है ।^३ वह उत्तम पुरुषों से प्रेम भी करता है ।^४ जहाँ हम बाइबिल^५ में ईश्वर के प्रति साक्षात्कार की तृषा पाते हैं वहाँ कुरान^६ में भी पन्ततोगत्वा ईश्वर के समीप प्रतिगमन की चर्चा है । इस प्रकार दोनों ही धर्म-पुस्तकों में रहस्यात्मक सकेतों में एक साम्य-सा दीख पड़ता है । तब यह कहना पड़ता है कि कुरान में सूफीमत का मूल खोजने वाले सूफियों ने अप्रत्यक्ष रूप से ईसाइयों के प्रेम और प्रकाश रूप ईश्वर को ही अपनाया ।

पहले कहा जा चुका है कि ईसाइयों के अतिरिक्त न्यो प्लेटोनिज्म (नव अफला-तूनीमत) का भी सूफीमत पर गम्भीर प्रभाव पड़ा था । इसका विवेचन हम कुछ पृष्ठों के पश्चात् ही करेंगे । यूनानी तत्त्वज्ञान का जैसा अध्ययन फारस में हुआ वैसा अरब में नहीं । खलीफा उमर के समय में ही मुसलमानों ने फारस पर विजय प्राप्त कर ली थी । ब्राउन के अनुसार फारस^७ विजय एव वहाँ के निवासियों द्वारा इस्लाम की दीक्षा में शीघ्रता का कारण तलवार की अपेक्षा जरतुस्तमत के धर्माधिकारियों का अत्याचार था । अली की हत्या के पश्चात् शासनसूत्र उमैया, वश के हाथ में आया । ये मुसलमान की अपेक्षा अपने को अरब पहले समझते थे ।^८ सन् ७३२ ई० में मुस्लिम-विजय पराकाष्ठा को पहुँच गई थी ।

अली के अनुयायियों के मतानुसार खलीफा पद अली तथा उनके उत्तराधिकारियों को ही ईश्वरीय अधिकार से प्राप्त था । अतः उन्होंने उमैया शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । फारस के मुसलमानों ने भी उनका साथ दिया । अन्त में मुहम्मद साहब के समीप के सम्बन्धी अरबासी लोगों ने सन् ७५० ई० में उन्हें उखाड़ फेंका । इस समय से अरबों ने मुस्लिम जाति में बड़े महत्त्वपूर्ण कार्य किये । अरबासियों की फौज में फारस-निवासी अधिक थे जो खुरासान से सम्बन्ध रखते थे । अरबासियों ने अपनी राजधानी फारस के प्रसिद्ध नगर बगदाद को बनाया और प्रमुख पदों पर फारस के निवासियों को नियुक्त किया । इनके शासन-काल में जीवन की पवित्रता

1 *Christian Mysticism, P. 44.*

2 "God is love", First Epistle of John, 4th Chapter, 8th verse.

3 "God is light", First Epistle of John, 1st Chapter, 5th verse.

4 "Allah is of infinite beauty" — (*The Glorious Quran, S. 62, 4*)

5 "Allah loveth those who are good." — (*The Glorious Quran, S. 3, 148*)

6 "My soul thirsteth for God, for the living God When shall I come and appear before God." — (*The Holy Bible, Psalms, Psalm 42, 2*)

7 "Unto Allah is your return" — (*The Glorious Quran, S. 11, 4*)

8 *Studies in Persian Literature, P. 18.*

9 *A Literary History of the Arabs, Intro. P. 28.*

पर विशेष ध्यान दिया गया । अरब और फारन के लोग कुछ समय के लिए अपने भेद-भाव भूल गये और शिक्षा का बड़ा प्रचार हुआ । वास्तव में यह इस्लाम का स्वर्ण-युग था । आठवीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थांगि हारूँ रसीद के शासन-काल में तो इसकी परकाष्ठा हो गई । मीरिया, मिश्र, मेसोपोटामिया, अरब तथा ईरान में दमस्क, ऐलेग्जेड्रिया, बसरा, कूफा, मक्का, मदीना तथा बगदाद आदि शिक्षा के अनेक केन्द्र अब्बासी-शासन में ही स्थापित हुए, जहाँ यूनानी तत्त्वज्ञानियों की रचनाओं का अनुवाद-कार्य हुआ और जो ईसा की नौवीं शताब्दी एवं दसवीं शताब्दी के मध्य तक चलता रहा ।^१ इन सबके अध्ययन और सम्पर्क ने मुस्लिम समाज में अनेक विचारक उत्पन्न किये । यहाँ हम यह कह देना आवश्यक समझते हैं कि इन्हीं अब्बासियों के शासन-काल में ही इस्लामी जगत् का भारत से अधिक निकट सम्पर्क हुआ । इसी काल में वहाँ भारतीय विद्वान् बगदाद बुलाये गये और इनके ग्रन्थों का अरबी और सीरानी भाषाओं में अनुवाद किया गया । अब्बासियों के मंत्री वरामका के नाम से प्रसिद्ध थे, जो वस्तुतः आर्य जाति के अरहरमघ नाम के वंशधर थे ।

मुस्लिम दर्शनशास्त्रियों एवं तत्त्वज्ञानियों में अधिक सख्या ईरानियों की है । अतः इस्लाम से पूर्व ईरान के तत्त्वज्ञान पर विहंगम दृष्टि डालना अत्यावश्यक प्रतीत होता है । सर्वप्रथम ईरान का तत्त्वज्ञानी महात्मा जौरोस्टर (जरतुस्त) था, जिसने पारसी धर्म की प्रवर्तना की । इनका समय लगभग ईसा से पूर्व बारहवीं शताब्दी है ।

पारसी धर्म में अहुर (वैदिक असुर) को सर्वोच्च सत्ता माना गया है । वह पूर्ण, नित्य, अपरिवर्तनशील और चावापृथ्वी का स्रष्टा है । पुद्गल (स्थूल जगत्) की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । यह अहुर की ही सृष्टि है ।^२ विश्व-संचालन में दो शक्तियाँ कार्य कर रही हैं । भलाई की ओर ले जाने वाली शक्ति अहुर की है और बुराई की ओर ले जाने वाली शक्ति का स्वामी अंग्रमन्यु (अहिर) है । परन्तु अन्त में विजय अहुर की होगी । यह अंग्रमन्यु ही ईसाइयों का सैतान (ईरानी, शयतनु=संस्कृत, क्षयतनु) हुआ । अरत्री में इसी का नाम इब्लीस है । इस मत के अनुसार मनुष्य विश्व-सत्ता का प्रतिरूप है । मनुष्य आत्मा, इच्छा-शक्ति और स्थूल शरीर से बना हुआ है, वह अपने कृत्यों के लिए उत्तरदायी है । मानवीय आत्मा भी अहुर की सृष्टि है और निधन एक नूतन जीवन है अर्थात् अपने वास्तविक शरीर को पहचानना है ।

महात्मा जरतुस्त के समय में ईरान में सूर्य और अग्नि की पूजा व्यापक रूप से होती थी । नूतन विश्वास उनमें भी विश्व-देवतावाद का पक्षपाती था और

^१ *Outlines of Islamic Culture, Vol II, P 400-401.*

^२ "Matter has no independent existence. It is the creation of Ahura, the Supreme Being, who is perfect, eternal, unchangable, the Creator of heaven, the shaper of universe."—(*Outlines of Islamic-Culture, Vol. 2, Page 345.*)

इसी विश्व-देवतावाद का प्रतिरूप ऐकेस्वरवाद हमें मुस्लिम धर्म में मिलता है,^१ जिसे यहूदियों ने अद्वैत के रूप में ढाल दिया है। जरतुस्त मत में समस्त प्रकृति-सौन्दर्य ईश्वरीय सत्ता का स्वरूप माना गया है। सूफी भी ऐसा ही मानते हैं। हमें यह बातें सूफियों में जरतुस्त मत से आई जान पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त जरतुस्त मत की भाँति सूफीमत में भी विवाह की प्रथा का तिरस्कार नहीं किया गया है। जोरास्ट्रियन मत बहुत काल तक पश्चिम के लिए एक प्रतिद्वन्दी धर्म रहा और मित्र के पूजकों के धर्म के रूप में समस्त रोमन साम्राज्य और उत्तरी अफ्रीका पर प्रभाव डालता रहा। यह मित्र भारतीय आर्यों का भी एक देवता था।

ईरान में पार्थियन साम्राज्य की स्थापना के पश्चान् (ईसा के पूर्व तृतीय शताब्दी के अन्त में) ग्रीक प्रभाव प्रधान रूप से पड़ा।^२ ग्रीक दर्शनशास्त्रियों एवं तत्त्वज्ञानियों का साहित्य पढ़ा गया। ग्रीक विचारकों में सर्वप्रथम प्लेटो का नाम उल्लेखनीय है। मुस्लिम लेखकों ने इसे अफलातून लिखा है। उसके अनुसार भलाई का विचार ही परम देवता है और गुण और ज्ञान की पूजा ही दैवी पूजा है।^३ इसने प्रेम को प्रपञ्च से मुक्ति दिलाने वाला तथा सत्य से परिचय कराने वाला बतलाया है।^४ मुसलमानों ने प्लेटो की शिक्षाओं का अध्ययन न्यो प्लेटोनिज्म (नव अफलातूनी मत) के प्रकाश में किया था अतः उन पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा परन्तु इतना निश्चित है कि सूफियों के द्वारा प्लेटो का अच्छाई का विचार परमात्मा के सौन्दर्यातिशय के तुल्य बना दिया गया है।

प्लेटो के पश्चात् ईसा से ३८४ वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए ऐरिस्टोटिल ने ग्रीक विचारधारा में एक नवीनता ला दी। इसके अनुसार सर्वोच्च सत्ता विश्व की प्रधान नियामक शक्ति है और उमी में उसका अवसान है।^५ कुरान में भी कहा है कि छावा-पृथ्वी में जो कुछ है, उसी ईश्वर का ही है और अन्त में उसी को लौट जायगा।^६

^१ "Both the prophets invite their followers to ponder over things in the universe and then to adore the Lord who created these blessings for the benefit of humanity."—(*Islam and Zoroastrianism*, Page 12)

^२ *Outlines of Islamic Culture*, Vol 2, Page, 116-117

^३ "Plato's deity is identical with the idea of the Good. Divine worship is one with virtue and knowledge."—(*Outlines of Islamic Culture Vol 2*, Page 367)

^४ "And it is love, Plato maintains, that acts as a magnet drawing us out of the 'maze' back to the state, in the 'garden of pure truth' . . .—(*The Sufi Quarterly*, P 16)

^५ "The Supreme being is the prime mover of the world and also its final end."—(*Outlines of Islamic Culture Vol 2 P 370.*)

^६ "Unto Allah belongeth whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth, and unto Allah all things are returned."—(*The Glorious Quran*, S. 2, 109.)

वास्तव में मुस्लिम तत्त्वज्ञान पर जितना प्रभाव ऐरिस्टोटिल^१ (अरस्तू) का दीख पड़ता है उतना प्लेटो (अफलातून) का नहीं ।

ग्रीक तत्त्वज्ञान का इतिहास अरस्तू की शिष्य-परम्परा के साथ समाप्त हो गया । सिकन्दर के साथ इसका प्रभाव पंजाब तक पड़ा । परन्तु निष्प्रभाव होने पर इसका पुनरुत्थान पूर्वी विचारधारा से मिलकर न्यो प्लेटोनिज्म (नव-अफलातूनीमत) के रूप में हुआ । पूर्व से, उद्गमवाद, सन्यस्त जीवन, ध्यान, परमाल्हाद, भक्ति एवं सांसारिक विलासो की क्षणिकता के सिद्धान्त इसमें प्रविष्ट हुए ।^२ बहुत कुछ प्रभाव तो सिकन्दर के साथियों के साथ ही गया था । इस प्रभाव में हमें जैनमत का भी हाथ रहा हुआ जान पड़ता है, क्योंकि ईसा से ३२६ वर्ष पूर्व आये आक्रान्ता सिकन्दर से जैन मुनि कल्याण का वार्तालाप हुआ था और वह उनसे ऐसा प्रभावित हुआ था कि उसने उन्हें अपने साथ ही यूनान ले जाना चाहा । उन्होंने तो जाना अंगीकृत न किया पर उनका प्रभाव अवश्य गया ।

नव अफलातूनी मत का प्रसिद्ध व्याख्याता प्लोटिनस सन् २०५ ई० में हुआ । उसके अनुसार परमात्मा या सर्वोच्च सत्ता सर्वज्ञ और जागरूक है । आत्मा विश्वात्मा का अंश है अतः उनकी पृथकता में भी एकता विद्यमान है । वे भौतिक पदार्थों के आकर्षण से पथ-भ्रष्ट हो गई हैं परन्तु अपने स्रोत की ओर उन्मुख होने से उनका उत्थान हो सकता है । मनुष्य में दैवी और दानवी दोनों रूप हैं । यह उसी पर निर्भर है कि वह सचेतन पक्ष की ओर भुके । विश्व में जो सौन्दर्य है उसी का नाम अच्छाई है । भौतिक सौन्दर्य से अलक्ष्य सौन्दर्य कहीं श्रेष्ठ है । उस सौन्दर्य का परिचय ही उच्चता है । आत्मिक उच्चता की प्राप्ति में दो स्थितियाँ होती हैं । प्रथम दैवी सत्ता को अपना स्रोत रूप पहचानने से प्राप्त होती है और द्वितीय उस समय जब हम उसका साक्षात्कार करते हैं ।

इस सिद्धान्त ने पश्चिमी एशिया एवं मिश्र को अधिक प्रभावित किया । इस मत के कुछ तत्त्वज्ञानियों ने छठी शताब्दी में फारस में जाकर नौशेरवाँ के राज्य में एक शिक्षण-संस्था स्थापित की थी ।^३ मुसलमानों ने इससे उद्गमवाद, आत्मप्रकाश,

^१ "Aristotle, not Plato, is the dominant figure in Moslim philosophy." —(*The Mystics of Islam, Introduction P. 13.*)

^२ The history of pure Greek philosophy ended with the school of Aristotle but reappeared blended with oriental thought under the name of Neo-Platonism, in which several aspects peculiar to the east had mingled, such as the theory of emanation, ascetic life, contemplation, ecstasy, devotion, and vanity of all earthly pleasures etc.—(*Outlines of Islamic Culture, Vol. 2, Page 382.*)

^३ "Moreover we must bear in mind that the Neo-Platonist philosopher paid a visit to the Persian Court in the sixth Century A. D. and founded a school there in the reign of Nushirawan." —(*The Persian Mystics, Jalal-ud-din Rumi, P. 2.*)

गुह्यविद्या एव परमान्हाद के सिद्धान्त ग्रहण किये ।^१ अल गजाली^२ के समय से आग हम प्लोटीनस के उद्गमवाद तथा परमाल्हाद (सहजानन्द) के सिद्धान्तों को सूफी रचनाओं में निरन्तर पाते हैं । अल गजाली ने ईश्वर सम्बन्धी यह विचार कि वह केवल प्रकाश ही नहीं है वरन् सर्वोत्कृष्ट सौन्दर्य है तथा प्रेम की यह भावना कि वह सौन्दर्य के प्रति, चाहे वह लौकिक हो या अलौकिक, आत्मा की एक नैसर्गिक अभिरुचि है, नव अफलातूनी मत से ही लिया था । उपर्युक्त दो स्थितियों को बढ़ाकर सूफियों ने सात स्थितियाँ करदी ।^३ इन्हीं प्रदेशों में सर्वप्रथम सूफीमत ने अपना आदि रूप प्रदर्शित किया । धुन नुन मिश्री ही था जिसने सर्वप्रथम सूफी सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया था ।^४ यह मत छठी शताब्दी में एक स्वतन्त्र सिद्धान्त न रहा वरन् शीघ्र ही ईसाई और मुस्लिम रहस्यवाद के रूप में अशतः परिवर्तित हो गया ।

तत्कालीन विचारकों में मानी अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ । इसने नास्टिक मत के ध्वसावशेष पर एक भवन खड़ा किया जो मानीमत के नाम से प्रसिद्ध हुआ । वास्तव में नास्टिक मत का प्रवर्तक साइमन^५ था, जिसने स्वतन्त्र विचार के ईसाइयों का नेतृत्व कर एक नवीन मत की स्थापना की थी । मानी ने ग्रीक तत्त्वज्ञान को पढ़ा । वह प्रकाश और अन्धकार अथवा चेतन और जड दोनों में विश्वास रखता था । उसके अनुसार दृश्य जगत् प्रकाशात् एव अन्धकार के मिश्रण का परिणाम है ।^६ इन दोनों का सम्मिश्रण अप्राकृतिक और बलात्कृत है अतः पार्थक्य अवश्यम्भावी है । मानी ने सर्वोच्च^७ सत्ता को प्रकाश-जगत् का स्वामी कहा है जो पवित्र, नित्य और ज्ञानवान है । आत्मा शरीर में बद्ध है और उसे इस बन्धन से मुक्त होना है । मानी की आचार-नीति त्याग पर आश्रित है जिनमें मूर्तिपूजा, अमत्य, लोभ, हत्या तथा जादू-टोना आदि वर्जित हैं ।

पश्चात्-काल की एक सूफी शाखा ने मानीमत के इस द्वैत सिद्धान्त को

^१ *The Mystics of Islam, Introduction, P 13.*

^२ From his time forward we find in Sufi writings constant allusions to the Plotinus theories of emanation and ecstasy."—(*A literary History of The Arabs, P. 393.*)

^३ *Outlines of Islamic Culture, Vol. 2, P 391.*

^४ "Dhun-nun was the first to put the doctrines in words"
—(*Islamic Sufism, P. 20.*)

^५ *Encyclopædia of Religion and Ethics, Vol 6, P 232.*

^६ "He says that the visible world is the result of the mixture of darkness with a portion of light"—(*Outlines of Islamic Culture, Vol 2, P. 351.*)

^७ Mani called the Supreme Being "Father of the Kingdom of Light, He is pure in his nature, eternal and wise."—(*Outlines of Islamic Culture Vol. 2, P. 351.*)

अपनाया^१ जिसके अनुसार दृश्य-जगत् प्रकाश और अन्धकार के मिश्रण का परिणाम है। सनातन सूफीमत में सिद्दीक शब्द भी मानी मतानुयायियों से ही आया था, जिसे वे अपने आध्यात्मिक गुरु के लिए प्रयोग में लाते थे।

पहले कहा जा चुका है कि भारत और ईरान में चिरकाल से सम्पर्क स्थापित हो गया था। ग्रीक तत्त्वज्ञान के साथ बुद्धमत^२ भी सम्पूर्ण पूर्वी ईरान (वर्तमान अफगानिस्तान, बुखारा, खुरासान) में व्याप्त हो गया था। यद्यपि मुसलमानों ने बुद्धमत से माला आदि का प्रयोग सीख लिया था। तथापि फना का सिद्धान्त विस्ताम के वावजीद के समय^३ में ही गृहीत हुआ था। अद्वैतमत की ओर भी सर्व-प्रथम उसी ने पग रखे थे।^४

फना से तान्पर्य निजत्व को भुलाकर परमात्मा में एक रूप हो जाना है।^५ सूफियों के इस फना सिद्धान्त पर बौद्धों के निर्वाण तथा पारसी एवं भारतीय अद्वैतमत का प्रभाव स्पष्ट था। बौद्धों का निर्वाण यद्यपि फना के अनुरूप-सा ही है तथापि हम फना को निर्वाण से एकरूपता नहीं दे सकते निर्वाण केवल निपेधात्मक ही है अर्थात् निजत्व की समाप्ति पर वासनाहीन समरूपता में निर्वाण है जबकि दैवी सौन्दर्य के सहजानन्दी ध्यान में निजत्व का पूर्ण अवसान ही फना है। फना बका^६ से सहयोग पाता है, जिससे तात्पर्य ईश्वर में स्थायी जीवन से है। इतना होने पर भी इन दोनों शब्दों को पृथक् नहीं कर सकते, क्योंकि निर्वाण की भाँति फना में भी वासना की समाप्ति पर नद्गुणों एवं सत्कृत्यों की अविराम सत्ता द्वारा दुर्गुणों एवं दुष्कृत्यों की समाप्ति हो जाती है।

बौद्ध सिद्धान्त के पर्यालोचन से ज्ञात होता है कि निर्वाण में ध्यान का विशेष महत्त्व है। ध्यान और ज्ञान अन्योन्याश्रित है। भगवान् बुद्ध ने^७ स्वयं कहा है कि ज्ञान के अभाव में ध्यान और ध्यान के अभाव में ज्ञान नहीं हो सकता और जो ज्ञान

1 " . . and a later school, returning to the dualism of Mani, held the view that the diversity of phenomena arises from the admixture of light and darkness "—(*The Mystics of Islam, Introduction P. 14.*)

2 *Outline of Islamic Culture, Vol. 2, P. 347*

3 "Bayazid introduced the doctrine of self annihilation (fana) perhaps a reflection of the Buddhist Nirwan"—(*A Literary History of the Arabs, P. 391.*)

4 *A Literary History of the Arabs, P. 391.*

5 "To pass away self (fana) is to realize that self does not exist, and that nothing exists except God (tawhid)."—(*Studies in Islamic Mysticism, P. 50.*)

6 " . . while Nirwan is purely negative fana is accompanied by baqa, everlasting life in God"—(*The Mystics of Islam, Introduction P. 18.*)

7 I can do no better than to employ as my text the words of the Buddha Gotama "Without knowledge there is no meditation; without meditation there is no knowledge . . and he who has both knowledge and meditation is mere to Reality."—(*Buddhist Meditation, Introduction P. 8.*)

एव ध्यान से मुक्त है वही वास्तविकता के पास है। हम ध्यान में आत्मलय को ही निर्वाण नहीं कह सकते, वरन् यह एक अविराम रागहीनता या उदासीनता है। पूर्ण ज्ञान से रागहीनता आती है अतः पूर्ण ज्ञान^१ की तद्रूपता ही मुक्ति है और मुक्ति का प्रतिरूप ही निर्वाण है। वास्तव में निर्वाण का दार्ष्टिक अर्थ बुझना है परन्तु इस से तात्पर्य राग-द्वेष-हीनता एव मोहश्रय है।^२

निर्वाण किसी एक स्थिति का नाम नहीं है वरन् यह एक उत्तरोत्तर प्रक्रिया है।^३ अज्ञान की विरामता में रुचि-विराम, रुचि-विराम से चेतनाभाव तथा चेतनाभाव से मन का मयमन होता है। मानसिक मयमन में इन्द्रिय-मयमन और इन्द्रिय-सयम से सम्पर्कभाव हो जाता है। सम्पर्कभाव से इन्द्रियज्ञान की समाप्ति और इन्द्रियज्ञान की समाप्ति से विषय-नालसा विरत हो जाती है। विषय-विरति में ग्रहण-शक्ति जाती रहती है। तदनन्तर सत्ता विराम को प्राप्त हो जाती है और जन्म-मरण से छुटकारा मिल जाता है।

इस समीक्षा से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि निर्वाण और फना में अधिकांशतः साम्य है। यह सिद्धान्त यद्यपि बहुत पहले प्रतिपादित हुआ होगा परन्तु इसका परिचायक वायजीद ही था। वायजीद खुरासान का निवासी था। उसका दादा जोरोस्टर मत का अनुयायी था। यही कारण था कि उस पर जोरोस्टर मत के विश्वदेवतावाद का प्रभाव था जिसे उसने भारतीय प्रकाश में अद्वैत का रूप देकर व्याख्यात किया था। उसने दैवी मिलन में आत्ममिलन रूप फना के सिद्धान्त को सिन्ध के अबू अली से सीखा था।^४ वह भारतीय प्राणायाम से अभिज्ञ था, जिसे उसने परमात्मा की रहस्यमयी आराधना कहा है। ज्ञात होता है कि सूफियो ने योगाभ्यास की साधना ब्राह्मों से ही सीखी थी जो बहुत पहले ही अधिकांश एशिया में पहुँच चुके थे। वायजीद ने फना और अद्वैत के सिद्धान्तों का मिश्रण कर इन्हें बड़े सुन्दर रूप में प्रतिपादित किया।

जिस अद्वैत का प्रतिपादन वायजीद ने किया था उसका पूर्ण विकास हम इब्नुल अरबी के समय में पाते हैं। यद्यपि वायजीद^५ ने अपने लिए यह शब्द कहे थे,

^१ "The Counterpart of full knowledge is release, and the counterpart of release is Nirvan."—(*The History of Buddhist Thought*, P. 121)

^२ Nibban means extinguishing. That is the verbal definition of Nibban; the definition according to meaning is—"Nibban is the ceasing of Lust, Hate and delusion"—(*Buddhism*, P. 214-15)

^३ "Nibban is not a state but a process."—(*Buddhism*, P. 216.)

^४ "He learned the mystical doctrine of passing away (Fana) in the Divine unity from the Abu Ali of Sind. He knew the Indian practice of watching of breath and described it as the gnostic's worship of God."—(*Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol. 12, P. 12)

^५ Praise be to me, "he is reported to have said on another occasion; I am the truth, I am the True God, I must be celebrated by Divine Praises,"—(*A Literary History of Persia*, P. 427.)

“मेरी प्रणसा हो, मैं सत्य हूँ, मैं वास्तविक परमात्मा हूँ, दैवी प्रार्थनाओं से मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए।” तथा हल्नाज^१ भी ‘अन-अल-हक’ अर्थात् मैं सत्य हूँ, कह चुका था। तथापि अद्वैत का सूफी अद्वैत के रूप में विकास अरबी के समय से ही हुआ।^२

अद्वैत से तात्पर्य द्वैत के अभाव से है। इसका विशद विवेचन स्वामी शंकराचार्य ने उपनिषद् भाष्यो में किया है। थद्यपि ऋग्वेद^३ के अन्तिम मंडल में हम एकेश्वरवाद की भावना पाते हैं तथापि ब्रह्मैकवाद का पूर्णरूप हमें उपनिषदों में ही मिलता है। उपनिषदों के अनुसार निखिल जगत् ब्रह्म ही है।^४ माया से ही वह विश्व का स्रजन करता है।^५ सब में व्याप्त हुआ वही एक विविध रूपों में प्रदर्शित हो रहा है।^६ वही भोग्यता है, वही भोग्य है और वही प्रेरयिता है।^७ वह न स्थूल है, न अणु; न ह्रस्व है, न दीर्घ।^८ ऐसा नित्य व्यापक एक ब्रह्म ही वेदितव्य है। उसके विदित हो जाने पर कुछ भी वेद्य नहीं रहता।^९ न वह चक्षुओं से ही गृहीत होता है, न वाणी से, न अन्य देवों द्वारा ही हम उसे पा सकते हैं और न कर्म से, वरन् ज्ञान से विशुद्धात्मा व्यक्ति ही निरन्तर ध्यान द्वारा उसका साक्षात्कार करता।^{१०} है। जो उस ब्रह्म को जान लेता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है।^{११}

१ “I am the Truth.”—(*Encyclopaedia Britannica*, Vol. 21, P 523.)

२ “The development of Sufi Pantheism comes much later than Hallaj and was chiefly due to Ibnul Arabi (A.D. 1165-1240).”—(*The Idea of Personality in Sufism*, P 27)

३ “पुरुष एवेदं सर्वम्”—ऋग्वेद, मं० १०, अ० ७, सू० ६०, २।

४ “एकमेव सत्”, “नेह नानास्ति किंचन :”—बृहदारण्यकोपनिषद्, ४, ४, १६।

५ “मायी सृजते विश्वमेतत्”—श्वेताश्वतरोपनिषद्, ४, ६।

६ “एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा, रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च।”

—कठोपनिषद् २, २, ६, १।

७ “भोक्ता योग्यं प्रेरितारं च मत्वा, सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत् ॥”

—श्वेताश्वरोपनिषद् १, १२।

८ “अस्थूलमनण्वह्रस्वमदीर्घम्”—बृहदारण्यकोपनिषद् ३, ८, ८।

९ “कुतो विदिते वेद्यं नास्ति:”—छान्दोग्योपनिषद्, ६, २, १।

१० “न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा।

ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलम् ध्यायमानः।”

—मुण्डकोपनिषद्, मु० २, खंड २, ११।

११ “स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति।”—मुण्डकोपनिषद् ३, २, ६।

इस अद्वैत के आश्रित योग द्वारा ब्रह्म-प्राप्ति की भारत में बड़ी उदात्त विवेचना हुई। श्रीमद्भगवद्गीता में भी स्पष्ट लिखा है कि जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, अनुशास्ता, अणु से भी अणु, विश्व के धाता, सूर्य तुल्य नित्य चेतन प्रकाशस्वरूप, अविद्या से परे एवं अचिन्त्य रूप ईश्वर का चिन्तन करता है, वह अन्तकाल में भक्तिमान् हुआ निश्चल मन से योगबल द्वारा भृकुटि के मध्य प्राण को सम्यक् प्रकार से स्थापित कर उस दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है।^१

हिजरी सन् की तृतीय शताब्दी (ईस्वी सन् की नौवीं शताब्दी के अन्त एवं दसवीं शताब्दी के प्रारम्भ) में हम अद्वैत को सूफीमत में सिद्धान्त रूप से प्रवेश करता देखते हैं, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है। यद्यपि पृष्ठभूमि में यह पहले ही प्रकट हो चुका था।^२ बायजीद प्राणायाम^३ से भी परिचित था। कहा जाता है कि अबू सईद बिन अबुल खेर, जो एक प्रसिद्ध सूफी था, योग-साधन किया करता था।^४

सूफीमत और अद्वैतमत में हम अनेक समानताएँ पाते हैं। दोनों ही पीर या गुरु को आत्म-समर्पण करना मानते हैं। उपवास, जप एव तप का विधान दोनों में ही है। श्वास के निग्रह और ध्यान में भी अनुरूपता है। ईश्वर से एकता भी दोनों में समान रूप से है। इन समानताओं के अतिरिक्त अनेक विषमताएँ भी हैं। योगी और सूफी दोनों सन्यासी जीवन में विश्वास रखते हैं परन्तु अधिकांश सूफियों का अविवाहित जीवन पर विश्वास नहीं। योगियों के आसनों से सूफियों के आसन भी कुछ भिन्न हैं। सूफियों की विकलता में भय, त्रिलाप और चाहना प्रमुख हैं, किन्तु वेदान्ती पूर्ण शान्ति चाहता है।

गत समीक्षा से हमें यह विदित हो गया है कि मुहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात् राजनैतिक, सामाजिक एवं बौद्धिक परिस्थितियों ने मिलकर तत्कालीन वातावरण पर ऐसा प्रभाव डाला था कि अज्ञात मानव-प्रकृति रहस्योन्मुख हो गई थी। इन परिस्थितियों के मूल कारण उम्मया शासन में ध्वसात्मक गृह-युद्ध, प्रथम अब्बासी

^१ क्वि पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः ।

सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥

प्रयासकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ।

अबु वो मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥

—श्रीमद्भगवद्गीता, अ० ८, श्लोक ६, १० ।

^२ *Encyclopædia of Religion and Ethics, Vol. 12, P. 11.*

^३ *Encyclopædia of Religion and Ethics, Vol. 12, P. 12.*

^४ "It is stated that Abu-Said-bin Abu'l Khair who also holds a high place in Sufi Hagiology, kept his mind, like the Hindu Yogis, centred on his navel."—(*The Spirit of Islam, P. 459*).

राजत्वकाल मे संशयशील एवं बौद्धिक विचारधारा और विशेषतया उलमा की कटु जातीयता और दुराग्रह थे। यह भी हमें विदित होगया है कि सूफीमत की उत्पत्ति के पश्चात् अरब तथा फारस आदि देशो मे गत अथवा वर्तमान भावना ने इस पर कैसा प्रभाव डाला था। पिछले कुछ पृष्ठों मे ईसाई, नव अफलान्ती, नास्टिक, बौद्ध, एवं अद्वैत मतों के प्रभाव का दिग्दर्शन किया गया है। परन्तु यह पहले कहा जा चुका है कि यह प्रभाव सूफीमत के जन्मकाल से ही न था। हाँ, कुछ ईसाई आचार-नीति अवश्य अपना ली गई थी।

सूफीमत का इतिहास हमें बतलाता है कि सर्वप्रथम एकान्तवास तथा पवित्र जीवन की भावना उद्भूत हुई थी। एकान्तवास इस्लाम से पूर्व ईसाई प्रभाव से अरब में आया था।^१ मुहम्मद साहब के अनेक महत्तर तथा खलीफा^२ समय का आचरण करते थे तथा पवित्र जीवन बिताते थे। विप्लव, ध्वंस तथा ईश्वरीय भय ने अनेक व्यक्तियों को विरक्त बना दिया था। वास्तव मे पूर्वकालिक सूफी रहस्यवादी की अपेक्षा यती एवं विरागी अधिक थे।^३

हिजरी सन् की दूसरी शताब्दी (ईसा की लगभग आठवी शताब्दी) मे सूफी अधिकांशतः धर्मान्ध और विधान के अनुयायी थे।^४ निर्धनता, आत्म-न्याग तथा समर्पण पर वे अधिक ध्यान देते थे। हम उन्हें यतिचर्या तथा ईश्वरीय ज्ञान या रहस्यवाद के मध्य स्थित हुआ देखते हैं। ईश्वर के विषय मे उनकी धारणा अक्षरशः कुरान पर आधारित थी।^५ ईश्वरीय भय ने मनुष्य को अपनी दुर्बलता के कारण चिन्तन का पाठ पढ़ाया था। आदि के विचारक प्रायः आदि कारण, प्रकृति, आत्मा, विश्व मे मनुष्य का स्थान, बुद्धि, चेष्टा आदि कारण की अभौतिकता तथा नित्यता पर विचार किया करते थे। ये लोग कर्मकाण्ड के विरोधी थे। इस्लाम का अनुसरण तो करते थे परन्तु तत्त्वज्ञान का अध्ययन वे औचित्य की दृष्टि से ही करते थे। उनमे धीरे-धीरे स्वतन्त्र विचारधारा बढने लगी और इस्लाम की शिक्षाओं को अपने अनुभव और तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा। अनेक लोग भिन्न-भिन्न स्थानो पर जाते और अपने अनुभवों की चर्चा करते थे। बसरा एक ऐसा ही स्थान था जहाँ गोष्ठी हुआ

^१ *Arabic Thought and its place in History*, P 135.

^२ *Arabic Thought and its place in History*, P 183

^३ "The earliest Sufis were, infact, ascetics and quietists rather than mystics" — (*The Mystics of Islam, Intro. P. 4*)

^४ "The Sufis of the 2nd Cent were usually orthodox and law-abiding. They cultivated poverty, self-abasement" — (*Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. 12, P. 11*)

^५ "In their conception of the Nature of the Godhead, the ancient Sufi mystics, as might be expected, adhere closely to the language of the Quran and to the orthodox belief" — (*Studies in the Early Sufism in the near and Middle East, P. 198*).

करती थी ।^१

सूफीमत का मुख्य आधार निष्काम भक्ति या प्रेम ही है । परन्तु आदि काल में ईश्वरीय उत्कृष्टता तथा अनुकम्पा की पृष्ठभूमि में भय की ही प्रधानता थी । “ईश्वर दण्ड देने में कठोर है”^२ इस विचार ने विद्रोह की भावना उत्पन्न करदी और खिन्न मानव-मन की तृप्ति के लिए ईश्वरीय अपार नौन्दर्य पर लोगों का ध्यान गया । जब कि पहले केवल आत्म-त्याग, कठोर इन्द्रिय-दमन, प्रबल पूतता और शान्त चर्या ही विरचित के लक्षण थे, अब ध्यान को भी महत्त्व दिया जाने लगा, क्योंकि जो अति मुन्दर है उसका सौन्दर्य प्रेम का कारण होता है और जिसे हम प्रेम करते हैं, उसका चिन्तन अनिवार्य है । उसके प्रति आत्म-समर्पण में ही परमानन्द और जीवन की सार्थकता है । ईसा की आठवीं शताब्दी में विद्यमान बलख का इब्राहीम^३ प्रायः प्रार्थना किया करता था, हे ईश्वर ! मैंने तुम्हारे प्रति आत्म-समर्पण के महत्त्व की अवज्ञा की है । मुझे इस लज्जा से मुक्ति दो ।’ तात्कालिक एवं तद्देशीय शक्तीक^४ भी ईश्वर के हाथ में ही आत्म-समर्पण के कर्तव्य पर विशेष बल देता था ।

यह वह समय था जब प्रेम-मन्त्र अपना जादू-जाल बिछाने लगा था । सम्भवत बसरा में सन् ७१७ में उत्पन्न राबिया की भक्ति-भावना में हम प्रेम की अनन्यता पाते हैं । अब प्रार्थनाएँ बाह्यविधानाश्रित नहीं रह गई थी, वरन् उन्होंने वह रूप धारण किया था जिसमें रहस्यवादी हृदय की गहराइयों में ईश्वर के साथ सम्भाषण करता है । राबिया^५ प्रायः अपनी छत पर जाकर यह प्रार्थना किया करती थी—“ओ मेरे स्वामी ! तारे चमक रहे हैं, और मनुष्यों की आँखें बन्द हैं । सम्राटों ने अपने द्वार बन्द कर लिये हैं, प्रत्येक प्रेमी अपनी प्रियतमा के पास है, पर यहाँ मैं एकाकी तुम्हारे साथ हूँ ।” इस प्रार्थना में हम प्रेम का प्राचुर्य देखते हैं, जिसमें सर्वतः उदासीनता है और केवल अनन्यतापूर्ण उसी में लीनता है तथा जिसमें न शैतान के प्रति घृणा है और न रसूल के प्रति राग । एक बार पैगम्बर साहब राबिया^६ को स्वप्न में दृष्टिगोचर हुए । उन्होंने पूछा—“ओ राबिया ! क्या तुम मुझे प्रेम करती हो?”

^१ *Encyclopædia of Religion and Ethics* Vol. 12, P. 11.

^२ “Allah is severe in punishment” —(*The Glorious Quran*, S 3, 11.)

^३ “O God, uplift me from the scheme of disobedience to the Glory of submission into thee” —(*A Literary History of the Arabs*, P. 232.)

^४ *A Literary History of the Arabs*, P. 233

^५ “O my Lord, the stars are shining and the eyes of men are closed and kings have shut their doors and every lover is along with his beloved and here am I alone with Thee —(*Rabia the Mystic*, P. 27.)

^६ I saw the Prophet in a dream. He said, ‘O Rabia, does thou love me?’ I said, ‘O Apostle of God, who does not love thee?—but love of God hath so absorbed me that neither love nor hate of any other thing remains in my heart’ —(*The Idea of Personality in Sufism*, P. 62-63.)

उत्तर मिला—“ओ ईश्वरीय दूत ! तुम्हे कौन प्रेम नहीं करता ? परन्तु परमात्मा के प्रेम ने मुझे इतना लीन कर लिया है कि न प्रेम और न वृणा के लिए ही मेरे हृदय मे स्थान है ।” यही प्रेमोन्माद मीरा मे हम पाते हैं अतः इस राबिया की तुलना मीरा से की जा सकती है ।

राबिया से पूर्व आत्मलय (फना) का सिद्धान्त हमें नहीं मिलता । यद्यपि राबिया के वचनों में भी हमें इसका विवेचन नहीं मिलता, तथापि यह स्पष्ट है कि सूफीमत का शान्त और संयमी जीवन अब भावमय होने लगा था तथा अद्वैत की भावना प्रगट होने लगी थी ।^१

प्राचीनतम सूफियों में ईरानी अधिक थे । उनके पश्चात् सीरिया और ईजिप्ट के सूफियों की सख्या थी । वे एकान्त स्थानों में निवास करते और साधु जीवन व्यतीत करते थे । वे प्रायः मक्का भी जाते थे ।^२ इनमें से कुछ खानकाहों (आश्रमों) में भी रहा करते थे । परन्तु अब मक्का का महत्त्व न रहा था । सलावत अर्थात् पंचकालिक नमाज भी जिफ्र (जाप) एव हृदयगत चिन्तन मे परिवर्तित हो गई थी । ईश्वरीय विश्वास ने पूर्ण आत्म-समर्पण की भावना को जाग्रत कर दिया था । परन्तु अभी धर्मान्ध मुसलमानों में सूफीमत का प्रचार न हुआ था ।^३

जब कि वान क्रैमर^४ के अनुसार सर्वप्रथम सूफीमत अरबी आदर्श के थे, जिन पर फारसी, यूनानी एव भारतीय विचारों की अपेक्षा ईसाई आश्रमवासिता का अधिक प्रभाव था, वौघन^५ के अनुसार मध्यकालीन सूफी ईश्वरवादी, धर्म-निष्ठतावादी एवं चमत्कारवादी इन तीन विभागों मे से द्वितीय वर्ग से सम्बन्ध रखते थे । इस समय मे ध्यान और ईश्वरीय ज्ञान का पूर्ण विवेचन मिश्र और सीरिया में हुआ, जिस पर यूनानी प्रभाव के चिन्ह स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं ।

हिजरी सन् की तृतीय शताब्दी (ईसा की नौवीं शताब्दी) मे हम सूफीमत को निश्चय ही एक नये मार्ग मे प्रवेश करता देखते हैं । शान्त संयमी जीवन की

^१ “We now come to a more interesting personality, in whom the ascetic and quietistic type of Sufism is transfigured by emotion and begins clearly to reveal its pantheistic sympathies.”—(*A Literary History of the Arabs*, P. 233.)

^२ “they visited Mecca as many times as they could, some of them had Khanquhs, Hermitages”—(*Outlines of Islamic Culture*, Vol. 2, P. 462.)

^३ “It was not until the time of Al-Ghazali (d. 505) that Sufism began to take its place in orthodox Islam.”—(*Arabic Thought and its place in History*, P. 203.)

^४ “This ascetic Sufism is regarded by Von Kreamer as the early Arabic type”—(*A Literary History of Persia*, P. 426.)

^५ The three classes into which Vaughan divides all mystics the theosophic, the theopathic, and the theurgic, are all represented amongst the Sufis, but it is the second which must prevail in the earlier time...—(*A Literary History of Persia*, P. 424.)

धारा चिन्तन और अद्वैत की भावना में तरंगित हो जाती है। यही वह काल है जब सूफीमत पर बाह्य प्रभाव पड़ते हैं, जैसा कि इस पर्व के आरम्भ में बतलाया गया है। ईसाई, नव अफलातूनी नास्तिक, बौद्ध एवं अद्वैत मतों की छाप स्पष्टतः दृष्टि-गोचर होने लगती है।

ईमा की तीवी गताब्दी के चतुर्थांश में विद्यमान अबू बाजिद या बिस्ताम के बायजीद ने सर्वप्रथम रहस्यवाद में अद्वैत का निरूपण किया था। यहाँ एक व्यक्ति था जिसने फना (आत्म-लय) के सिद्धान्त को दूसरों के समक्ष उपस्थित किया। उसके अतिरिक्त तत्कालीन सभी सूफियों ने इस सिद्धान्त को पृष्ठभूमि में रखा।¹ उन्होंने हकीकत (वास्तविकता) के साथ शरीअत (विधान) का मेल कर शान्त और संयमी जीवन को ही महत्त्व दिया। आत्म-लय रूप फना के सिद्धान्त के अनुरूप ईश्वर में जीवन रूप वका के सिद्धान्त का प्रतिपादन अबू सईद अल खर्राज ने किया था।²

मिद्धान्तः सूफीमत का पूर्ण विकसित रूप धुननून से प्रारम्भ होकर जलालुद्दीन रूपी के साथ समाप्त होता है।³ पश्चात् के सूफी तो उन्हीं की शिक्षाओं को नवीन रूप में पुनरावर्तित-सा करते हुए जान पड़ते हैं।

धुननून ही प्रथम व्यक्ति था⁴ जिसने सूफी सिद्धान्तों को दूसरों के समक्ष व्याख्यात किया था। बगदाद के जुनेद ने इन्हें कमवद और अबूबक्र शिव्ली ने मसजिद की मीनार से उपदिष्ट किया था। बसरा की राबिया सर्वप्रथम स्त्री थी जिसने सूफीमत को अपनाया था।

यह वह समय था जब विश्वास का उल्लंघन और भ्रष्टता समझी जाती थी। धर्मान्ध व्यक्ति इस्लाम में विहित मार्ग में तनिक भी इतस्तत जाना घोर नास्तिकता समझते थे। यही कारण था कि रहस्यवादियों को सर्वप्रथम धर्म-शास्त्रियों से टक्कर लेनी पड़ी। धुननून मिश्री, नूरी तथा हस्जाज को दण्ड मिलना इसी का परिणाम था।

1 "With the exception of Bayazid, however, the great Sufis of the third century A. H. (815-912A.D.) keep the doctrine of fana in the background."—(*A Literary History of the Arabs*, P. 91-92.)

2 "In the third century A.H. the negative doctrine of fana was taught by the famous Persian Sufi, Bayazid of Bistam, while the positive view that the ultimate goal is not death, to self (Fana) but life in God (Baqa), was maintained by Abu Saïd al-Kharraz."—(*The Idea of Personality in Sufism*, P. 14.)

3 "The Whole Course of doctrinal Sufism begins with Dhun-nun and ends with Jalaluddin..."—(*Arabic Thought and its place in History*, P. 205.)

4 "Dhun-nun was the first to put the doctrines in words, Junayid of Baghdad systematized the same Abu Bakr Shibli was the first to preach them from the minbar of the mosque."—(*Islamic Sufism* P. 20.)

सन् ८३० ई० में अबू मुलेमान ने मारिफत (रहस्यज्ञान) के सिद्धान्त को विकसित किया था।^१ धुननून मिश्री ने सूफीमत के विकास में एक चरण और आगे रखा। उसने मारिफत (रहस्यज्ञान) को परम्परागत एव इल्म (बौद्धिक ज्ञान) में पृथक् करते हुए उसका सम्बन्ध ईश्वरोपामना में जोड़ा।^२ धुननून ने गुरु का महत्त्व बताते हुए यहाँ तक कहा कि शिष्य को ईश्वर की अपेक्षा अपने गुरु के प्रति अधिक आज्ञापालक होना चाहिए।^३

जो सिद्धान्त इस प्रकार प्रतिपादित हुए थे अल जुनेद ने उनको विकसित कर क्रमवद्ध कर दिया। शायजीद की भाँति जुनेद भी ट्वैन का प्रचारक था। जुनेद ने स्वयं कहा कि मेरी जिह्वा में ईश्वर तीस वर्ष तक वार्तालाप करता रहा।^४ जुनेद के अनुसार ईश्वरीय ऐक्य का उपभोग ही परम मगति है। ईश्वरीय ऐक्य से तात्पर्य उस महान् समुद्र में अपने को लीन कर देना है, उस परम विभूति के व्यक्तित्व में ही अपने को खो देना है तथा उसी के मुन्दर ध्यान में लीन हो सदैव प्रेम का प्याला पीते रहना और प्रियतम से एक हो जाना है।

शिब्ली ने इन सिद्धान्तों का प्रचार किया। उसने ईश्वरीय प्रेम को एक उन्माद बनलाया जो प्रत्येक प्रेमी को उन्मत्त बना देता है।^५ शिब्ली स्वयं उन्मादावस्था में रहा करता था। उसका कहना है कि वास्तविक स्वातन्त्र्य ईश्वर की अपेक्षा प्रत्येक वस्तु से हृदय को मुक्ति दिलाना है।^६ सूफीमत का तात्पर्य ही भौतिक जगत् को मिथ्या समझना है। जुनेद ने भी कहा था कि सूफीमत का अर्थ ईश्वर से भिन्न पदार्थों से पथक्त्व है।^७

शिब्ली का ही सहपाठी मयूर अल हल्लाज था जो दसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विरोधियों द्वारा निधन को प्राप्त हुआ था। इसने पश्चिमी भारत की भी यात्रा

^१ "Abu Sulayman (830 A.D.), the next great name in the Sufi Biographies, was also a native of Wasit. He developed the doctrine of gnosis (Marifat)..."—(*A Literary History of the Arabs*, P. 386.)

^२ "Dhūn-nūn took a very important step in the development of Sufism by distinguishing the mystic knowledge (Marifat) from traditional or ritualistic knowledge (ilm) and by connecting the former with love of God."—(*The Idea of Personality in Sufism*, P. 9.)

^३ "Dhūn-nūn went so far as to say that the True disciple should be more obedient to his master than to God himself"—(*Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol. 12, P. 13.)

^४ "For thirty years, he said, God spoke with mankind by the tongue of Janayid"—(*A Literary History of Persia*, P. 427.)

^५ "Verily love to the All merciful has intoxicated me. Have you ever seen any lover who was not intoxicated?"—(*Al-Ghazzali, the Mystic*, P. 127.)

^६ "Abu Bakr Shibli of Khurassan, a class mate of the celebrated Man-ur-r-Ra'aj (d. 926 A.D.), says that true freedom is the freedom of the heart from everything but God"—(*Outlines of Islamic Culture*, P. 466.)

^७ "Sufism means detachment from non-God."—(*Outlines of Islamic Culture*, P. 466.)

की थी। यह तत्कालीन सूफियों में निर्भय अद्वैत का प्रचारक था। यह मनुष्य को दैवी मानता था क्योंकि ईश्वर ने उसे अपनी ही आकृति में बनाया था।^१ सूफियों ने यह परस्पर यहूदियों से ली थी कि ईश्वर ने आदम को अपने रूप में बनाया था।^२ हल्लाज ने इसकी इस प्रकार व्याख्या की, ईश्वर ने आदम के रूप में अपने को ही प्रदर्शित किया था क्योंकि आदम मानवीय एवं दैवी प्रकृति का आदर्श था। वह स्वयं अपने को सच्चाई या ईश्वर कहता था।^३ वह कहता था कि 'मैं' वह हूँ जिनको मैं प्यार करता हूँ और वह जिनको मैं प्यार करता हूँ 'मैं' है।^४ उसके अनुसार सर्वोच्च सत्ता बुद्धि में अग्रम्य और अनुपमेय है। दुःख उठाकर आत्म-समर्पण द्वारा ही ईश्वर से सम्मिलन हो सकता है। ईश्वर और मनुष्य के बीच मन्व का भाव ही दुःखदायी है और यह भाव उसी की कृपा में दूर हो सकता है।^५ यह वैधानिक प्रार्थनाओं का बड़ा विरोधी था। ईश्वरीय ध्यान में निमग्नता को ही सबसे बढ़कर प्रार्थना समझता था। इसने प्रत्यक्ष शरीरगत का विरोध किया। स्वयं को ईश्वर कहना एवं पवित्र पुस्तकों के विधानों का विरोध करना ही इसका शत्रु हो गया। धर्मान्ध लोगों को यह पथभ्रष्ट ज्ञात हुआ और इसीलिए इसे मृत्यु-दण्ड भोगना पड़ा। परन्तु निधनोपरान्त इसकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई।

दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दी मुस्लिम जगत् में दार्शनिक, आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक चेटाओं के लिए प्रसिद्ध है। सूफी भी उनसे प्रभावित हुए बिना न रहे। कहा जा चुका है कि हल्लाज दसवीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांग में विद्यमान था। अबू सईद वी अबुल खेर^६ (२६७ से १०४६) प्रथम व्यक्ति था जिमने रहस्यवाद की कविता के विकामार्थ अपनी सर्वोच्छ्रष्ट माहिन्धिक कविनों का प्रयोग किया था।

१ "According to al-Hallaj man is essentially divine because he was created by God in his own image" —(*Arabic Thought and its place in History*, P. 193)

२ "In speaking of Hallaj, I referred to the tradition taken over by the Sufis from Judaism, that God created Adam in His own image" —(*The Idea of Personality in Sufism*, P. 59-60)

३ "in one of his ecstasies he had cried out, 'I am the Truth.'" —(*A Literary History of Persia* P. 428)

४ "I am He whom I love and He whom I love is I." —(*Al-Ghazzali, the Mystic*, P. 234)

५ "Betwixt me and Thee there lingers an 'it is I' that torments me. Ah, of Thy Grace, take away this 'I' from 'between us'" —(*The Legacy of Islam*, P. 218.)

६ "Abu Said be. Abul Khair (A.D. 967-1049) was the first poet who devoted his most brilliant literary powers to the development of mystic poetry" —(*An Introductory History of Persian Literature*, P. 65.)

इसी ने सर्वप्रथम सूफीमत को नैतिक महत्त्व दिया था और इमाम गजाली ने सर्वप्रथम इसे आध्यात्मिक आधार पर स्थित किया था।^१ हम पहले कह आये हैं कि अबू सईद बिन अबुल खैर^२ योगियों की भाँति ध्यान लगाया करता था। इससे ज्ञात होता है कि योगी साधना सुफियों में इससे पूर्व ही पहुँच चुकी थी। इसका^३ कहना था कि रहस्यवादी की यात्रा तो स्वकीय हृदय में होती है तथा यदि ईश्वर ने किसी के लिए भवका का मार्ग निश्चित किया है तो वास्तव में वह व्यक्ति सन्मार्ग से दूर फेक दिया गया है।

ग्यारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अल गजाली ने सूफीमत को दार्शनिक रूप तो दिया परन्तु अर्थिकाशतः इसे धर्म-परायणता से सम्बन्धित कर दिया। मान्य सूफी एवं मान्य धर्मनिष्ठ होने के कारण ही वह तत्कालीन सुफियों का प्रतिनिधि कहा जा सकता है। यही नहीं भावी सूफी सनाई, अत्तार और जलालुद्दीन रूमी ने भी उसी के पद-चिन्हों पर चलना स्वीकृत किया। ये तीनों ही प्रसिद्ध फारसी कवि सुन्नी थे।^४ उनकी कविताएँ अबू बक्र और उमर की प्रशंसाओं से भरी पडी हैं। मुतजिलियों के वे घोर विरोधी थे।

अल गजाली के अनुसार परमात्मा की सत्ता सार्वभौमिक और सार्वकालिक है, उसी के द्वारा अखिल विश्व प्रवर्धित है। फिर भी प्रदर्शित पदार्थों से हम उसे पृथक् नहीं कर सकते। अन एक वास्तविकता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।^५ केवल वही सर्वस्व है। अल गजाली को शिक्षाओं में बायजोद द्वारा प्रतिपादित अद्वैत सिद्धान्त का हम निश्चित रूप पाते हैं, यद्यपि इसका सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता मुहीउद्दीन इब्नुल अरबी था,^६ जो अल गजाली के पश्चात् हुआ। अल गजाली ने ज्ञान को बड़ा महत्त्व दिया है। उसने ज्ञानी को सूर्य और मृगमद के तुल्य बतलाया है जो स्वयं प्रकाशवान् एवं सौरभित होते हुए दूसरों को भी प्रकाश और सौरभ प्रदान करते हैं। वास्तव में उसके अनुसार आत्मोन्नति के लिए आनन्दो का बलिदान

^१ "In the fifth century of Hijara we may note Abul Khair as the first to give Sufism politic significance, and Imam Ghazzali as the first to give it a metaphysical basis."—(*The Persian Mystics, Jalaluddin Rumi, P. 11.*)

^२ *The Spirit of Islam, P. 159*

^३ Abu-Said—"If God sets the way to Mecca before anyone, that person has been cast out of the way to the truth."—(*Studies in Islamic Mysticism, P. 62*)

^४ "In this connection it is notable fact that Sana'i, Attar and Jalaluddin Rumi, the three greatest of the older Persian mystical poets, were all Sunnis; their poems abound with laudatory mentions of Abu Bakr and Umar, and they are the declared foes of Mutazilites."—(*Literary History of Persia P. 437.*)

^५ "So nothing remainth but the one reality"—(*Al-Ghazzali the Mystic, P. 235-36.*)

^६ "The development of Sufi Pantheism comes much later than Hallaj and was chiefly due to Ibnul Arbi (A. D. 1165-1240)."—(*The Idea of Personality in Sufism, P. 27.*)

ही एक सूफी की शक्ति है। अबू-तालिब के समान ही अल गजाली ने भी ज्ञान को एक प्रकाश कहा है जिसे ईश्वर हृदय में प्रक्षिप्त करता है।^१ इसने ज्ञान के अतिरिक्त ध्यान को भी बड़ा महत्त्व दिया है। सर्वश्रेष्ठ ध्यान वही है जिसमें वास्तविकता का साक्षात्कार होता है।

अल गजाली ने ही सूफीमत को मुस्लिम जगत् में एक निश्चित स्थिति प्रदान की थी। इससे पूर्व हम धर्मान्धों ने सूफीमत का प्रवेश मूढम रूप में ही पाते हैं। इसके समय तक नव अफलातूनी मत का पर्याप्त प्रभाव पड़ चुका था क्योंकि तत्कालीन^२ एव तत्पश्चात् सूफी लेखकों की रचनाओं में हम प्लॉटोनस के तथा परमात्माहृद सम्बन्धी सिद्धान्तों के अविराम सकेत देखते हैं। प्लॉटोनस के अनुसार गजाली ने भी परमात्मा को प्रकाशस्वरूप माना है।^३

अल गजाली के ही पदचिन्हों पर चलने वाला फरीदुद्दीन अत्तार था। उसके अनुसार भी परमात्मा ही सबका मूलस्रोत है एव उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं।^४ वह एक गुप्त खजाना है जिसे हम इस दृश्य जगत् में इमे ही साधन बनाकर खोज सकते हैं। परमात्मा एक सत्ता ही नहीं है वरन् एक सकल्य भी है।^५ वास्वव में वही विश्व की आत्मा है। विश्व में जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब नश्वर है परन्तु मानवीय आत्मा अमर है और वह सदा ईश्वर में निवास करेगी। मनुष्य प्रेम की सीढ़ी पर चढ़कर ही उस अन्तिम प्रकाश से एकरूपता पा सकता है। प्रेम निजता और परता से पृथक् हो प्रियतम की ओर बढ़ने का नाम है। यह प्रेम ही मनुष्य को उज्ज्वल बनाकर उत्तरोत्तर उमकी उन्नति का कारण होता है और अन्त में प्रभु का साक्षात्कार कराकर आत्मा को उसमें एकरूपता प्रदान करता है।^६ इस प्रकार प्रेमी प्रियतम में मिलकर प्रेमरूप हो जाता है क्योंकि प्रियतम स्वयं प्रेमरूप है। इस

१ "Knowledge is compared by both Abu-Taub and Al-Ghazzali with a light which God casts into the heart — (*Al-Ghazzali the Mystic*, P. 125.)

२ "From his Time forward we find in Sufi writings constant Allusions to the Plotinian theories of emanation and ecstasy" — (*A Literary History of the Arabs*, P. 393.)

३ "That light, to Al-Ghazzali, as to Plotinus, is the ultimate Reality." — (*Al-Ghazzali the Mystic*, P. 108.)

४ "God, to Attar, is the sole source of all existence — everything is God and there is no other existence but God" — (*The Persian Mystics, Attar*, P. 21.)

५ "God is not only being but Will" — (*The Persian Mystics, Attar*, P. 20-21.)

६ "That Passion of love for God will lead the mystic onward and upward, until purged as by fire from all the dross of self and self seeking, the said can look upon God face to face, and become one with that supreme Reality, which is also Everlasting Love." — (*The Persian Mystics, Attar*, P. 20.)

रति-भाव से प्रभावित अन्तार^१ सघीय प्रार्थनाओं को एक भार और एकान्तवास को सुरक्षा समझता था।

उपर्युक्त विवेचन से हमें ज्ञात होता है कि सूफीमत पर बाह्य प्रभाव कितना दृढ़तम हो गया था। इसमें ईरान का बड़ा हाथ था। वास्तव में इस्लाम का जो पौधा ईरान में लगा वह सूफीमत के विकसित रूप में अपना फल लाया। अरबों ने ईरान के प्रदेश को जीता अवश्य था किन्तु ईरान ने अरब की इस्लामिक सस्कृति पर विजय पाई और अब इस्लाम की दो प्रमुख शाखाएँ स्पष्ट रूप से पृथक्-पृथक् दिखाई देने लगी। एक इस्लामी शरीअत जो अरब में उत्पन्न हुई और दूसरी सूफीमत की तरीकत जो अब ईरान में विशेष रूप से प्रस्फुटित हुई। इस्लामी भावना से अद्वैत अब अपना रूप निखार रहा था परन्तु इसमें प्रेम की मादक लहर ने अभिन्नता होते हुए भी ईश्वर को प्रियतम का रूप दे दिया था और साधना को मधुर बना दिया था।

ईसा की तेरहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विद्यमान स्पेन के प्रमुख रहस्यवादी कवि मुहीउद्दीन इब्नुल अरबी ने अद्वैत को पूर्णतः विकसित किया। इसने एशिया का भी भ्रमण किया। सम्भवतः इसी भ्रमण में उसे अद्वैत सिद्धान्त को सर्वांशतः अध्ययन करने का अवसर मिला हो। इसी कारण स्पेन का सूफीमत प्रधानतः ध्यान-परक था।^२

इब्नुल अरबी ही प्रथम व्यक्ति था जिसने इस सिद्धान्त का नियमानुसार सम्यक् विवेचन किया था कि सृष्टि के समस्त पदार्थ वास्तव में कुछ नहीं बरन् उस लपटा की सत्ता के सार हैं। वह बतलाता है कि पदार्थ निश्चय ही दैवी पूर्वज्ञान से उत्पन्न होते हैं जिसमें वे भावों के समान पूर्ण ही विद्यमान थे।^३ सम्पूर्ण विश्व उसका आत्मप्रदर्शन है। उसके अतिरिक्त कोई वास्तविक सत्ता नहीं। प्लोटीनस का 'एक' कारण रूप से सर्वत्र विद्यमान है जब कि इब्नुल अरबी का 'एक' सार रूप से।^४ उसका कहना है कि भलाई और बुराई परमात्मा से आती है।^५ सभी पदार्थ

^१ "I would that I were ill, so that I need not attend congregational prayers, for there is safety in solitude"—(*A Literary History of Persia* P. 126.)

^२ " . . Spanish Sufism was essentially speculative"—(*Arabic Thought and its place in History*, P. 204.)

^३ "He teaches in fact that things necessarily emanate from divine prescience in which they pre-existed as ideas"—(*The Encyclopædia of Islam*, P. 684.)

^४ "Plotinus' One is everywhere as a Cause, Ibnul-Arabi's One is everywhere as an essence"—(*The Mystical Philosophy of Muhriddin Ibnul-Arabi*, P. 11)

^५ "Ibnul-Arabi Adds that ultimately both good, evil come from God."—(*The Mystical Philosophy of Muhriddin Ibnul-Arabi*, P. 159.)

उसी के प्रदर्शन है अतः सभी कार्य उसी के कार्य हैं, जिनमें से कुछ को हम उत्तम और कुछ को हम मध्यम सजा देने हैं। भजे-बुरे सभी विषयों से विमुख अन्तर्दृष्टि द्वारा ही पुरुष उसे देख सकते हैं जो विचारों से परे है। इब्नुल अरबी ईश्वर में लय रूप फना के सिद्धान्त को एक क्रमिक विकास मानता है जिसमें नान स्थितियाँ होती हैं और इन्हीं स्थितियों में रहस्यवादी अन्तर्दृष्टि द्वारा ईश्वर के साथ अपने सम्बन्ध को जानता है। वे स्थितियाँ इन प्रकार हैं—(१) पाप से मुक्ति, (२) कर्म से मुक्ति, (३) गुणों से मुक्ति, (४) व्यक्तित्व से मुक्ति, (५) भौतिक जगत् से मुक्ति, (६) ईश्वरेतर सत्ता से मुक्ति, और (७) ईश्वरीय गुणों एवं उनके सम्बन्धों से मुक्ति। इस फना के सिद्धान्त में और बौद्धों के निर्वाण में हम बहुत दूर तक साम्य देखते हैं।

तेरहवीं शताब्दी में ही मिश्र में अरबी रहस्यवादी कवि इब्नुल फारिद हुआ। उसने अनुभव को तीन विभागों में विभक्त किया—प्रथम साधारण, द्वितीय असाधारण और तृतीय अलौकिक।^१ प्रथम में चैतन्य साधारण स्थिति में रहता है, द्वितीय में वह परमाल्हाद में निमग्न हो जाता है और तृतीय में एकरूपता होती है। उसने अपनी रहस्यगूढ़ चेतना को वह अनुभव बतलाया है कि जिसमें इन्द्रियाँ पारस्परिक चेष्टाएँ करने लगी—आँख वार्तालाप करने लगी तो जिह्वा देखने लगी, कान बोलने लगा तो हाथ सुनने लगा, कान ने देखना प्रारम्भ किया तो आँख ने सुनना प्रारम्भ कर दिया।^२

अरबी रहस्यवादी काव्य फारसी की अपेक्षा अपकृष्ट है।^३ यही कारण है कि इब्नुल फारिद तत्कालीन फारसी कवि जलालुद्दीन रूमी की समानता न पा सका। यद्यपि यह एक धर्मनिष्ठ सुन्नी था, तथापि यह सूफीमत के स्वर्णयुग का अन्तिम कवि कहलाता है।^४ यह बलख का निवासी था और बलख में एक बौद्ध मठ विद्यमान था अतः इसने निर्वाण के सिद्धान्त का पूर्ण अध्ययन किया होगा। इसके अनुसार^५

^१ "Ibnul-Farid (an Arabian mystic of the early 13th Century) distinguishes three modes of experience, which may be called respectively normal, abnormal, and super normal"—(*The Idea of Personality in Sufism*, P. 19.)

^२ "My eye conversed whilst my tongue gazed,
My ear spoke and my hand listened,
And whilst my ear was an eye to behold everything visible
My eye was an ear listening to song" —(*The Legacy of Islam*, P. 210)

^३ "The Mystical Poetry of the Arabs is far inferior as a whole, to that of the Persian."—(*A Literary History of the Arabs*, P. 325)

^४ *Arabic Thought and its place in History*, P. 201.

^५ "It is the way that leads away from self, through repentance, renunciation, trust in God (Tawakkul,) recollection (Zikr) to ecstasy and union with God."—(*The Influence of Islam*, P. 170)

परमाल्हाद एवं ईश्वर से ऐक्य की प्राप्ति का मार्ग पञ्चात्ताप, त्याग, ईश्वर में विश्वास और जाप है। अन्तिम स्थिति फना है जो फना-अल-फना में पर्यवसित होती है। किन्तु यह बौद्धों के निर्वाण के सर्वांशत समान नहीं है।

रूमी ने भी विश्व को उसी ईश्वर का प्रदर्शन माना है। यह सारा विश्व उसी का दर्पण है। किन्तु उसे वही देख सकता है जिसकी अन्तर्दृष्टि उज्ज्वल हो गई है।^१ ईश्वरीय प्रकाश ही बौद्धिक प्रकाश को प्रकाशित करता है।^२ जबकि बौद्धिक प्रकाश हमें अवनति की ओर आकृष्ट करता है, ईश्वरीय प्रकाश उन्नति की ओर। साधु पुरुषों का हृदय ही पूजालय है, जहाँ ईश्वर निवास करता है।^३ साधु-हृदय देवालय होते हुए भी रूमी के अनुसार मानवीय इच्छा दैवी इच्छा के आश्रित है,^४ अतः मनुष्य अपने कर्मों के उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। ईश्वर के सम्बन्ध से बुराई अवास्तविक हो सकती है परन्तु मनुष्य के सम्बन्ध में इसकी सत्ता अवश्य है।

रूमी के अनुसार प्रेम ईश्वरीय रहस्यों के प्रकाशन का एक साधन है। इस प्रेम की मादकता में 'मै' और 'तू' की भेद-बुद्धि की विहीनावस्था के क्षण को ही रूमी^५ ने आनन्द का क्षण कहा है जिसमें दो आकृतियों में भी एक ही आत्मा व्याप्त होती है। प्रेमी की प्रियतम के प्रति विकलता सूफियों में प्रसिद्ध ही है। परन्तु रूमी का कहना है कि प्रेमी ही अपने प्रियतम से एकाकार होना नहीं चाहता वरन् प्रियतम भी उससे एक हो जाना चाहता है।^६

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेममयी जिस अद्वैत की साधना का उद्भाव हुआ था उसका पूर्ण विकास रूमी तक हो जाता है। इसके पश्चात् जिली, जामी आदि सभी सुफियो ने पूर्व भङ्गत स्वर ही अलापा। रूमी ने दो आकृतियों में एक आत्मा रूप जिस अद्वैत भावना को उद्गारित किया था, जिली को भी चौदहवीं शताब्दी में हम

^१ The world is God's pure mirror clear,
To Eyes when free from clouds within."—(*The Persian Mystics, Jallaluddin Rumi, P. 63.*)

^२ " 'tis God's Light that illumines the sense's light,
That is the meaning of 'Light upon Light.'
The sense's Light, draws us earthwards.
God's light calls heavenwards "—(*The Persian Mystics, Jallaluddin Rumi, P. 97.*)

^३ "The Mosque that is build in the hearts of samts is the place of worship for all. for God dwells there "—(*The Idea of Personality in Sufism P. 57.*)

^४ "Like other Sufis, Jalal believed that human will is subordinate of the Supreme will."—(*Outlines of Islamic Culture, P. 523.*)

^५ "Happy the moment when we are seated in the palace, thou and I with Two forms and with Two Figures but with one soul thou and I."—(*The legacy of Islam, P. 219.*)

^६ "No lover ever seeks union with his beloved,
But his beloved is also seeking union with him."—(*The Persian Mystics, Jallaluddin Rumi, P. 76.*)

वही कहता पाते हैं कि हम दो शरीरों में एक प्राण है ।^१ पन्द्रहवीं शताब्दी में ज़ामी भी इन्हीं शब्दों की पुनरावृत्ति-सी करता हुआ कहता है कि जहाँ भी^२ आवरण दृष्टि-गोचर होता है उसके पीछे वही छिपा हुआ है तथा वही कोष है और वही कोषागार है, वहाँ 'मै' और 'तू' के लिए स्थान नहीं है क्योंकि ये दोनों केवल भ्रम हैं ।

सूफीमत के विकास-काल में ही पीरी-मुरीदी के आधार पर अनेक सम्प्रदाय स्थापित हुए । अनेक प्रतिष्ठित सन्तो ने स्वकीय मतानुसार आध्यात्मिक शिक्षा के प्रचारार्थ इनकी स्थापना की । ए० एम० ए० शूफ्टरी ने लिखा है कि इनकी संख्या १७५ से भी अधिक है ।^३ परन्तु वे सभी गण्य नहीं हैं । उनमें से कादरी, तेफ़ूरी, जुनेदी, नक्शबन्दी, शाधिली, शत्तारी, मौलवी और चिश्ती अत्यन्त प्रसिद्ध हैं ।

ईसाई एवं बौद्ध मठाधिकारिता की भाँति इन सम्प्रदायों ने भी इस प्रथा को अपनाया । इनमें से अनेक अवान्तर सम्प्रदाय भी थे । ये सभी अपना सम्बन्ध किसी-न किसी खलीफा या मान्य सूफी सन्त से जोड़ते थे । बहुतों ने स्वयं पैगम्बर साहब को ही अपनी परम्परा का आदिपुरुष कहा है ।

स्त्री, पुरुष समानरूप से ही इन सम्प्रदायों में प्रवेश पाते थे । रोमन ईसाइयों की भाँति इस्लाम में ऐसा भेद नहीं माना गया है कि एक स्त्री उपरोहिती नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ न कोई उपरोहित है और न कोई सामान्य जन ।^४ इस्लाम में प्रारम्भ से ही स्त्री की अधिक प्रतिष्ठा रही है । राबिया सूफियों में एक सम्मानित स्त्री हुई है । रूमी ने स्त्री को केवल गृहपत्नी या प्रेमिका ही न बतलाकर ईश्वरीय प्रकाश की एक किरण कहा है, जो मानो स्वयं स्रष्टा की आत्मा है न कि एक साधारण प्राणी ।^५ कुछ आध्यात्मिक परीक्षाओं को पास कर लेने पर पुरुषों की भाँति स्त्रियों को भी एक प्रमाणपत्र दिया जाता था ।^६ अनेक स्थलों पर मठ बने हुए थे, जिनमें मुरीदो

1 "We are the spirit of one though we dwell by turns in two bodies."—*(Studies in Islamic Mysticism, P. 80.)*

2 "Where'er a veil thou seest

Behind that veil He hides,

"He is Loth, Treasure and Casket there is no place for I and thou which are but phantasies — *(Al-Ghazzali the Mystic, P. 236.)*

3 "Sufi orders are numerous, reaching the large number of over 175" — *(Outlines of Islamic Culture, Vol 2, P 476)*

4 "The distinction of Roman Christianity, that a woman cannot be a priest, does not exist for Islam, as there is neither priest nor layman there."— *(The religious attitude and life in Islam, P. 165.)*

5 "Women is a ray of God, not a mere mistress, The Creator's self, as it were, not a mere creature.— *(The Persian Mystics Jalaluddin Rumi, P. 69)*

6 "Both men and women were admitted into the order, and Khirqa or a certificate of passing Sufi trials, was granted to ladies also."— *(Outlines of Islamic Culture, Vol. 2, P. 471.)*

(शिष्यों) को शख (गुरु) के समक्ष कर्तव्यशील एवं आज्ञापालक रहने की शपथ लेकर कुछ वर्ष अध्ययन करना पड़ता था । कुछ सम्प्रदायों में अविवाहित जीवन को श्रेष्ठ समझा जाता था परन्तु अधिकांशतः इस विचार को मान्यता प्राप्त न हुई ।

सम्प्रदायों में विभिन्नता द्रोते हुए भी मूल सिद्धान्तों की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं । केवल कालानुसार व्याख्या के अन्तर से अन्तर आ गया है । इनमें अपने कुछ अभ्यास होते थे जिन्हें वे कठोरता से पालन करते थे । एकान्तवास, मौन, स्वाध्यायय जप एवं ध्यान को बड़ा महत्त्व दिया जाता था । जुनेद^१ ने अपने सूफीमत को आत्म-समर्पण, उदारता, धैर्य, मौन, विरक्ति, ऊनी वस्त्र, यात्रा एवं निर्धनतारूप उन श्रेष्ठ गुणों पर आश्रित किया था, जिनका आदर्श इस्माक, अब्राहम, अयूब, जकरिया, मूसा, ईसा, यही और मुहम्मद साहब में विद्यमान था । सालिक (नव शिक्षित) को इनमें से एक को अपनाता पड़ता था, जिसके द्वारा वह लक्ष्य-सिद्धि की ओर बढ़ता था । प्रायः सभी सम्प्रदाय इन्हीं या ऐसे ही गुणों का आचरण परमावश्यक समझते थे ।

1 "Junayid, for example, based his Tasawwuf on eight different qualities of the mind, viz. submission, liberality, patience, silence, separation (from the world), wollen dress, travelling, poverty,—as illustrated in the lives of Issac, Abraham, Job, Zachariah, Moses, Jesus and the seal of Prophets"—(*Islamic Sufism*, P. 21)

तृतीय पर्व सूफी आस्था

जो सासारिक पदार्थों से मन हटाकर ईश्वर के सौन्दर्य पर मुग्ध हो उम्मे प्रेम करने लगा है वही सूफी है । एक सूफी के मार्ग पर ससीमता से अससीमता प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान में चार स्थितियाँ होती हैं ।¹ प्रथम शरीरगत है । इसमें मनुष्य ईश्वर की सत्ता में प्रभावित होकर उसके भय में भीत और वैभव से विस्मित होता है । द्वितीय स्थिति तरीकत है । इसमें विवेक की प्राप्ति होती है जिससे मनुष्य भले-बुरे, ऊँच-नीच एवं कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य को पहचानने लगता है । तृतीय हकीकत है, जिसके द्वारा मनुष्य विश्व सत्ता की वास्तविकता को पहचानता है । चतुर्थ स्थिति मारिफत है । यह वह ज्ञान है जिससे वह ईश्वर को सत्यरूप में जानता है ।

वास्तव में मनुष्य के जीवन का ध्येय ही स्वकीय सत्ता के महत्व से परिचित होकर अपने मूल तत्त्व को जानना है । 'मे कौन हूँ', 'मेरा उद्गम कहाँ से हुआ है', 'यह दृश्य जगत् क्या है', 'मेरा इससे क्या सम्बन्ध है', 'कौन-सी शक्ति है जो निखिल चेष्टा का कारण है'. इत्यादि प्रश्नों का समाधान कर अन्तरात्मा इस परिणाम पर आती है कि एक महती व्यापक शक्ति अवश्य है, जिसकी सत्ता से विश्व सत्तावान् है तथा जो स्वयं अदृश्यरूप से नाना रूपों में प्रदर्शित है ।

सूफी के लिए मसार दैवी प्रदर्शन है ।² वह प्रेमी अलक्ष्य होते हुए भी अपने सौन्दर्य पर स्यय मुग्ध है अन उसने मुग्धतावश ही अपना रूप निहारने के लिए यह ठाठ रचा है । प्रभातोदय, सध्याकालीन मेघमालाये, हिमाच्छादित पर्वतशिखर, कलकल नादकारी प्रपात, तरंगित सरिताएँ, अपार अथाह समुद्र, प्रकाशपुज दिवाकर, चन्द्रिकामय चाँद, रात्रि में तारो भरा निस्सीम गगन, नाना सुमनो की सुषमा से सज्जित कुसुमाकार एवं विविध पशु-पक्षी आदि सभी उसके लिए अपार सौन्दर्यमयी विभूति का आभास देते हुए जान पड़ते हैं । सभी उसी सौन्दर्य पर मुग्ध, उसी की स्मृति में विकल एव उसी की खोज में चेष्टावान्-से दीख पड़ते हैं । यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि एक सूफी प्रकाश में तो प्रकाश देखता ही है परन्तु अन्धकार में भी प्रकाश देखता है । कहने का तात्पर्य यह है कि उसे प्रकृति-सौन्दर्य में तो ईश्वर

1 "There are four paths or stages that lead a person into spiritual knowledge from the limited to the unlimited."—(*In an Eastern Rose Garden*, P. 41.)

2 "The universe as a whole, according to him, is the product of God's spontaneous yet necessary activity of Self-realisation or Self-Manifestation."—(*The Mystical Philosophy of Muhyiddin Ibnul-Arabi*, P. 24.)

की आभा दिखलाई देनी ही है परन्तु प्रकृति के चण्ड स्वरूप में भी उसे भगवान् का प्रेमस्वरूप ही दीखता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सूफीमत में सौन्दर्य सत्ता के दो रूप हुए, एक मधुर दूसरा प्रचण्ड, एक जमाल दूसरा जलाल अथवा एक शिव दूसरा उग्र। उसके लिए सारी प्रकृति एक पुस्तक है, जिसका एक-एक पृष्ठ प्रत्यक्ष भी अप्रत्यक्ष है, स्पष्ट भी अस्पष्ट है, इसलए कि वह दृष्टि डालता अवश्य है, परन्तु सर्वत्र रहस्य-ही-रहस्य दृष्टिगोचर होता है। अखिल शब्दावली दीप्तिमती होती हुई भी इतनी सूक्ष्म अंकित है कि प्रकाश-पुञ्ज के अतिरिक्त कुछ भी भान नहीं होता। दंभ-सा पारदर्शक जगत् भी इस विभूति के कारण स्वच्छ होता हुआ भी इतना गुम्फित दीख पड़ता है कि उसकी आँखें चौधिया जाती हैं और बुद्धि विस्मित हो जाती है। इसीलिए सारा विश्व उसके लिए रहस्यमय हो जाता है।

इस प्रकार ज्ञात होता है कि एक सूफी को व्यापक दैवी सत्ता पर विश्वास लाना परम आवश्यक है क्योंकि उसके अभाव में विश्व-सत्ता ही नहीं रहती। विश्व-सत्ता नहीं तो आत्म-सत्ता भी नहीं और इस प्रकार सम्पूर्ण आध्यात्मिक भवन ही धराशायी हो जाता है। फिर कौन प्रेमी और कौन प्रियतम, कौन आराधक और कौन आराध्य? अतः ईश्वरीय सत्ता ससार-सत्ता का अनिवार्य कारण है। इस्लाम की शिक्षा ईश्वर में विश्वास, निर्णय का दिन तथा कर्तव्य इन तीन नियमों पर ही निर्भर है। कुरान में कहा है कि मुस्लिम हो या यहूदी, ईसाई हो या सैबियन, कोई भी क्यों न हो जो ईश्वर, निर्णय के दिन, एव भलाई में विश्वास करता है उसे कोई भय नहीं तथा उसे अवश्य ही शुभ प्रतिफल मिलेगा।¹

ईश्वर पर विश्वास लाकर मुस्लिम होता हुआ भी एक सूफी केवल मुस्लिम सम्प्रदाय का ही नहीं रहता। उसकी उदार आस्था हृदय को इतना विशाल बना देती है कि उसमें विश्व के लिए स्थान हो जाता है। जब सारी प्रकृति विविध रूपों में भरे लाक्षण्य द्वारा उस लावण्यमयी सत्ता का आभास देती हुई उसके नेत्रों के समक्ष खड़ी है जिसमें उसका प्रियतम मोहक मौन आकृति से भाँकता-सा दीख पड़ता है तब उसे बाह्य भेद कैसे दृष्टिगोचर हो सकते हैं। वह तो यह जान चुका है कि सत्य एक है अतः ईश्वर भी एक है। यही कारण है कि वह उस मार्ग को अपनाता है जिस पर पग रखते ही उसे परमात्मा की सार्वभौमिक विद्यमानता का सचेतन भान होता है। उसके जीवन का परलक्ष्य यथार्थता की चरमावस्था को जान लेना ही हो जाता है।

¹ "Lo! those who believe (in that which is revealed unto thee, Muhammad), and those who are Jews, and Christians and Sabaeans whoever believeth in Allah and the Last day and do right, surely their reward is with their Lord, and there shall no fear come upon them, neither shall they grieve."—*The Glorious Quran, S. 2, 62.*

जब नेत्र और श्रोत्र दोनों ही उसके रूप-मधु के पायी है तब द्वित्व का भान कहाँ ? सारा विश्व एक सूत्र में ग्रथित-सा जान पड़ता है। निज-पर का भाव भी विलीन हो जाता है अतः चतुर्दिक देशों में एकदेशता, जातियों में एकजातीयता एवं विविध मतों में एकरूपता प्रतीत होने लगती है। विश्ववधुत्व का भाव उसके हृदय में जागृत हो जाता है। भूमि के भिन्न-भिन्न कोणों में हुए सभी देवदूत उसे एक ही बात कहते हुए सुनाई देते हैं। नूफियों के लिए कुरान धर्मनिष्ठों के ग्रंथों में वेद-वाक्य न रहा हो परन्तु वह भी यही कह रहा है कि ओ मुसलमानों ! कहो कि हम ईश्वर में विश्वास करते हैं तथा उसमें विश्वास करते हैं जो अब्राहम, इस्माईल मूसा, ईसा आदि सभी पैगम्बरों में प्रकट हुआ था, क्योंकि हम उनमें से किसी में अन्तर नहीं देखते।^१

उपर्युक्त विवेचन से जान पड़ता है कि सूफीमत का सारा ढाँचा ईश्वर पर ही आश्रित है, अतः सर्वप्रथम ईश्वरीय स्वरूप को जानना ही उचित है।

कुरान के अनुसार ईश्वर सृष्टि का कर्ता है।^२ वह एक है, उसके अतिरिक्त कोई अन्य परमात्मा नहीं।^३ वह नित्य और सर्वशक्तिमान है। वही स्वच्छन्द होता हुआ भी दयालु है।^४ पथ-प्रदर्शक तथा सरक्षक भी वही है। वह दृष्टा, श्रोता एवं साक्षी है और स्वतः पूर्ण है।^५ वह सर्वतः पर है और सर्वज्ञ है।^६ न उसका आदि है और न अन्त।^७ वही सर्वोच्च सत्ता है, जो अप्रत्यक्ष भी प्रत्यक्ष है। विश्व का कण-कण उसी का प्रदर्शक एवं उसी का परिचायक है। वह सर्वोत्कृष्ट है, समृद्धिवान् है, विजेता है और महान् है। ससार का सर्वोपरि हितकारी तथा श्रेष्ठ न्यायकारी भी वही है। सर्व पदार्थ उसी में उत्पन्न हुए हैं और अन्त में उसी को चले जायेंगे।^८ वह सौंदर्य रूप है।^९ वह

1 "Say (O Muslims), We believe in Allah and that which is revealed unto us and that which was revealed unto Abraham, and Ismail, and Issac, and Jacob, and the tribes and that which Moses and Jesus received, and that which the prophets received from their Lord We make no distinction between any of them, and unto Him we have surrendered."
—(The Glorious Quran, S.2, 136)

2 "Allah is the creator of all things, and He is the One the Almighty"
(The Glorious Quran, S. 13, 16.)

3 "Allah there is no God save Him, the Alive, the Eternal."—(The Glorious Quran, S. 3, 2.)

4 "Allah is Absolute, Clement"—(The Glorious Quran, S. 2, 263)

5 "Allah is Hearer, Knower"—(The Glorious Quran, S. 2, 224)

6 "Allah is All-embracing, All-knowing."—(The Glorious Quran, S. 2, 261.)

7 "He is the first and the Last. . ."—(The Glorious Quran, S. 57, 3.)

8 "Unto Allah belongeth whatsoever is in the heaven and whatsoever is in the earth; and unto Allah all things are returned."—(The Glorious Quran, S. 3, 109.)

9 "Allah is of infinite beauty."—(The Glorious Quran, S. 62, 4.)

दङ^१ मे कठोर है परन्तु जो उसमे विश्वास करते हैं और सन्मार्ग पर चलते हैं वे आनन्द का उपभोग करते हैं।^२

उपरिलिखित गुणों के अतिरिक्त ईश्वर के और भी अनेक गुण कुरान मे लिखे हैं। यद्यपि सूफीमत की आस्था का मूलतः आधार कुरान मे प्रतिपादित ईश्वर ही था, तथापि स्वतन्त्र चिन्तन एव बाह्य प्रभाव ने उसे भिन्न ही रूप दे दिया। पूर्व विवरण से ज्ञात होता है कि कुरान का ईश्वर सगुण है। कुरान मे जो उसके सिंहासन का वर्णन है उससे ज्ञात होता है कि वह एक स्पर्धातीत सर्वोपरि शासक है। उसकी समृद्धि और वैभव अपरिमेय है। उसकी एक भृकुटि सृष्टि का संहार कर सकती है और प्रसाद की एक कोर ध्वंसों पर प्रासादों का कारण बन सकती है। ज्ञात होता है कि वह एक ऐसा नटवर है जिसकी इच्छा-मात्र से उत्पन्न हुई सृष्टि-नटी सदैव जिसके सकेत पर नृत्य करती रहती है एव ऐसा सूत्रधार है जो एक स्थान पर आसीन हुआ भी समस्त ब्रह्मांड को पुतलियों की भाँति नचाता रहता है। अनेक देव सदैव जिसकी आज्ञा में खड़े रहते हैं तथा जो स्वयं ससार मे न आकर समय-समय पर देवदूतों को भेजा करता है।

इस्लाम मे ईश्वर के इन सब गुणों को आत्म-तत्त्व के साथ नित्य माना गया है।^३ सूफियों ने ईश्वर को रम्यातिरम्य प्रियतम मानते हुए भी कुरान की भाँति साकार-सा नहीं माना, क्योंकि वह किसी निश्चित स्थान पर स्थित न हुआ मन-मन्दिर में ही राजित है। वह चर्मचक्षुओं का विषय नहीं वरन् अन्तर्दृष्टि द्वारा प्रकाश रूप मे अनुभूत होता है। सूफी ईश्वर के गुण और नामों को पर्यायवाची नहीं मानते क्योंकि गुण स्वाभाविक होते हैं और नाम वाचक तथा काम भी व्यक्तित्व शै ही सम्बन्ध रखते हैं।^४ जिली ने उसके गुणों को चार भागों मे विभक्त किया है, (१) भाव-गुण, यथा—एक, नित्य और सत्य, (२) सौन्दर्य गुण (जमाल) यथा—क्षमाशील, ज्ञाता और पथ-प्रदर्शक, (३) गौरव-गुण (जलाल) यथा—सर्वशक्तिमान, दंडप्रदाता, (४) पूर्णता-गुण (कमाल) यथा—महान्, अनन्त एवं दिभु।^५

१ "Allah is Severe in punishment."—(*The Glorious Quran*, S. 3, 11.)

२ "Those who believe and do right —Joy is for them, and bliss (their) journey's end."—(*The Glorious Quran*, S. 13, 29)

३ "Orthodox Islam held that God has qualities existent, eternal, added to His essence."—(*Development of Muslim Theology*, P. 159)

४ "According to him Attributes are intrinsic and names descriptive, the former relating to the nature, the latter to the Aspect of the being described, works again relate to the individuality"—(*Oriental Mysticism*, P. 27-28.)

५ "Jilli makes fourfold division of the Divine Attributes —(1) attributes of the Essence, e.g. One, Eternal, Real, (2) attributes of Beauty (jamal) e.g. forgiving, Knowing, guiding aright, (3) attributes of Majesty (jalal), e.g. Almighty, Avenging, Leading astray, (4) attributes of Perfection (Kamal), e.g. Exalted, Wise, First and Last, Outward and Inward."—(*Studies in Islamic Mysticism*, P. 100)

परमात्मा का स्वरूप मानवीय विचार में परे है क्योंकि वह बुद्धिगम्य नहीं। वह तो प्रेम और तल्लीनता द्वारा ही वेद्य है और इन गुणों को भी वही देता है। वास्तव में ईश्वर अनुपम है क्योंकि उसका स्वरूप बुद्धि एवं रसना का विषय नहीं है। यदि उसे विचित्र कहे तो अनुचित न होगा। वह निकटतम है फिर भी पृथक् है एवं दृश्य भी अदृश्य है। सहजों ने उसे जाना है परन्तु पहचाना थोड़ों ने है। वह मुखर भी मौन है, प्रसन्न भी विपन्न है, धनाढ्य भी निर्धन है और राजा भी रंक है। पतितों का पाता और दलितों का उद्धारक है तो अभिमानियों का मानभ्रंशक और आततायियों का अभिभावक है। कहने का तात्पर्य है कि जब नसार उत्ती प्रकाश-पुत्र की एक रश्मि का प्रतिबिम्ब है तब वही सर्वत्र है। उसके अतिरिक्त है ही क्या? शिब्ली ने कहा कि मैं परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता हूँ।^१ मुहीउद्दीन इब्नुल अरबी ने भी यही कहा है कि ईश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं है।^२ दृश्य जगत् तो स्वप्न एवं छाया के तुल्य है अतः ज्ञानी इसमें भ्रमित नहीं होते।^३

सारा विश्व उसी का प्रदर्शन होने के कारण ईश्वर एक भी है और अनेक भी। वही सत्य है और विश्व का सार है अतः एक है तथा नाना रूपों में प्रदर्शित वही अनेक है। सूफीमत में एकत्व से तात्पर्य दो पदार्थों के मिश्रण रूप ईश्वर और जीव का मिलन नहीं वरन् अद्वैत की भावना से है जिसमें 'मैं' और 'तू' में कोई अन्तर नहीं रहता। कुरान का यह सिद्धान्त कि 'केवल एक ही ईश्वर है' सूफियों के हाथ में आकर इस प्रकार बन गया कि 'केवल ईश्वर ही वास्तविक है और कुछ नहीं'। अतः वही एक सर्वत्र और सर्वरूप है। कुरान में भी ईश्वर को सत्य^४, धावापृथ्वी की ज्योति^५ एवं व्यापक सर्वोच्च सत्ता^६ कहा गया है।

परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए कि वह मल शक्ति है, व्यापक होते हुए भी सूक्ष्म है, अज्ञ और अकारण है तथा स्वयसिद्ध है। वह एक अदृश्य और अपूर्व खजाना है जो इस विश्व में बिलखा पड़ा है क्योंकि विश्व उसी की पूर्णता का प्रदर्शन है। अच्छाई की सत्ता है क्योंकि ईश्वर स्वय अच्छाई है। वह प्रकाश रूप है अतः सुन्दर-तम है। विश्व का सौन्दर्य भी उसी का सौन्दर्य है।

^१ Shibli says "I never see anything but God"—(*Outlines of Islamic Culture*, P. 503.)

^२ "There is nothing but God, nothing in Essence other than He, . ." (*The Mystical Philosophy of Muḥammad Ibnul-Arabi*, Page 55)

^३ "It is as dreams when one sleepeth, or a fleeting shadow, The wise are not deluded by such as these."—(*Al-Ghazzālī the Mystic*, P. 156.)

^४ "He is the Truth."—(*The Glorious Quran*, S. 12. 6)

^५ "Allah is the Light of the heavens and the earth."—(*The Glorious Quran*, S. 24. 35)

^६ "Lo! Allah is All-Embracing."—(*The Glorious Quran*, S. 2, 116.)

इस ईश्वर को अभेद रूप से जानना ही सूफी का लक्ष्य है। आत्मा और परमात्मा में वस्तुतः कोई अन्तर नहीं है। जिली ने कहा है कि हम एक ही की आत्मा हैं यद्यपि दो शरीरों में रहते हैं।^१ वास्तव में जुनेद के अनुसार ऐक्य की पूर्णता का अनुसन्धान उसी में होता है जो न जनक है और न जन्य।^२ सम्पूर्ण प्रकृति भी हमें ऐक्य का ही पाठ पढा रही है। प्रश्न उठता है कि जब वही है, तब कर्त्ता-कार्य, पुण्य-पाप आदि में भेद क्यों? इसका यही उत्तर है कि उसकी इच्छा ही चेष्टा का कारण है। भलाई यदि उसका रूप है तो, बुराई उसका अभाव यथा तमस प्रकाश का। अन्तार का कथन है कि पाप अस्त है क्योंकि सब कुछ ईश्वर से ही आता है।^३ इस प्रकार ऐक्य की भावना से ओत-प्रोत सूफी-हृदय आरम-स्रोत की गवेषणा में निमग्न होता है। वह अपने में ही अपने को खोजता है। प्रारम्भ में वह बुद्धि से कार्य अवश्य लेता है परन्तु उसे सचाई की खोज में असमर्थ और केवल मार्ग-प्रदर्शिका ही जानकर त्याग देता है और परमात्मा के द्वारा ही परमात्मा को जानने में सफल होता है।^४

यह पहले कहा जा चुका है ईश्वर ने ही सृष्टि का सृजन किया। कुरान के अनुसार ईश्वर ने 'कुन' (होजा) शब्द मात्र से विश्व का निर्माण किया था।^५ इसमें ईश्वर की इच्छा का प्राधान्य था। सृष्टि पूर्व से ही उसके ज्ञान में विद्यमान थी। आदिम सूफियों ने इसकी उत्पत्ति ईश्वरीय प्रकाश से मानी थी।^६ अधिकांश सूफी तथा एकेश्वरवादी विश्वोत्पत्ति के चार कारण मानते हैं, उनमें प्रथम ईश्वर का स्वभाव है, दूसरा निर्माणकर्त्ता आत्मा, तीसरा अदृश्य जगत् और चौथा सचेतन सत्कार है। यह सिद्धान्त कुरान और हदीस के विरुद्ध है। एकेश्वरवादी इन कारणों में पूर्वा-परता नहीं मानते, क्योंकि अभाव का भाव नहीं हो सकता परन्तु सूफी लोगो का विश्वास है कि ये सहवर्ती नहीं वरन् क्रमशः होते हैं।^७

सृष्टि के विषय में अनेक मत हैं। अद्वैत में द्वैत को स्थान नहीं है अतः

^१ "We are the spirit of One though we dwell in two bodies."—(*The Legacy of Islam*, P. 219.)

^२ Junayid says that a man who believes in unity must investigate the perfection of the idea of unity in one which neither begets nor is be-gotten...."—(*Outlines of Islamic Culture*, Vol. 2, P. 486-487)

^३ Evil is non-existent, because all comes from God ."—(*The Persian Mystics*, Attar, P. 21.)

^४ Abul Husain Nuri of Khorassan (d. 907 A. D.) says.—"you will know God through God Himself."—(*Outlines of Islamic Culture*, Vol. 2, P. 464.)

^५ "Allah createth what He will. If He decreath a thing, He saith unto it only: Be! and it is."—(*The Glorious Quran*, S. 3. 47)

^६ "Creation," asserts Qadri Sufi Saint, "derives its existence from the radiance of God."—(*Islamic Sufism*, P. 31.)

^७ The Sufis maintain that these four sources have a precedence the one over the other, both of time and place."—(*Oriental Mysticism*, P. 40.)

सिद्धान्ततः सृष्टि की सत्ता मानते हुए भी उसे स्वप्नवत् माना गया है। हल्लाज का कहना है कि सृष्टि से पूर्व ईश्वर स्वयं को ही प्यार करता था और इसी प्रेम के कारण उसने अपने लिए अपने को प्रकट किया।^१ अतार भी सृष्टि की पृथक् सत्ता नहीं मानता। दृश्य जगत् उस विभूति की खोज का साधन मात्र है।^२ अधिकांश सूफियों का कथन है कि निखिल विश्व उसी का प्रदर्शन है। वही अपने महान् सौन्दर्य में अदृश्य भी दृश्यमान है। वास्तव में विश्व ईश्वर का एक स्वच्छ दर्पण है। परन्तु रूमी के अनुसार यह उसे ही ज्ञात होता है जिसकी आँखों पर से आवरण हट गया है और अनुराग ने मार्जन कर जिसकी अन्तर्दृष्टि को पारदर्शी बना दिया है।^३

परमात्मा ने सर्वप्रथम सृष्टि में आदम को बनाया। वह उसी का प्रतिरूप था जिसमें उसने अपनी आत्मा को डाला था।^४ कुरान में भी ऐसा ही कहा गया है।^५ परमात्मा शाश्वत सौन्दर्य है और सौन्दर्य का स्वभाव स्वयं प्रकाशित होना एवं प्रेम का विषय बनना है। इस प्रकार सूफी लोग अपने सिद्धान्त को प्रेम पर आधारित करते हैं। प्रेम का ही परिणाम है कि ईश्वर मानवीय साकार रूप में आया।

मानवीय आत्मा का विवेचन सूफीमत में कुछ अस्पष्ट-सा है। इब्नुल अरबी सर्वप्रथम सूफी था जिसने मनुष्यता के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया था।^६ इससे पूर्व हल्लाज ने इस परम्परा को कि ईश्वर ने आदम को अपने प्रतिरूप बनाया था, इस प्रकार व्याख्यात किया था कि परमात्मा ने आदम में स्वयं को प्रदर्शित किया था जो देवी और मानवीय दोनों प्रकृतियों का आदर्श था।^७ वह नासूत (मानवीय प्रकृति) को लाहूत (ईश्वरीय प्रकृति) से किसी प्रकार भिन्न मानता है।^८ यद्यपि रहस्यरूप में ये संयुक्त है, तथापि एकरूप नहीं है। संपृक्तावस्था में भी व्यक्तित्व पृथक् ही

१ "According to Hallaj the essence of God's essence is Love. Before the creation God loved Himself in absolute unity and through love revealed Himself to Himself Alone." (*Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol. 12, Page 14-15.)

२ "He is hidden treasure, and the visible world is a means whereby we may discover him."—(*The Persian Mystics*, Attar, Page 21.)

३ "The world is God's pure mirror clear,
To eyes when free from clouds within."—(*The Persian Mystics*, Jalaluddin Rumi, P. 63.)

४ "This divine image is Adam, in and by whom God is made manifest."—(*Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol. 12, P. 14-15.)

५ "I have breathed into him of My Spirit."—(*The Glorious Quran*, S. 15-29.)

६ "Ibnul-Arabi was by no means the first Sufi to present us with a theory of the human soul."—(*The Mystical Philosophy of Muhiuddin Ibnul-Arabi*, Page 120.)

७ *The Idea of Personality in Sufism*, Page 59-60.

८ "Hallaj, however, distinguishes the human nature (nasut) from the Divine (Lahut)."—(*Studies in Islamic Mysticism*, P. 80.)

रहना है, यथा नीर-क्षीर के दृश्य अभेद में भी भेद विद्यमान है । हल्लाज के पश्चात् अरबी एवं जिली ने उसके सिद्धान्त को आधार अवश्य बनाया परन्तु भेद का लोप हो गया । आदम का स्थान मुहम्मद साहब ने ले लिया परन्तु वह आदर्श पुरुष ही समझे गये । अन्य सूफी अल गजाली का कहना है कि ईश्वर ने ही सब कुछ प्रदर्शित किया है अतः दृश्य द्रष्टा से पृथक् नहीं किया जा सकता ।^१

पहले कहा जा चुका है कि भारतीय अद्वैत ने सूफीमत पर जो प्रभाव डाला था उसी के कारण ईश्वर, जीव, जगत सबका भेद मिट गया । परन्तु यथा अद्वैत में ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थों का स्पष्टतः निषेध है, सूफीमत में हमें वैसा प्रतीत नहीं होता ।^२ सूफीमत में तो प्रेम-साधना है । प्रेमी प्रेम से प्रेम को जगाता है और प्रियतम को भी प्रेमी बनाकर एकरूपता ग्रहण करता है । यदि ईश्वरेतर व्यक्तित्व का पूर्णतः अभाव हो जाय तो माधुर्य और मादक भाव ही न रहें और साधना का आधार अस्तु ही जाय । यही कारण है कि अद्वैतमत की व्याख्या असंदिग्ध है और सूफीमत में अद्वैतमत की विद्यमानताएँ भी दैत का-सा प्रतिपादन है तथा अद्वैत में पाप-पुण्य की आधारशिला पर खड़ा अव्यात्म और शान्त निवृत्ति-मार्ग स्पष्टतः व्याख्यात हुआ मिलता है जब कि सूफीमत में हम पाप-पुण्य के अनेक किन्तु संदिग्ध समाधान और शान्तता के स्थान पर विकलता पाते हैं । उमरखय्याम का कहना है कि प्रणयी को समस्त दिन प्रणय में ही मतवाला रहना चाहिए, उसे उन्मत्त और विकल होकर भटकते रहना चाहिए ।^३ हाफिज भी कहता है कि ऐ सुन्दरी प्रियतमे ! तेरे प्राणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि प्रत्येक अँधेरी रात को मैं इसी विचार में निमग्न रहता हूँ कि तेरे दीपक के समान रूप पर पतंग बनकर न्योछावर हो जाऊँ ।^४ सभी सूफी साधकों में यही विकलता कही हलाती, कही हँसाती, कहीं तड़पाती, कहीं

^१ "Again, he writes that God is 'with' everything at all times and by and through Him all things are manifested, and the Manifested cannot be separated from what is manifested."—(Al-Ghazzali The Mystic, P. 235-236.)

^२ "सर्वं सत्त्वमिदं ब्रह्म" । छान्दोग्योपनिषद्, ३, १४, १ ।

"नास्ति द्वैतम्" । छान्दोग्योपनिषद्, ६, २, १ ।

"एकमेव सत्" । बृहदारण्यकोपनिषद्, ४, ४, १६ ।

"अहम् ब्रह्मास्मि" । बृहदारण्यकोपनिषद्, १, ४, १० ।

^३ आशिक हमा रोजा मस्तो शैदा वादा ।

दीवान ओ शोरीदओ रुसवा वादा ॥—ईरान के सूफी कवि, पृ० ५१-५२ ।

^४ बजानत ऐ बुते शोरीने मनकि हमयु शमा ।

शबाने तीरा मरा व मेफनाये खेसतनस्त ॥—ईरान के सूफी कवि, पृ० ३२२ ।

गववाती और कहीं नचवाती दीखती है। जब प्रणयी में व्याकुलता का इतना प्राचुर्य है और यही नहीं प्रियतम भी प्रिय से मिलने को विकल है तब एकरूपता कहाँ ? इसी लिए हल्लाज ने सम्मिलन में भी व्यक्तित्व का भेद माना है। यद्यपि अरबी आदि ने अद्वैत का पुट दे इसे स्पष्ट करने का प्रयत्न अवश्य किया है तथापि स्पष्टता आने नहीं पाई है।

कुरान में मानवीय आत्मा को ईश्वर से सम्बन्धित बतलाया गया है। वह सर्वोपरि है।^१ उसके उद्गम की अनेक स्थितियाँ बतलाई गई हैं। अनेक आदिम सूफियो ने उन्हे माना है। परन्तु मिद्धान्ततः मान्य सूफी उन्हे अंगीकृत नहीं करते क्योंकि इससे अद्वैत को स्थापना नहीं हो सकती। हाँ, विकास की स्थितियाँ सूफियो ने अवश्य मानी हैं। कुरान में वर्णित पुनर्जन्म के अभाव को सूफियो ने माना है।^२ कुरान के अनुसार निधन के उपरान्त सभी आत्माएँ निर्णय के दिन की प्रतीक्षा करेंगी। उस दिन सभी अपने भले-बुरे कर्मों का निर्णय सुनेंगे और कोई किसी का सहायक न होगा। सभी के समक्ष उनके सत्-असत् कर्मों का लेखा स्पष्ट होगा।^३ परन्तु उससे पूर्व किसी को ज्ञात नहीं कि उसे क्या मिलेगा निर्णय के पश्चात् ईश्वर के प्यारों को स्वर्ग मिलेगा।

सूफीमत के अनुसार इसकी व्याख्या इससे भिन्न है। उनका कहना है कि मृत्यु के पश्चात् का जीवन इस जीवन की गुप्त वास्तविकताओं को प्रकाश में लाना और उनको अविनाशित रखना है। पाप-पुण्य वास्तव में कुछ नहीं अतः स्वर्ग और नरक भी अभाव रूप है। शिब्ली के अनुसार नरक ईश्वर से पृथक्ता है और स्वर्ग समीपता अतः निधनोपरान्त का जीवन वास्तव में हमारी आध्यात्मिक स्थिति की प्रतिकृति है।^४ मनुष्य ईश्वरीय अंश होते हुए भी अपने पाशविक रूप में अधोगति की ओर चला जाता है। वस यही नारकीय रूप का आधार है। वास्तव में ईश्वर का सिंहासनाहूट होना और निर्णय के दिन अन्तिम रसूल के नेतृत्व में सबको प्रतिफल मिलना सूफियो को मान्य नहीं। क्योंकि मनुष्य का हृदय ही ईश्वर का सिंहासन है

^१ "Surely We created man of the best stature."—(*The Glorious Quran, S. 95, 4.*)

^२ "The Doctrine of transmigration was not, however, accepted by the Sufi Mystics, who held that it was an abomination to all Muslims."—(*Islamic Sufism, Page 30*)

^३ "And every man's augury have We fastened to his own neck, and We shall bring forth for him on the day of Resurrection a book which he will find wide open."—(*The Glorious Quran, S. 17, 13*)

^४ "Hell, according to the celebrated Sufi Shibli, is separation from God and heaven nearness to Him."—(*Outlines of Islamic Culture, Vol. 2. P. 491*)

की शैक्षिक शक्तियों रूप देवों से उद्धरित है।^१

इस प्रकार त्रिदित होता है कि सूफी ईश्वर के अतिरिक्त किसी पर पूर्णतः आस्था नहीं लाते। हृद्य जगत् की व्याख्या करते अवश्य हैं परन्तु उसमें घटित सभी पदार्थों का त्रिवेचन ईश्वरीय प्रकाश में ही करते हैं। उन्हें सर्वत्र अपना प्रियतम ही दृष्टिगोचर होता है अतः उसी से ऐक्य की प्राप्ति ही उनके जीवन की सार्थकता है।^२ परन्तु उसमें मिलन और ऐक्य पाने के लिए उन्हें साध्य के अतिरिक्त साधनों पर विश्वास लाना ही पडना है। उनका विश्वास है कि मनुष्य में दैवी प्रकृति के अतिरिक्त इस शरीर-मंगलि ने दानवी प्रकृति भी विद्यमान है। अतः वह इन्द्रिय-विषयों में लिप्त हो तत्त्वबोध से पूर्व अपने को भेद-बुद्धि में देखा करता है और इसीलिए सत्कर्मों की अपेक्षा दुष्कर्मों का आचरण करता रहता है। परन्तु उसे अपने यथार्थ इष्ट साधन के लिए पूर्णमुत्प, पथ-प्रदर्शक, सत्य एव सदाचरणों पर विश्वास लाना परम आवश्यक है।

कुरान में मुहम्मद साहब को अग्निम रमूल माना गया है। यही नहीं वे ईश्वरीय दून और अन्य दूनों के भी आदर्श हैं।^३ स्फियों का भी विश्वास है कि वे ईश्वर के ही प्रतिबिम्ब थे। यह ईश्वरीय प्रकाश आदम से लेकर ईसा तक सभी जगम्बरो में प्रकट हुआ था और अन्त में स्वयं मुहम्मद साहब के रूप में प्रदर्शित हुआ। उनके मतानुसार यह नित्य प्रकाश है और उनी की आगिक रश्मिएँ साधु-महात्माओं में अन्त-प्रकाश का कारण होती हैं, जिनके निमित्त ही वे परम पुरुष और पथ-प्रदर्शक समझे जाते हैं। यही कारण है कि सूफी नसार के सभी दिव्य पुरुषों का सम्मान करते हैं। कुरान^४ और गीता^५ में भी यही कहा गया है कि सत्तार में दिव्य संदेशार्थ दैवी विभूतियाँ अवतरित होती रहती हैं।

सूफी लोग मुहम्मद साहब को दिव्य पुन्य मानते हुए भी एक पूर्णपुरुष के रूप

^१ "The Divine Throne (Arsh) is considered to be borne by eight angels, and so are the eight human faculties. — (*Outlines of Islamic Culture, Vol. 2, P. 336.*)

^२ "The goal of the Sufi's' quest was union with the Divine, "— (*Rabia the Mystic, P. 1*)

^३ "Muhammad is not the father of any man among you, but he is the messenger of Allah and the seal of the Prophets, ..." — (*The Glorious Quran, S. 13, 40.*)

^४ "Mankind were One Community, and Allah sent (unto them) Prophets as bearers of Good tidings and as warners, ..." — (*The Glorious Quran, S. 2, 213.*)

^५ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम् ॥

में ही देखते हैं, अतः वे उन्हें अपने और ईश्वर के मिलन में कुरान की भाँति मध्यस्थ नहीं मानते ।^१ ये कुरान तथा अन्य धर्म-ग्रन्थों का आदर करते हैं परन्तु उन्हें धर्मनिष्ठों द्वारा व्याख्यात ग्रंथों में यथावत् स्वीकार नहीं करते । उनकी अपनी निजी व्याख्या है । उनके लिए ये ग्रंथ वास्तविकताओं का आभासमात्र देते हैं । यदि इनके बाह्यावरण पर ही दृष्टिपात किया जाय तो गुह्यता ज्ञात नहीं हो सकती । गुह्यार्थ को पाने गहराई में जाना पड़ता है अतएव सूफी लोग इनके अर्थ में अभिवा की अपेक्षा लक्षणा और व्यंजना से अधिक काम लेते थे । शरीअत के विरोध का अर्थ था दंड और मुस्लिम समाज से बहिष्कार अतः रहस्यमयी वाणी का अपनाना आवश्यक था ।

ईश्वर की सृष्टि में कुरान के अनुसार मुहम्मद साहब की श्रेष्ठता सर्वोपरि है ।^२ उनके अतिरिक्त सृष्टि की रक्षार्थ अनेक देव भी माने गये हैं । कुछ देव तो सदैव ईश्वर की सेवा में उपस्थित रहते हैं और कुछ विश्व के संचालनार्थ नियत हैं । इनमें से अनेक मनुष्य, पशु-पक्षी, वनस्पति एवं खनिज आदि पदार्थों की रक्षार्थ नियुक्त हैं । प्रसिद्ध देवता जिबरील मिकाईल, इसराफील और इजराईल हैं । ये सभी ईश्वर के आज्ञानुवर्ती हैं । इब्लीस फरिस्ता शैतान के नाम से प्रसिद्ध है । जब ईश्वर ने आदम की वन्दना करने के लिए देवों को आज्ञा दी तो सभी ने दंडवत् प्रणाम किया परन्तु इब्लीस ने निषेध कर दिया अतः वह पथ-भ्रष्ट और नास्तिक समझा गया ।^३ इसका कार्य ही दूसरो को पथ-भ्रष्ट करना हो गया । स्वयं आदम भी इसकी प्रवंचना से बच न सके और इसके वचन पर निषिद्ध फल खाकर स्वर्ग से पतित हुए ।

सूफी फरिश्तों की सत्ता पर विश्वास करते हैं । उनके अनुसार ईश्वर की दृश्य और अदृश्य सृष्टि में फरिश्ते अदृश्य जगत् से सम्बन्ध रखते हैं । इस विषय में उनकी विवेचना बड़ी मनोरम है । हम प्रकृति के अन्तः एवं बाह्य रूप में कुछ प्रेरक शक्तियों को चेष्टाशील पाते हैं । जिस प्रकार प्रकृति के बाह्य नाना रूपों में प्रेरणा के अभाव में अगतिशीलता की सम्भावना है उसी प्रकार मानव-मन में भी । सूफी भी इसी सिद्धान्त के आधार पर देवों की सत्ता मानते हैं परन्तु वे उन्हें कुरान की भाँति महत्त्व नहीं देते । उनकी दृष्टि में वे अतिमानुषी शक्ति से पूर्ण प्राणी हैं । इस्लाम में इब्लीस को शैतान नाम देकर जैसा पथभ्रष्ट और कुपथनेता बतलाया है, सूफी उसे स्वीकार नहीं करते । उनका कथन है कि जब ईश्वरेच्छा ही बलवती है तब आदम की

1 "It is true that in the experience of union with God there is no room for a mediator . here the absolute Divine Unity is realised."—*(The Idea of Personality in Sufism, P. 62.)*

2 "Muhammad is not the father of any man among you, but he is the messenger of Allah and the seal of the Prophets."—*(The Glorious Quran, S. 33, 10.)*

3 "And when We said unto the angels : Prostrate yourselves before Adam, they fell prostrate, all save Iblis. He demurred through pride, and so became a disbeliever."—*(The Glorious Quran, S. 2, 34.)*

वन्दना के लिए इव्लिस का नियेष भी ईश्वरीय आज्ञा के अनुकूल ही था। वह तो आज्ञापालक न होंकर आज्ञापालक था अतः ईश्वर का परम भक्त था। वे तो इव्लिस को पापप्रणिधि मानते हुए भी निजत्व का परिचायक मानते हैं, क्योंकि पाप अभावरूप है और अभाव भाव की प्रतिच्छाया है। ठीक भी है अन्धकार के आभास में भी प्रकाश की सत्ता है।

फरिश्तों के अतिरिक्त सूफी भूत, पिशाच और जिनों की सत्ता पर भी विश्वास करते हैं। परन्तु वह उन्हें निकृष्ट बल-प्रयोग में लीन शक्तियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। इन्हीं पैशाचिक प्राणियों ने ईश्वर के मतवाले सूफियों में भी चमत्कार-प्रदर्शन की भावना को जागृत कर दिया था। यहाँ तक कि परम प्रेमी हल्लाज भी चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध था और इन चमत्कारों के कारण ही कोई उसे ऐन्द्रजालिक, कोई चमत्कारकर्ता और कोई प्रपंची कहता था।^१ सूफी सन्तों के चमत्कारों की अनेक कहानियाँ ख्यातिप्राप्त हैं। परन्तु सूफियों ने अध्यात्म की दृष्टि से जादू-टोनें एवं भाङ्ग-फूक आदि को कभी गौरव न दिया। अबू याजीद के पास एक बार एक मनुष्य आया और बोला कि आप उड़ सकते हैं।^२ उसने उत्तर दिया, “इसमें आश्चर्य की क्या बात है? एक पक्षी भी जो शव का भक्षण कर जाता है, उड़ सकता है, फिर श्रद्धालु पुरुष तो पक्षी से कहीं अधिक सम्माननीय है।”

पिर-फकीरो एव उनकी वाणी की जो प्रतिष्ठा हम सूफियों में पाते हैं वह मुहम्मद साहब और कुरान की प्रतिष्ठा से कम नहीं।^३ नूफी अपने गुरु को ससार में सबसे अधिक प्रेम करते हैं। उनके अनुसार जो ईश्वरीय प्रकाश दूतो में प्रकाशित होता है, वही पूर्ण पुरुषो एवं महात्माओं में भी। और फिर उनका विश्वास है कि ईश्वर का प्रेमी प्रकाश पाकर एवं उन्हीं के मध्य रहकर जो उपकार कर सकता है वह अनुपम है। एक पूर्ण पुरुष वही है जिसने दैवी सत्ता के साथ अपने वास्तविक अभेद को पूर्णतः जान लिया है क्योंकि ‘वह’ वह नहीं बरन् ईश्वर का प्रतिरूप है। इस प्रकार पैगम्बरों के अतिरिक्त सन्त औरलिया भी पूर्ण पुरुष की कोटि में आते हैं क्योंकि वली (औरलिया का एक वचन) का अर्थ भी मूलतः ईश्वर का मित्र या भक्त है।^४ औरलियों के

1 “Men differ concerning him, some regarding him as a magician, others as a saint to work wonders and others as an imposter.”—(*A Literary History of Persia*, P. 44, 55.)

2 *Ruba the Mystic*, P. 31-32.

3 “He must love his Pir more than anything else in this world.”—(*Outlines of Islamic Culture*, Vol. 2, P. 476.)

4 “Therefore, the class of Perfect Man comprises not only the prophets from Adam to Mohammad but also the superlatively elect amongst the Sufis, i.e. the persons named collectively Awliya, plural of Wali, a word originally, meaning ‘near’, which is used for ‘friend’, ‘protage’, or ‘devotee’.”—(*Studies in Islamic mysticism*, Page 78.)

अतिरिक्त शोख होते हैं जो सत्यस्त जीवन व्यतीत करते थे। सूफियों के अध्यात्म-निर्माता ये ही औलिया एव शोख (पीर) थे। वास्तव में एक सूफी को इस भ्रमपूर्ण संसार में मार्ग-प्रदर्शन के लिए जो आश्रय अपने गुरु का है वह अन्य का नहीं। जामी ने कहा है कि ऐ मेरे पथ-प्रदर्शक ! यदि आज संसार में मेरा कोई शुभेच्छु अथवा उत्तम पथ पर चलाने वाला है तो वह केवल आप ही हैं।^१

गुरु के नेतृत्व में सर्वप्रथम एक सूफी को आचार का आदर्श ऊँचा करना पड़ता है। आत्मा निसर्गतः ईश्वरीय अंग होनी हुई भी विषयों में लिप्त हुई पथ-भ्रष्ट हो जाती है। 'भै उसी प्रकाशपुंज का अंग हूँ' इसका मर्म जानकर अभेद पा लेना बड़ा दुष्कर है। मन को एकाग्र कर सत्पथ पर लिए जाना दृढ आस्था और यथार्थता के परिचय के बिना नहीं हो सकता। सत्य से परिचय प्राप्त करने के लिए आत्मशुद्धि अनिवार्य है। इस्लाम में आत्मशुद्धि के लिए पंच कर्तव्यों का विधान था। तौहीद (एक ईश्वर पर विश्वास), सलात (प्रार्थना), रोज़ा (उपवास), जकात (दान) और हज़ (काबे की यात्रा) ये पंच स्तम्भ माने गये। इस्लाम का सारा ढांचा ही ईश्वर पर निर्भर है। ईश्वर विश्व का स्रष्टा, शास्ता और उद्धारक है। उसके प्रति मनुष्य को भक्तिमान होना चाहिए इसीलिए प्रतिदिन पञ्चकालिक नमाज़ का विधान किया गया है। कुरान रूप दैवी गिरा रमजान मास में मुहम्मद साहब में अवतरित हुई थी अतः उस पवित्र मास में उपवास का विधान हुआ। ईश्वर के नाम पर स्वीय अंश में से किंचित प्रदान करना एव वर्ष में एक बार मक्का की यात्रा करना भी अनिवार्य कर्तव्य बना दिये गये।

सूफियों ने कुरान के तौहीद सिद्धान्त अर्थात् एकेश्वरवाद को ग्रहण किया परन्तु उसे 'हदतुल वजूद' रूप में व्याख्यान किया अर्थात् सब सत्ता एक है और वह ईश्वरीय है। वह ईश्वर हम से भिन्न नहीं है अतः प्रेम-पात्र है। इस प्रकार इस्लाम का शास्ता इनका प्रियतम बना और भय प्रेम में परिणत हो गया।

ईश्वर की जिस पञ्चकालिक प्रार्थना का इस्लाम में विधान था, सूफियों ने उसे उत रूप में ग्रहण न किया। उनका विश्वास था कि उनका ईश्वर तो सर्वत्र विद्यमान है। वह किसी निश्चित स्थान पर ही नहीं वरन् विश्व का अणु-अणु उसी का साकार प्रदर्शन है। उसका मन्दिर हमारा हृदय ही है। यदि गवेषित किया जाय तो हम उसे अन्तःकरण में ही पा सकते हैं।

सच्चा प्रेम ही ईश्वर का साक्षात्कार करा सकता है।^२ प्रेम तो प्रतिक्षण

^१ गुपुतमश ऐ खिजे मसोहा नफ़स ।

खिज़ो मसोहा तुई इमरोज़ ब बस्त । —ईरान के सूफी कवि, पृ० ३६५ ।

^२ "Among the signs of love," says Abu Talib, "is the desire to meet with the Beloved face to face."—(Studies in Early Mysticism in the Near and Middle East, Page 203.)

सबद्धन्तीय एव पोषणीय है फिर निश्चित कालो मे ही प्रार्थनाये क्यों ? इसका समाधान इनके अतिरिक्त और क्या हो सकता था कि प्रतिपल उसका भजन और चिन्तन किया जाय । जो प्रभु विभु हे उसकी प्रार्थना के लिए कावे की ओर ही मुख किया जाय यह भी उन्हें बाह्याचार से अधिक मूल्यवान् प्रतीत न हुआ । अतार ने कहा है कि अच्छा हो मे लण हो जाऊँ जिससे मुझे वैधानिक प्रार्थनाओं मे न जाना पड़े, क्योंकि मुझे तो एकान्त में ही शान्ति और आनन्द मिलते हैं ।^१ वास्तव मे प्रार्थना आत्म-स्तर को ऊँचा करने के लिए हाँती है जिससे हम उत्तरोत्तर ईश्वर का सामीप्य प्राप्त करते जायें । गजाली के अनुसार हम ईश्वर की प्रार्थना इसलिए करते हैं कि वह हमे उनमे स्थित करदे जिनको उसने श्रेष्ठ माना है, जिनको उसने सन्मार्ग दिखाया है, जिनको उसने चिन्तन के लिये प्रेरित किया है ताकि वे उसे भूल न जाये और जिनको उसने वैहिक बुराइयों मे सुरक्षित रखा है जिसमे वे उसे सर्वापरि गिने तथा जिनको उसने अपना भक्ति-तपरायण बना दिया है इसलिए कि वे उससे भिन्न किसी अन्य की आराधना न करें ।^२

इस्लाम में रमजान के मास की बड़ी महत्ता है । अन्तिम रमूल में ईश्वरीय प्रेरणा इसी मास मे विश्व के उद्धारार्थ आई थी । अतः पवित्र होने के कारण इस मास में उपवास (रोज़ी) रखना परम आवश्यक बन गया । दिन मे उपवास किया जाता है और सूर्यास्त के पश्चात् खोला जाता है । यह मास वर्ष में एक बार ही आता है, जिसका कोई निश्चित काल नहीं । इसमें दिन का जितना महत्व है, रात्रि का नहीं । दिन में सब प्रकार के संयम का आदेश है परन्तु रात्रि मे इन्द्रिय-विषयों का उपभोग विशेषतः निषिद्ध नहीं माना गया है । सुफियो को स्वच्छन्द वृत्ति के कारण इस बन्धन में बैधना तो स्वीकृत न हुआ परन्तु उन्होंने आत्म-मार्जन के लिए उपवास को अवश्य अपनाया । इसमें अपनाना क्या था, प्रेमी को भूख-प्यास का ध्यान ही कहाँ रहता है ? उसे मादकता में विकलता होते हुए भी चैन मिलता है । प्रेम की भूख पेट की भूख भिटा देती है । अतः उसके उपवास तो स्वयं हो जाया करते हैं । अपने प्रिय की

1 "I would that I were ill, so that I need not attend congregational prayers, for there is safety in solitude."—(*A literary History of Persia*, P. 126.)

2 "We pray Almighty that He will set us amongst those whom He hath preferred and chosen, those whom He hath guided, and led to the Truth, those whom he hath inspired to think on Him so that they forget Him no, those whom He hath preserved from the evil of the flesh so that they choose Him above all else, those whom He hath devoted to Himself so that they worship none but Him."—(*The Idea of Personality in Sufism*, Page 66.)

तल्लीनता के लिए सदैव की तरह उदर-पूर्ति बाधक हुआ करती है । इसीलिए अबू याज़ीद अल विस्तामी ने कहा था कि ईश्वर का वास्तविक ज्ञान मुझे भूखे उदर और नग्न कलेवर के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं मिला है ।^१ वियोग की तपन में उपवास सहचर का कार्य देता है अतः इसको इतना महत्त्व मिला है कि सूफियों ने इसे सूफीमत का अंग ही बना दिया । जुनेद ने जहाँ सूफीमत को ससार से सम्बन्ध-विच्छेद बतलाया वहाँ उपवास को भी इसका अंग माना ।^२

इनके अतिरिक्त इस्लाम में जकात (दान) का भी विधान था । कुरान में लिखा है कि तुम जो कुछ ईश्वर के मार्ग में व्यय करते हो, वह तुम्हें सलाह प्राप्त होगा ।^३ इससे सूफियों ने उत्सर्ग का पाठ पढा । भला प्रियतम के लिए क्या अर्देय है ? जब उसके लिए प्राण भी नगण्य है तब द्रव्य का मूल्य ही क्या ? उन्होंने अपने प्यारे ईश्वर के लिए सर्वस्व ही समर्पित कर दिया । यही नहीं सूफीमत का लक्षण ही ससार-त्याग माना गया । सूफी तो 'मे' को भी हेय जानते और उसे अपने परम प्रिय 'तू' ही से मिला देना चाहते हैं । दान की भावना ने जहाँ निर्धन मुसलमानों को धनियों के समीप ला दिया था वहाँ सूफियों के त्याग ने विश्व को ही उनके पास ला दिया । यही नहीं ईश्वर भी उनका सामीप्य चाहने लगा ।

पंच स्तम्भों में हज़ का बड़ा महत्त्व था । प्रति वर्ष एक बार पैदल या ऊँट पर यात्रा कर मक्का जाना प्रत्येक मुस्लिम का कर्तव्य था ।^४ वहाँ कावा में संग्रसवद का चुम्बन करना पड़ता था । यदि किसी प्रकार बलात् रुकना पड़े तो कुछ सुलभ उपहार भेजने अनिवार्य थे ।^५ प्रत्येक मुस्लिम के लिए भला यह कैसे सम्भव हो सकता था । निर्धनों के लिए यह एक गुरुतम भार था । सूफियों को यह विधान आडम्बरपूर्ण दृष्टि-गोचर हुआ । जो ईश्वर सर्वत्र है, उसके प्रसादार्थ मक्का जाने की आवश्यकता ही क्या ? उन्हें यह विचार इतना सारहीन ज्ञात हुआ कि मक्का जाना उन्मार्गगमन-सा दीख पड़ा । अबू सईद ने कहा है^६ कि यदि ईश्वर किसी के समक्ष मक्का का मार्ग

^१ "The Persian Sufi Abu Yazid-al-Bistami declared, "I have not found the true knowledge of God, except in a hungry stomach and a naked body."—(*Studies in Early Mysticism in the Near and Middle East, Page 162*)

^२ "We derived Sufism," said Junayid, "from fasting and taking leave of the world."—(*A Literary History of the Arabs, P. 230*)

^३ "Whatsoever ye spend in the way of Allah it will be repaid to you in full, and ye will not be wronged."—(*The Glorious Quran, S. 8, 60*)

^४ "And proclaim unto mankind the Pilgrimage. They will come unto thee on foot and on every lean camel; they will come from every deep ravine."—(*The Glorious Quran, S. 22, 27.*)

^५ "And if ye are prevented, then send such gifts as can be obtained with ease....."—(*The Glorious Quran, S. 2, 196.*)

^६ "If God sets the way to Mecca before anyone, that person has been cast out of the way to the Truth."—(*Studies in Islamic Mysticism, Page 68.*)

रखता है तो समझिये वह मनुष्य सत्योन्मुख मार्ग ने दूर फेंक दिया गया है । ईश्वर का पूर्ण ईश्वर तो हृदय में ही दृष्टव्य है । अतः उसकी प्राप्ति के लिए आत्मा हृदय में ही यात्रा करती और वही उसका साक्षात्कार करती है । अबू याज़ीद कहता है कि प्रथम यात्रा पर मैंने केवल मन्दिर को देखा, द्वितीय बार मन्दिर और ईश्वर दृष्टिगोचर हुए और तृतीय बार केवल ईश्वर का ही साक्षात्कार हुआ ।^१

यद्यपि सूफ़ी भाव के ही भूखे हैं और मन-मन्दिर में ही अपनी गुप्त निधि की गवेषणा करते हैं तथापि उनकी दृष्टि में मजार, रोज़ा, और दरगाह आदि की प्रतिष्ठा काबा या मुहम्मद साहब की कब्र की प्रतिष्ठा से कोई कम नहीं । उनके लिए उनका पीर परम प्रतिष्ठा का पात्र होता है अतः वे इसकी समाधि को भी प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखते हैं । भाव-पूजा से प्रेरित होकर वे समाधि पर दीप जलाते, धूप देते और पुष्प चढ़ाते तथा भावावेश में आकर वन्दना भी करते हैं । परन्तु यह वे प्रतिष्ठावश ही करते हैं, लक्ष्य की सिद्धि के हेतु नहीं ।

उपरिलिखित विश्वासों के अतिरिक्त सूफ़ियों के कुछ सदाचरण के नियम भी हैं, जिनके पालने से आत्मा अग्नि में तपे स्वर्ण की भाँति खरी हो जाती है । सदाचार से आत्मगुणों की अभिव्यक्ति होती है और उनसे हृदय मँजकर दर्पण की भाँति निर्मल हो जाता है जिसमें यथार्थ स्पष्टतः प्रतिबिम्बित होता है । अबू याज़ीद अल विस्तामी ने दानवी प्रेरणाओं से हीन हृदय को दोषों के लिए उस भवन के समान बतलाया है जिसके पास से तस्कर निकले चले जाते हैं ।^२

हम पहले कह आए हैं कि एक सूफ़ी के लिए त्याग का बड़ा महत्त्व है । उसने संसार को तुच्छ जान उस मार्ग पर चरण रखे हैं जिस पर प्रयाण कर वह अपने प्रियतम से एकरूपता प्राप्त करना चाहता है । व प्रेम की मदिरा पी चुका है अतः उस उन्माद में अब उसे अपने प्रिय के अतिरिक्त कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता । वास्तव में अबू अब्दअल्लाह अल कुरेशी के अनुसार प्रेम का प्रयोजन ही यह है कि अपने प्रियतम को सर्वस्व समर्पित कर दिया जाय, जिससे अपने पास अपना कुछ भी अवशिष्ट न रहे ।^३ इसीलिए सूफ़ियों की निर्धनता में बड़ी आस्था है । अल हुजविरी^४

1 Abu Yazid says: "On my first pilgrimage I saw only the temple; the second time I saw both the temple and the Lord of the Temple; and the third time I saw the Lord alone."—(*The Sufi Quarterly, September 1925, Part 1, Edition 2, Page 115*)

2 "A heart which is free from Satanic suggestions is like a house by which thieves pass; . . ."—(*Al-Ghazzali the Mystic Page 156.*)

3 "Love, said one of the Sufis, means to give all that thou hast to Him whom thou lovest, so that nothing remains to thee of thine own."—(*Studies in Early Mysticism, Page 6.*)

4 "Ali B. Utman Al-Jullabi Al-Hujwiri, the first Sufi writer, will have us believe that poverty has a high rank in the way of truth. . . ."—(*Islamic Sufism, Page 242.*)

ने निर्धनता को सत्य के मार्ग में एक ऊँचा पद बतलाया है।

त्याग आत्म-समर्पण की भावना उत्पन्न करता है। एक सूफी की दृष्टि में ईश्वर ही उसका आराध्य है अतः वह पूर्णतः उसी पर अपने को आश्रित कर देता है। वह उसी के प्रेम का भिक्षुक है तथा उसी के द्वार का प्रतीक्षक और उसी की कृपा-कोर का इच्छुक है। उसका उठना-बैठना, सोना-जागना, रोना-हँसना सब उसी के निमित्त है। मसारा में उसका कुछ नहीं है, वह तो अपना सर्वस्व उसी के चरणों में चढा चुका है। आत्म-समर्पक को विनीत एवं आज्ञापालक होना अनिवार्य है। जिस मुरशिद (गुरु) ने उसे पथ प्रदर्शित किया है और प्रियतम के भवन का राजपथ बता दिया है, उसके प्रति विनम्र होना सूफी का प्रथम कर्तव्य है। प्राण देकर भी इसका मूल्य चुकाने के लिए वह सदैव लालायित रहता है। वास्तव में इन गुणों के अभाव में वह सच्चा मुरीद (शिष्य) ही नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना आबिद (उपासक) कर्मकाण्ड को छोड़कर यथार्थ की ओर नहीं बढ़ता।

गुरु की परिचर्या एवं शुश्रूषा से आशा का संचार हो जाता है। सालिक (साधक) को विश्वास हो जाता है कि वह सन्मार्ग का यात्री हो गया है और उसी के अनुसरण से किसी दिन अवश्य ही उसे लक्ष्य की सिद्धि होगी। परन्तु आशा होते हुए भी वह भय से सर्वथा विमुक्त नहीं होता। इष्ट की साधना में साधनहीनता तो नहीं, आराध्य की आराधना में उपासना की त्रुटि तो नहीं, एवं प्रियतम की मनुहार में अनुहार भी है कि नहीं इत्यादि चिन्ताये उसे सर्वथा व्यथित करती रहती है और इस प्रकार वह तब तक भय का अविश्राम आश्रय बना रहता है जब तक कि उसे मारिफ (ईश्वरीय ज्ञान) की प्राप्ति नहीं होती।

इस भय से विमुक्त होने के लिए उसे पथ पर फूँक-फूँक कर पग रखना पड़ता है। यद्यपि सूफियों के अनुसार पाप अभावरूप है तथापि उन्हें सासारिक दृष्टिकोण से न्याय के विरुद्ध अन्याय पर हेयरूप में विश्वास लाना पड़ता है। इतर जनों के स्वत्व का अपहरण ही अन्याय है। एक सूफी को, जिसने सर्वस्व परमार्थ पर न्यौछावर कर दिया है, यह कैसे सह्य हो सकता है। इसीलिए उसे स्वच्छन्दता भी सर्वथा त्याज्य है। स्वच्छन्दता भी सर्वथा मनुष्य को सन्मार्ग से विचलित कर देती है, जिससे वह विवेकहीन हो जाता है और पुनः काम, क्रोध, मद, लोभादि से ग्रस्त हुआ परमार्थ को विस्मृत कर देता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह ईश्वरीय सृष्टि का अपमान करने लगता है और सहानुभूति, सहिष्णुता, सहृदयता एवं अनुकम्पा आदि कोमल भावों से वंचित हो जाता है। यह विपर्यय साधक के लिए आत्मोन्नति के विनाश का कारण होता है अतः वह कभी स्वच्छन्दता को ग्रहण नहीं करता वरन् परमार्थपरता, क्षमाशीलता आदि गुणों को धारण करता है।

उपर्युक्त विपर्यय के पर्यवसान तथा सद्गुणों के आविर्भाव के लिए सत्कृत्यों पर विश्वास लाना परमावश्यक है। सत्कार्य मनुष्य की दैवी प्रकृति के द्योतक है। इसी लिए दुराचरण के लिए पश्चाताप का इस्लाम में बड़ा विधान है। कुरान में तौबा करने वालों को धार्मिक बन्धु कहा है।^१ अल हुजविरी का कहना है कि तौबा के बिना कोई सेवा ही सच्ची नहीं।^२ यह तो रहस्य-मार्ग पर प्रथम स्थिति है। पश्चाताप में ही राबिया प्रायः रोया करती थी। सूफियों का विश्वास है कि अधम अथवा जघन्य कर्म करने के पश्चात् यदि शुद्ध हृदय से पश्चाताप कर लिया जाय तो उसका निराकरण हो जाता है। पाप-स्वीकृति पाप-प्रपंच से निस्तार का कारण हो जाती है।

पश्चाताप के लिए सूफियों में जिक्र, जप, एव ध्यान का बड़ा महत्त्व है। जिक्र को साधारणतः हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, (१) जली, (२) खफी।^३ जली से तात्पर्य उच्च स्वर से नामोच्चारण है तथा खफी में मनन और चिन्तन होता है। जिक्र का मूल मन्त्र है "ला इलाह इल्लल्लाह"। इसके जाप के लिए अनेक विधान हैं। जली में इस मन्त्र को व्यष्टि या नमष्टि रूप में जपा जाता है। खफी में मन की एकाग्रता का प्राधान्य है। इसके लिए योग-साधन द्वारा स्वास का सयमन करना पड़ता है। जाप के समय कोई घुटनों के बल और कोई पालथी आसन से बैठता है। कोई बैठकर बाईं ओर में स्वास लेते हुए अल्लाह का नाम जपते हैं। कुछ पालथी मारकर बैठ जाते हैं और प्रथम दाईं ओर में और पुनः बाईं ओर से स्वास लेते हुए मन में ही जाप करते हैं। कोई 'ला' पर ध्यान लगाते हुए स्वास खींचते हैं और 'इल्लल्लाह' कहने हुए छोड़ने हैं। कतिपय स्वास द्वारा 'ला इल्लाह' ध्वनि को निष्कासित करते हैं और 'इल्लल्लाह' को अन्तर्निहित। इनके अतिरिक्त कुछ आँखें बन्द करके भी जाप करते हैं और कुछ ध्यान में ही चिन्तन करते हैं। परन्तु इन सभी प्रकारों में जाप का मुख्य विषय यही है कि 'ईश्वर के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं'।

जली जिक्र का परिवर्द्धित संगीत है। इस्लाम में संगीत की अधिक प्रतिष्ठा न होती हुए भी सूफियों ने इसे अन्तर्दृष्टि के खोलने में साधन माना है। अल गजाली के अनुसार संगीत के सुनने का परिणाम हृदय की पवित्रता है और हृदय की शुद्धि ईश्वरीय प्रकाश का कारण होती है, क्योंकि नगीत की शक्ति से हृदय सचेष्ट हो जाता है और उसके ध्यान के लिए शक्ति प्राप्त कर लेता है, जो इससे पूर्व उसकी शक्ति से

1 "But if they repent and establish worship and pay the poor due then are they your brethren in religion."—(*The Glorious Quran*, S. 9, 11)

2 *Rabia The Mystic*, P. 53.

3 "In a general sense, it is divided into—(i) Jali, or loud muttering, adopted by Chishti and Qadiri orders, and (ii) Khafi, or mental muttering, preferred by the Naqshbandi Order."—(*Outlines of Islamic Culture*, Vol. 2, Page 481.)

परे था।^१ सूफियों का विश्वास है कि साम (संगीत) सौन्दर्य की प्रशंसा के लिए अद्वितीय साधन है। सांसारिक सौन्दर्य की प्रशंसा परम सौन्दर्य के लिए पुल का कार्य करती है। लावण्यमयी प्रकृति का प्रत्येक दृश्य अपने अपूर्व वैभव में उसी अपार सौन्दर्य का दिग्दर्शन करा रहा है अतः सौन्दर्य की प्रशंसा अनिवार्य है। और वह प्रशंसा कीर्तन द्वारा भावुकता की उद्बोधक होती है। इसीलिए सूफी को अपने साथ प्रकृति-सुन्दरी भी अपने सौन्दर्य-स्रोत का गुणगान-सा करती दीख पड़ती है।

सर्राज, कुशेरी और हुजविरी समा को नवयुवक के लिए हितकर नहीं मानते।^२ उनका कहना है कि सावधानी से कार्य करना चाहिए ताकि नव शिक्षित दुराचारी न हो जाय। परन्तु अग्रगामी शिष्य के लिए ऐसा नहीं है। उसके लिए शुभ संगीत आत्म-जागृति का कारण होता है। जुन नून के अनुसार एक उत्तम शब्द हृदय को ईश्वरीय खोज के लिए प्रेरित करता है और वास्तविकता की खानबीन में एक साधन बनता है।^३ इस संगीत में पाशविकता को स्थान नहीं है। जब कव्वाल या अन्य गायक मंडली में विविध वाद्यों के साथ कीर्तन करते हैं तो एक मादकता-सी छा जाती है। अनेकों को हाल (ईश्वर में तन्मयता) आ जाता है और इलहाम (देववाणी) होने लगता है। इसी अवस्था में वज्द (सहजानन्द) की प्राप्ति होती है जो जुनेद के अनुसार ईश्वरागत प्रकाश की एक अवस्था है।^४ संगीत से उत्पन्न सहजानन्द के लिए धुलनून अल मिस्री ने कहा था कि यह परमात्मा की गवेषणा के लिए हृदय को प्रेरणा देने वाला एक दैवी दूत है और जो इन्ने आध्यात्मिक रूप में श्रवण करता है वह ईश्वर को प्राप्त करता है।^५ अन्दुल हुमेन अल सर्राज^६ ने भी यही कहा

^१ "Listening to Music, Al-Ghazzali says again, results in the purification of the heart, and purification is the cause of revelation, for by the power of Music the heart is roused to activity and is strengthened for the contemplation of what was previously beyond its power" —(Al-Ghazzali the Mystic, Page 59.)

^२ "Early Sufi Writers, e.g. Sarraj, Qushayari, and Hujwiri do not agree with him in thinking that the practice of sama is beneficial to the young; on the contrary they urge the necessity of taking care lest novices should be demoralised by it." —(Studies in Islamic Mysticism, P. 58-59)

^३ "According to Zun-nun, a good sound stirs the heart to seek God and becomes a means of penetrating into reality. —(Outlines of Islamic Culture, Vol. 2, P. 502)

^४ "Ecstasy or Wazd, according to Junayid, is a state of revelation from God" —(Outlines of Islamic Culture, Vol. 2, P. 190)

^५ "Dul-Nun-al-Misri said of the ecstasy produced by music that it was a divine messenger, urging to the heart to seek God, and who listens to it, seeking its spiritual meaning, will find God....." —(Al-Ghazzali The Mystic, Page 59.)

^६ "So, too, Abdul Husayn Al-Sarraj: "Ecstasy (Wazd) is an expression for what is experienced in. Listening to music, and music carries the place where Beauty dwells and enables me to contemplate God within away to me the veil. ..." —(Al-Ghazzali The Mystic, Page 59.)

है कि वज्र (सहजानन्द) संगीत को सुनने में जो अनुभव प्राप्त होता है उसी का प्रकाशन है एवं संगीत मुझे वहाँ ले जाता है जहाँ सौन्दर्य निवास करता है और मुझे आवरण में ईश्वर का ध्यान करने के लिए योग्य बनाता है ।

ज़िक्र का चिन्तन-पक्ष एकान्त-मेवन की रूचि का उद्भावक होता है । एकान्त-मेवन की प्रथा इस्लाम में प्रारम्भ से ही थी । ध्यान के लिए चित्त की एकाग्रता और एकाग्रता के लिए शान्ति वाञ्छनीय होती है एवं शान्ति के निमित्त एकान्तवास अत्यावश्यक है । इसीलिए मुहम्मद साहब और उनके साथी यदा-कदा निर्जन स्थानों में जाकर ध्यान लगाया करते थे । सूफियों ने भी इस विश्वास को अपनाया । फारस, सीरिया एवं मिश्र के सूफी पूर्वकाल से ही एकान्त-प्रिय थे और उनमें से कतिपय खानकाहों (आश्रमों) में शिष्य-मंडली के साथ रहा करते थे ।^१

उपरिलिखित सूफियों की आस्था-माला में प्रेम सदैव से सूत्र रूप से गुंथा रहा है । उसके बिना सूफी अध्यात्म निर्जीव हो जाय अतएव इसने सदैव से साधना की व्यापक आत्मा का कार्य किया है । इसका विवेचन हम अग्रिम पर्व में करेंगे ।

^१ *Outlines of Islamic Culture, Vol. 2, Page 402.*

चतुर्थ पर्व सूफी-साधना

सूफीमत का सारा प्रासाद प्रेम पर ही खड़ा है। रतिरूप रागात्मिका चित्तवृत्ति ही प्रेम का रूप धारण कर लेती है। सूफियों में रति का इतना प्राधान्य है कि उन्हें प्रेमी साधक कहना समुचित है। मानव स्वयं दिव्याश है अतः उसमें प्रेमी भी दिव्य स्रोत से ही आया है और वह दैवी विभूति स्वयं प्रेम रूप है।¹ इब्नुल अरबी के अनुसार प्रेम का मूल कारण सौन्दर्य ही है², परमात्मा सर्वाधिक सौन्दर्य रूप भी है और सौन्दर्य की यह अनिवार्य प्रकृति है कि वह प्रेम किये जाने के लिए अपने को प्रकट करे। अतः ईश्वर स्वयं से प्रेम करता है और अपने सौन्दर्य पर ही मुग्ध होकर अपने को प्रदर्शित किया है। सारा विश्व उसी प्रेम का परिणाम और उसी सौन्दर्य का बिखरा हुआ साकार रूप है। यद्यपि वह ईश्वर सूफियों के लिए साकार नहीं है तथापि विश्व में वही साकार हुआ पडा है। वास्तव में ईश्वर के अतिरिक्त है ही क्या? यदि ईश्वर में परम लावण्य न होता तो विश्व के विविध रूपों में हास, विकास एवं प्रकाश कहाँ से आते क्योंकि ये सब सौन्दर्य के ही प्रतिरूप हैं।

सौन्दर्य की प्रशंसा के लिए ही जो प्रेम किया जाता है, यथार्थतः उसी में रति की सार्थकता है। इसलिए सांसारिक सौन्दर्य की प्रशंसा प्रेम के परिपाक का कारण होती है और यही सांसारिक प्रेम अलौकिक प्रेम का निमित्त हो जाता है। हृदय में प्रेम का बीज दैवी अव्यय है परन्तु चर्मचक्षुओं के समक्ष तरंगित सौन्दर्य-सरिता में स्नान करने के लिए प्राणीमात्र लालायित रहता है। यही कारण है कि मानव-मन में एक ही प्रेम, वात्सल्य, स्नेह, अनुरक्ति, आसक्ति, श्रद्धा एवं भक्तिरूप में निवास करता है। परन्तु ऐहिक प्रेम में स्वार्थ और ममत्व की भावना प्रचान होती है जो आकस्मिक आधि और व्याधियों को आविर्भूत किया करती है। इसके विरुद्ध दैवी प्रेम वास्तविक प्रेम होता है जिस में स्वार्थ की तनिक भी भावना निहित ही होती।

प्रेम का अन्तिम ध्येय प्रेम की वास्तविकता को जानना है और प्रेम की वास्तविकता ही ईश्वरीय तत्व है। मनुष्य निसर्गतः सुन्दरता का प्रेमी है। जो पदार्थ जिसका मन अपनी ओर आकृष्ट कर सकता है, वही उसके लिए सुन्दर है। अतः बाह्य सौन्दर्य की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। परन्तु अन्तःसौन्दर्य से तात्पर्य

¹ "Verily love is i self God."—(In *An Eastern Rose Garden*, P. 123)

² "The basis and the cause of all love is Beauty."—(*The Mystical Philosophy of Muḥammad Ibnul-Arabi*, P. 173.)

शिखा से लिपटना और मच्छली पानी के वियोग में प्राण देना ही अच्छा समझती है। वास्तव में प्रेमी प्रेम की अग्नि में झुलस-झुलस कर सदैव प्राण देने को उद्यत रहता है। अल हल्लाज ने अपने वष के समय शिब्ली ने कहा था 'ओ शिब्ली ! प्रेम का प्रारम्भ दग्धकारी अग्नि है और अन्त मृत्यु है ।'¹ ऐसा होने पर भी प्रेमी साधक अमरता को ही प्राप्त करता है।

सच्चा प्रेमी सदा प्रणय की मदिरा से मतवाला रहना चाहता है। उमर खय्याम ने लिखा है कि 'प्रेम की मदिरा हमें बहुत लाभ पहुँचाती है, उससे हमारे शरीर और प्राणों को शक्ति मिलती है एवं उसके पीने से रहस्य का उद्घाटन होता है।² अतः मैं उस मदिरा का केवल घूँट पीना चाहता हूँ। उसके पश्चात् न मुझे जीवन की चिन्ता रहेगी और न मृत्यु की।' इसीलिए प्रेमी सदैव अपने प्रियतम का साक्षात्कार चाहता है। उसके जीवन का एक ही स्रोत, एक ही पथ और एक ही लक्ष्य है। उसकी चाह और साधना भी एक ही है। ईश्वर के प्रेमी से यदि प्रश्न किया जाय कि तुम कहाँ से आये तो उत्तर मिलेगा—'प्रियतम के पास से।' तुम्हे कहाँ जाना है ? 'प्रियतम के पास।' तुम क्या चाहते हो ? 'अपना प्रियतम।' यह प्रियतम की रटना कब तक रहेगी ? 'जब तक मिलन न होगा।' सच है प्राप्ति से पूर्व शान्ति कहाँ ? हुजविरी के अनुसार ब्रह्मज्ञानियों की परिभाषा में प्रेम इष्ट की प्राप्ति के लिए विकलता का ही नाम है।³

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेम वह विचित्र अग्नि है जो हृदय-भट्टी पर मादक पेय बना-बना कर प्रेमी को पिलाया करती है। इससे जीवन कुछ भिन्न हो जाता है। वह प्राणों का मोह छोड़कर अपनी निधि को स्वयं भस्म कर देता है। यही कारण है कि प्रेमी में जो नम्रता होती है वह अभिमानी में नहीं। उसे न स्वर्ग की चाहना है न मोक्ष की। वह तो प्रेम की वीणा पर एक ही राग अलापता है और वह है प्रिय-मिलन का। रूमी ने कहा है⁴ कि प्रेम के आचरण के बिना प्रियतम तक

¹ "O Shibli, the beginning of love is a consuming fire and the end thereof is death."—(*Al-Ghazzali the Mystic, P. 177.*)

² मैं कुब्जते जिस्मों कुब्जते जानस्त मरा ।

मैं काशिके असरारे निहानस्त मरा ॥

दीगर तलबे दीनबो ज़क़वा न कुनम ।

यक ख़ुर्रमा पुर अख़ हर वो जहानस्त मरा ॥—ईरान के सूफी कवि, पृष्ठ ५१ ।

³ "According to Hujwiri, Love is defined by theologians 'as restlessness to obtain the desired object.'"—(*Outlines of Islamic Culture, Vol. II, P. 502.*)

⁴ "Without the dosing of love there is no entrance to the beloved."—(*The Persian Mystics, Jalaluddin Rumi, P. 47.*)

पहुँचना असम्भव है। इस प्रेम के पवित्र आचरण में प्रणयी दयालु, मृदुल एवं निश्चल हो जाता है। ईर्ष्या, असूया, निन्दा, मिथ्या स्तुति, आश्रय तथा पारुष्य उससे दूर भाग जाते हैं। वास्तव में सौन्दर्य का प्रेम उसके हृदय को इतना मुन्दर बना देता है कि उसमें बुराइयों की निन्दा के लिए भी स्थान नहीं रहता। यही कारण है कि प्रेमी अपने प्रणय-पात्र के सौन्दर्य पर इतना मुग्ध होता है कि उसे वह सदैव नूतन-सा दीख पड़ता है। इसमें प्रेमी के हृदय की ही विशेषता है, जिसको प्रेम ने युवा बना दिया है। प्रेम स्वयं युवा है। वह जिस पर छाता है उसे ही युवा बना देता है। इसीलिए प्रेमी स्वयं तड़पता और प्रियतम को तड़पाता है। उसको हानि-जाभ तथा यश-अपयश की भी चिन्ता नहीं रहती। उसकी अवस्था उस पानल रोगी के समान हो जाती है जिसके घाव पर जितना नमक छिड़का जाय उसे उतना ही चैन पड़ता है और जितनी दवा की जाय उतना ही अस्वस्थ होता जाता है। उसके सम्पूर्ण शरीर में उसका प्रिय व्याप्त रहता है फिर भी वह अपने प्रिय का बन्दी रहना चाहता है। शेख शादी ने लिखा है कि उसका बन्दी कारागार से मुक्त होने का इच्छुक नहीं है।^१ जो उसके प्रेम-पाश में अबरुद्ध हो गया है वह छूटना नहीं चाहता।

यह प्रेम माधुर्य उत्पन्न करता है, इसीलिए प्रेमी को कटुक पदार्थ भी मिष्ट हो जाते हैं। प्रेम के रोग से समस्त रोग दूर हो जाते हैं। यह काँटों को पुष्प बना देता है। उसके उन्माद में सूली सिंहासन और कारागृह उद्यान बन जाता है। मंसूर इसी तरंग में हँसने-हँसते सूली पर चढ़ गया था; निःसन्देह यह प्रेम स्वर्गीय गुणों का स्रोत है और चमत्कारों का भण्डार है। प्रेम के साथ समन्वय, सौन्दर्य, लय, प्रकाश और जीवन आते हैं। जो कुछ हर्ष-विषादमय कहा जाता है वही प्रिय, आनन्दप्रद और मर्मभेदी हो जाता है। यही कारण है कि प्रेमी कवि बन जाता है। प्रेम की इस मोहक शक्ति के प्रभाव से प्रेमी को विश्राम नहीं मिलता। परन्तु अन्त में प्रणय-पात्र को दया आती ही है। हाफिज़ ने कहा है कि क्या कोई ऐसा भी प्रेमी हुआ है जिसके हाल पर यार ने दया-दृष्टि न की हो।^२

माधुर्य भाव के कारण ही संसार में सौन्दर्य का बाह्य प्रेम आन्तरिक सौन्दर्य के प्रेम का कारण बन जाता है। सूफियों के कथनानुसार इसके मजाजी इसके हकीकी में बदल जाता है। फिर साधक को अन्तर्जगत में आनन्द आने लगता है और व्यान द्वारा ईश्वरीय सौन्दर्य पर मुग्ध होता रहता है। उसे वाक्य पदार्थों का सौन्दर्य तच्छ

^१ असौरश न साहब रिहाई जे बन्द ।

शिकारश न साहब खलास अज कमन्द ॥—ईरान के सूफी कवि, पृष्ठ २२४ ।

^२ “आसिक कि शुक के यार बहालश नजर न कई ॥”—ईरान के सूफी कवि, ३३५ ।

प्रतीत होता है, जो यहाँ सुन्दर है, वहाँ असुन्दर, जब कि ईश्वरीय सौन्दर्य नित्य, एक रूप और अपरिवर्तनशील है। इस दैवी सौन्दर्य पर विमुग्ध हुआ प्रेम के वास्तविक ध्येय से परिचित हो जाता है और पुनः अपने प्रणयपात्र में समग्र रूप से लीन हो जाता है। इस लीनावस्था में प्रेमी स्वयं प्रेम रूप हो जाता है। जामी ने लिखा है कि मेरे हृदय रूप सितार पर प्रेम ने एक ऐसी रति बजा दी है जिसके प्रभाव से मैं सिर से पैर तक प्रेम-ही-प्रेम हो गया हूँ।^१

सूफियों को इसी दैवी प्रेम की बुभुक्षा है। हम पहले कह आये हैं कि सूफी एक सच्चा प्रेमी है जो अपने प्रियतम के प्रति प्रेम की साधना में लीन रहता है। यह सूफी साधना भारतीय साधना से भिन्न है। भारतीय अध्यात्म में विरति शासन करती है जब कि सूफीमत में रति। सूफियों की रति में माधुर्य के साथ मादक भाव भी रहता है परन्तु उसमें निहित वासना को पत वासना ही कहना उचित है, क्योंकि सांसारिक रति के आस्वादन से जो आनन्द प्राप्त होता है वह क्षणिक और दुःखद होता है जब कि दैवी प्रेम का आनन्द नित्य और शान्तिप्रद होता है।

सूफियों की साधना में रति का आलम्बन ईश्वर ही होता है। उनकी आस्था के अनुसार ईश्वर साकार नहीं है अतः वे साकार प्रियतम की भाँति उसका विरह जगाते, नाम जपते और ध्यान करते हैं। अनेकों नामधारी सूफियों ने आलम्बन की अलक्ष्यता के कारण प्रिय या प्रियाओं को ही आलम्बन मानकर परोक्षतः परम प्रियतम के रति भाव को अभिव्यक्त किया है। सादी जैसे सदाचार के प्रतिपादक कवि ने तो अमरद को ही प्रतीक मानकर प्रियतम का विरह जगाया है।^२ यही कारण है कि सूफी प्रेमी कहे जाते हैं। अपरंच जन्मान्तर की मान्यता के अभाव में उन्हें अनन्त आनन्द की अभिलाषा नहीं है प्रत्युत् हृदय की दृष्टि में ही जीवन का साफल्य भासित होता है।

सम्पूर्ण विश्व उसी का तो प्रदर्शन है अतः प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ उसकी रति का उद्दीपक होता है। वे प्रति सौन्दर्य में परम सौन्दर्य का अंश देखते हैं अतः और अधिक विकल होते रहते हैं। चाँद प्रियतम के मुख, कमल उसकी आँखों, सुमन-संचय उसके स्मित और रजनी उसके कुंचित केशपाशों की स्मृति दिला-दिला कर उन्हें तड़पाया करते हैं। उन्हें ऐसा जान पड़ता है कि मानो पवन उसी की खोज में भटकता फिरता है, नदों का हृदय उसी के वियोग में द्रवित होकर पानी हो गया है, विशाल समुद्र की विकलता भी उसी के लिए है और निस्सीम गगन भी दिन में उसी के लिए तपता एवं रात्रि में शत-शत चक्षुओं से उसी के अवलोकन में लीन रहता है।

^१ “बरऊबे विलम नवास्त यक जमजमा इश्क।

जां जमजमा अमबे पाये ता सर हम इश्क ॥” — ईरान के सूफी कवि, पृष्ठ ४००।

^२ तसव्वुफ अथवा सूफीमत, पृ० १०२।

सूफी-साधना में एक बड़ी विलक्षणता है कि वे रति के आश्रय होते हैं परन्तु उनका प्रियतम भी आश्रय बन जाता है। उन्हें ही प्रेमी होने का पूर्ण स्वत्व प्राप्त नहीं है। उनका प्रियतम भी प्रिय की ओर बढ़ता है। किन्तु जब प्रियतम में वियोग की विकलता है तो प्रेमी में तड़पन, कम्पन, प्रलपन, रुदन आदि सब कुछ है। वह उसके वियोग में भूख-प्यास, नीत-ताप एवं सुख-दुख आदि सभी सहता है। कभी-कभी विकलतावश उसे निर्वेद आता है तो कभी अयोग्यता पर ग्लानि आती है। कभी चिंता चिंतित कर जाती है तो कभी आशा को एक रेख हर्ष का कारण बन जाती है। कभी स्मृति आती है तो कभी धृति और कभी मोह व्यामोहित कर जाता है। कभी आवेग है तो कभी जड़ता, कभी मति है तो कभी उन्माद। इस प्रकार अनेक चेष्टाएँ एवं अवस्थाएँ घटित होकर रति का परिपाक करती रहती हैं। कभी-कभी प्रेमी साधक को इतनी तल्लीनता होती है कि उसे प्रियतम का साक्षात्कार हो जाता है। यही उनकी रति का साफल्य, साधना का अन्त और प्रियतम से मिलनावस्था है। सूफीमत में इसी को मरण कहा गया है। अल हल्लाज ने शिब्ली को सम्बोधित करते हुए कहा था "ओ, शिब्ली प्रेम का आरम्भ एक दग्धकारी अग्नि है और अवसान मृत्यु।"^१

इस साधना में ध्यान एवं ज्ञान का बड़ा महत्त्व है। मनुष्य तीन तत्त्वों से बना हुआ है—(१) बुद्धि गुण युक्त आत्मा (रूह), (२) वासनापूर्ण आत्मापक्ष (नफस)^२ एवं (३) इन्द्रियानुभव का आश्रय शरीर। इनमें से रूह देवी अंश है, जो सूफियों के मतानुसार स्वतन्त्र सत्ता न रखती हुई उसी विश्वात्मा से आई है। वही अपने मूल-स्रोत के परिचय एवं गवेषणा में लीन रहती है। नफस मनुष्य का दानवी पक्ष है, जिसे शरीर सम्बन्ध से उत्पन्न शैतान की प्रेरित शक्ति कहना चाहिए। यह वासनाओं की जननी, उद्भाविका, सहचरी सभी कुछ कही जा सकती है। यह सदैव आत्मा को परमात्मा से विमुख करने और उसे उन्मार्गगामी बनाने में प्रयत्नशील रहा करती है। इसलिए यह मनुष्य की परम शत्रु है। सन्यस्त जीवन में जप, ध्यान द्वारा नफस के विशुद्ध ही युद्ध किया जाता है। सूफी इसी को जहाद कहते हैं। इस जहाद में अपने मूलोद्गम से आध्यात्मिक सम्पर्क जोड़ने का प्रमुख लक्ष्य होता है।

सूफियों के अनुसार आध्यात्मिक सम्पर्क के तीन उपकरण होते हैं^३—प्रथम क़ल्ब

^१ "O Shibli, the beginning of love is a consuming fire and the end thereof is death."—(*Al-Ghazzali the Mystic*, P. 177.)

^२ "Man is composed of (a) 'Spirit', with the attribute of intelligence; (b) 'soul', with the attribute of passion; and (c) 'body', with the attribute of sensation."—(*Outlines of Islamic Culture*, Vol. II, P. 497.)

^३ "The Sufis distinguish three organs of spiritual communication: the heart (qulb), which knows God; the spirit (Ruh) which loves Him; and the innermost ground of the soul (Sirr), which contemplates Him."—(*The Mystics of Islam*, P. 68.)

(हृदय), द्वितीय रूह (आत्मा), और तृतीय सर्र है। क़ल्ब को सूफीमत में भौतिक नहीं माना गया है। यह शरीर में स्थित होता हुआ भी एक मांसपिंड नहीं बरन् चेतना का लक्षण है। क़ल्ब और रूह रहस्यमय जीवन की उपयुक्त भूमि हैं अतः इनमें परस्पर प्रत्यक्ष भेद नहीं किया जा सकता।^१ क़ल्ब ही रहस्यज्ञान का साधन है। यह निसर्गत-निर्मल दर्शन के सहृदय है जिसमें वास्तविकताएँ स्पष्ट झलकती हैं। क़ल्ब-गोचर ज्ञान बुद्धि-ज्ञान से भिन्न होता है, क्योंकि बौद्धिक ज्ञान बाह्य आश्रय की पर्याप्त सहायता लेता है अतः तर्क, वितर्क, वितंडा, सन्देह, भ्रम आदि से पूर्ण भी होता रहना है जब कि हार्दिक ज्ञान अन्तर्जगत से सम्बन्ध रखता है अतः वास्तविक होता है। इस कारण हम क़ल्ब को अन्तर्दृष्टि भी कह सकते हैं। इस पर आवरण डालने वाले दूषित विचार ही हैं जो मनुष्य के दानवी पक्ष की कृति तथा भौतिक संसार के सम्बन्धी होते हैं। इस आवरण के हटने पर हृदय रहस्य के उद्घाटन में लीन हो जाता है। इसके फल-स्वरूप जो ज्ञान होता है, सूफीमत में उसे मारिफत कहा है। यह साधारण इल्म से भिन्न होता है, जो बुद्धि से सम्बन्ध रखता है और जिसे सूफी अक्षा कहते हैं। सूफी अक़ल को नफ़स का ही सहायक मानकर अवलम्बनीय नहीं समझते प्रत्युत इसकी उपेक्षा कर अन्तर्ज्ञान की ही अपेक्षा करते हैं।

रूह दिव्य होने के कारण आवरण के अपनयन पर सदैव अपने उद्गम की ओर उन्मुख रहा करती है। मलीन से मलीन आत्मा भी यदाकदा आपन्नावस्था में अथवा साधु-संगतिवश मलिनता से विमुख हो अपने को देखती ही है। इस अन्तः-अवलोकन में सर्र का बड़ा महत्त्व है। यह क़ल्ब का अन्तस्थल माना गया है। रूह ईश्वर को प्रेम करती है, क़ल्ब उसको जानता है और सर्र उसका ध्यान करता है। सर्र ही मनुष्य को चिन्ताप्रिय बनाकर अन्तःप्रवृत्ति बनाता है।

उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि ईश्वर के साक्षात्कार में क़ल्ब और सर्र का बड़ा महत्त्व है। पहले कहा जा चुका है कि क़ल्ब प्रकृति से उज्ज्वल और पवित्र है परन्तु वासनाओं की कालिमा इसे मलीन और दूषित बना देती है। ज्ञान के प्रकाश के बिना हृदय में अन्धकार हो जाता है। इसी कारण अज्ञानान्धकारपूर्ण हृदय में वस्तु-स्वरूप ठीक-ठीक नहीं भासता और मनुष्य कुमार्गगामी हो जाता है। फिर वह स्वयं प्रपञ्चपाश विद्याता है और उसमें स्वयं ही आवद्ध होता रहता है। स्वयं ही दानव प्रकृति के वशीभूत होकर निधियाँ लूटता रहता है और शनैः शनैः आत्मद्रव्य से वंचित हो जाता है। यही नहीं संसार का अनर्थ ही उसके जीवन की सार्थकता हो जाता है। परन्तु जब आत्मा पेशाविक प्रकृति को लात मार देती है और ईश्वर से प्रेम करने

^१ "The Qulb and the Ruh are the proper organs of the mystical life and are not clearly distinguished from one another."—(*Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. XII, P. 13.*)

लगती है तो हृदय परिष्कृत होने लगता है । बाह्य सौन्दर्य अन्तःसौन्दर्य के समझ मन्द पड़ जाता है और आत्मा अपने अन्तस्थल में ही अपनी निधियों को खोजती है । इसमें मनुष्य का संकल्प प्रधानतः भाग लेता है, क्योंकि वही दैवी इच्छा का प्रतिबिम्ब है । पुनः क्रोध, मान, माया एवं लोभादि में त्रिहीन होकर हृदय अतिमानुषी शक्तियों से भर जाता है और प्रकाशवान हो जाता है । इस प्रकाश में सादी^१ के अनुसार प्रकृति की पत्ती-पत्ती उसके लिए धर्म-पुस्तक हो जाती है और उसी दैवी सत्ता की ओर संकेत करती-सी दीख पड़ती है ।

हृदय से अज्ञानान्धकार के अपसारण और प्रकाश के प्रसारण के लिए ज्ञान का दीप प्रदीप्त करना अत्यावश्यक है । ज्ञान तीन प्रकार से विभक्त किया गया है । प्रथम इन्द्रिय-ज्ञान है जो चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना और स्पर्श इन्द्रिय के विषयों से सम्बन्ध रखता है । यह स्थूल ज्ञान है और आत्मा को सूक्ष्मता में स्थूलता की ओर ले जाता है । द्वितीय बौद्धिक ज्ञान है । इसका क्षेत्र भावजगत है परन्तु वहाँ कल्पना एवं अनुमान की प्रधानता होती है और तर्कों की कसौटी पर कसकर धारणा निमित्त की जाती है । इस ज्ञान में इन्द्रिय-ज्ञान सहायता देकर विशेष प्रतिपत्ति का निमित्त बनता है । यह ज्ञान आत्मा में सन्देह-स्थिति उत्पन्न करता है अतः कदापि निश्चयात्मक नहीं होता । यही कारण है कि सूफी इसे इन्द्रिय-ज्ञान से सूक्ष्म होते हुए भी अन्तर्ज्ञान की संज्ञा नहीं देते बरन् उसका विघातक मानते हैं । तृतीय ज्ञान आत्मज्ञान है । इसे आध्यात्मिक ज्ञान, दैवीज्ञान, अन्तर्ज्ञान, वास्तविक ज्ञान कुछ भी संज्ञा दी जा सकती है । सूफी लोग इसे ही मारिफत कहते हैं ।

इस ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति में कोई बौद्धिक ज्ञान को, कोई आत्म-शुद्धि को और कोई आत्म-चिन्तन को साधन मानता है । सुलुकी का कथन है कि यह ज्ञान प्रथम बौद्धिक अनुसरण से पुनः शनैः शनैः आत्मशुद्धि तथा अन्तर्दृष्टि से प्राप्त होता है ।^२ वास्तव में यह रहस्य का प्रकाशक होता है । अतः इसमें मनन एवं चिन्तन की प्रधानता होती है जो अन्तर्दृष्टि के पर्यवेक्षण का ही परिणाम है । यह सहज अन्तर्ज्ञान होने के कारण दैवी प्रकाश से सम्बन्ध रखता है । अतः हृदय को भी प्रकाशपूर्ण बना देता है । यह किसी अभ्यास या अनुशासन का फल नहीं होता क्योंकि अनुशासन तो वहीं तक कार्य करता है जहाँ तक मनुष्य दानवी आत्मा से

^१ "When the eyes open and begin to see with the divine light and divine sight, even the leaves of the tree become as the pages of a Bible to Him."—(In *An Eastern Rose Garden*, P. 131.)

^२ "Suluki says that divine knowledge may be obtained in the start by intellectual pursuit and gradually by self-purification and intuition."—(*Outlines of Islamic Culture*, Vol. II, P. 500-1.)

विमुक्त नहीं होता। बुद्धि यहाँ पंगु हो जाती है, क्योंकि यह दैवी होने के कारण ईश्वरीय प्रेरणा से ही प्राप्त होता है इसलिए यह अनिबन्धनीय होता है और रहस्यमयी वाणी में अभिव्यक्त किया जाता है।

ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति में अनेकों ने भिन्न-भिन्न स्थितियाँ मानी हैं। साधारणतः हम प्रथम, मध्यम और उत्तम स्थिति की दृष्टि से तीन विभाग कर सकते हैं। प्रथम स्थिति हम उज्ज्वल जीवन कह सकते हैं। इसमें मनुष्य सांसारिक वासनाओं को हेय जानकर हृदय की शुद्धि में दत्तचित्त होता है। उसके बन्धन और कर्म भी पवित्र हो जाते हैं। द्वितीय स्थिति को प्रकाशवान् जीवन कह सकते हैं। इसमें मनुष्य की इच्छा-शक्ति, अनुभव एवं बुद्धि, ये सभी एक ईश्वर पर ही स्थित होते हैं। अनुभव सचेतन होता है, बुद्धि प्रज्ञा का अनुसरण करती है और इच्छा-शक्ति ईश्वरीय इच्छा पर अवलम्बित हो जाती है। तृतीय स्थिति अन्तिम स्थिति होती है जिसमें मनुष्य ध्यान द्वारा ध्येय से सायुज्य प्राप्त कर लेता है। उसे ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है और उसी में वह अभिन्न रूप से मिल जाता है।

जो सूफी परमात्मा की गवेषणा प्रारम्भ कर देता है वह सालिक (यात्री) कहलाता है। वह पुनः मार्ग पर मात मकामात (स्थितियाँ) पार करता हुआ ईश्वर से अभेद प्राप्त करता है। सालिक से पूर्व वह मोमिन की अवस्था में होता है, जहाँ वह शरीरगत पर विश्वास करता है।^१ शरीरगत के विधान जब बाधा रूप प्रतीत होते हैं तो वही किसी मुशिद (गुरु) के पास मुरीद (शिष्य) बन जाता है और पुनः निष्ठावान् होकर ईश्वरीय मार्ग पर यात्रा प्रारम्भ कर देता है। अब वह सालिक हो जाता है और शीघ्र ही आविद (आराधक) होकर मार्ग पर आगे बढ़ता है। यहीं से उसकी वास्तविक यात्रा प्रारम्भ होती है और वह शरीरगत से तरीकत के क्षेत्र में आजाता है। इस स्थिति में यात्री पश्चाताप, संयम, त्याग, धैर्य, ईश्वर में विश्वास, मित भोजन एवं मित भाषण आदि गुणों को पूर्णतः ग्रहण करता है। तदनन्तर उसमें इस्क (प्रेम) विकास को प्राप्त हो जाता है और उसे एकान्तप्रियता भाने लगती है। अब वह जाहिद कहलाता है। एकान्त चिन्तन से उसमें ईश्वरीय ज्ञान का आविर्भाव होता है। सूफी लोग इसे ही मारिफत कहते हैं। अब वह मारिफ बन जाता है और तल्लीनता को प्राप्त करता हुआ हकीकत के क्षेत्र में पहुँचता है। इसी क्षेत्र में उसे वसल (ईश्वर से अभेद) की स्थिति आते ही फना की दशा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ आत्म-भाव का संक्रमण और ईश्वर से अभेद हो जाता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय की एकरूपता से भी ऊपर साक्षात्कार का आनन्द प्राप्त

1 "The Sufi sets out to seek God calls himself a traveller (Salik); he advances by slow stages (Maqamat) along a path (Tariqat) to the goal of union with reality (Fana il-Haqq)."—(The Mystics of Islam, P. 28.)

होता है। आत्मा ईश्वर में अभिन्न रूप से निवास करती है। सूफी इसी अवस्था को वका कहते हैं। यही सूफी का चरम लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति पर मनुष्य पूर्ण पुरुष हो जाता है।^१

फना और वका की स्थितियों में कुछ अवस्थाएँ होती हैं जिनमें से फना की स्थिति के साथ ही फकद की स्थिति आती है। इसमें आत्म-भाव का पूर्ण विनाश हो जाता है। इसी तल्लीनता से उन्माद की अवस्था आ जाती है। सूफीमत में इसे सुक कहा गया है। वका की स्थिति में ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, इसी को वज्द कहते हैं और इसी की चरम सीमा शह कहलाती है। यहाँ अभेद का भी भान नहीं रहता। इनमें से फना, फकद और सुक आत्म-भाव के अभावरूप हैं और वका, वज्द और शह ईश्वरीय भावरूप हैं अतः यह समान स्थितियों के अभाव और भाव रूप होने के कारण परस्पर एक रूप ही हैं।^२ वास्तव में प्रारिफ जब हकीकत के क्षेत्र में पहुँच जाता है तब वह हक बन जाता है और साथ ही उसे उपर्युक्त स्थितियाँ प्राप्त हो जाती हैं। शबिस्तरी के अनुसार ईश्वर का साक्षात्कार होने पर 'मैं' और 'तू' का भाव भी मिट जाता है और वे दोनों एक हो जाते हैं।^३ इस प्रकार गवेषणा समाप्त हो जाती है, मार्ग का भी अन्त हो जाता है तथा खोजक विराम को प्राप्त होता है और सबका एकीभाव होकर एकरूपता में परिवर्तित हो जाता है।

जलालुद्दीन रूमी के अनुसार पश्चाताप, त्याग, ईश्वरीय विश्वास और जप द्वारा परमान्हाद एव अभेद की स्थिति तक पहुँचा जाता है।^४ अन्तिम स्थिति फना है, जिसकी चरमावस्था फना-अल-फना है।

अतार इन्हीं स्थितियों को यात्री की सात घाटियाँ कहता है।^५ प्रथम घाटी खोज की है। यहाँ से यात्री ईश्वर की खोज प्रारम्भ करता है। उसे अपार कठिनाइयों,

१ "To abide in God (baqa) after having passed away from selfhood (fana) is the mark of the Perfect Man."—(*The Mystics of Islam*, P. 163.)

२ Fana (passing away from individuality), Faqd (self-loss) Sukr (intoxication) with their positive counterparts Baqa (abiding in God), Wajd (finding God) and Sahw (Sobriety) — (*Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol. 1, P. 14.)

३ "In the presence, says the Sufi Mystic, 'I' and 'thou' have ceased to exist, they have become one — the quest and the Way and the Seeker are one." — (*Studies in Early Mysticism in the near and Middle East*, P. 9.)

४ "It is the way that leads away from self, through repentance, renunciation, trust in God (tawakkul), recollection (Zikr) to ecstasy and union with God. The final stage is fana, Culminating in fana-al-fana." — (*The Influence of Islam*, P. 156.)

५ "The first of the seven is the Valley of Search, the second is the Valley of Love. The third Valley is that of Knowledge. The fourth stage is the Valley of Detachment. The fifth valley is that of Unification. The sixth valley is the Valley of Bewilderment. The seventh and last valley is the Valley of Annihilation." — (*The Persian Mystics, Attar*, P. 29-31.)

परीक्षाओं और विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में वह मंकल्प और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ता है और ऋजूता और गुचिता को प्राधान्य देता है। इसके पश्चात् वह द्वितीय प्रेम की घाटी में पग रखता है। इसमें यात्री प्रेमाग्नि में प्रदीप्त हो जाता है और उसमें प्रियतम की प्राप्ति के लिए आकांक्षा बलवती हो जाती है। अब वह अपने निमित्त न जीकर केवल प्रणय-पात्र के निमित्त ही जीता है। प्रेम का आसव पीकर वह इतना मतवाला हो जाता है कि कठिन-से-कठिन सकटों को भी सह लेता है। उसे वास्तविक ज्ञान हो जाता है और वह तृतीय घाटी में आ जाता है। यहाँ ज्ञान का सूर्य जगमगाता है और प्रत्येक यात्री अपनी शक्ति के अनुसार अन्त-प्रकाश को प्राप्त करता है। यह ज्ञान दिव्य होने के कारण बौद्धिक ज्ञान से नितान्त भिन्न होता है। इस ज्ञान में जिनका हृदय प्रकाशित हो जाता है वे उस दिव्य सौन्दर्य की भाँकी लेते हैं जो अणु-अणु में बिखरा पड़ा है। तदनन्तर वह चतुर्थ विच्छेद की घाटी में आता है। इस स्थिति में उसे संसार से पूर्ण विरक्ति हो जाती है अतः सासारिक इच्छाएँ विलीन हो जाती हैं। यहाँ तक कि दैवी रहस्य की जानेच्छा भी नहीं रहती। केवल एक व्यापक दैवी सत्ता का ही भान होता है, जिसके समक्ष समस्त दृश्य सत्ता अभावस्वरूप जान पड़ती है। इसमें समन्व भी उद्बुद्ध हो जाता है जिससे दुःखानुभव पूर्णतः विलीन हो जाता है। इसके पश्चात् यात्री प्रियतम से मिल जाता है। इस स्थिति का नाम सायुज्य की घाटी है जहाँ बाहुल्य एकत्व में लीन हो जाता है तथा परिणाम और गुण का भाव मिट जाता है। इस अवस्था की पूर्णता पर 'मे' और 'तू' का भाव नहीं रहता। पुनः वह विस्मय की घाटी में पहुँच जाता है। यहाँ वह ईश्वरीय साक्षात्कार ने विस्मित होकर परमानन्द में इतना निमग्न होता है कि आत्म-चेतना जाती रहती है और शीघ्र ही आत्मलय की अवस्था आ जाती है जिसे सप्तम घाटी कहा है। इसमें इन्द्रियाँ विषयों से विरत हो जाती हैं। आत्मा उस निस्सीम सत्ता-में अपने को पूर्णतः विलीन कर देता है, जहाँ अखंड आनन्द और अटल शान्ति का साम्राज्य है।

हल्लाज ने नासूत (मानवीय प्रकृति) को लाहूत (दैवी प्रकृति) से किसी प्रकार भिन्न माना है।¹ उसका कथन है कि रहस्य की दृष्टि से सम्पूक्त हुई भी ये अभिन्न नहीं बरन् मिलन में भी व्यक्तित्व रहना ही है। गजाली ने इनके साथ मलकूत और जवरूत का भी विधान किया है। किसी-किसी ने हाहूत को भी माना है। ये विकास की स्थितियाँ हैं जिनमें होकर मनुष्य जान द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए

¹ (Hallaj). "however, distinguishes the human nature (Nasut) from the Divine (Lahut). Though mystically united, they are not essentially identical and interchangeable. Personality survives even in union."—(Studies in Islamic Mysticism, P. 50.)

आगे बढ़ता है। नामन, मनकून, जबरन और लाहूत ये क्रमशः उत्तरोत्तर स्थिति की योग्यता का कारण होनी हैं और अन्त में अधिकांश सूफियों के अनुसार ईश्वर में लीन करा देती हैं।

उपर्युक्त विवेचन में जान ड़ोना है कि त्रिविध प्रकार में वर्णित स्थितियों में सभी ने अन्न में आत्मलय और अभेद की स्थिति को माना है जिसे फना एव बका की संज्ञा दी गई है। इसमें आत्म-भाव का नाश और ईश्वर से ऐक्य हो जाता है। तथा ज्ञान अन्तर्दृष्टि में, अन्तर्दृष्टि ईश्वरीय प्रेरणा में, ईश्वरीय प्रेरणा ध्यान से और ध्यान ध्येय से एकरूपता प्राप्त कर लेता है। अलगजाली में प्रतिपादित तीन प्रकारों के ध्यानों में यह अवस्था अन्तिम ध्यान की होती है।^१ यहाँ केवल ईश्वर का ही ध्यान होता है और वास्तविकता ही दीख पड़ती है। ध्याता को स्वयं यह ध्यान नहीं रहता कि मैं ध्यान कर रहा हूँ और मेरा कोई ध्येय है। उस समय आत्मलय हो जाता है जिसमें ध्याता, ध्यान और ध्येय की पृथक् स्थिति नहीं रहती। इस स्थिति से पूर्व ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। फराबी ने कहा है कि जब तक मनुष्य अनेकता से एकरूपता पर नहीं आ जाता उसे परमात्म-परिचय नहीं हो सकता।^२ हुजविरी के अनुसार ध्यान की चरम अवस्था वही है जिसमें प्रेम पराकाष्ठा पर होता है और ईश्वरीय साक्षात्कार में मानवीयता ईश्वर में चिरस्थायित्व द्वारा लय को प्राप्त हो जाती है।^३

इस अवस्था में उन्दिद्या कायंभार में विमग्न हो जाती है। मन में तल्लीनता के अतिरिक्त कोई अन्य भाव नहीं रहता एव ईश्वरीय ध्यान में सब कुछ विराम को प्राप्त हो जाता है। अतः उसके लिए ससार का अभाव हो जाता है और केवल एक नित्य मत्ता का ही भान होता है। देश, काल, गुण और भाव का तनिक भी भेद प्रतीत नहीं होता तथा इससे परे किन्तु इनमें व्याप्त शाश्वत सचाई रूप ही हो जाता है। ज़ालाहुदीन रूमी ने ईश्वर से सायुज्य-काल को नित्य जीवन कहा है, क्योंकि उसके लिए समय को वहाँ पर स्थान नहीं है।^४

सूफीमत में स्वप्न का बड़ा महत्त्व है। यात्री की इस तल्लीनता रूप जागरूक

^१ " . . . and finally the contemplation of God Himself the vision of Reality, which is certain and without doubt."—(*Al-Ghazzali The Mystic P. 171.*)

^२ "According to Farabi, God cannot be realised unless a man passes from multiplicity to oneness. —(*Outlines of Islamic Culture Vol. 2, P. 483.*)

^३ "The Highest contemplation, said Hujwiri is violence of Love and absorption of Human attributes in realising the vision of God, and their annihilation by the everlastingness of God."—(*Al-Ghazzali, the Mystic, P. 173.*)

^४ "Eternal Life, methinks, is the time of Union, because time, for me, hath no place there."—(*The Persian Mystic Jalaluddin Rumi, P. 41.*)

अवस्था में चिन्तन को ही स्वप्न कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम उसे तल्लीनता में जागरूकता एवं उन्माद में सचेतनता कह सकते हैं। साधारण मनुष्य की अर्द्धसुप्तावस्था में मन की चेष्टाओं के फलस्वरूप दृश्य वस्तुओं के त्रिलक्षण सम्मिश्रण से मानस पर जो विविध चित्र अंकित हो जाते हैं, वे भी स्वप्न हैं, परन्तु वे भ्रमात्मक हैं जब कि वे वास्तविक। सूफी के स्वप्न में अन्त प्रेरणायें हैं जिन्हें विष्वात्मा मानव-हृदय में प्रेरित करता है और तब भावना-शक्ति उन्हें पकड़ लेती है तथा अन्तःप्रकाश में मानस-पट पर उनका प्रदर्शन करती है।

इस प्रकार हम इस परिणाम पर आते हैं कि फना की अवस्था में जो रहस्यात्मक मानसी चित्र होते हैं, वे ही वास्तविक स्वप्न हैं। वहाँ परमात्म-भाव के अतिरिक्त और कोई अनुभव नहीं होता। अतः सचेतनता होते हुए भी प्रार्थना आदि किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं।^१ अधिकांश सभी ने ऐसा ही माना है, क्योंकि भेद-बुद्धि रहते हुए एकाग्रता नहीं हो सकती। एवं एकाग्रता के अभाव में एकीभाव नहीं हो सकता और जब एकीभाव ही नहीं तो साधना की सफलता कहाँ? हाफिज़ ने ईश्वर और अपने मध्य आत्म-व्यक्तित्व के विचार को महा पाप कहा है।^२

पहले कहा जा चुका है कि फना का स्रोत भारतीय होते हुए भी हम इसे बौद्धों के निर्वाण के तुल्य नहीं कह सकते।^३ यद्यपि इन दोनों का शाब्दिक अर्थ समान ही है क्योंकि फना से तात्पर्य आत्म-लय और निर्वाण से आत्म-निर्वाण है। तथापि निदानतः इनमें भेद अवश्य है। निर्वाण लय रूप ही है जब कि निजत्व का अभाव रूप फना ईश्वर के भाव रूप वका से महयोग पाता है। निर्वाण वासना आदि के समाप्त होने पर क्रमशः प्राप्त होने वाली एक स्थिति है जिसमें अशय शान्ति होती है और फना की भाँति ह्योन्माद नहीं होता।

सूफियों की साधना में प्रतीकों का बड़ा हाथ रहा है। यह कहा जा चुका है कि सूफीमत बाह्याचार के विरुद्ध ईश्वर के प्रति उद्बुद्ध हुई नैसर्गिक अनुरक्ति का परिणाम था। कुरान में प्रतिपादित ईश्वर स्वच्छन्द शासक था जो कठोर दंड का विधाता था अतः आपद्ग्रस्त लोगों को और भी भयावह था। भला ऐसा ईश्वर विपन्न मानवों को कैसे शान्तिप्रद हो सकता था। इसीलिए मधुर और कोमल अवलम्बन खोजा गया और वह उस ईश्वर के अतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता था, जो प्रेम रूप है, परम सुन्दर है, तथा जिसका सौन्दर्य विश्व के कण-कण में भरा पड़ा

^१ "When God is present and manifested," said the Sufi Dhun-Nun, "there is no need to make intercession."—(*Al-Ghazzali the Mystic, P. 171.*)

^२ As declared by Hafiz, "Man's concentration of attention on his individual self is the greatest of all evils between Him and God."—(*Outlines of Islamic Culture, Vol. 2, P. 499.*)

^३ *The Mystics of Islam, introduction, P. 18.*

है। निदान सूफियों का वह ईश्वर प्रियतम के रूप में आया। वह अमूर्त होता हुआ भी नूतिमान सौन्दर्य है, माधुर्य लोक का शासक है, और प्रेम का प्रचारक है। वह प्रणय-पात्र बनकर प्रियतम बनने का ही अधिकारो नहीं वरन् स्वयं भी प्रेमी के लिए तड़पता है।

यह धरीअत के विरुद्ध था। जो ईश्वर आराध्य है, उदास्य है, भला वह माशुक (प्रियतम) कैसे हो सकता है? जो शासक है, निर्णय के दिन का स्वामी है भला वह प्रेमी के लिए कैसे तड़प सकता है? जो स्वयं सर्वोपरि है, सारा चराचर विश्व भावरूप में जिसकी इच्छा मात्र का फल है भला वह जीवात्मा से एक रूप कैसे हो सकता है? तमाज का त्याग कर उन्मादी की भाँति इक का राग अलापे जाना तथा हज आदि को छोड़कर केवल पीरों की मेवा में लीन रहना, यह सब परम्परा के विपरीत घोर उपद्रव था, जो धर्मध्वजों को सहाय न था। रक्त की प्यासी तलवार क्षण मात्र में सारा उन्माद उतार देती थी अतः सूफियों ने अपने अध्यात्म भवन को इस प्रकार लड़ा किया कि जिसका बाह्य आवरण और अन्तर्भावना एक होने हुए भी भिन्न प्रतीत होते थे। वे मौत के घाट उतार दिये जाने थे: हन्लाज भी उन्हीं में से था, इसीलिए सूफियों ने प्रतीकों को अपनाया।

यह स्पष्ट ही है कि सूफियों की साधना प्रेम पर आश्रित है। उनकी रति का वास्तविक अक्षलम्बन ईश्वर ही है। परन्तु प्रत्यक्षतः ऐसा मानना संकटापन्न था, अतः उन्हींने रमणियों को प्रेम का आलम्बन बनाया। यद्दी नहीं किशोर भी प्रणय-प्रतीक बनाये गये। इस प्रथा से शर्नः शर्नः धनी एवं शासक वर्ग में व्यभिचार का बोल-बाला हो गया। परन्तु सूफी लोग सांसारिक प्रेम को दैवी प्रेम का साधनमात्र मानते थे। रमणी या किसी किशोर को सम्बोधित कर वे उसी ईश्वर का विरह जगाते थे। अतः उनकी साधना में वासना की दुर्गन्ध न थी वरन् पूत प्रेम का सौरभ महकता था। जहाँ उन्हें इस प्रकार निर्भयता प्राप्त होती थी वहाँ इनका सौन्दर्य परम प्रियतम के सौन्दर्य का प्रतीक होता था। वह सौन्दर्य उनके लिए उम परम सौन्दर्य का स्मारक और प्रेम का उद्दीपक होता था। प्रायः देखा जाता है कि सुन्दर वस्तुएँ दृष्टि को अपनी ओर आकृष्ट करती हैं और हृदय में एक मधुर चोह उत्पन्न कर देती हैं। यही बात मौकिक प्रेम-पात्रों की भी है। वे भी अपनी सुन्दरता से साधक के मानस को सुरूप बना देने हैं और उसमें शत-शत कान्त कामनाओं की कल्लोर्लें उत्तालित करते हैं। सूफी भी उनसे प्रेरणा लेते थे और अपने प्रेम को विरह-अग्नि में तपा-तपा कर कुन्दन बनाते थे। उनका अंग-अंग उनके लिए प्रतीक का कार्य करता था, जिसे वे ही समझ पाते थे।

इस प्रेम की साधना में सूफियों के यहाँ मदिरा का बड़ा महत्त्व है। प्रायः सभी

कवियों ने प्रणय-मदिरा का खूब खुलकर प्रयोग किया है। मदिरा मनुष्य को कुछ समय के लिए निश्चिन्त बना देती है। इसके उन्माद में मनुष्य मनचाला हो जाता है और आनन्द-विभोर हो तल्लीनता को प्राप्त करता है। प्रणय भी मदिरा का कार्य करता है। इसका उन्माद भी मनुष्य को उन्मादी बना देता है। उमरखय्याम ने लिखा है कि प्रेमी को दिन भर प्रणय में ही उन्मत्त रहना चाहिए एव व्याकुल होकर भटकने रहना चाहिए।^१ चैतन्य अवस्था में प्रत्येक वस्तु की चिन्ता घेरे रहती है परन्तु उन्माद में वस्तुओं का ध्यान नहीं रहता। यदि किसी का ध्यान रहता है तो केवल उसी का जिसने उन्मत्त बना दिया है। शक्सतरी ने भी मदिरा-पान को अपने आप से छुटकारा पाने के समान माना है।^२

इस प्रकार मदिरा ने सूफीमत में प्रेम का प्रतीक बनकर सबको मतवाला बना डाला। इस उन्मत्तता में उन्हें अपना प्रणय-पात्र साकी (मदिरा पिलाने वाला) जान पड़ता था। यही प्रेम की सुरा पिला-पिला कर प्रेमी को पागल बनाता था। प्रियनम का सम्पूर्ण शरीर उसके लिए मदिरा बन जाता था। फिर तो प्रणयी को ऐसा प्रीन होना था कि मानी ससार के सभी पशु-पक्षी, वृक्ष आदि उसी के साथ एक ही मार्ग के अनुगामी हैं। यही कारण है कि उमरखय्याम, फरीदुद्दीन अत्तार और निजामी आदि कवियों ने कुक्कुट, हुदहुद एव बुलबुल आदि पक्षियों को भी शाश्वत सन्य का ही उद्घाटन करते पाया है। रूमी की वामुरी तो वियोगावस्था की ही गाथा सुनानी है। उसने जिन अग्नि का प्रकाश है वह प्रेम की ही अग्नि है। इस प्रकार प्रणय-पात्रों से मदिरा पी-पी उन प्रणयी कवियों ने जो कुछ कहा वह स्वयं मद-भरा है तथा लैला-मजून, शारी-करहाद आदि प्रणयियों के प्रेमोपाख्यान मुना-मुना कर अपनी रचना में जो अनूठा रस भरा है वह साथियों के लिए मदैव सच्ची प्रेमो-पामना का साधन बना रहेगा।

सूफियों ने अपनी रचनाओं में ताकैतिक शब्दों का बड़ा प्रयोग किया है। यथा मुगन्धि में तात्पर्य ईश्वरीय ज्ञान अथवा पूर्णता की आशा है। मदिरा प्रेम अथवा

- १ आशिक हमा रोज़ा मस्तो शैवा बादा ।
दीवानओ शोरीदओ रुसवा वादा ॥
दुर हुशायारी गुस्सये हर चीज़ खुरेम ।
च् मस्त शबेम हरचे बादा बादा ॥

—ईरान के सूफी कवि, पृ० ५१।५० ।

- २ खराबाती शबम अज़ खुरिहाईस्त ।

—ईरान के सूफी कवि, पृ० २६३ ।

उन्माद को जनलाती है। मन्दिरालय ममार, पूजा-स्थान अथवा प्रणयपात्र के शरीर को ध्वनित करना है। मन्दिरा पिलाने वाला स्वयं प्रियतम है या आध्यात्मिक गुह है। उष्ट्र का प्रयोग ईश्वर के प्रति यात्रा के लिए हुआ है। विद्युत् ईश्वरीय प्रकाश एवं सौन्दर्य ईश्वरीय पूर्णता के लिए प्रयुक्त हुए हैं। उन्माद से प्रयोजन हृदय का सासारिक पदार्थों से त्रिमुख होकर ईश्वर में तन्मयता से है। इस प्रकार अन्योक्तियों द्वारा उन्होंने नित्य तथ्य को ही व्याख्यात किया है। इनकी आड में वे प्रत्यक्षत अभियोग में बचने हुए अपने मन का प्रचार करने थे और स्वयं साधना-मार्ग को निष्कटक बनाने थे। अप्रस्तुत से प्रस्तुत के प्रतिपादन द्वारा अदृश्य सचाइयों का जैसा रहस्य उद्घाटित हुआ वैसा स्वभावोक्तियों द्वारा नहीं हो सकता था। मूर्त्त से अमूर्त्त की व्याख्या बड़ी सुगमता से होनी है और मग्नमना से ही हृदयगम हो जाती है। इसी प्रथा का आश्रय लेकर अनेक सूफियों ने उल्टबासियों का भी खूब प्रयोग किया। इनके आश्रय में वेटा बाप बन गया और जननी प्रणयिनी हो गई तथा प्रेयसी ने प्रेमी का रूप धारण कर लिया। परन्तु यह विचारणीय है कि उन प्रतीकों के प्रयोग में सूफियों का प्रयोजन कभी भी वामना की पृष्टि नहीं रहा। ये तो केवल प्रतीक मात्र थे। वास्तव में तो वे उसी प्रियतम का निरूपण करते थे जो प्रेमरूप है, परम सुन्दर है तथा जिसका प्रेम और सौन्दर्य समस्त विश्व में व्याप्त हो रहा है।

सूफियों में अधिकांश सख्या ईरानियों की है। प्रायः फारस का प्रत्येक विचारक ही कवि^१ हुआ है। उमरखय्याम, फरीदुद्दीन अत्तार, रूमी एवं हाफिज आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। खय्याम ने अपनी स्वाइयों में जो भाव भरे हैं वे समस्त ससार के लिए एक अनूठी निधि हो गये हैं। इन्हीं के बल पर इसका जितना नाम इंग्लैंड, अमेरिका में है उतना ईरान में भी नहीं।^२ सनाई, अत्तार तथा रूमी ने मसनवियों में जो प्रेमाख्यात लिखे हैं, वे यद्यपि दृष्टान्तरूप में हैं तथापि अन्तस्तल से उसी प्रणय-धार को प्रवाहित करते हैं जिसमें निमग्न होकर आत्मा अपने प्रियतम को खोजती है। रूमी की मसनवी तो रहस्य के उद्घाटन में अपनी समता नहीं रखती इसलिए ब्राउन ने रूमी को सर्वश्रेष्ठ सूफी कवि माना है।^३ इनके अतिरिक्त अनेक कवियों ने गजल को भी माध्यम बनाया है। अरबी में इसका खूब प्रचार हुआ।^४

^१ "Almost every Persian thinker has been a poet" — (*Studies in Persian Literature*, P. 39)

^२ "Omar Khayyam is a name more familiar in England and America than in Persia." — (*The Legacy of Islam*, P. 180.)

^३ *A Literary History of Persia*, P. 423

^४ तसब्बुफ अथवा सूफीमत, पृष्ठ १११।

पंचम पर्व सूफीमत का भारत-प्रवेश

पूर्व पर्वों में त्रिस्तुत विवेचन किया जा चुका है कि वास्तव में सूफीमत का गर्भ उम रहस्यमयी भावना से ओतप्रोत है जो देश, काल की अपेक्षा किये बिना ही मानव मात्र के हृदय में उद्भूत हो सकती है। मुस्लिम हृदय में भी मंत्रमग्न जीवन एवं ब्राह्माडम्बर के प्रति उपेक्षा और अरुचि का ही यह परिणाम था। जो भावना स्वतंत्र रूप से उडना चाहती थी, वह प्रथम दड-भय से संकुचित हुई पड़ी रही, परन्तु पुन बल पाकर उठ खड़ी हुई और मुहम्मद साहब की मृत्यु के लगभग दो सौ वर्ष पश्चात् पूर्ण अोज के साथ बाह्य क्षेत्र में अवतरित हो गई। शनैः शनैः अरब मेसोपोटामिया, सीरिया, फारस आदि एशियाई देशों में इसने उडान भरी और शीघ्र ही मिश्र और स्पेन तक पहुँची।

सूफीमत का प्रचार और प्रसार फारस मिश्र और सीरिया में अधिक हुआ। सूफियों की अधिक सग्या फारस में ही थी। फारस का प्रायः प्रत्येक विचारक ही कवि हुआ और सूफी अधिकांशतः सभी कवि थे। घुल नून मिश्री, विस्ताम के बायजीद, इब्नुलअरबी, जुनेद, अल गजाली, फरीदुद्दीन अत्तार, जिली और जलालुद्दीन रूमी आदि ने इस मत के विकास में वाक् और लेखनी द्वारा जो सहयोग दिया वह सूफीमत के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। इन्हीं सूफी कवियों की वाणी का प्रभाव दूर-दूर देशों में भी पड़ा। जलालुद्दीन रूमी ने टर्की में बीस वर्ष रहा था और वहाँ की रहस्यवाद की कविता पर सूफीमत की छाप लगाने में सफल हुआ था। जर्मन रहस्यवादी ऐकहर्ट, टौलर और मूसो सूफीमत से प्रभावित थे^१ और महाकवि दांते भी इस प्रभाव से अछूता न बचा था^२। उमरखय्याम का जैसा नाम अमरीका और इंग्लैंड में है वैसे फारस में भी नहीं।^३ कहने का तात्पर्य यह है कि ग्यारहवीं शताब्दी में तेरहवीं शताब्दी तक इसका खूब उत्थान हुआ। वास्तव में फारस में अब्बासी शासन-काल इसका स्वर्ण-युग था, जिसमें इसके सौरभ ने महक-महककर दूरस्थित

^१ "Sufi poetry has greatly influenced western thought. Many of the German Mystics wrote as the Sufi poets had written before them. Particularly might be mentioned Eckhart, Tauler and Suso."—(*The Persian Mystic Jalaluddin Rumi*, P. 22.)

^२ "It would indeed be strange if no influence from this source reached man like Thomas Aquinas, Eckhart and Dante ;....."—(*The Legacy of Islam*, P. 210-11.)

^३ *The Legacy of Islam*, P. 180.

देशों को भी मुरझित बना दिया था। यद्यपि दाम्पत्य-भावना से मुक्त अफलातूनी प्रेम ने युरोपीय साहित्य पर अपनी मुद्रा अंकित कर दी थी। किन्तु फारस के प्रेम-काव्य ने उन्में तथा ही रूप दिया।

भिन्न-भिन्न देशों में विकसित सूफीमत के रूप में कुछ भेद था। अरब में धर्मनिष्ठता एवं अन्धविश्वास ने स्वतन्त्र विचारधारा को पनपने न दिया। इसके प्रतिकूल फारस की आत्मा चिरकाल से मुग्धकृत तथा स्वच्छन्द थी। अरब शासन ने यद्यपि उसके कलेवर को ममल दिया था परन्तु आत्मा कभी भी अन्य रंग से रंजित न हुई। हजरत जौरोस्टर ने लेकर अनेक विचारक फारस में उत्पन्न हुए, जिनकी विचार-पद्धति सदैव भविष्य के लिए पृष्ठभूमि का कार्य करती रही। यही कारण था कि प्रेम की जो सरिता फारस में प्रवाहित हुई, वह अरब में नहीं। प्रेम-प्राचुर्य के अभाव में ही अरबों की रहस्यवाद की कविता ईरानियों की अपेक्षा निम्न कोटि की है।^१ उन्में नञ्जता और आवेश है परन्तु अनुक्रम, चिन्तन और सार का अभाव है। उदाहरणतः अरबी रहस्यवादी कवि उमर उन्नुल फारिद अपने समकालीन ईरानी कवि जलालुद्दीन रूमी के समकक्ष नहीं बैठता। स्पेन का सूफीमत प्रायः चिन्तन-प्रधान था।^२

इस प्रकार सूफीमत विविध देशों में अभ्युत्थान को प्राप्त हुआ परन्तु फारस की समता कोई न पा सका। जलालुद्दीन रूमी के समय तक यौवन का पूर्ण विकास पाकर यह निधन की ओर अग्रसर हुआ।^३ इसके कई कारण थे। सूफियों की स्वतन्त्र विचारधारा धार्मिक विधानों का प्रत्यक्ष उल्लंघन करती थी। इसके लिए धुलनून एवं मंमूर अल-हन्लाज जैसे प्रतिष्ठित सूफियों को कठोरतम दंड भुगतने पडे थे। वास्तविक प्रेम की आड में व्यभिचार ने नैतिक जीवन का अन्त-सा कर दिया था। इसलिए जब मंगोलों ने फारस पर आक्रमण किया तो खलीफा उनका सामना न कर सका और सन् १२५८ ई० में अब्बासी शासन की समाप्ति हो गई। यद्यपि पचास वर्ष के अन्दर ही मंगोलों ने मुस्लिम धर्म की दीक्षा ले ली तथापि मघर्ष ने सूफीमत को बड़ी हानि पहुँचाई। इसके पश्चात् जब तैमूर ने पश्चिम एशिया में विध्वंस मचाया तो इस्लाम का राजनैतिक ऐक्य नष्ट हो गया।

हमारे तक जिस उच्चता को लेकर सूफीमत का प्रसार हुआ था, पश्चात्

^१ 'The mystical poetry of the Arabs is far inferior as a whole, to that of the Persians.'—(*A Literary History of the Arabs*, P. 325.)

^२ "...for Spanish Sufism was essentially speculative."—(*Arabic thought and its place in History*, P. 294.)

^३ "Rūmī (1270 A. D.) belongs to a period in which the Islamic religious and philosophical life had early exhausted itself in all directions."—(*The Metaphysics of Rūmī*, P. 1.)

वही गहनता को प्राप्त हो गया अतः जनसाधारण के लिए दुरुह हो गया। धीरे-धीरे धार्मिक विधि-विधानों, प्रमादपूर्ण जीवन, भिक्षा के विविध साधनों, एवं अशिक्षित जनों की प्रवचना के नाना मार्गों ने इसमें प्रवेश पा लिया। आगे चलकर पाठ्यात्य सभ्यता ने भी भौतिक दृष्टिकोण देकर मनुष्य को बहिर्प्रवृत्ति बनने में योग दिया। इसके अनिर्विकन शीया-सुन्नी विरोध ने तो ऐसा आघात दिया कि फारस में वह सदैव के लिए सो गया।

शीयाओं का विश्वास था कि इमाम ही धर्मरक्षक एवं वास्तविक गुरु हैं। उनके विश्वासानुसार अली ही प्रथम इमाम थे। अली विवेकवान्, मयमी तथा साथ ही ईश्वर द्वारा अधिकारप्राप्त भी थे। वे मुहम्मद साहब के जामाता तथा उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनके उत्तराधिकारी थे। अतः प्रथम तीनों खलीफा अबू बक्र, उमर और उस्मान उनकी दृष्टि में प्रतिष्ठा न पा सके। इमामो का क्रम अली से ही प्रारम्भ हुआ। अली के छोटे पुत्र तृतीय इमाम हुसेन का विवाह फारस की राजकुमारी से हो जाने पर यह सम्बन्ध और भी दृढ़ हो गया। इसी से उत्पन्न पुत्र चतुर्थ इमाम हुआ।

इसने स्पष्ट है कि शीया लोग शासकों में दैवी अधिकार मानते थे, जब कि सुन्नी प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों में विश्वास रखते थे। अरब सदैव से अधिकांशतः प्रजातन्त्रवादी थे। इसके विरुद्ध फारस के लोग अपने शासकों को दैवी मनुष्य मानते थे। सुन्नी तुर्कों के शासन-काल में फारस के शीया आधिपत्य-भार से दबे रहे। कुछ मंगोलों ने उन्हें दबाव से मुक्त अवश्य किया, परन्तु स्वतन्त्रता की श्वास वे सफवी वंश के राजत्व-काल में ही ले सके। पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ये सफवी वास्तव में सूफी थे।^१ प्रारम्भ में सहस्रों शीया मौत के घाट उतार दिये गये थे परन्तु आगे चलकर शीयामत राजवंश ने अपना लिया और सुन्नियों की सख्या अधिक न होते हुए भी इसे बलात् प्रजा पर थोप दिया गया।

इसी शीयामत द्वारा सूफीमत का फारस में अन्त हुआ। सफवी शासन-काल में सूफियों को अनेक प्रकार के पारुष्य और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। निर्वासन, बहिष्कार, दाह, हत्या आदि विविध अत्याचारों के कारण उन्हें पग-पग पर मृत्यु का मुख देखना पड़ता था। इस प्रकार शीघ्र ही सभ्यता, काव्य एवं रहस्यवाद फारस से विदा हो गये।^२ मठ, आश्रम तथा एकान्त-माधना के स्थान ध्वस्त कर दिये

1 "At the beginning of the 15th Century, then, the Safawis were simply the hereditary pers. murshids, or spiritual directors of an increasingly large and important order of Darwishes or Sufis."—(A History of Persian Literature in Modern Times, P. 19-20.)

2 "Hence it was under this dynasty learning, culture, poetry and mysticism completely deserted Persia."—(A History of Persian Literature in Modern Times, P. 27.)

गये। यहाँ तक कि सम्पूर्ण देश में खानकाहों के ध्वसावशेष तक न रहे। अन्त में सूफीमत को अफगानिस्तान और भारत में आश्रय लेना पड़ा।

मुगलों के शासनकाल में सूफीमत का बड़ा उत्थान हुआ। इससे यह न समझना चाहिए कि फारस से निवासित होने पर ही सूफीमत भारत में आया। ईसा की बारहवीं शताब्दी से ही यहाँ हम अनेक सूफी सम्प्रदायों के प्रवेश, प्रचार और सस्थापन को पाते हैं। इसमें बहुत पूर्व ही मध्य पूर्व के देशों से भारत का सम्पर्क स्थापित हो गया था। अदस्ता का अहुर वेदो का असुर है।^१ इससे प्रतीत होता है कि फारस से भारत का सम्पर्क अति प्राचीन था। बृद्धमत का प्रचार भी इस्नाम से पूर्व ही पूर्वी एशिया और ट्रांसोखियाना में होने लगा था।^२ उस समय बलख में बौद्ध मठ विद्यमान थे। अरब के दक्षिण तथा मेसोपोटामिया में भी भारतियों का प्रवेश बहुत पहले ही हो चुका था। सूफियों ने माला का प्रयोग बौद्धों से सीखा था।^३ ई० सन् ६७३ में उत्पन्न हुए अल-मारी ने लिखा है कि शहद खाना निषिद्ध है और अहिंसा का पालन करना चाहिए। वानरैमर का कथन है कि मारी ने ये बातें जैन धर्म में ली थी।^४ बायजीद ने फना के सिद्धान्त को सिन्धु निवासी अबू अली में सीखा था।^५ मन्सूर अल हल्लाज तो स्वयं भारत में इन्द्रजाल के अध्ययनार्थ आया था।^६ इस प्रकार धार्मिक एवं सामाजिक विचार-विनिमय चिरकाल से होने लगा था तथापि सन् १००० ई० से पूर्व यूनान की प्रपेक्षा भारत का प्रभाव मुसलमानों पर कम पड़ा था।^७

ग्यारहवीं शताब्दी के पूर्व ही योगियों का प्रभाव सूफियों पर पड़ गया था। सूफियों ने अनेक स्थानों पर योगियों के आसन और प्राणायाम को अपना लिया था। अब सईद बिन अबिल खंर, जिसकी मृत्यु सन् १०४६ ई० में हुई, योगियों की भाँति ध्यान लगाता था।^८ आगे अनेक प्रतिष्ठित सूफियों ने भारत की यात्रा भी की। फरीदुद्दीन अत्तार स्वयं भारत में आया।^९ सादी पंजाब में भ्रमण करता हुआ गुजरात तक पहुँचा और अनेक प्रकार के लोगों से मिला।^{१०} हाफिज अपने दीवान के कारण इतना प्रसिद्ध हो गया था कि भारतवर्ष के बादशाह उसके दीवान से शकून उठाया करते थे।^{११} मुहम्मदशाह बहमनी ने उसे निमन्त्रण देकर दक्षिण भारत में बुलाया भी था

^१ *The Spirit of Islam*, P. 22.

^२ *Arabic thought and its place in History*, P. 140.

^३ *The Mystics of Islam*, Intro P. 17

^४ *Studies in Islamic Poetry*, P. 137.

^५ *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol. XII, P. 12.

^६ *A Literary History of Persia*, P. 455.

^७ *A Literary History of the Arabs*, P. 390

^८ *The Spirit of Islam*, P. 459.

^९ *A Literary History of Persia* Vol. II, P. 508.

^{१०} *A Literary History of Persia*, Vol. II, P. 524.

^{११} *Iran Ke Sufi Kavya*, P. 117-118

परन्तु किसी दुर्घटनावश वह न आ सका ।

इन घटनाओं में प्रतीत होता है कि भारतवासियों की अनेक प्रथाओं एवं तत्वभूत बातों को अपनाकर सूफी अत्यधिक प्रभावित हुए थे । इसीलिए सूफी सन्त भारत पधारे थे । उनमें से कुछ केवल चामत्कारिक गृहस्थों का अध्ययन करने, कुछ आध्यात्मिक विवरण लेने तथा कुछ भारतीय वायुमण्डल में परिचय पाने आये थे । अफगानिस्तान के मार्ग में अनेक सूफी सम्प्रदायों से सम्बन्ध रखने वाले लोग भारत में आए । विदेशों में धर्म-प्रचारार्थ आने के कारण उनमें अदम्य उत्साह था । वे किसी व्यवस्था के आदेशानुसार नहीं बरन् व्यक्तिगत रूप में आये थे । ईश्वरीय सेवा उनका ध्येय था । उनका जीवन पवित्र होने के कारण लोगों को उनके आचरण शीघ्र ही ग्राह्य हो गये । उनकी प्रधान शिक्षा थी बहुदेवतावाद के प्रतिकूल एकेश्वरवाद की स्थापना । यहाँ की समाज का ढाँचा ऐक्य के अनुकूल न था, अतः उन्होंने जाति-पाँति एवं वर्ण के भेद को निस्सार बतलाया और शीघ्र ही अनेको पददलित एवं आपन्न व्यक्तियों को अपना अनुगामी बना लिया । उनका प्रम-व्यवहार लोगों को लुभाने में जादू का कार्य करता था, अतः वे मुसलमानों में ही नहीं हिन्दुओं में भी प्रचार करते थे । जिसके परिणामस्वरूप अनेक हिन्दू भी उनकी प्रथाओं के अनुयायी हो गये । परन्तु मुसलमानों में इसका अच्छा प्रसार हुआ ।

आइने अकबरी में अबुल फजल ने अपने समय में चौदह सूफी सम्प्रदायों का उल्लेख किया है ।^१ वे इस प्रकार हैं—चिश्ती, सुहरावर्दी, हवीजी, तफूरी, कर्ली, सकती जुनेदी, काजरुनी, तूमी, फिरदौसी, जेदी, इयादी अथमी और हुवेरी । इनकी अनेक शाखाएँ फैली । चिश्ती सम्प्रदाय के अतिरिक्त भारतीय सूफी सम्प्रदायों में कादरी, सुहरावर्दी, गत्तारी और नक्शबन्दी अत्यन्त प्रसिद्ध थे ।^२ आज भी अधिकांश भारतीय मुसलमान इनमें से किसी न किसी सम्प्रदाय के अनुयायी हैं ।

स्वाजा हसन निजामी के अनुसार सुहरावर्दी सूफी सर्वप्रथम भारत में आये थे और सिन्ध में आकर बसे थे ।^३ सैयद मुहम्मद हाफिज ने अन्वेषणों के आधार पर

1 "In the Ain-i-Akbari Abdul Fadi mentions fourteen orders common in his time — Chishtiyah, Suhrawardiyah, Habibiyyah, Tafuriyyah, Kar-khiyah, Saqatiyah, Junaydiyah, Kazaruniyah, Tusiyyah, Firdawsiyah, Zaydiyah, Iyadiyah, Adhamiyah, Hubayriyah."—(An Introduction to the History of Sufism, Introduction, P. 7-8.)

2 "Other popular order of Sufis in India, as already stated, were — Qadari, Suhrawardi, Shattari, Naqshbandi . . ."—(Outlines of Islamic Culture Vol. 2, P. 546.)

3 "According to Khawajah Hasan Nizami, the Suhrawardi Sufi were the first to arrive in India and made their Headquarters in Sind."—(An Introduction to the History of Sufism, Introduction, P. 8.)

यह निश्चिन्त किया है कि भारत का सर्व प्राचीन सूफी सम्प्रदाय चिश्ती है।^१ चिश्ती सम्प्रदाय के संस्थापक अबू-अब्द-अन् चिश्ती थे। ख्वाजा मुहीउद्दीन चिश्ती ने सन् ११६२ ई० में इने भारत में स्थापित कर प्रचारित किया था। ये सीस्तान अर्थात् अफगानिस्तान में चिश्त में उत्पन्न हुए थे। किन्तु तत्पश्चात् अपने माता-पिता के साथ खुरासान और वहाँ ने निशापुर चले गये थे। निशापुर में ही ये गुरु-दीक्षा लेकर दीर्घकाल तक रहे। मक्का-मदीना की यात्रा के समय मार्ग में इन्होंने अनेक प्रतिष्ठित सूफियों से परिचय प्राप्त किया, जिनमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। अन्त में ये गजनी भी गये, जहाँ से सन् ११६० ई० में शहाबुद्दीन गोरी की सेना के साथ भारत आये। वहाँ आकर अनेक स्थानों में भ्रमण करने के पश्चात् सन् ११६५ ई० में अजमेर को इन्होंने अपना स्थायी निवास स्थान बना लिया। उनका समाधि-स्थान अजमेर में ख्वाजा साहब की प्रसिद्ध दरगाह है। इनकी शिष्य-परम्परा में कुतुबुद्दीन वस्तियार काकी, शेख फरुदुद्दीन शकर गज, निजामुद्दीन औलिया, अला-उद्दीन अली अहमद माविर और शेख मलीम अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। कहते हैं कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन की समाधि समीप होने के कारण ही बड़ी मीनार का नाम कुतुब-मीनार पड़ा था।^२ निजामुद्दीन औलिया की समाधि भी दिल्ली में ही है। इनके अनेक शिष्य हुए, जिनकी परम्परा ने चिश्ती सम्प्रदाय को शीघ्र ही भारत में दूर-दूर तक प्रसारित कर दिया। खुरो भी इन्हीं का शिष्य था। इनकी शिष्य-परम्परा के सभी सदस्य निजामी कहलाते हैं। निजामुद्दीन का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नासिर अल-दीन महमूद (१३५६ ई०) था जो चिरागे दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध था।^३ इस सम्प्रदाय में पश्चात्काल के सन्तों में शेख सलीम ने (१५२० ई०) अधिक ख्याति प्राप्ति की। कहते हैं कि इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम इन्हीं के नाम पर सलीम रखा गया था।^४ फतहपुर-सीकरी की दरगाह में इनकी समाधि है। अठारहवीं शताब्दी में नूर मुहम्मद नाम के सूफी कवि भी इसी सम्प्रदाय के एक दीप्तिमान मितारे थे।

अजमेर, दिल्ली एवं पानीपत आदि स्थानों पर जो इन सन्तों की दरगाह बनी हुई हैं, वे अधिकांश मुसलमानों के लिए आकर्षण का कारण रही हैं। प्रायः प्रतिवर्ष वहाँ उन्मव होता है जो उर्म कहलाता है और समाधिस्थ सन्त की बरसी के रूप में मनाया जाता है। सर्व्वों मुसलमान ही नहीं हिन्दू भी वहाँ जाते हैं और श्रद्धा-

1 'Our Modern Authority on it is based upon the secret researches of Syed Mohamad Hafeez, who considers that the oldest Dervish Order in India is the Chisti Order'—(Islamic Sufism, P. 265.)

2 *Islamic Sufism*, P. 258.

3 *Encyclopedia of Religion and Ethics*, Vol. XI, P. 68.

4 *Outlines of Islamic Culture*, Vol. II, P. 546.

भाव से विधि-विधानों में भाग लेते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। उर्म पर कोर्तन होता है जो कब्वाली के नाम से प्रसिद्ध है और जिसमें रहस्यात्मक भजन एवं गीत गाए जाते हैं। इन दरगाहों में प्रारम्भ से ही निर्धन व्यक्तियों के लिए आश्रय एवं मदरसों का प्रबन्ध होता रहा है, जिनका सम्पूर्ण प्रबन्ध धनी-मानी व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त द्रव्य से किया जाता रहा है।

सुहरावर्दी सम्प्रदाय के प्रथम नेता सिन्ध में आकर बसे थे। उन सिन्ध से लेकर मुल्तान तक का प्रदेश ग्यारहवीं शताब्दी से ही सूफीमत का केन्द्र रहा है। सर्वप्रथम मुल्तान के ही प्रसिद्ध तत्वज्ञानी बहा अल्हक बहा अल्दीन जकरिया (११३०-१२६७) के नेतृत्व में ही इस सम्प्रदाय ने अच्छा प्रभावशाली कार्य किया और शीघ्र ही ख्याति प्राप्त कर ली। इनका इस सम्प्रदाय के मूल प्रणेता शेख अल्शुयख़ सिहाब अल-दीन सुहरावर्दी से बगदाद में परिचय हुआ था। वहीं इन्होंने उनकी निप्यता को ग्रहण किया।

इस सम्प्रदाय में अनेक सन्त हुए जिन्होंने सिन्ध, पंजाब, गुजरात, बिहार और बंगाल आदि प्रान्तों में सूफीमत का प्रचार किया। अनेक स्थानों पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र भी स्थापित हुए। जलालअलदीन तवरीजी (१२८८) बंगाल गया और वहाँ रहकर बड़ा प्रचार किया। 'सैयद जलालुद्दीन सुखपोश' (१२९१), सईद जलाल (मखदूम जहानियान) और बुरहान अल्दीन कुतुबे आलम (१८५३) आदि कुछ सन्त अधिक प्रसिद्ध हुए। पठान एवं सैयद वंश के शाहों पर इस सम्प्रदाय का बड़ा प्रभाव था। बंगाल के राजा कस का बेटा जनमल तो स्वयं सूफी सन्त हो गया था और जादू जलालुद्दीन के नाम से ख्यात हुआ था। दक्षिण में भी इस सम्प्रदाय ने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया। हैदराबाद और बीजापुर के राज्य भी इसके प्रभाव से अछूते न बचे। बाबा फक्र अल्दीन ने पन्कोडा के राजा और उसकी बहुत-सी प्रजा को दीक्षित किया था। इस प्रकार पन्द्रहवीं शताब्दी तक इस सम्प्रदाय ने सम्पूर्ण भारत में अच्छा प्रचार किया और सहस्रों व्यक्तियों को अपना अनुयायी बनाया।

कादरी सम्प्रदाय के संस्थापक बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे।^१ ये सन् १०७८ से ११६६ ई० तक विद्यमान रहे। इस सम्प्रदाय के अनुयायी प्रायः सभी देशों में पाये जाते हैं। भारत में इस सम्प्रदाय का प्रवेश सन् १८८० ई० में हुआ। प्रारम्भ में सैयद बन्दागी मुहम्मद गौथ ने सिन्ध में अच्छा प्रचार किया। उनके पश्चात् इस सम्प्रदाय में अनेक सन्त हुए जिन्होंने भारत भर में इसका मदेय पहुँचाया।

^१ *Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. XI, P. 69.*

^२ "The famous Qadri order, founded by Sheykh Abd-al-qadir Jilani of Bagdad (1078-1166), entered India through Sind in 1482." — (*An Introduction to the History of Sufism, Introduction, P. 12.*)

उनमें से गेख मीर मुहम्मद (मियामीर) जो लाहौर में १६३५ ई० में मरा तथा जो^१ दरगधिक्रोह का आध्यात्मिक गुरु था और ताज अल्दीन (१६६८) जिसकी समाधि औरगावाद में है अधिक प्रसिद्ध हुए। प्रसिद्ध सूफी कवि सैयद बरकतुल्ला भी कादरी सम्प्रदाय में विशेष आस्था रखते थे।

नवशवन्दी सम्प्रदाय तुर्किस्तान के ख्वाजा बहा अल्दीन नवशवन्द ने सस्थापित किया था। इनकी मृत्यु १३८८ ई० में हुई। इस सम्प्रदाय के अनुयायी भारत, चीन, तुर्किस्तान, जावा और टर्की में पाये जाते हैं। टी० डब्ल्यू० आरनोल्ड^२ के अनुसार शेख अहमद फारुकी सिरहिन्दी ने, जो १६२५ ई० में मृत्यु को प्राप्त हुए, इसे भारत में चलाया था। किन्तु प्रतीत होता है कि ख्वाजा मुहम्मद बाकी विल्लाह बैरग, जिनका निधन-काल १६०३ ई० है, इसे भारत में लाये थे। यह सम्प्रदाय इन आठ नियमों पर आश्रित है—श्वास में चैतन्य, चरणों पर दृष्टि, यात्रा, एकान्तवास, ईश्वरीय स्मृति, ईश्वर के प्रति एकान्त-गमन, ईश्वरीय ध्यान और आत्म-विस्मृति।^३

घत्तारी सम्प्रदाय की नींव सन् १४१५ ई० में अब्दुल्ला घत्तार ने डाली थी। सुमात्रा, जावा और भारतवर्ष ही इसके प्रधान केन्द्र हैं। इस सम्प्रदाय में मुहम्मद गौथ (१५६२ ई०), बजीह अल्दीन गुजराती (१५८६ ई०) और सन्त शाहेपीर (१६३२ ई०) उल्लेखनीय हैं। मुहम्मद गौथ तो हुमायूँ को अपना शिष्य समझता था।^४ यह सम्प्रदाय मानता है कि आत्म-निषेध में विश्वास नहीं करना चाहिए। आत्म-लोप का विचार सत्यरूप नहीं है। ऐक्य से तात्पर्य एक ही पदार्थ को देखना और जानना है। अतः 'मैं मैं हूँ और मैं एक हूँ' यही एक सूफी को मान्य होना चाहिए। अपनी दानवी आत्मा का हनन करने के लिए तप की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वरीय ध्यान करना भी व्यर्थ है। घत्तारी सफियों का कहना है कि मनुष्य का पाशविक रूप ईश्वर की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं है। ईश्वर विश्व का शासक है अतः उसी की आराधना से वह प्राप्त हो सकता है। महामिलन^५ में आत्म-लय (फना) की अवस्था को वे नहीं मानते, क्योंकि उसमें व्याता ध्येय से पृथक होने के कारण द्वित्व की

^१ *Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. XI, P. 69.*

^२ "According to T. W. Arnold, however it was introduced into India by Shaykh Ahmad Faruqi Sirhindi (Patiala State) who died in 1625."—*(An Introduction to the History of Sufism, Introduction, P. 13)*

^३ "It is based on the following eight Principles.—(1) Consciousness in breathing, (2) Glance on feet, (3) Journey at Home (4) Seclusion in assembly, (5) Recollection (of God), (6) Retirement (towards God), (7) Retention (or concentration of the mind in God), (8) Self-abnegation or remembrance."—*(Outlines of Islamic Culture Vol. 2, P. 476.)*

^४ *Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. 11, P. 69.*

^५ "There is no such state as annihilation (fana) for, that requires to personalities; one wishing annihilation and the annihilated, and the other is one in whom annihilation takes place, which is dualism and not unity."—*(Outlines of Islamic Culture, Vol. 2, P. 477.)*

भावना स्पष्ट भलकती हैं, जो अद्वैत की भावना अर्थात् बह्दनुल बज्द के सिद्धान्त के अनुकूल नहीं पडती ।

उपर्युक्त सम्प्रदायों के सूक्ष्म विवेचन से प्रनीत होता है कि इनका पूर्ण उत्थान मुगल शासन-काल में ही हुआ । अकबर, जहाँगीर आदि अनेक मुगल सम्राट् पीरो के परम भक्त थे । शाहजहाँ का पुत्र दारा शिकोह तो मुस्लिम और हिन्दू रहस्य-ज्ञान का अच्छा वेत्ता था । उसने सूफीमत और वेदान्त का गम्भीर अध्ययन किया । तबुदुरान उसने दोनों मतों के गूढ सिद्धान्तों की तुलनात्मक विवेचना की और बतलाया कि इनमें कोई तात्विक अन्तर नहीं है । कलेवर भिन्न अवश्य हैं, परन्तु आत्मा एक ही है । बहादुरशाह भी शाह होते हुए एक सन्त में कम न था । उसकी अनेक कविताओं में सूफीमत के उच्च सिद्धान्तों की बड़ी विगद व्याख्या है ।

इन सभी सम्प्रदायों का आध्यात्मिक नेता, जो अन्य मुस्लिम देशों में प्रायः शेख कहलाता है, भारतवर्ष में मुरशिद या पीर कहलाता है ।^१ भारतवर्ष में पीरो की अत्यधिक मान्यता हुई । मुसलमान तो इन्हें सम्मान देते थे, हिन्दू भी प्रायः श्रद्धावत्, कामनावत्, अथवा नृत्य-वाद्य से पूर्ण ईश्वर के कीर्तन में सम्मिलित होकर पीरो के दर्शन करते थे । कुछ सूफी फकीर झाड़-फूंक भी करते थे, जिन्होंने मूर्ख एवं अनजान लोगों को चमत्कार दिखाकर अपना भक्त बना लेते थे । यही नहीं धीरे-धीरे प्रतिष्ठित व्यक्ति भी इनसे प्रभावित हुए बिना न रहे । वाङ्माधुर्य चमत्कृति के साथ मिलकर द्रुतग्राह्यता का कारण होता था । यह प्रभाव हमें आज भी दृष्टिगोचर होता है ।

पीर ही विविध सम्प्रदायों की शाखा-प्रतिशाखाओं के व्यवस्थापक होते आये हैं । या तो ये नियुक्त होते हैं या उत्तराधिकार से बनने हैं । समयानुसार विधान निर्मित कर व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी इन्हीं पर होता है । नवीन शिष्यों को दीक्षित करना एवं उन्हें ईश्वरीय ज्ञान प्रदान करना भी इन्हीं का कार्य है । खानकाहों में पीरो का निवास-स्थान होता है । पीर की शिष्य-परम्परा में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं । एक तो वे जो स्थान-स्थान पर जाकर निर्धनों के भोजन, वस्त्र एवं अध्ययन के लिए द्रव्य आदि एकत्र करते हैं और दूसरे वे जो शान्त, एकान्त अथवा विरक्त जीवन बिताते हैं । इन खानकाहों का मुस्लिम जनता पर बड़ा प्रभाव रहा है ।

इन पीरो ने आध्यात्मिक क्षेत्रों में ही नहीं वरन् सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में बड़ा प्रभावशाली कार्य किया । अपने जीवन-काल में बहुधा वे बड़ी प्रतिष्ठा के पात्र रहे और निधनोपरान्त उनकी समाधि पर बड़-बड़े भवन बने जो सदैव में प्रधानतः मुसलमानों की धर्म-यात्रा के केन्द्र रहे हैं । भारतवर्ष में दिल्ली, अजमेर, मुल्तान,

1 "The spiritual guide known as Sheykh in Islamic countries is commonly known as Murshid or pir in India."—(An Introduction to the History of Sufism, Introduction, P. 8.)

फतहपुर सीकरी, गुजरात तथा दक्षिण में हैदराबाद आदि अनेक स्थानों पर समाह्व पीरों के समाधि-मन्दिर बने हुए हैं। इनमें से अनेक स्थानों में प्रतिवर्ष उत्सव भी होते हैं, जहाँ सहस्रों नर-नारी जाते और विधानानुसार धार्मिक क्रियाओं का सम्पादन करते हैं। लोग अनेक प्रकार के उपहार ले जाते हैं। प्रीति-भोज भी होते हैं जिनमें पकवान एवं मिष्टान्न के अतिरिक्त ओदन का प्राधान्य होता है। पीरों की समाधि पर होने वाले उत्सवों को उर्स कहा जाता है। वहाँ गायन और वादन का विशेष प्रबन्ध होता है। कव्वाल मृत पीर की प्रशंसा में कव्वाली गाते हैं। इस अवसर पर निर्धनों को मिष्टान्न आदि पदार्थ वितरित किये जाते हैं। समाधि पर विपुल मात्रा में संचित हुआ सुमन-भार आगन्तुकों को न्यूनाधिक रूप में दे दिया जाता है, जिसे वे पवित्र उपहार समझकर घर ले जाते हैं और आधि-व्याधि के निवारणार्थ काम में लाते हैं। इस पीर-पूजा का प्रभाव हिन्दुओं पर भी अधिक रहा है। यही कारण है कि सहस्रों हिन्दू-स्त्रियाँ आज भी समाधियों पर जाती और फूल-पत्रादि चढ़ाती हैं, फकीरों से भाड़-फूंक कराती हैं और ताबीज, गंडा एवं भस्म आदि लेकर उन्हें विविध प्रकार से सम्मानित करती हैं। परन्तु जागृतिवश यह प्रतिष्ठा कम होती जा रही है, क्योंकि पूर्व की सी पवित्रता अब पीर और फ़कीरों में नहीं रही वरन् जादू-टोना आदि उपचारों ने उन्हें पथ-भ्रष्ट कर दिया है।

भारतवर्ष में यह एक प्रमुख बात रही है कि इनके सिद्धान्त अधिकांशतः समान रहे हैं अतः एक सम्प्रदाय का अनुयायी अपने सम्प्रदाय को छोड़े बिना ही दूसरे सम्प्रदाय को ग्रहण कर सकता है। हिन्दुओं के वर्णाश्रम भेद की भाँति यहाँ भेद नहीं है। कोई भी मुसलमान किसी भी सम्प्रदाय में दीक्षित हो सकता है और अपने को चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, शत्तारी या नक्शबन्दी कहला सकता है। मुसलमानों में समाधियों की यात्रा, समाधि पर दीप जलाना एवं भोजन प्रदान करना आदि प्रथाएँ हिन्दुओं से आई हैं।¹ हिन्दुओं में मूर्ति-पूजा का प्रचार था, जिसका प्रभाव मुसलमानों पर भी पड़ा। उनके यहाँ पीरों की समाधि के अतिरिक्त और कोई स्थान न था कि जहाँ श्रद्धाभाव प्रदर्शित किया जाय अतः वे स्थान ही धूप-दीपादि के स्थान बने।

उपरिलिखित विवेचना से प्रतीत होता है कि भारत में सूफीमत का स्थूल स्थापन १२वीं शताब्दी से हुआ और मुगल शासन-काल में इसका अत्यधिक प्रचार और प्रसार हुआ। किन्तु इससे पूर्व भी सूफी सन्त, सिन्ध पर सन् ७१२ ई० में प्रथम मुस्लिम आक्रमण के पश्चात् भारत के पश्चिमी भाग में आने लगे थे। मुल्तान इनका प्रधान केन्द्र था। प्रारम्भ में आने वाले इन सन्तों का नाम सूफी न रहा हो परन्तु

¹ *An Introduction to the History of Sufism, Introduction, P. 15.*

उनकी भावना सूफी ही थी। नौवीं शताब्दी से तो स्पष्ट ही यह सूफी कहे जाने लगे थे।

मुसलमान जिस समय भारत में आए थे शिव-पूजा का अधिक प्रचार था तथा उनकी स्थापना के समय सिद्ध और नाथ योगियों का बोलबाला था।¹ सिद्ध बज्रयानी सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखते थे और तान्त्रिक पथ के अनुगामी थे। योगी लोग शिव के आराधक थे। यद्यपि शंकराचार्य ने अद्वैत का प्रतिपादन किया था तथापि शिव की महत्ता को योगियों ने अग्रिकृत किया। परन्तु उनकी यह मान्यता ब्रह्म की अनन्यता में बाधास्वरूप न थी। आगन्तुक सूफियों का आध्यात्मिक स्रोत फारस का प्रेम काव्य रहा हो परन्तु तत्पश्चात् यहाँ के वातावरण ने यहाँ के सूफी सन्तों पर बड़ा प्रभाव डाला। उन्होंने भारतीय जनता पर तो अपना प्रभाव डाला ही था किन्तु योगियों का भी इन पर कम प्रभाव न पड़ा। हिन्दी काव्य में सूफी सन्तों की मृगावती, मधुमालती, पद्मावती, चित्रावली, अनुराग बाँसुरी एवं इन्द्रावती आदि जितनी भी प्रेमाख्यानक रचनाएँ हैं उनमें नायक को योगचर्या का सम्पादन करना पड़ा है। स्थान-स्थान पर गोरखनाथ, गोपीनाथ तथा भर्तृहरि का नाम आता है। वेषभूषा तथा आसन भी योगियों के ग्रहण किये गये हैं। शिव का शिवत्व तो व्यस्त-सा दीख पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि योग की माया ने सूफियों को भी वशीभूत कर लिया था। गाँवों में तो अब तक सूफी फकीर योगी नाम से प्रसिद्ध हैं।

वह समय भक्ति के आविर्भाव का समय था। मुस्लिम अत्याचारों से खिन्न मानव-मन को सात्वना का कोई आधार और साधन न दीख पड़ता था। अतः वह अन्तःप्रवृत्ति हो चला था। भक्ति-प्रवाह सगुण एव निर्गुण धारा रूप में प्रवाहित हो रहा था और विविध प्रकार से चित्त-शान्ति के उपाय प्रकाश में आ रहे थे। वेदान्त का प्रतिपादन भी विशिष्टाद्वैत द्वैत, शुद्धाद्वैत, और द्वैताद्वैत रूप में हो रहा था। चौदहवीं शताब्दी से तो भक्ति का बहुमुखी रूप प्रचण्डता से प्रसार पाने लगा था। सूफियों का प्रभाव-ज्ञानाश्रयी सन्तों पर अधश्च्य पड़ा। कबीर के निर्गुणवाद में सूफी विचारधारा का गम्भीर मिश्रण है। परन्तु हम यह मानने के लिए उद्यत नहीं हैं कि भारत में रहस्यवाद सूफियों के द्वारा आया और न यह मान सकते हैं कि प्रणयवाद की उद्भूति का मूल स्रोत सूफीमत ही है। सम्पूर्ण उपनिषद् साहित्य रहस्यवाद से स्रोतप्रोत है। इन्हीं में से निःसृत अद्वैत का प्रभाव तो मध्य-पूर्व के सूफियों पर पड़ा था, जिसने सूफीमत को एक नया निश्चित रूप दे दिया था। भागवत में गोपकृष्ण की लीला के रूप में प्रणयवाद का हम बड़ा सुन्दर चित्रण पाते हैं। इससे ज्ञात होता है कि भारत के लिए

¹ *The Mystics, Ascetics and Saints of India, P. 115.*

यह नूतन भावना न थी प्रत्युत् इसके प्रतिकूल सूफी सन्तों ने जितने भी प्रेमाख्यान लिखे वे सभी हिन्दू कथाओं के आधार पर एव भारतीय संस्कृति के आश्रय में ही लिखे । हाँ, इतना मानना पड़ेगा कि निराकारोपासना में प्रणय की वृद्धि सूफियों के ही अनुकूल है तथा हिन्दी साहित्य पर इसका प्रभाव पड़ा है । ✓

निर्गुण धारा के अतिरिक्त भक्ति-काल में सगुणोपासना का भी व्यापक प्रचार चला । तुलसी और सूर से पूर्व ही यह भावना प्रकट हो गई थी । जब निराकार और ध्येय ईश्वर अपने गूढ और नीरस रूप से मनुष्य को शान्ति प्रदान न कर सका तो ईश्वर का वह लोकरजक रूप हमारे समक्ष आया जो ससार के लिए आदर्श है, भक्तों के लिए सौम्य अतः स्पृह है तथा ज्ञानियों के लिए चिन्त्य एव प्रकाशरूप है । परन्तु यह स्वरूप सूफीमत से भिन्न है । ईश्वर के सगुण एव निर्गुण रूप ने सूफी सन्तों में एक ऐसी भावना जागृत कर दी थी जिसमें हम बड़ा अद्भुत मिश्रण पाते हैं । एक ओर हम भारतीय सूफियों की रचनाओं में धर्मनिष्ठता की प्रवृत्ति पाते हैं तो दूसरी ओर निर्गुण ब्रह्म का अनौखा विवेचन । वास्तव में यहाँ कुरान का अल्लाह ही ईश्वर बन गया है जिसकी प्राप्ति में पौराणिक देवताओं का भी हाथ है । सूफी रचनाओं में अर्धययन से ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक सन्त किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता श्रवण्य है परन्तु जब उसे चतुर्दिक् भिन्न किन्तु ग्राह्य वातावरण दृष्टिगोचर होता है तो उसे भी अपने आप बढ़ता है । मुस्लिम और हिन्दू-भावना का यह बड़ा सुन्दर और विचित्र चित्रण है ।

इस भारतीय वातावरण का सूफी कवियों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि भावों के मिश्रण के साथ उन्होंने भाषा को भी अपनाया । प्रारम्भ में आने वाले सूफियों की भाषा प्रायः फारसी थी । यहाँ तक कि चौदहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में अमीर खुसरो की अधिकांश रचनाएँ फारसी में ही हैं । यद्यपि प्रधानतः ये फारसी के ही सूफी कवि थे और उस भाषा में 'मसनवी शीरी व खुसरो' तथा 'मसनवी लैला व मजनू' आदि मसनवियाँ लिख चुके थे तथापि इन्होंने हिन्द की भाषा को अपना लिया था और उसमें काव्य निर्माण करने लगे थे । इनके समय तक मुल्तान और लाहौर सूफियों के केन्द्र थे । ग्यारहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में महमूद गजनवी द्वारा दूर तक ससैन्य भारत में प्रवेश के पश्चात् मुसलमानों के साथ विविध भाषा-भाषी भारतीयों के सम्पर्क ने एक नई भाषा को जन्म दिया था, जिसमें अरबी, फारसी, पंजाबी एव खड़ी बोली का मिश्रण था । मुहम्मद गौरी द्वारा सन् ११९३ ई० में मुस्लिम राज्य की स्थापना के अनन्तर तो यह सम्पर्क और बढ़ गया और मिश्रित भाषा को अच्छा बल मिला । इसे वे लोग हिन्दवी कहते थे । इस भाषा में सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने काव्य-निर्माण किया ।

मुहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन की दक्षिण-विजयों के साथ यह भाषा दक्षिण

में भी पहुँची। वहाँ इसका अच्छा प्रचार हुआ और दक्खिनी नाम पाकर यह पर्याप्त सूफी साहित्य का माध्यम बनी। इस सूफी साहित्य में मसनवियों का विशेष स्थान है। यद्यपि इनमें जायसी आदि के प्रेमाख्यानों की भाँति प्रेम और विरह का विश्लेषण है तथापि रूपकों में शिथिलता आने के कारण उग्रता का अभाव है। अधिकांशतः यह साहित्य धार्मिक है। साहित्यिक दृष्टि से इसका महत्त्व न होते हुए भी हिन्दी के विकास में इसका अध्ययन अच्छा प्रकाश डालता है।

भारत में मुसलमानों के प्रवेश के पश्चात् तत्कालीन परिस्थिति का किञ्चित् विवेचन यहाँ किया गया है। अब अग्रिम पर्व में यह बतलाया जायगा कि भारत में भक्ति का स्रोत कैसे प्रवाहित हुआ और उसका आगे-आगे विविध धाराओं से समन्वय होकर सूफीमत से क्या सम्बन्ध स्थापित हुआ।

षष्ठ पवे भक्ति-मार्ग

सिद्ध सम्प्रदाय के नीरस योग और आडम्बरपूर्ण तान्त्रिक उपचारों के पश्चात् बारहवीं शताब्दी में जिस सरस मधुर भक्ति की धारा दक्षिण से उत्तरी भारत की ओर तरंगित हुई उसका मूल स्रोत शुद्ध भारतीय था। डा० ग्रियर्सन आदि कतिपय विद्वानों का यह कहना कि इस धारा का उद्गम ईसाई मत से है, नितान्त असत्य और भ्रमपूर्ण है। तथा मुसलमानों के भारत प्रवेश के अनन्तर सूफी प्रचार अथवा संघर्ष ने इसे जन्म दिया, यह विचार भी युक्तियुक्त नहीं है। भारत अति प्राचीन काल से ही भक्ति-प्रवण रहा है। आर्य जाति के सर्वप्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद में भी इस भक्ति के बीज पाये जाते हैं। प्रशसा भक्ति का एक अंग है। वेद में भी देवों की जो विविध स्तुतियाँ हैं उनमें भक्ति-भाव अन्तर्निहित है। प्रधानतः वरुण के प्रति उद्गीत प्रशसापूर्ण ऋचाओं में हम दास्य-भाव की प्रधानता पाते हैं।^१ यह दास्य-भाव भी भक्ति का एक प्रधान अंग एवं लक्षण है।

संहिता काल के उपासना-कांड के पश्चात् ब्राह्मण-ग्रन्थों के यज्ञादि कर्मों का बड़ा प्रचार हुआ। इस व्यवधान के अनन्तर उपनिषद् काल में हम विचार तथा चिन्तन का प्राधान्य पाते हैं। इसका विशेष परिपाक बौद्ध काल में हुआ। किन्तु चिन्तन मनुष्य के कोमल और मधुर भाव को तृप्त न कर सका, अतः एक साकार आलम्बन की आवश्यकता हुई और भागवत धर्म संस्थापित हुआ। ज्ञानमार्ग तथा भक्तिमार्ग का संघर्ष महाभारत काल तक चलता रहा अतः भक्ति तथा कर्म का समन्वय प्रथम बार

^१ तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्मिः ।

अहेलमानो वरुणोह बोध्युरुक्षंस मा न आयुः प्रमोषीः ॥११॥

—ऋग्वेद, म० १, सू० २४ ।

कदान्वन्तर्वरुणे भुवानि ॥१॥

कदा मृडीकं सुमना अभिख्यम् ॥२॥

अयं ह तुभ्यं वरुणो हृणीते ॥३॥

अरं दासो न मीदुषे करारिण ॥७॥

—ऋग्वेद, ७, ८६ ।

हमको भगवद्गीता में दृष्टिगोचर होता है ।^१ तब से भक्ति का प्रवाह अखण्ड रूप से बहा । इसका एक अक्राट्य प्रमाण यह है कि ईसा से १४३ वर्ष पूर्व पंजाब के ग्रीक राजा ऐटी आत्कीडस के राजदूत तथा भारत के क्षत्रप हैलिओडोरस को भी भक्ति ने आकृष्ट किया था तथा वह भागवत हो गया था ।^२

पाणिनि ने वासुदेव, अर्जुन आदि का नाम लेते हुए बतलाया है कि वासुदेव के भक्तों को वासुदेवक कहते हैं ।^३ इससे प्रतीत होता है कि वासुदेव सम्प्रदाय उस समय विद्यमान था । इससे पूर्व महाभारत के अनुसार वासुदेव या नारायण विष्णु के रूप में पूजित होने लगे थे । यही नहीं ब्रह्मा, रुद्र एव इन्द्रादि देवता हमें विष्णु की अर्चना करते मिलते हैं ।^४ ईसा से पूर्व चतुर्थ शताब्दी में मेगस्थनीज़ ने भी शौरसेनी यादवों द्वारा हरिकृष्ण की पूजा का उल्लेख किया है ।^५ यह पूजा कर्मकांडों तथा यज्ञों के प्रति घृणा का ही प्रतिफल था । सम्भव है कि मनुष्यों ने भक्ति की तरंग में कल्लोलित होकर विष्णु की मूर्तियाँ स्थापित की हों और सगुणोपासना का प्रचार किया हो, परन्तु ईसा से दो सौ वर्ष पूर्व हम मूर्तियों का उल्लेख नहीं पाते । सर्वप्रथम इसी काल में नगरी के शिलालेख में संकर्षण और वासुदेव की मूर्ति-पूजा के निमित्त मन्दिर-निर्माण का उल्लेख मिलता है ।^६

१ मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥

—गीता, अ० १८, श्लोक ६५ ।

२ इसके लिए ग्वालियर राज्य में भिलसा प्रदेश में बंसनगर में स्थित ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी के हैलिओडोरस के विष्णुस्तम्भ पर निम्नलिखित लेख पढ़िये—

“देव देवस्य वासुदेवस्य गरुडध्वजे अयकारितो हैलिओडोरेण भागवतेन दिग्भ्रस-
पुत्रेण तखसिलाकेन योनदूतेन आगतेन महाराजस्य अन्तलिहितस उपता सकासं रजो
कासीपुतस्”

—J. R. A. S. 1909 Oct. Pp. (1055-56).

३ वासुदेवार्जुनाभ्याम् धुन् ।

—अष्टाध्यायी ४।३।१८ ।

४ सन्नह्याकाः सरुद्राश्च सेन्द्रादेवाः सर्हाषभिः ॥३०॥

अच्यन्ति सुरश्रेष्ठं देवं नारायणं हरिं ॥३१॥

—महाभारत, शांतिपर्व, अ० ३४१ ।

५ “It was to him again that four hundred years before Christ, Megasthenes referred as Heracles (Hari Krishana) the God ‘held in especial honour’ by the Sourseini in whose country was situated Methora (Mathura) and the river Lobares (Yamuna) flows.”—(The Nirgun School of Hindu Poetry, P. 5.)

६ मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, पृष्ठ १६ ।

बौद्धमत के उत्थान-काल से बौद्ध और ब्राह्मण धर्म का संघर्ष तीव्र रूप में चल रहा था। बौद्ध धर्म राजाश्रय प्राप्त कर वायुवेग से इतस्ततः प्रसृत हो रहा था। ब्राह्मण धर्म के वर्णभेद, घृणा, यज्ञ, हिंसा आदि को इसमें स्थान न था। समता और प्रेम ने इसकी ग्राह्यता को और भी अनुप्राणित कर दिया था। बाह्य प्रदेशों से आने वाले यवन, शक, आभीर एवं गुर्जर आदि जातियों ने जब भारत में प्रवेश किया तो बौद्धों ने मुक्त हृदय से उनका स्वागत किया और शनैः शनैः अपने में अन्तर्भूत कर लिया। इसी काल में जैन धर्म भी अपनी शक्ति से प्रचार पा रहा था। वह भी यज्ञानुष्ठान आदि के विरुद्ध एक तुमुल नाद था। यह विरोध इतना स्वाभाविक था कि मानव-हृदय स्वयं ही उस ओर मुड़ा और भक्ति-भावना को भी उल्लंघन कर समता के कोड़े में जा बैठा। इसके परिणामस्वरूप भागवत धर्म मन्द पड़ गया, परन्तु मानव-मन के कोमलांश में गुप्त पड़ा रहा और समय पाकर पुनः प्रकाश में आया। ईसा की चतुर्थ शताब्दी के गुप्त राजा वैष्णव ही थे यह इतिहास-प्रसिद्ध है।

मौर्यवंश के अवनति के साथ-ही-साथ बौद्ध धर्म की अवनति प्रारम्भ हो गई थी क्योंकि पुष्यमित्र ने ईसा पूर्व १८४ में इस वंश के अन्तिम राजा बृहद्रथ को मारकर शुंगवंश की नींव डाली। वह वैदिक धर्म का कट्टर पक्षपाती था। इसके अतिरिक्त कई शताब्दियों पर्यन्त सदाचार और निष्ठा की परम्परा के पश्चात् बौद्ध धर्म में भी कर्मकांड ने प्रवेश पा लिया था। भिक्षु-संघ में भिक्षुणियों का प्रवेश भी अनर्थ का ही कारण हुआ। धीरे-धीरे विचार-स्वातन्त्र्य बढ़ता गया और हिन्दू धर्म का प्रभाव पड़ने लगा। अनेक बौद्ध भिक्षुओं ने हिन्दू धर्म की विशेषताओं को अपना लिया। इसके फलस्वरूप ईसा की प्रथम शताब्दी में कुशानवंशीय राजा कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म की दो शाखाएँ हो गई—हीनयान और महायान। हीनयान सम्प्रदाय में मूर्तिपूजा को स्थान न था। परन्तु महायान में भगवान् बुद्ध की पूजा की प्रतिष्ठा हुई अतः भक्ति-भावना को स्थान मिला। सभी मनुष्य भिक्षु नहीं हो सकते, अतः गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी भक्ति द्वारा निर्वाण-प्राप्ति को सम्भव माना गया।^१ इससे अतीत, वर्तमान एवं भावी बुद्धों की तथा बोधिसत्त्वों और अनेक तांत्रिक देवियों की कल्पना की उद्भावना हुई और उनकी मूर्तियाँ निर्मित हुईं। इस व्यापक हिन्दू प्रभाव ने जहाँ बौद्ध धर्म में शिथिलता ला दी वहाँ वह स्वयं भी प्रभावित हुए बिना न रहा और यहाँ तक कि भगवान् बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लिया गया।^२

बौद्ध धर्म की महायान शाखा में भी अनेक प्रशाखाएँ फूटी। ईस्वी सन् ४००

^१ मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, पृ० ६।

^२ "As Monier Williams says, Buddhism was drawn into Hinduism and Buddha was accepted as an incarnation of Visnu."—(Medieval India, P. 576.)

से लेकर ७०० तक इसी के अन्तर्गत मन्त्रयान की अधिक प्रतिष्ठा हुई।^१ इसमें योग और तन्त्र दोनों को स्थान मिला। इसी का एक रूप वज्रयान के नाम से प्रचलित हुआ जिसने ८०० ई० से लेकर १२०० ई० तक भारतीय समाज एवं साहित्य पर बड़ा प्रभाव डाला। सातवीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की इस अधोगत अवस्था में भी उसका अच्छा मान था। सम्राट् हर्ष शैव होते हुए भी बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान करता था। परन्तु अब इसके अन्तिम दिन आ गये थे और नौवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में शंकराचार्य ने ब्राह्मणों के कर्मकाण्ड के साथ-साथ इसका भी अन्त-सा कर दिया। बारहवीं शताब्दी के अन्त तक पूर्वी भारत के अतिरिक्त इसकी सत्ता प्रायः सर्वत नष्ट हो गई।

पूर्वी भारत में अवशिष्ट बौद्धधर्म वज्रयान के नाम से प्रसिद्ध था। बज्रयानी सन्त सिद्ध कहलाते थे और तांत्रिक क्रियाओं के सम्पादन में व्यस्त रहते थे। बिहार में नालन्दा और विक्रमशिला इनके केन्द्र थे। वस्तुतः खिलजी ने जब इनके मठों को ध्वस्त किया तब ये नष्टप्राय हो गये। सहजयान भी महायान की शाखा थी। बज्रयान में साधना का विशेष महत्त्व था, परन्तु सहजयान जीवन के सहज पथ से सम्बन्ध रखता था, जिसमें योग और काय-क्लेश को साधना का अंग नहीं माना गया था। बज्रयानी सिद्ध स्त्री-मद्य-सेवन को साधना का अंग मानते थे।

बौद्धों का महासुखवाद बज्रयान सम्प्रदाय में भी आया परन्तु अब यह वासना का उच्छेदमूलक न रहकर वासनाजन्य सुख के सदृश समझा गया। धर्म के नाम पर व्यभिचार बढ़ रहा था। धार्मिक विरोध के कारण इसे साधना का साधक बना दिया गया था। यही कारण था कि रहस्य की प्रवृत्ति चल पड़ी थी और साकेतिक एवं गूढार्थक शब्दों का प्रयोग होने लगा था।

सिद्ध चौरासी हुए हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इनकी परम्परा ईसा की आठवीं शताब्दी से प्रारम्भ होकर बारहवीं शताब्दी तक चलती है। इन सिद्धों की रचनाएँ भी मिलती हैं, जो धार्मिक साहित्य के अन्तर्गत हैं। रचना की दृष्टि से सर्व-प्रथम सरहपा है, जिसका काल ७६० ई० है।^२ इन सिद्धों की साधना में शान्त भावना को स्थान है और साथ ही रहस्यवाद की प्रतिस्थापना भी है, परन्तु निराशावाद नहीं है। यही कारण है कि ये शरीर को अशुचिपूर्ण पदार्थों का भंडार नहीं बरन् तीर्थ की भाँति पवित्र मानते हैं और भोगों को ग्राह्य बतलाते हैं। सरहपा^३ ने खाते-पीते तथा

^१ हिन्दी-साहित्य, पृ० ११।

^२ हिन्दी काव्यधारा, पृ० २।

^३ खाअन्त पिअन्ते सुहृद्वि रमन्ते। शिन्त पुण्यु चक्कावि भरन्ते।

ग्राइस धम्म सिञ्जई परलोअइ। ग्राइ पाए दलोउ भअलोअइ।।

सुख का उपभोग करते हुए धर्म की सिद्धि बतलाई है। गोरखनाथ ने भी भोग में योग माना है।^१

ये सिद्ध प्राचीन रूढ़ियों के पक्षपाती नहीं थे, वरन् स्वतन्त्र विचार के पुरुष थे। सरहपा, तिलोपा, शान्तिपा आदि संस्कृत के बड़े विद्वान् थे परन्तु योगचर्या में विश्वास रखते हुए भी साधनार्थ अनेक आडम्बरपूर्ण दुराचरणों का अनुसरण करते थे। यही कारण था कि ये सरल और सुगम भाषा लिखते हुए भी कुछ सांकेतिक शब्दों का प्रयोग करते थे जिससे वह साधारण मनुष्य के लिए दुर्बोध होती थी। प्रकाश और अंधकार के मध्य में स्थित संध्या की भाँति बोध्य और अबोध्य अर्थ से युक्त इनकी भाषा 'संध्या भाषा' के नाम से पुकारी गई।

इन सिद्धों में अलख निरंजन की मान्यता थी। इसका सम्बन्ध शास्त्रों में प्रतिपादित ब्रह्म से नहीं था, वरन् इससे वास्तविक तत्त्व का ही बोध होता था और नामान्तर और रूपान्तर से बौद्धों के निर्वाण का ही द्योतक था। आगे कबीर आदि ज्ञानमार्गी सन्तों ने इसे अपनाया, परन्तु राम-रहीम के रूप में। यहाँ यह बात विचारणीय है कि कबीर का राम भी दशरथ-पुत्र नहीं है। पर वह कुछ परिवर्तन के साथ अद्वैत का ही ब्रह्म है। ये लोग निधनोपरान्त मुक्ति की अपेक्षा जीवन में ही भोग में योग-सिद्धि मानते थे। इनके अनुसार वैराग्य निराशाजनक होने के कारण इतना ग्राह्य और श्रेयस्कर नहीं जितना परम सुख का अनुभव करानेवाला कायिक सुख। इसीलिए ये सहजमार्ग के अनुयायी थे और काया को ही तीर्थ मानते थे। सरहपा^२ ने मन्त्र, तन्त्र, ध्येय आदि को भ्रम का कारण कहा है और शरीर में^३ ही गंगा, यमुना, गंगासागर, प्रयाग, वाराणसी एवं चन्द्र-सूर्यादि माने हैं। इसी प्रकार तिलोपा^४ ने भी तीर्थ-तपोवन आदि का विरोध करते हुए काय-शुचिता में ही पाप-मुक्ति बतलाई

^१ भगमुषि ब्यंद अगनि मुष पारा। जो राखे सो गुरू हमारा। (४६।१४२)

—हिन्दी काव्यधारा, पृ० १६३।

^२ मन्त ए तन्त ए धेअ ए धारण। सव्ववि रे बड़ ! विबभम-कारण।

—हिन्दी काव्यधारा, पृ० ६।

^३ ऐत्थु सैं सुरसरि जमुना, ऐत्थु सैं गंगा साअरु।

ऐत्थु पआग बरगारसि, ऐत्थु सैं चन्द दिवाअरु ॥४७॥

खेत्तु-पीठ-उपपीठ, ऐत्थु मह भमइ परिट्ठुओं।

वेहा-सरिसअ तित्थ, महं सुह अरणण दिट्ठुओं ॥४८॥

^४ तित्थ तपोवण म करट्ठु सेवा। वेह सुचीहि ए सन्ति पावा ॥१६॥

—हिन्दी काव्यधारा, पृ० १७४।

है। यहाँ पर हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये सिद्ध भक्तिमार्ग के अनुयायी नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इनकी उपासना वासनामय थी, जो भक्ति के सर्वथा विरुद्ध है।

पूर्व-परम्परा से इतना घोर विरोध और परिवर्तन हुआ इसका कारण सम्भवतः बौद्ध धर्म के मध्यकाल में सयम का शैथिल्य था, जिसको निम्न जातियों के प्रवेश ने और बल दिया था। निम्न जातियों में भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति सदैव पाई जाती है, अतः सयम और सदाचार के आधार पर निर्मित बौद्धमत का प्रासाद भी अन्त में इतना जर्जरित हो गया कि पतित होने पर जन्मभूमि में उसके ध्वंसावशेष तक न रहे। इन सिद्धों में भी प्रायः चमार, धोबी, जुलाहा, डोम एव लकड़हारा आदि निम्न वर्ग के ही लोग थे।

सिद्ध काल की रचना साहित्यिक दृष्टि से इतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है, परन्तु भविष्य के लिए पथ-प्रदर्शक अवश्य रही। इनकी रचनाओं में प्रायः रहस्यवाद मिलता है। सरहपा^१, शवरपा^२ तथा भूसुकपा^३ आदि सभी सिद्धों ने रहस्यवाद पर रचना की है। रहस्यवाद के अतिरिक्त सहजमार्ग, पाखण्ड-निषेध एव गुरु-महिमा आदि विषयों पर अच्छा विवेचन पाता है। सिद्ध समुदाय में गुरु का बड़ा माहात्म्य था। सरहपा ने कहा है कि गुरु उपदेशामृत से वचित व्यक्ति शास्त्रार्थ रूपी मरुस्थल में तृपित ही मरता है।^४ सहजमार्ग तथा भोग में योग-सिद्धि के अतिरिक्त प्रायः सभी विषयों को न्यूनाधिक रूप में इनके पश्चात् नाथपंथियों ने अपनाया और जो क्रमशः ज्ञानमार्गी तथा प्रेममार्गी सन्तों को भी मान्य हुआ।

वज्रयान सिद्धों के वामाचार, भ्रष्टाचार एव सहजमार्ग के विरुद्ध बहुत समय से

^१ गउत वाअहि गुरु कहइ, गउतं बुज्भुइ सीस ।

सहजामिश्र-रसु सअल जगु, कासु कहिज्जइ कीस ॥६॥

—हिन्दी काव्यधारा पृ० २ ।

^२ गुरु वाक्-पुंजिआ धनु गिअ-मण वाणे ।

एके शर सन्धाने विन्धह विन्धह परम-निवाणे ॥

—हिन्दी काव्यधारा, पृ० २० ।

^३ गिअि अन्धारी मूसा करअ अचारा । अमिअ भखअ मूसा करअ अहारा ।

माररे जोइया मूसा-पवना । जेण तूटइ अवरणा-गवरणा ॥

—हिन्दी काव्यधारा, पृ० १३२ ।

^४ गुरु-उवएसे अमिअ-रसु, घाव ए पीअउ जेहि ।

बहु-सत्थत्थ-मरुत्थलॉह, तिसिए मरिअउ तेहि ॥

—हिन्दी काव्यधारा, पृ० ८ ।

भावना प्रसरित हो रही थी। यह वह समय था जब भारत में मुसलमानी साम्राज्य स्थापित हो रहा था। इससे पूर्व महमूद गजनवी ग्यारहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में अनेक बार भारत के पश्चिमी भाग में लूटमार कर चुका था। सन् १०२५ में जब उसने राजपूताने के मरुस्थल को पार कर गुजरात में सोमनाथ के सुप्रसिद्ध मन्दिर को लूटा और बड़े-बड़े पुजारी, पंडित, भक्त एवं वीरो के समक्ष अपनी गदा से मूर्ति को चूर-चूर कर अतुल धन-राशि साथ लेकर लौट गया तब तो लोगों को बड़ी निराशा हुई। इसके पश्चात् जब सन् ११९३ ई० में शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज को परास्त कर दिल्ली में मुस्लिम राज्य की नींव डाली और उसके दास कुतुबुद्दीन ने गुलाम वश की स्थापना की तब से तो हिन्दुओं का घोर दमन प्रारम्भ हुआ और अनेक ऐसी मार्मिक घटनाएँ हुईं जिन्होंने हिन्दू मानस को विक्षुब्ध कर दिया।

ईसा की आठवीं और नौवीं शताब्दी में उत्तर भारत में वैष्णव सम्प्रदाय का ह्रास हो गया था और उसने दक्षिण में आश्रय पाया था। इस समय उत्तर में राजपूतों का शासन होने से शैवोपासना प्रबल हो रही थी। मुसलमानों के आगमन के समय यहाँ शिवपूजा का ही प्राधान्य था।^१ यह शिव-पूजा भारत में आर्यों के आगमन से पूर्व ही आदि-काल से चली आ रही है। इसका एक मुख्य प्रमाण वह प्रस्तर की मूर्ति है जो आज से छः हजार वर्ष पूर्व मोहजोदारो नामक नगर से मार्शल द्वारा निकाली गई है। वैष्णव सम्प्रदाय की रक्षा दक्षिण के अलवार भक्तों एवं राजाओं के हाथों हो रही थी। जब मुसलमानों के आक्रमण से राजपूत-शक्ति छिन्न-भिन्न हो गई तब शैव मत भी ह्रास को प्राप्त हो गया और वैष्णव धर्म को पुनः श्वास लेने का अवसर मिला। यह पुनः दक्षिण से उत्तर की ओर आया। इसका श्रेय श्री रामानुजाचार्य को था जो दक्षिण भारत में ग्यारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में विद्यमान थे।

इस प्रकार सगुणोपासना का प्रबल प्रयत्न तो हो रहा था, परन्तु यह समय इसके लिए उपयुक्त न था। एक तो शंकराचार्य के अद्वैत का प्रभाव अक्षुण्ण रूप से चला आ रहा था दूसरे नेत्रों के समक्ष भगवान् एवं अन्य देवताओं की मूर्तियों का ध्वंस देखकर लोगों के हृदय में निराशा उत्पन्न हो गई थी। अब यह सिद्ध हो चुका था कि मूर्तियाँ केवल पाषाण-खंड ही हैं, न कि असुरनिकन्दन, जन-मन-रजन, तथा भव-भय-भंजन शक्तियाँ। जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता वह भला दूसरों की क्या रक्षा करेगा? बारहवीं शताब्दी के पश्चात् गोरक्षनाथ ने इस बात को अच्छी तरह जान लिया था कि सिद्ध सम्प्रदाय के भ्रष्टाचार का मूलोच्छेदन कर सुधार अनिवार्य है तथा मुस्लिम भावना को समक्ष रख कर मूर्तिपूजन अनावश्यक है। इसीलिए उन्होंने एक ऐसे मार्ग की स्थापना की जिसमें प्रायः वर्तमान सभी मतों का समावेश था। यह मार्ग

^१ *The Mystics, Ascetics and Saints of India*, P. 115,

नाथ पथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।

इस पथ का मूल भी बौद्धों की बज्रयानी सम्प्रदाय ही है ।^१ परन्तु इसने उसकी तान्त्रिक क्रियाओं को नहीं अपनाया । गोरखनाथ ने शंकराचार्य के अद्वैत तथा पतंजलि के योग का मेल कर हठयोग द्वारा साधना का मार्ग प्रदर्शित किया । जीवन का कठिनतम रूप पुनः समक्ष आया और काय-क्लेश को प्रधानता मिली ।

शंकराचार्य ने अद्वैत की प्रतिस्थापना कर ब्रह्मैकवाद का प्रचार अवश्य किया, परन्तु शिव का माहात्म्य स्वीकार किया । नाथपथियों ने भी बौद्धों की बज्रयानी सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखते हुए भी शिव को इष्ट के रूप में अपनाया । वास्तव में ये बौद्ध कलेवर में हिन्दू आत्मा को लिए शैव-भावना के रूप में अंकुरित हुए । जन-प्रवाद के अनुसार गोरखनाथ स्वयं प्रथम बौद्ध थे, पुनः शैवमत में दीक्षित हुए । जिस प्रकार सिद्धों की संख्या चौरासी है, नाथों की संख्या नौ है ।^२ सिद्धों की परम्परा बारहवीं शताब्दी तक समाप्त हो जाती है । पुनः कबीर के समय तक नाथ सम्प्रदाय का ही प्रचार और प्रसार हमें दीख पड़ता है । बज्रयानी सिद्धों का प्रचार अन्त में पूर्वी भारत में अधिक हुआ । गोरखनाथ ने अपनी सम्प्रदाय की स्थापना पश्चिमी भाग में की, जिसमें पजाब और राजपूताना प्रमुख थे । परन्तु पश्चात् यह उत्तरी भारत में फैल गया और दक्षिण-पश्चिमी भाग में भी जा पहुँचा । क्षितिमोहन सेन ने लिखा है कि बंगाल के नाथ और योगियों के पद, मैनावती और गोपीचन्द के गान सारे उत्तरी भारत तथा कच्छ, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी गाये जाते थे तथा गोरखनाथ के गान, नाथ और योगियों के पद बंगाल, राजपूताना आदि सर्व स्थानों में प्रचलित थे ।^३

नाथ सम्प्रदाय ने सिद्धों के वाममार्ग को तो अगीकृत न किया परन्तु पाखंड-विरोध तथा गुरु-महिमा आदि में समानता रही । गोरखनाथ ने मांस खाने से दया-धर्म का नाश, मदिरा पीने से प्राणों में नैराश्य, एव भोग के प्रयोग से ज्ञान-ध्यान का ह्रास बतलाया है ।^४ इन्होंने^५ हिन्दुओं के देवालय और मुसलमानों की मसजिद को

१ हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृ० १६ ।

२ दी मिस्टिक्स, एसेटिक्स एण्ड सेट्स ऑफ इंडिया, पृ० १८५/१८६ ।

३ भारतीय अनुशीलन ग्रन्थ, विभाग, ३ मध्यकाल, पृ० ८६ ।

४ अथर्व मांस भक्षत दया धर्म का नास । सव पीवत तहाँ प्रांण निरास ।

भांगि भक्षत ग्यानं ध्यानं षोचंत । जस दरबारी ते प्रांगी रोचंत ॥

—गोरखबानी, पृ० ५६ ।

५ हिन्दू ध्यावं देहरा मुसलमान मसीत ।

जोगी ध्यावे परमपद जहाँ देहरा न मसीत ॥

—गोरखबानी, पृ० २५ ।

आराधना का स्थान न मानकर परमपद के ध्यान को ही महत्त्व दिया है। उनका कहना है कि योगी जिस अलख का निरूपण करते हैं, वह हिन्दुओं के राम और मुसलमानों के खुदा से भिन्न है।^१ उस परम तत्त्व का निरूपण करते हुए गोरखनाथ ने लिखा है कि उसे न हम स्थूल स्थान कह सकते हैं और न शून्य, न भाव संज्ञा दे सकते हैं और न अभाव।^२ अतः वह सत्-असत् एवं भावाभाव से भिन्न है। वह अगम्य तथा बुद्धि और इन्द्रियों के अगोचर है। बुद्धि उसके स्वरूप को नहीं जान सकती तथा श्रोत्र, अक्षि, घ्राण, रसना एव स्पर्श इन्द्रियाँ उसे विषयीभूत नहीं कर सकतीं। वह आकाश-मंडल में बोलने वाला एक बालक है। आकाश-मंडल से तात्पर्य शून्य अथवा ब्रह्मरंध्र है, जहाँ ब्रह्म का निवास है। वही योग-बल द्वारा समाधि में साक्षात्कार होता है। उस परमतत्त्व को बालक इसलिए कहा है कि वह निर्विकार होता है। अतः वह नामरूप उपाधियों से रहित है। वहाँ पर न निरति है, न सुरति, न योग है, न भोग।^३ न वहाँ जरा है, न मृत्यु और न रोग। वाणी तथा ओंकार भी वहाँ नहीं है। न वहाँ उदय है, न अस्त, अतः रात-दिन भी नहीं है। वहाँ सम्पूर्ण चराचर जगत में कोई भिन्नता नहीं दृष्टिगोचर होती। वहाँ तो अधिष्ठान एवं नामरूपोपाधि रूप मूल और शाखा से विहीन केवल शुद्ध ब्रह्म ही है जो सर्वत्र व्याप्त है और जो न सूक्ष्म है, न स्थूल। इस परमतत्त्व की पहचान के लिए गुरु की परमावश्यकता है। जो गुरु वचनों^४ का पालन करता है उसका द्वन्द्व नष्ट हो जाता है और वही शून्य^५ (ब्रह्मरन्ध्र) में

१ हिन्दू आषै राम कौ मुसलमान षुदाइ ।

जोगी आषै अलख कौ, तहाँ राम अछै न षुदाइ ॥

—गोरखबानी, पृ० २५ ।

२ बसती न सुन्यं सुन्यं न बसती अगोचर ऐसा ।

गगन सिषर मर्हि बालक बोले ताका नांव धरहुगे कैसा ॥

—गोरखबानी, पृ० १ ।

३ निरति न सुरति जोगं न भोग, जुरा मरण नहीं तहाँ रोगं ।

गोरष बोले एकंकार, नहि तहं वाचा ओंकार ॥

उदय न अस्त राति न दिन, सखे सचराचर भाव न भिन ।

सोई निरंजन डाल न मूल, सर्व व्यापीक सुषम न अस्थूल ॥

—गोरखबानी, पृ० ३८-३९ ।

४ मान्या सबद चुकाया वंद ।

—गोरखबानी, पृ० ६ ।

५ गगन मंडल में ऊँधा कूवा तहाँ अमृत का बासा ।

सगुरा होइ सु भरि भरि पीवै निगुरा जाइ पिपासा ॥

—गोरखबानी, पृ० ६ ।

अमृतकूप से चूने वाले अमृत का पान कर सकता है। इसके निमित्त उमे इतस्ततः भटकने की आवश्यकता नहीं और मंदिर-तीर्थादि भी व्यर्थ हैं।^१ काया ही तीर्थ है, अतः हृदय की पवित्रता और शरीर का संयमन साधना के साधन हैं। निद्रा, त्याग, मिताहार तथा विविध आसनों द्वारा कायनिरोध करना चाहिए। तत्पश्चात् जो अजपाजाप करता है, ब्रह्मरन्ध्र में मन को लीन रखता है, इन्द्रियो पर विजय पा लेता है तथा ब्रह्मानुभूति रूप में काया का होम करता है, महादेव भी उस योगी के चरणों की वन्दना करता है अर्थात् उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है।^२

नाथ मत में आत्मा और परम तत्व को एक ही माना गया है।^३ सम्पूर्ण दृश्य जगत माया की उत्पत्ति है।^४ यह माया असत्य है।^५ योग की युक्तियों से इस माया का प्रपंच नष्ट हो जाता है और योगी संसार से पार हो जाता है।^६ यहां हमें अद्वैत का पूर्ण प्रभाव देख पड़ता है। नाथ मत में हठ योग का विशेष माहात्म्य है, इसे ही आगे कबीर, जायसी आदि ने महत्त्व दिया है अतः इसका निरूपण परम आवश्यक है।

योग शब्द 'युज' धातु से बना है, जिसका सामान्य अर्थ है मेल। कायिक एवं मानसिक संयमन द्वारा समाधि में आत्मा का परम तत्व से मिल जाना योग कहलाता है। महर्षि पतंजलि ने भी चित्तवृत्तियों के निरोध को ही योग कहा है।^७

यह योग चार प्रकार का है—मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग और राजयोग।^८ नाथ पन्थ में इनमें से हठयोग का विशेष महत्त्व है जो वास्तव में राजयोग अर्थात् ईश्वर-मिलन का ही परम साधन है। अतः यहाँ हठयोग का सूक्ष्म विवेचन किया जाता है।

^१ अवधू मन चगा तो कठौती हीं गंगा। —गोरखबानी, पृ० ५३।

^२ अजपा जपे सुनि मन धरं, पाँचों इन्द्रो निग्रह करं।

ब्रह्म अनति में होमें काया, तास महादेव वन्दै पाया ॥

—गोरखबानी, पृ० ७।

^३ आत्मां उत्तिम देव। —गोरखबानी, पृ० ६४।

^४ वाइ नहीं तहं वां बादल नाहीं, बिन थामां बाबै मडप रचीया।

तिहाँ आप उपावन हारी जी ॥ —गोरखबानी, पृ० ६२।

^५ अवधू माया मिथ्या ब्रह्म सुसाँचा, —गोरखबानी, पृ० २३०।

^६ जोग-जुगति सार तौ भौ तिरिये पारं ॥ —गोरखबानी पृ० ६५।

^७ योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥२॥ —पातंजलयोगसूत्राणि, समाधिपाद।

^८ मन्त्रो लया हठो राजयोगान्ता भूमिका क्रमात् ॥१२६॥

एक एव चतुर्धास्यं महायोगोऽभिधीयते। योग उपनिषद्, पृ० ४१६।

कुम्भक कहते हैं। इन्हीं तीनों वायुओं की क्रियाओं से प्राणायाम भी इन्हीं नामों से तीन प्रकार का माना गया है।^१

प्राणायाम की सिद्धि के लिए शरीर-शुद्धि परमावश्यक है, क्योंकि शरीर-लाघव के बिना श्वास-धारण असम्भव है और यदि किया जाय तो प्राणाघात की आशंका रहती है, अतः शरीर-शुद्धि के लिए षट्कर्म का विधान है—धौति, वस्ति, नेति, त्राटक, नौली और कपालभीति। इन क्रियाओं से जब शरीर का प्रत्येक आभ्यन्तर अंश शुद्ध हो जाता है तब विविध आसनो द्वारा इन्द्रिय और मन को सयमित कर ध्यान से समाधि प्राप्त होती है। आसन चौरासी है, परन्तु उनमें साधना के लिए सिद्धासन, मद्रासन, सिंहासन और पद्मासन मुख्य हैं।^२

प्राणायाम के अभ्यास से वायु का सयमन होता है, अतः वायु-नाडियों में शक्ति प्रबल हो जाती है और चक्र उत्तेजित हो जाते हैं, जिस से योगी सिद्धि को प्राप्त करता है। शरीर में ७२,००० नाड़ियाँ मानी जाती हैं, परन्तु उनमें ७२ मुख्य हैं।^३ इन ७२ में से दस नाड़ियों को विशेष महत्त्व दिया गया है^४, (१) इडा, (२) पिंगला, (३) सुषुम्ना, (४) गान्धारी, (५) हस्तिजिह्वा, (६) पूषा, (७) यशस्विनी, (८) अलम्बुसा, (९) कुहू, और (१०) शंखिनी।

इन दस नाड़ियों में भी इडा, पिंगला और सुषुम्ना का ही प्रधान्य है। इडा मेरुदंड के वाम पार्श्व में और पिंगला दक्षिण पार्श्व में तथा सुषुम्ना दोनों के मध्य में स्थित है।^५ इडा नाडी वाम पार्श्व से मेरुदंड को पार करती हुई नासिका के वाम पार्श्व में पहुँचती है। सुषुम्ना मेरुदंड से होती हुई ब्रह्मरन्ध्र तक जाती है। ये तीनों नाड़ियाँ प्राणवायु की वाहक हैं। यही कारण है कि योगी प्राणायाम के समय अपने दाहिने हाथ के अँगूठे से नासिका के वाम एवं दक्षिण पार्श्व को दबाकर उच्छ्वास एवं

१ रुचिरं रेचकं चैव वायोराकर्षणं तथा ।

प्राणायामस्त्रयः प्रोक्ता रेचकपूरककुम्भकाः । —योग-उपनिषद, पृ० १५ ।

२ सिद्धं भद्रं तथा सिद्धं पद्मं चेति चतुष्टयम् ॥ —योग-उपनिषद, पृ० १६६ ।

३ बहतर कोठड़ी निपाई । —गोरखबानी, पृ० १२१ ।

४ प्रधानाः प्राणवाहिन्यो भूयस्तत्र दशस्मृताः ।

इडा च पिंगला चैवसुषुम्ना च तृतीयका ॥५२॥

गान्धारी हस्तजिह्वा च पूषा चैव यशस्विनी ।

अलंबुसा कुहूरत्र शंखिनी दशमी स्मृता । —योग उपनिषद, पृ० १६६ ।

५ इडा वामे स्थिता नाडी पिंगला दक्षिणे स्थिता —॥

सुषुम्ना मध्य देशस्था प्राणमार्गास्त्रयः स्मृता ॥ ५५ ॥

—योग-उपनिषद, पृ० १६६ ।

निश्वास के अभ्यास द्वारा प्राणवायु को साधता है । प्राणवायु के अतिरिक्त अन्य वायुओं का निग्रह भी प्राणायाम में बड़ा मूल्य रखता है ।

वायु दस प्रकार की है^१—(१) प्राण, (२) अपान, (३) समान, (४) उदान, (५) व्यान, (६) नाग, (७) कूर्म, (८) कृकरक, (९) देवदत्त और (१०) धनंजय । इनमें प्रथम पाँच प्रमुख हैं । अन्तिम पाँच प्रकार की वायु सहस्रों नाडियों में संचरण करती रहती है । प्राणादि पाँच वायुओं में प्राण और अपान का विशेष महत्त्व है, क्योंकि जीव इन्हीं के वश में रहता है । प्राणायाम के द्वारा ही वायु का निग्रह कर जीव शान्ति को प्राप्त करता है ।

वायु-निग्रह में उपर्युक्त इडा, पिंगला और सुषुम्ना नाडियों की विशेषता है क्योंकि ये ही तीनों प्राणवाहिनी नाड़ियाँ हैं तथा इन्हीं के साधन से भ्रम दूर हो जाता है और ब्रह्म की प्राप्ति होती है ।^२ इन तीनों में भी सुषुम्ना ही सिद्धिदायिनी है ।^३ क्योंकि सूर्य (पिंगला) नाड़ी में वायु तीव्रता से चलती है और चन्द्र (इडा) में मन्द । निश्वास के समय पिंगला नाड़ी चलती है और उच्छ्वास के समय इडा । परन्तु योगी इन दोनों से पृथक् सुषुम्ना का आश्रय लेता है, क्योंकि वही बिन्दु का निवास है तथा अमर जीवन है । इडा और पिंगला द्वारा वायु के विकर्षण और निष्क्रमण में तो जीव कभी स्थिरता नहीं पाता ।

इसी सुषुम्ना नाड़ी के निम्न भाग में स्थित कुंडली मारे कुंडलिनी नाम की एक दिव्य शक्ति है ।^४ यह सर्पाकार है जो प्रायः सुप्तावस्था में रहती है । अयोगी पुरुषों में सुप्त होने के कारण यह अधोमुख हुई पड़ी रहती है और वासनना को दीप्त करती रहती है । परन्तु योगी लोग प्राणायाम द्वारा इसे जागृत करते हैं । सुषुम्ना की

^१ प्राणोऽपानः समानश्चोदानो व्यानस्तथैव च ॥

नागः कूर्मः कृकरको देवदत्तो धनंजयः ॥

प्राणाद्याः पंच विख्याता नागाद्याः पंच वायवः ॥१७॥ —योग-उपनिषद ।

^२ इलाप्यंगुला सुषुम्ना नाड़ी । छुट्टे भ्रम मिले बनवारी ।

—गोरखबानी; पृ० १६७ ।

^३ उठंत पवनां रवी तपंगा बैठंत पवना चंद्रं ।

दहनिरंतरि जोगीविलम्बे, विद बसे तहा व्यदं ॥ —गोरखबानी; पृ० २१ ।

^४ तत्र विद्युत्लताकारा कुंडली पर देवता ॥

सार्धत्रिकरा कुटिला सुषुम्णा मार्गसंस्थिता ॥

—शिवसहिता, द्वितीय पटल, श्लोक २३ ।

छ. स्थितियाँ हैं जिन्हें षट्चक्र कहते हैं । ये इस प्रकार हैं^१—(१) मूलाधार चक्र जो चतुर्दल कमल के रूप में है, (२) स्वाधिष्ठान चक्र जो षट्दल कमल के रूप में लिंगमूल में स्थित है, (३) मणिपूरक चक्र जो नाभि प्रदेश के पास दशदलाकार है, (४) अनाहत चक्र जिस में द्वादश दल हैं और जो हृदय प्रदेश में स्थित है, (५) विशुद्धाख्यचक्र जो कठ में स्थित है और पौडश दलों से युक्त है, (६) आज्ञाचक्र जो केवल दो दल वाला है और भ्रूमध्य में स्थित है । गोरखनाथ ने इन्हीं चक्रों को मूलचक्र, गुदाचक्र, मणिचक्र, अनहदचक्र, विसुधचक्र और चन्द्रचक्र के नाम से पुकारा है ।^२

इन छ चक्रों से ऊपर सहस्रदल कमल है । इसे शून्यचक्र भी कहते हैं । योग से जब कुडलिनी प्रबुद्ध हो जाती है तो सुषुम्ना में विद्यमान ब्रह्मनाडी में होकर वह ऊपर को प्रसरण करती है और महस्रार तक पहुँचती है । यही सुषुम्ना का मूल है और यही ब्रह्मरन्ध्र कहलाता है । इसी ब्रह्मरन्ध्र में ब्रह्म का वास है ।^३ योग की सिद्धि कुडलिनी को विस्फुरित कर इसी ब्रह्म की प्राप्ति में है । ब्रह्मरन्ध्र में ही चन्द्रमा स्थित है, जहाँ अमृत का वास है ।^४ जो योगी नहीं है वह उसे पान नहीं कर सकता अतः वह स्रवित होकर मूलाधार चक्र में जाता है और वहाँ सूर्य द्वारा क्षोषित हो जाता है ।^५ परन्तु जिसने कुडलिनी को जगा^६ दिया है, उसके सर्वांग में वायु भक्षण होने लगता है तथा अमृत-स्रावक चन्द्रमा ही मूलाधार में स्थित राहू (सूर्य)

^१ चतुर्दलं स्यादाधारं स्वाधिष्ठानं च षड्दलम् ॥४॥

नाभौ दशदलं पद्मं हृदयं द्वादशारकम् ।

षोडशारं विशुद्धाख्यं भ्रूमध्ये द्विदलं तथा ॥

—योग-उपनिषद, पृ० ३३८ ।

^२ अवधूमूल चक्र थिर होवै कंद । गुदाचक्र अगोचर बंध ।

मणिचक्र में हँस निरौधै । अनहदचक्र में चित्त परमोधै ॥

विसुध चक्र में लहै सवाद । चन्द्रचक्र में लागै समाध ॥

—गोरखबानी, पृ० २०२ ।

^३ सहस्र नाडी प्राण का मेला, जहाँ असंष कला शिव थानं ॥

—गोरखबानी, पृ० ३३ ।

^४ गगन मंडल में अंधा कूवा तहाँ अमृत का वासा ॥

—गोरखबानी, पृ० २० ।

^५ अमावस के धरि क्लिभिलि चंदा, पुनिम के धरि सूर ।

—गोरखबानी, पृ० २० ।

^६ उलटी सकति चढ़ै ब्रह्मड नष सष पवनां धैले सरवंग ॥

—गोरखबानी, पृ० ७१ ।

को ग्रस लेता है जिससे अमृत का पान सिद्ध हो जाता है और सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कुडलिनी जब ब्रह्मरन्ध्र में पहुँच जाती है तो योगी को एक नाद सुनाई देता है जो अनहद नाद कहलाता है।^१ यह सार का भी सार और गम्भीर से गम्भीर है।^२ इस से ब्रह्मानुभूतिरूप माणिक्य हाथ लगता है। यह नाद सर्वत्र व्याप्त है, परन्तु ब्रह्मरन्ध्र में ही परमतत्व की खोज में यह अन्तःश्रुतिगोचर होता है।^३ इसी नाद से अपार प्रकाश होता है, यही ब्रह्मानुभूति है, परम तत्व की प्राप्ति है तथा शिव का साक्षात्कार है।

नाथपथ ने उपर्युक्त हठयोग द्वारा सिद्धि का मार्ग प्रदर्शित किया। यह बड़ा दुर्लभ मार्ग था, अतः इसके प्रतिपादन में उलटबासियों का बड़ा प्रयोग हुआ। इस योग का व्यापक प्रभाव हम ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी शाखा पर देखते हैं। सूफियों के प्रेमाख्यानक काव्यों में तो प्रायः सभी नायक योगी होकर निकले हैं परन्तु तत्कालीन परिस्थिति हमें बतलाती है कि इस मार्ग के विरुद्ध भावना जागृत हो रही थी और एक सगुण आलम्बन की चाहना रह-रह कर विकास में आती थी।

यह पहले कहा जा चुका है कि शकराचार्य ने ब्रह्मकवाद का प्रचार कर सगुणोपासना का विरोध किया था, जिसका प्रभाव हम नौवीं शताब्दी से पन्द्रहवीं शताब्दी तक पर्याप्त मात्रा में पाते हैं। परन्तु इस शुष्कवाद ने मानव-मन में निराशा उत्पन्न कर दी थी। तब हिन्दू जनता को कोई आश्रय नहीं दीख पड़ता था। योगियों ने भी जिस मार्ग को अपनाया था वह भी शाकरमत की पद्धति पर ही निर्मित था। यह विक्षुब्ध और विपन्न हृदय में धैर्य और शान्ति का कारण नहीं हो सकता था। अतः परिस्थिति नितान्त भिन्न होती जा रही थी। यद्यपि मुसलमानी शासन में सगुणोपासना का शुद्ध रूप समक्ष लाना असम्भव-सा हो गया था, क्योंकि प्रत्यक्षतः ऐसा करना अपने को विपत्ति-सागर में निमग्न करना था तथापि मानसिक क्षेत्र में जो मधुर भाव तरंगे ले रहा था उसे कौन निरुद्ध कर सकता था। उसका फल यह हुआ कि शनैः शनैः अवसर पाकर अद्वैत का विरोध हुआ और उसके सुधार रूप में निम्नलिखित चार मतों की स्थापना हुई—

^१ उलटि चन्द्र राहु कू ग्रहे । सिध संकेत जती गोरष कहै ॥

—गोरखबानी, पृ० ७१ ।

^२ सारमसारं गहर गंभीरं गगन उछलिया नादं ॥
मानिया पाया फेरि लुकाण भूठा वादविवादं ॥

—गोरखबानी, पृ० ६ ।

^३ नाद रह्या सरवत्र पूरि । गगन मंडल में षोजौ अवधू वस्त अगोचर मूर ॥

—गोरखबानी, पृ० १६७ ।

काल	सस्थापक	मत
१२वीं शताब्दी	रामानुजाचार्य	विशिष्टाद्वैतवाद
१३वीं शताब्दी	मध्वाचार्य	द्वैत
१३वीं शताब्दी	विष्णुस्वामी	शुद्धाद्वैत
१३वीं शताब्दी	निम्बार्क	द्वैताद्वैत

विशिष्टाद्वैत—शकराचार्य और रामानुजाचार्य दोनों ही अद्वैतवादी हैं, क्योंकि दोनों ही के मत में परम सत्ता ब्रह्म एक ही है। शकर के मत में नाम रूपाधि से जीव कल्पित है और ब्रह्म ही सत्य हैं। ससार ब्रह्म की माया से ही भासमान है। माया विवर्त है। रामानुज के मतानुसार जीव कल्पित नहीं। यह ब्रह्म का ही प्रकार है। इनके यहाँ भी लोक की उत्पत्ति ब्रह्म की माया-शक्ति से है, किन्तु यह माया-शक्ति विवर्त रूप नहीं, वरन् ब्रह्म का विकार रूप है। इस मत को विशिष्टाद्वैत इसलिए कहते हैं कि इन्होंने जीव को ब्रह्म का विशिष्ट प्रकार माना है। मोक्षावस्था में भी ब्रह्म में इसकी सत्ता बनी रहती है, लय नहीं होती।

जीव ब्रह्म का अश अथवा प्रकार होने के कारण सदैव उसका सामीप्य चाहता रहता है। ब्रह्म की अभिव्यक्ति पाँच प्रकार से मानी है, अन्तर्यामिन्, सूक्ष्म, पूर्णवितार, अंशावतार, और अर्चावतार। ये परब्रह्म के क्रमशः सूक्ष्म से स्थूलतर रूप हैं। साधक स्थूलरूप की उपासना करते ही सूक्ष्म अन्तर्यामी का परिचय पा सकता है। रामानुजाचार्य के मतानुसार जीव के परम कल्याण के लिए विष्णु भगवान की श्री नाम की शक्ति सक्रिय रहती है। श्री के प्रसाद से जीव को पापों से छुटकारा मिलकर परमतत्व का सायुज्य प्राप्त होता है, जो आनन्द की पराकाष्ठा है। यही मुक्ति-मार्ग का रहस्य है। सूफियो की परिभाषा में यह श्री हुस्न अथवा सौन्दर्य के नाम से बोधित की जाती है जो मनुष्य के हृदय में इश्क अथवा प्रेम को जगाता रहता है। इश्क का हुस्न से रहस्यात्मक मिलन अथवा वस्ल ही सूफीमत की पराकाष्ठा है।

द्वैत—इस मत के अनुसार विष्णु रूप ब्रह्म की स्वतन्त्र सत्ता है। सारा चराचर जगत् उसी से उत्पन्न हुआ है। जीवात्मा परतन्त्र है। ब्रह्म और जीव में स्वामी और सेवक का सम्बन्ध है, अतः जीव कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकता। बैकुण्ठ की प्राप्ति ही मुक्ति है। मुक्ति के लिए संसार का वास्तविक ज्ञान परमावश्यक है। अतः जगत् मिथ्या नहीं वरन् सत्य है। इसीलिए मध्वाचार्य ने माया को अग्राह्य बतलाया है और ज्ञान के साथ विष्णु के प्रति आत्मसमर्पण रूप भक्ति की प्रतिपादना की है।

शुद्धाद्वैत—विष्णुस्वामी ने माया को हटाकर अद्वैत की शुद्ध रूप से व्याख्या की इसीलिए यह मत शुद्धाद्वैत कहलाया। इसमें कृष्ण रूप ब्रह्म की आराधना का प्राधान्य है। ब्रह्म सत्, चित् और आनन्द स्वरूप है। वह अपनी इच्छा से ही इन रूपों

का आविर्भाव करता है। सच्चित् आत्मा एवं चित् प्रकृति का जन्म इसी ब्रह्म में हुआ है। प्रकृति मिथ्या नहीं है, अतः संसार में ईश्वर-प्राप्ति के लिए भक्ति की साधना करनी चाहिए। कृष्ण के अनुग्रह से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। आगे चलकर बल्लभाचार्य ने इसी अनुग्रह को पुष्टि कहा।

द्वैताद्वैत—इसके अनुसार कृष्ण ब्रह्म सगुण भी है और निर्गुण भी, परन्तु इसके सगुण रूप का विशेष महत्त्व है। ब्रह्म ही विश्व का स्रष्टा है। सारी सृष्टि उसी का प्रदर्शन है। जीव भी उसी का अंश है। परन्तु वह उससे अभिन्न नहीं है। मुक्तावस्था में भी जीवात्मा अपने को ब्रह्मरूप देखता हुआ भी उससे एक रूप नहीं हो जाता। वह ब्रह्म गोलोकवासी है। उसी की प्राप्ति का नाम मुक्ति है और इस मुक्ति का साधन राधा-कृष्ण की भक्ति है।

यह कहा जा चुका है कि जब नाथपथियों का उत्तरी भारत में बड़ा प्रबल प्रचार था उस समय सगुणोपासना भी अपने न्यूनाधिक रूप में चल रही थी। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्क अद्वैत मत के विरोध में क्रमशः श्री सम्प्रदाय, ब्रह्म सम्प्रदाय, रुद्र सम्प्रदाय और सनकादि सम्प्रदाय की स्थापना कर उपर्युक्त चार वादों का प्रतिपादन कर चुके थे। जनता पर इस सगुण भक्ति का बड़ा प्रभाव पड़ा। परन्तु भारतीय इतिहास में यह सुलतानी शासन-काल था। उनमें हिन्दुओं के प्रति अभी सौहार्द एवं सहिष्णुता उत्पन्न नहीं हुई थी। यही कारण था कि मन्दिरों का ध्वंस, तीर्थों की भ्रष्टता और हिन्दू नाम पर अत्याचार अपनी पराकाष्ठा पर थे। हिन्दुओं में आश्रय-हीनता और निराशा का भाव उत्पन्न हो गया था, अतः इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय न था कि हिन्दू और मुसलमान दोनों ही यहाँ प्रेम और सद्भावना से रहे। इसका मध्यम मार्ग मध्यम भक्ति ही थी, जिसमें दोनों ही धर्मों के सामान्य सिद्धान्तों का सामंजस्य हो। गोरखनाथ ने भी समयानुकूल मध्यम मार्ग को ही अपनाया था, परन्तु योग की विषमता एवं शिव की आराधना ने उसे सर्व-ग्राह्य नहीं रहने दिया था। अतः पन्द्रहवीं शताब्दी के पश्चात् हम कबीर, नानक, दादू आदि ऐसे सन्तों को पाते हैं जिन्होंने सर्वग्राह्य मार्ग को अपनाकर हिन्दू और मुसलमानों में सामंजस्य उत्पन्न करने का शक्तिभर प्रयत्न किया।

निर्गुण धारा—यहाँ हमें भक्ति धारा में निर्गुण शाखा दीखती है, जिस में ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी दोनों ही प्रकार के भक्त हुए। हम पहले कह आये हैं कि उत्तरी भारत में योगी (जोगी) अधिक संख्या में फैले हुए थे। मुसलमानी अत्याचार एवं ग्राहक-शक्ति और हिन्दू उपेक्षा-बुद्धि ने उन्हें अस्थिर बना दिया था, अतः शनैः शनैः वे मुसलमान होते जा रहे थे। ये लोग प्रायः जुलाहे का काम करते थे। कबीर स्वयं जुलाहे थे।

ज्ञानमार्गी सन्तो मे सर्वप्रथम कबीर हुए। उन्होंने वेदान्त का ज्ञान लेकर रहस्यवाद का प्रतिपादन करके भी उसे माधुर्य से श्रोतप्रोत कर दिया। यह मधुर-भाव सूफियों जैसा था, क्योंकि निराकारोपासना मे प्रेम का प्राधान्य सूफी-पद्धति के अनुसार ही था। भागवत पुराण मे प्रणयवाद विद्यमान था। सम्भव है कि भागवतो के प्रणयवाद ने कबीर पर प्रभाव डाला हो, परन्तु भागवत का प्रणयवाद साकारोपासना में ही था। यद्यपि उसमे उद्धव-गोपी-सवाद आदि मे निर्गुण का विवेचन है, परन्तु वह केवल सगुणोपासना पर बल देने के लिए ही। निराकारोपासना के लिए प्रेम को अपनाता सूफी-पद्धति मे ही था।

प्राय देखा जाता है कि विद्वान् ज्ञानमार्ग एवं प्रेममार्ग मे भेद बतलाते हुए ब्रह्म और जीव के मध्य पति-पत्नी भाव के विपर्यय पर बल देते हैं अर्थात् कहते हैं कि ज्ञानमार्गी सन्त ब्रह्म को पति और आत्मा को पत्नी एवं सूफी सन्त ब्रह्म को पत्नी और जीव को पति मानकर साधना करते हैं। परन्तु यह नितात भूल है, क्योंकि इन दोनों की साधना मे जो माधुर्य है वह रहस्यात्मक है, अतः उसका प्रतिपादन किसी भी ढंग से किया जा सकता है, परन्तु उसका बाह्यरूप वास्तविक नहीं समझना चाहिए। कबीर ने अनेक सूफी तत्त्वों को भी ग्रहण किया। यथा उन्होंने नासूत, मलकूत, जवरूत एवं लाहूत इन चार लोकों की कल्पना को माना है।^१

कबीर ने अपनी साधना मे बहुत सी बातें सिद्ध और योगियों से ली। उन्होंने गून्ध को अपनाया, परन्तु भिन्न रूप से। बौद्धों की महायान शाखा के अनुसार शून्य से तात्पर्य असत् था। योगियों ने सहस्रार को ही शून्य माना। परन्तु कबीर ने इसका प्रर्थ ब्रह्मरन्ध्र किया। इसके अतिरिक्त षट्चक्र तथा इडा आदि नाडियों को भी ग्रहण किया। कहने का तात्पर्य यह है कि हठयोग की साधना को कबीर ने अधिकांशतः स्वीकृत किया। परन्तु निर्गुण ब्रह्म को उसी रूप मे न माना। उन्होंने उसमें गुण का भी आरोप किया अन्यथा प्रेम-साधना असम्भव थी। कबीर के निर्गुणवाद में शब्द का विशेष माहात्म्य है। उन्होंने शब्द को ब्रह्म ही माना है।^२ अतः योगियों के नाद से यह भिन्न है।

^१ हे कोई दिल दरवेश तेरा।

नासूत, मलकूत, जवरूत को छोड़के, जाइ लाहूत पर करे डेरा।

—कबीर का रहस्यवाद, परिशिष्ट, पृ० ५३।

^२ शब्द ही दृष्ट अनदृष्ट ओंकार है, शब्द ही सकल ब्रह्मांड जाई॥

कहे कबीर तें शब्द को परिखले शब्द ही आप करतार भाई॥

—कबीर वचनावली, पृ० १८६।

कबीर ने रहस्यवाद के प्रतिपादनार्थ उलटबासियों का प्रयोग भी किया जो कोई नई प्रथा न थी। यह साधक के साथ साथ सुधारक थे, अतः इनकी वारणी में हम मूर्तिपूजा, अवतारवाद, भेदभाव तीर्थ एवं कर्मकाण्ड आदि का घोर विरोध तथा रामनाम और सद्गुरु की विशेष महिमा पाते हैं।^१ उन्होंने हिन्दू और मुसलमान दोनों को ही फटकारा है और एक सगठन मार्ग को पकड़ा है, जिस में राम और रहीम को एक कर दिया गया है^२ परन्तु वह न दशरथ-पुत्र राम है और न खुदा। वह तो निर्गुण ईश्वर है, जो सहज ही नहीं जाना जाता।^३

यह पहले कहा जा चुका है कि सूफी साधक बहुत पहले ही भारत में आ गये थे। उन्होंने यहाँ के वातावरण के अनुसार सूफीमत का प्रचार किया था। यद्यपि इन्होंने सिद्ध और योगियों की हठयोग, रसायन एवं तांत्रिक विद्या की बहुत सी बातें ग्रहण की, परन्तु कबीर आदि की भाँति खडन-मंडन को नहीं अपनाया। इनकी प्रेम-कथाओं के अध्ययन से प्रतीत होता है कि ये सच्चे प्रेम-मार्ग के अनुयायी थे, जिस पर अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष और खडन-मंडन को स्थान नहीं था। इसीलिए ये प्रेममार्गी कहलाते हैं यहाँ यह बात ज्ञातव्य है कि कबीर की वारणी में फटकार क्यों मिलती है जब कि सूफी प्रेम-सरणी के अनुयायी थे। इसका यह कारण है कि कबीर ने माया को प्रपच माना है, अतः ससार मिथ्या है और संसार के मिथ्यात्व में सभी कुछ मिथ्या है। परन्तु सूफियों के पक्ष में ब्रह्म जात है और दृश्य जगत उसकी सिफात है अर्थात्

१ साधो भजन भेद है न्यारा ।

का माला मुद्रा के पहिरे चंदन घंसे लिलारा ।

मूड मुंडाये, जटा रखाये, अंग लगाये छारा ॥

का पानी पाहन के पूजे कंदमूलफलहारा ।

कहा नेम तीरथ-अत कौन्हे जो नहि तत्त विचारा ॥

—कबीर वचनावली, पृ० २४३ ।

पूजह राम एकु ही देवा । साचा नावण गुरु की सेवा ॥

—कबीर ग्रं०, पृ० २६४ ।

२ हिन्दू तुसक की एक राह है सतगुर यह बताई ।

कहहि कबीर सुनो भई सन्तो राम न कहेउ खोदाई

—कबीर वचना०, पृ० २३८ ।

३ निरगुण राम निरगुण राम जपहु रे भाई ।

अविगति की गति लखी न जाई ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृ० १०४ ।

सब उसी के सौन्दर्य का अदर्शन है, अतः जो जहाँ है ठीक है। उसकी सिफात तो जात के महत्त्व के द्योतक है, जैसे लहरें समुद्र के अंज की।

हिन्दू में सूफियों की रचनाये विविध प्राग्तीय एवं प्रादेशिक भाषाओं में मिलती है। किन्तु अवधी में जो साहित्य मिलता है वह काव्य की दृष्टि से उच्च कोटि का है। इस साहित्य में प्रायः प्रेम-गाथायें लिखी हुई हैं, जो मसनवियों के ढग पर हैं। मुक्तक काव्य में भी सूफी सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ है, परन्तु इन प्रेमाख्यानों द्वारा साधना-मार्ग में प्रेम की पीर जगा-जगा कर ईश्वर के प्रति जिस रतिभाव की अभिव्यक्ति हुई है वह अत्यन्त हृदयग्राही और मर्मस्पर्शी है। यद्यपि प्रेमाख्यानों की एक परम्परा-सी चली और हिन्दू और मुसलमान दोनों ने ही प्रेमगाथाओं को काव्य-बद्ध किया, किन्तु सूफी साधकों ने केवल प्रेम-कहानियाँ ही न रखकर उन्हें ईश्वरीय प्रेम का साधन बना दिया। उन्होंने कथा-प्रसंगों में आध्यात्मिक सकेत किये हैं वे ही उनका दिव्य रूप देने में सफल हुए हैं। भारतीय पद्धति में ये प्रेम-गाथाये वाच्यार्थ में ही मनोरजन के लिए लोकप्रिय थीं। सूफियों ने इन प्रेम-गाथाओं के वाच्यार्थ के आधार पर व्यजना-शक्ति के द्वारा सांकेतिक अर्थ प्रतिपादित किया। कथाये प्रायः किञ्चित् परिवर्तन के साथ ऐतिहासिक अपिच तत्कालीन जनप्रवाद पर आधारित हैं और हिन्दू शासक वर्ग से सम्बन्ध रखती हैं। यही दर्शित करता है कि मुसलमान होते हुए भी ये लोग कितने उदार, कालापेक्षी और समन्वयवादी थे। कथाओं में हिन्दू देवताओं को पर्याप्त सम्मान दिया गया है। परन्तु उनका निर्देश केवल अलौकिक घटनाओं के सम्पादनार्थ ही किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिन्दू-मुस्लिम-आधार-शिला पर इस साहित्य का भवन प्रेम के पुट से बड़ा मनमोहक और सर्व-ग्राह्य हो गया है।

सप्तम पर्व हिन्दी-साहित्य में सूफी कवि और काव्य

भारतवर्ष में सूफियों ने अपने भाव व्यक्त करने के लिए प्रायः उन्ही प्रान्तीय या प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग किया, जो वहाँ बोली जाती थी जहाँ वे रहते थे। हिन्दी में सूफी साहित्य के पर्यालोचन से ज्ञात होता है कि सूफियों का प्रधान साहित्य अरबी में है। कुतुबन, मझन, जायसी एव नूर मुहम्मद आदि की रचनायें अरबी में ही हैं। इसके अतिरिक्त कुछ साहित्य ब्रज, पंजाबी प्रादेशिक भाषाओं में भी मिलता है यथा बुल्लेशाह आदि ने अपनी वाणी में पंजाबी का प्रयोग किया है तथा बरकतुल्ला ने प्रेमप्रकाश में प्रधानतः ब्रज का। इसी प्रकार सूफियों से प्रभावित कबीर, दादू, थारी दरिया तथा बुल्ला साहब आदि ज्ञानमार्गी सन्तों ने अपनी वाणी में सधुक्कड़ी भाषा में ही यत्र-तत्र सूफी विचार प्रकट किये हैं। अरबी में सूफियों की जो रचनायें हैं, वे साहित्य की अमूर्ती निधियाँ हैं। ये रचनाएँ प्रेम-काव्य के नाम से प्रसिद्ध हैं।

सूफी प्रेम-काव्य—अरबी का सूफी काव्य प्रेमास्थानक काव्य के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें प्रेम-कथायें लिखी हुई हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वप्रथम प्रेम-काव्य मुल्ला दाऊद का 'चन्दावन' या चन्दावत है। इसमें नूरक और चन्दा की प्रेम-कथा का वर्णन है। इसका रचना-काल सन् १३१८ ई० है। यह समय अलाउद्दीन खिलजी का शासन-काल था। उसके पश्चात् कुतुबन से पूर्व हमें कोई ऐसा काव्य नहीं मिलता। सम्भव है कि और भी प्रेम-कथायें लिखी गई हों, जो इस समय प्राप्त नहीं हैं। मुलिक मुहम्मद जायसी ने अपने पदुमावती (पद्मावती) नामक ग्रन्थ में कुछ प्रेम-गाथाओं का इस प्रकार संकेत किया है।

विक्रम धँसा प्रेम के वार। सपनावति कहँ गएउ पतारा ॥
मधू पाछ मुगधावति लागी। गगनपूर होइगा वेंरागी ॥
राजकुँवर कंचनपुर गएउ। मिरगावति कहँ जोगी भएऊ ॥
साध कुँवर खंडावत जोगू। मधुमालति कर कौन्ह वियोगू ॥
प्रेमावति कहँ सुरसर साधा। ऊषा लगि अनिश्च बर बांधा ॥^१

इससे प्रतीत होता है कि जायसी (सन् १४९९ ई०) से पूर्व सपनावति (स्वप्नावती), मुगधावति (मुग्धावती), मिरगावति (मृगावती), मधुमालति (मधुमालती) और प्रेमावति (प्रेमावति) प्रेम-काव्य खेले जा चुके थे। इनमें से मृगावती और

^१ जायसी ग्रन्थावली—पद्यावत, पृष्ठ १००।

मधुमालती तो खंडितरूप में उपलब्ध है परन्तु शेष का पता नहीं। जायसी द्वारा सकेतित कथाओं में विक्रमादित्य एवं ऊषा-अनिरुद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। शेष लोक-प्रचलित कथाओं का आश्रय लेकर लिखी हुई जान पड़ती हैं। जायसी ने मधुमालती का नायक 'खंडावत' लिखा है, परन्तु उस्मानकृत चित्रावली में इसके स्थान पर मनोहर का उल्लेख है।

मधुमालति होइ रूप देखावा । प्रेम मनोहर होइ तहँ आवा ॥^१

मधुमालती की प्राप्त प्रतियों में भी मनोहर ही नाम है।^२

इन प्रेमाख्यानक काव्यों के पश्चात् जायसी के पद्मावत काव्य का ही नाम आता है। क्योंकि जायसी के पश्चात् हुए उस्मान कवि ने भी मृगावती, पद्मावती, और मधुमालती का ही उल्लेख किया है।

मृगावती मुख रूप बसेरा । राजकुंवर भयो प्रेम अहेरा ॥

सिंहल पद्मावति मोरूपा । प्रेम कियो है चितउर भूपा ॥

मधुमालति होइ रूप देखावा । प्रेम मनोहर होइ तहँ आवा ॥^३

जायसी का 'पद्मावती' काव्य हिन्दी-साहित्य की एक विभूति है। इसके प्रेमाख्यान ने ऐसा मधुर प्रभाव डाला कि उसके पश्चात् अनेक प्रेम काव्य लिखे गए, जिनकी परम्परा ई० सन् की उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक आती है। उपलब्ध ग्रन्थों के आधार पर उनकी तालिका निम्न रूप से बनाई जा सकती है।

काव्य	कवि	काल
चित्रावली ✓	उस्मान	सन् १०२२ हिजरी (सन् १६१३ ई०)
ज्ञानदीप	शेख नवी	लगभग संवत् १६७६ (सन् १६१९ ई०)
हंस जवाहिर	कासिमशाह	लगभग संवत् १७८८ (सन् १७३१ ई०)
इन्द्रावती	नूर मुहम्मद	हिजरी सन् ११५७ (सन् १७४४ ई०)
अनुराग बांसुरी	„	हिजरी सन् ११७८ (सन् १७६४ ई०)
प्रेम रतन	फाजिलशाह	सन् १८४८ ई० ।

इनके अतिरिक्त दो काव्य और मिलते हैं—(१) आलमकृत 'माधवानल' जिसका रचनाकाल हिजरी सन् ९९१ (सन् १५८३ ई०) है। (२) शेख निशारकृत 'यूसुफ़ जुलेखा' जो हिजरी सन् १२०५ (सन् १७९० ई०) में लिखा गया था। परन्तु ये इतने महत्त्वपूर्ण नहीं हैं।

उपर्युक्त विवरण से विदित होता है कि सूफी काव्यधारा में सर्वप्रथम स्थान

^१ चित्रावली, पृष्ठ १३।

^२ हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ १२०।

^३ चित्रावली, पृ० १३।

कुतुबनकृत मृगावती का है और पुनः मंभनकृत मधुमालती का है । अब कवियों के परिचय के साथ उनकी रचनाओं के प्रोमाख्यानों का सार लिखा जाता है जिससे उनके वर्ण-विषय में साम्य एवं सूफी भावनाओं का यथेष्ट ज्ञान हो सके ।

कुतुबन—ये शेख वुरहान के शिष्य थे, अतः चिश्ती सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखते थे । इनका काल सन् १४६३ ई० के लगभग माना जाता है, क्योंकि ये जौनपुर के बादशाह हुसैनशाह (शेरशाह के पिता) के आश्रित थे । इन्होंने 'मृगावती' नाम का एक प्रोमाख्यानक काव्य हिजरी सन् ९०६ (सन् १५०१ ई०) में अबधी में लिखा । यह काव्य चौपाई की पाँच पंक्तियों के पश्चात् एक दोहे के क्रम से लिखा हुआ है । इसकी एक खंडित प्रति नागरी-प्रचारिणी सभा के पास है । इसमें कवि ने प्रेम कहानी से ईश्वर के प्रति साधक के प्रेम की व्यंजना की है ।

मृगावती का कथासार—चन्द्रगिरि का राजा गणपति देव था । उसका पुत्र कचनपुर के राजा रूप मुरारि की सुन्दरी कन्या मृगावती पर आसक्त हो गया । अनेक संकटों को भेलेता हुआ राजकुमार उसके पास पहुँचा । राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी अतः एक दिन राजकुमार को प्रवर्चित कर कहीं अन्यत्र उड़कर चली गई । राजकुमार को उसके वियोग से परम दुःख हुआ और उसकी गवेषणा के लिए योगी होकर निकल पड़ा । मार्ग में समुद्र से परिवेष्टित एक पहाड़ी पर पहुँचा जहाँ उसने एक राक्षस के चगुल में पड़ी हुई रुक्मिणी नाम की एक रमणी को बचाया । रुक्मिणी के पिता ने यह सुनकर कृतज्ञतावश उसका विवाह राजकुमार से कर दिया । उसके पश्चात् राजकुमार उस नगर में गया जहाँ मृगावती अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् शासन कर रही थी । वहाँ उसने मृगावती के साथ विवाह कर लिया और बारह वर्ष रहने के पश्चात् दूत द्वारा पिता का सदेश पाकर वह मृगावती तथा मार्ग में से रुक्मिणी को भी साथ लेकर चन्द्रगिरि लौट आया । बहुत समय तक सुखपूर्वक रहकर राजकुमार एक दिन मृगया खेलता हुआ हाथी से गिरकर मर गया । इससे दोनों रानियों को परम संताप हुआ और वे भी प्रिय से मिलने अग्नि में जलकर भस्म हो गईं ।

मंभन—इन्होंने 'मधुमालती' नाम की एक प्रेम-कहानी लिखी, जो हस्तलिखित भी पूर्ण रूप में नहीं मिली है । इसके अतिरिक्त इनके विषय में और कुछ पता नहीं है । मधुमालती भी मृगावती की भाँति अबधी में चौपाई की पाँच पंक्तियों के अनन्तर एक दोहे के क्रम से लिखी हुई है, परन्तु उससे कहीं आकर्षक है । कहानी पूर्ण तो नहीं मिली है, परन्तु उतनी मात्र से ही ज्ञात होता है कि कवि का ध्येय कहानी के विस्तार को बढ़ाकर साधक की यात्रा के कष्टों का प्रतिपादन करना है तथापि प्रकृति के नाना रूपों द्वारा सौष्ठव और लौकिक प्रेम द्वारा भगवत्-प्रेम की व्यंजना में कोई कमी नहीं आने पाई है ।

मधुमालती का प्राप्त कथाश—कनेसर नगर के राजा सूरजभान का पुत्र मनोहर था। एक रात कुछ अप्सराएँ उसे सुप्तावस्था में ही उठाकर महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्रसारी में लिटा आईं। जागने पर दोनों ने एक दूसरे को देखा और परस्पर मुग्ध हो गये। बहुत देर तक वार्तालाप करने के पश्चात् वे सो गये। इसी अवस्था में अप्सराएँ पुनः मनोहर को उठाकर उसके महल में रख आईं। जागने पर दोनों ही परम दुखी हुए। राजकुमार उसके वियोग में योगी होकर कुछ मित्रों के साथ चल पड़ा और समुद्र-पार करता हुआ उनसे बिछड़ गया। एक पट्टे के सहारे समुद्र को पार करने के पश्चात् ज्योंही वह एक जगल में पहुँचा तो उसने एक रमणी को देखा। आत्म-परिचय देते हुए उस सुन्दरी ने बतलाया कि वह चित्त-विसरामपुर के राजा चित्रसेन की पुत्री प्रेमा थी और एक राक्षस उसे हर लाया था। राजकुमार उस राक्षस को मारकर प्रेमा के साथ चित्तविसरामपुर आया, क्योंकि उसने कहा था कि मधुमालती उसकी सखी थी, अतः वह उससे मिला देगी। दूसरे दिन जब मधुमालती प्रेमा के यहाँ आई तो उसने उन दोनों को मिला दिया।

मधुमालती की माँ रूममंजरी को जब यह ज्ञात हुआ कि उसकी पुत्री मनोहर से प्रेम करती है तो उसने मधुमालती से प्रेम-व्यापार से विरत होने के लिए कहा, परन्तु वह जब न मानी तो उसने शाप दिया कि पक्षी हो जा। मधुमालती पक्षी होकर उड़ गई, परन्तु उसके पश्चात् रूममंजरी को बड़ा दुःख हुआ। मार्ग में उड़ती हुई पक्षी रूप मधुमालती ताराचन्द नाम के एक राजकुमार के हाथ पड़ गई। उसने राजकुमार को अपनी प्रेम-कहानी और सारी कथा कह सुनाई। ताराचन्द उसे लेकर महारस नगर ले गया जहाँ माता द्वारा अभिमंत्रित जल के सिचन से वह पुनः स्त्री रूप में आ गई। ताराचन्द ने मधुमालती को अपनी बहन बना लिया और कुछ दिन वहीं रहा।

एक दिन मधुमालती की माँ और मधुमालती ने प्रेमा को सारा वृत्तान्त लिख भेजा। अभी प्रेमा पत्रों को पढ़कर दुखी हो ही रही थी कि उसे एक सखी से ज्ञात हुआ कि मनोहर योगी के वेष में आया है। उसने यह समाचार मधुमालती के पिता के पास भेज दिया। जिसे सुनकर राजा-रानी दोनों ही मधुमालती को साथ लेकर चित्तविसरामपुर पहुँच गये। वहाँ मधुमालती का विवाह सानन्द मनोहर के साथ कर दिया गया।

कुछ दिनों आनन्द से रहने के पश्चात् एक दिन ताराचन्द जब आखेट से लौटा तो मधुमालती के पास भूलती हुई प्रेमा पर मुग्ध होकर वह मूर्च्छित हो गया। इसके पश्चात् उसका उपचार प्रारम्भ होता है परन्तु प्रतिखंडित होने के कारण आगे कथांश का पता नहीं। कथा में ताराचन्द के इस प्रेमोपक्रम से ज्ञात होता है कि ताराचन्द और प्रेमा का विवाह भी अवश्य हुआ होगा।

मंभन ने इस काव्य मे यह जतलाया है कि सम्पूर्ण दृश्य जगत उसी ईश्वर के रूप का प्रदर्शन है अत जीवात्मा का उससे नित्य सम्बन्ध है और इसीलिए वह उससे मिलन के लिए तडपती रहती है ।^१ तथा अनेक कष्टों के पश्चात् जब वह उसे प्राप्त कर लेती है तभी शान्ति को प्राप्त होती है ।

मलिक मुहम्मद जायसी—जायसी के स्थान, काल एव जीवन के विषय मे बहुत-कुछ संकेत उनके ग्रन्थों से ही मिल जाते हैं । पद्मावती के अनुसार जायस नगर इनका स्थान था ।^२ इसका पहला नाम उदयानू (उद्यान) था ।^३ पद्मावती में 'तहाँ आइ कवि कीन बखानू'^४ तथा आखिरी कलाम मे 'तहाँ दिवस दस पाहुने आयउँ । भा वैराग बहुत सुख पायउँ' ।^५ इन वाक्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि यह कहीं अन्यत्र उत्पन्न हुए थे पर जायस नगर मे आकर बसे थे और वही इन्हे वैराग्य हुआ था । इसीलिए डा० ग्रियर्सन आदि कतिपय विद्वानो ने यह अनुमान लगाया कि यह जायस के निवासी नही थे, परन्तु यह अनुमान भ्रमपूर्ण ही है, क्योंकि इनके 'जायस नगर धरम अस्थानू' ये शब्द स्पष्ट बतला रहे हैं कि वही उनका धर्मस्थान था । धर्मस्थान से तात्पर्य पवित्र स्थान से है और मनुष्य के लिए जन्मस्थान ही सर्वाधिक पवित्र स्थान होता है, परन्तु इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि ये प्रायः जायस से अन्यत्र जाया करते थे और पुनः वहाँ आकर वास करते थे ।

इनका जन्म-काल ६०६ हिजरी (सन् १४६६ ई०) है । आखिरी कलाम मे इन्होंने लिखा है—

“भा औतार मोर नौ सदी । तीस बरिस ऊपर कवि बदी ॥”^६

१ देखत ही पहिचानेउ तोहीं । एही रूप जेहि छंदर्यो मोही ॥

एही रूप बूत अहं छपाना । एही रूप रब सृष्टि समाना ॥

एही रूप सकती औ सीऊ । एही रूप त्रिभुवन कर जाऊ ॥

एही रूप प्रगटे बहु भेसा । एही रूप जग रंक नरेसा ॥

—हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ११८ ।

२ जायस नगर धरम अस्थानू ।

—जायसी ग्रन्थावली—'पद्मावत' पृ० ६, (पं० रामचन्द्र शुक्ल ने 'पद्मावती' ग्रन्थ को 'पद्मावत' कहा है) ।

३ जायस नगर मोर अस्थानू । नगर क नाम आदि उदयानू ॥

—वही, आखिरी कलाम, पृ० ३४२ ।

४ वही, पद्मावत, पृ० ६ ।

५ वही, आखिरी कलाम, पृ० ३४२ ।

६ वही, आखिरी कलाम, पृ० ३४० ।

अर्थात् मेरा जन्म, 'नौ सदी' के पश्चात् हुआ। और जन्म से तीस वर्ष ऊपर होने पर मैंने इस ग्रन्थ को लिखा। इसके पश्चात् आखिरी कलाम का रचना-काल देते हुए वे लिखते हैं कि—

“नौ सै बरस छतीस जब भए । तब एहि कथा क आवर कहे ॥”^१

इससे स्पष्ट है कि हिजरी सन् ६३६ (सन् १५२८ ई०) में इन्होंने आखिरी कलाम लिखा। यह उन्होंने पहले ही बता दिया है कि जन्म से तीस वर्ष अधिक हो जाने पर इसे लिखा था। इससे सिद्ध होता है कि उनका जन्मकाल ६०६ हिजरी ही है तथा 'नौ सदी' से तात्पर्य 'नौवीं सदी के पश्चात्' है। हिजरी सन् ६३६, ई० सन् १५२८ के लगभग पड़ता है जो मुगल बादशाह बाबर का शासन-काल है। इन्होंने आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा भी की है।^२ इससे उपर्युक्त तिथि प्रमाणित हो जाती है। पद्मावत के निर्माण-काल के विषय में जायसी ने लिखा है—

“सन नव सै सत्ताइस अहा । कथा अरंभ बैन कवि कहा ॥”^३

अर्थात् हिजरी सन् ६२७ ई० (लगभग ईसवी सन् १५२०) में कथा को प्रारम्भ किया। यह समय लोधी वंश का है। परन्तु जायसी ने पद्मावती में ईश्वर, मुहम्मद साहब एवं खलीफाओं की प्रशंसा करने के पश्चात् दिल्ली के सुलतान शेरशाह की प्रशंसा की है।^४ दिल्ली में शेरशाह का समय सन् १५४० ई० से प्रारम्भ होता है।^५ इससे उक्त कथन का विरोध होता है। जान पड़ता है कि सन् १५२० ई० में कुछ थोड़ा-सा अंश बनाया होगा। पुनः सन् १५४० में (शेरशाह के समय में) इसे पूर्ण किया होगा। पदार्थ भी 'अहा' और 'कहा' भूतकालिक क्रियाओं से यही बतलाता है कि सन् ६२७ हिजरी था जब कथा के प्रारम्भिक वचनों को कहा।

यह एक कान से बहरे और एक आँख के काने थे।^६ अमेठी के राजघराने में इनका बड़ा सम्मान था। इनके चार मित्र थे, मलिक यूसुफ, सलार कादिम, सलोने मियाँ

^१ वही, आखिरी कलाम, पृ० ३४३।

^२ बाबर साह छत्रपति राजा। राज-पाट उन कहँ विधि साजा ॥

—जायसी ग्रन्थावली—आखिरी कलाम, पृ० ३४१।

^३ वही, पद्मावत, पृ० ६।

^४ 'सेरसाहि देहली सुलतानू। चारिउ खंड तपे जस भानू' ॥

—वही, पद्मावत, पृ० ५।

^५ ए न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया (हिन्दी संस्करण), पृ० १८१।

^६ एक नयन कवि मुहम्मद गुनी।

—वही, पद्मावत, पृ० ८।

और बड़े शेख^१ !

इन्होंने अपने तीनो ही ग्रन्थों 'पद्मावती', 'अखरावट' और 'आखिरी कलाम' में अपने गुरु का वर्णन किया है। पद्मावती में एक स्थान पर ये सैयद अशरफ जहांगीर को अपना गुरु बतलाते हैं^२ और दूसरे स्थान पर शेख मोहिदी (मुहीउद्दीन) को।^३ अखरावट में भी इन्होंने इन दोनों को गुरु रूप में स्वीकार किया है।^४ परन्तु आखिरी कलाम में उन्होंने सैयद अशरफ जहांगीर को ही अपना पीर (गुरु) और स्वयं को उनका मुरीद (शिष्य) माना है।^५

जायसी ने दोनों पीरो की जो वशावली दी है, उससे प्रतीत होता है कि वे चिश्ती सम्प्रदाय के निजामुद्दीन औलिया की शिष्य-परम्परा में थे। इसकी दो शाखाएँ थीं, एक सैयद असरफ की शिष्य-परम्परा और दूसरी वह जिसमें शेख मोहिदी हुए। दूसरी शाखा मानिकपुर कालपी आदि की है। इसकी गुरु-परम्परा का इन्होंने सैयद राजे हामिदशाह तक उल्लेख किया है। उनके कथनानुसार हम दोनों शाखाओं की

- १ चारि मीत कवि मुहमद पाए । जोरि मिताई सिर पहुँचाए ॥
यूसुफ मलिक पंडित बहुज्ञानी । पहिले भेद बात वे जानी ॥
पुनि सलार कादिस मति माहा । खांडे दान उमँ निति बाहाँ ॥
मियाँ सलाने सिंघ बरियारू । वीर खेतरन खड्ग जुझारू ॥
सेख बड़े, बढ़ सिद्ध बखाना । किए आदेस सिद्ध बढ़ माना ॥

—वही, पद्मावत, पृ० ८ ।

- २ सैयद असरफ पीर पियारा । जेहि मोहि दीन पंथ उँजियारा ।

—जायसी ग्रन्थावली, पद्मावत पृ० ७ ।

- ३ गुरु मोहदी खेवक में सेवा । चले उताइल जेहि कर खेवा ।

—वही, पद्मावत, पृ० ८

- ४ कही तरीकत चिसती पीरू । उघरित असरफ औ' जहंगीरू ॥

पा पाएँ गुरु मोहदी मीठा । मिला पंथ सो दरसन दीठा ॥

—वही, अखरावट, पृ० ३२१-३२२ ।


- ५ मानिक एक पायउँ उजियारा । सैयद असरफ पीर पियारा ॥

जहांगीर चिश्ती निरमरा । कुल जग महँ दीपक विधि धरा ॥

तिन्हू घर हों मुरीद सो पीरू । संवरत बिनु गुन लावँ तीरू ॥

—वही, आखिरी कलाम, पृ० ३४२ ।

तालिका इस प्रकार बना सकते हैं—^१



शेख मुहिदी की गुरु-परम्परा में हजरत ख्वाजा का नाम भी गिनाया गया है परन्तु ऐतिहासिक आधार पर शेख दानियाल के गुरु सैयद राजे हामिद शाह थे। हो सकता है कि शेख दानियाल हजरत ख्वाजा को पूज्य भाव से देखते हों और ख्वाजा साहब की कृपा से ही उन्होंने हामिदशाह से शिष्यता प्राप्त की हो। इस परम्परा में

- ^१ (क) सैयद अशरफ पीर पियारा। जेहि मोहि दीन पन्थ उजियारा ॥
 ओहि घर रतन एक निरमरा। हाजी सेख सबै गुन भरा ॥
 तेहि घर दुइ दीपक उजियारे। पथ देइ कहै देव सँवारे ॥
 सेख मुहम्मद पून्यो करा। सेख कमाल जगत निरमरा ॥

—जायसी ग्रन्थावली—पद्मावत, पृ० ७।

- (ख) गुरु मोहिदी खेबक में सेवा। चलै उताइल जेहि कर खेवा ॥
 अगुवा भयउ सेख बुरहानू। पंथ लाइ मोहि दीन्ह गियानू ॥
 अलह बाद भल तेहि कर गुरू। दीन दुनी रोसन सुखुरू ॥
 सैयद मुहमद कै वै चेला। सिद्ध पुरुष संगम जेहि खेला ॥
 दानियाल गुर पंथ लखाए। हजरत ख्वाज खिजिर तेहि पाये ॥
 भए प्रसन्न ओहि हजरत ख्वाजे। लिये मेरइ जहँ सैयद राजे ॥

—वही, पद्मावत, पृ० ८।

- (ग) नाँव पियार सेख बुरहानू। नगर कालपी हुत गुरु थानू ॥

—वही, अखरावट, पृ० ३२२।

जायसी की गणना के अतिरिक्त निजामुद्दीन औलिया तक कुछ पीर और हुए जो इस प्रकार हैं—

निजामुद्दीन औलिया (निधनकाल सन् १३२५ ई०^१)

सिराजुद्दीन

शेख अल उल हक

शेख कुतुब आलम

शेख हशमुद्दीन (मानिकपुर)

इसके पश्चात् सैयद राजे हामिदशाह का नाम है ।

जायसी ने अनेक छोटे-बड़े ग्रन्थों का निर्माण किया । नागरी प्रचारिणी पत्रिका, बंगाल ऐशियाटिक सोसायटी, सैयद कल्बे मुस्तफा, डा० स्प्रेगर तथा पं० रामशुक्ल एवं जनश्रुति के आधार पर उनकी रचनाओं की जो सूची मिलती है उससे ज्ञात होता है कि उनकी संख्या बीस से भी अधिक है ।^२ परन्तु उनमें से पद्मावती, अखरावट और आखिरी कलाम ही उपलब्ध हैं । अन्य विश्वसनीय भी नहीं हैं ।

‘आखिरी कलाम’ में कयामत का वर्णन है । इसकी रचना उन्होंने तीस वर्ष की आयु में की थी । इसके अध्ययन से ऐसा ज्ञात होता है कि एक पक्का मुस्लिम युवक वास्तविकता से दूर विधान के अनुसार अल्लाह के आदेश से घटित प्रलय, पुनर्जागरण निर्णय के दिन तथा स्वर्ग के आनन्द का वर्णन कर रहा है । इसमें फरिश्तों तथा मुहम्मद साहब का जो स्थान है वह इस्लाम के अनुसार ही प्रदर्शित किया गया है परन्तु सूफी सिद्धान्तों से पूर्णतः मेल नहीं खाता । ‘अखरावट’ में वर्णमाला के कुछ वर्णों को लेकर एक-एक वर्ण पर अक्रम से कुछ सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है । ईश्वर, सृष्टि, जीव, संसार—असारता, ईश्वरीय प्रेम एव उसके साधनों का बड़े सुन्दर ढंग से विवेचन हुआ है । परन्तु जायसी को अमर बनाने वाली उनकी कृति ‘पद्मावती’ ही है ।

१ इन्साइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एण्ड ईथिक्स, भाग ११, पृ० ८ ।

१ पद्मावती	६ इतरावत	११ मुकहरानामा	१६ कहारानामा
२ अखरावट	७ मटकावट	१२ मुखरानामा	१७ मेखरावटनामा
३ आखिरी कलाम	८ चित्रावत	१३ पोस्तीनामा	१८ घनावत
४ सखरावत	९ खुर्वानामा	१४ मुहरानामा	१९ स्फुट छन्द
५ चम्पावत	१० मो राईनामा	१५ नैनावत	२० सोरठ
			२१ परमार्थ जयजी

पदमावती—यह काव्य जायसी को अमर करने के लिए पर्याप्त है। अपनी प्रेम-परम्परा में यह समानता नहीं रखता। वास्तव में अवधी के रहस्यात्मक ग्रन्थों में यह अनूठा है। इसमें सात ग्रन्थालियों के पश्चात् एक दोहे का क्रम रखा गया है। इसकी रचना मसनवियों के ढंग पर हुई है। प्रारम्भ में ईश्वर, मुहम्मद साहब, खलीफाओ, शाहेवक्त तथा गुरु की क्रमानुसार स्तुति की है। पुनः कथारम्भ हुआ है जो सर्गबद्ध न होकर प्रसंगानुसार हुआ है। इसमें हिन्दू-मुस्लिम विचारों का अच्छा सम्मिश्रण है। कथा ऐतिहासिकता को लिये हुए हिन्दू ही हैं। कथा का 'पद्मावती को लेकर चित्तौर आने' तक का अंश कल्पित है परन्तु पश्चात् के अंश में बहुत कुछ ऐतिहासिक तथ्य है। इतिहास के अनुसार चित्तौड़ के शासक भीमसिंह की रानी का नाम पद्मिनी था जो सिंहल के राजा हम्मीर शक की कन्या थी। उसके रूप की प्रशंसा सुनकर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन ने आक्रमण किया। पुनः राजा के छोड़ा जाने तक की कथा प्रायः समान है। देवपाल की कथा कल्पित है।

जायसी ने इसे महाकाव्य बनाने का प्रयत्न किया है। ऋतु-वर्णन, समुद्र-वर्णन, प्रकृति-वर्णन, युद्ध-वर्णन, मानव प्रकृति का वर्णन आदि अनेक बातें विस्तार-पूर्वक अंकित हैं। यहाँ तक कि भोजन आदि का वर्णन तक बड़े विस्तार से किया है। इस विषय में हिन्दू विचारधारा को ही अपनाया गया है।

इसकी सारी कथा को रहस्यात्मकता से परिपूर्ण बनाने के लिए जायसी ने अनेक स्थानों पर संकेत किये हैं। परन्तु वर्णन-विस्तार ने मूल प्रवृत्ति को बड़ी हानि पहुँचाई है। अन्त में उन्होंने सम्पूर्ण कथा को अध्यात्म रूप देने के लिए स्पष्ट संकेत कर दिया है।^१ कथा में जो नख-शिख, प्रेमावेश तथा ऐसी ही अन्य बातों का वर्णन है उससे आध्यात्मिक पक्ष को कुछ धक्का-सा लगता प्रतीत होता है। परन्तु सूफियों के मत में लौकिक प्रेम अथवा इश्कमेजाजी आध्यात्मिक प्रेम का साधन है अतः नख शिख आदि का वर्णन इस ग्रन्थ में असमजस को उत्पन्न नहीं करता।

प्रेम-काव्यों में हम इसे प्रतिनिधि काव्य कह सकते हैं, क्योंकि क्या काव्य की दृष्टि से और क्या अध्यात्म की दृष्टि से यह सर्वोत्कृष्ट है। विरह-वेदना की जो अभि-

- १ तन चित उर, मन राजा कीन्हा । हिय सिंहल बुधि पदमिनि चीन्हा ।
गुरु सुआ जेइ पंथ देखावा । बिनु गुरु जगत को निरगुन पावा ?
नागमती यह दुनिया धंधा । बांचा सोइ न एहि चित बंधा ॥
राघव दूत सोई सैतानू । माया अलाउदीं सैतानू ॥
प्रेम कथा एहि भाँति विचारहु । बूझि लेहु जो बूझं पारहु ॥

व्यक्ति इस ग्रन्थ में हुई है वह असाधारण है। यद्यपि नूर मुहम्मद ने इन्द्रावती एवं अनुराग बाँसुरी में जीव, मन आदि नामों को लेकर ही कथा लिखी है अतः ग्रन्थात्म स्पष्ट है परन्तु महाकाव्य में लौकिक कथाओं को लेकर अर्थात्म का प्रतिपादन बड़ा दुष्कर होता है। जायसी ने वह कार्य अत्यधिक सफलता से किया है। अन्य सूफी प्रेम-काव्यों की भाँति इसमें भी नाथपन्थी सन्तों का व्यापक प्रभाव है। हठयोग को इन्होंने भी अंशतः ग्राह्य माना है। इडा, पिगला, सुषुम्ना नाडियो एवं ब्रह्मरंध्र आदि का इन्होंने यत्र-तत्र प्रतिपादन किया है। इसके साथ ही वेदान्त का तो पूर्ण प्राधान्य ही है। क्योंकि साधना द्वारा जीवात्मा का परमात्मा से अभेद रूप में मिलन ही वस्तुतः इसका वर्ण्य विषय है।

पद्मावती की कथा—पद्मावती सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन और रानी चम्पावती की कन्या थी। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुई तो देश-देशान्तरो के राजकुमार उसके परिणयार्थ आने लगे परन्तु राजा अभिमानवश उन्हें आँख तक में न लाता था। पद्मावती के पास हीरामन नामक स्वर्ण वर्ण का एक पण्डित सुआ था। एक दिन उसने सुए से इस विषय में वार्तालाप किया, जिसे सुनकर राजा अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और सुए को मारने की आज्ञा दे दी। उस समय तो वह बचा लिया गया परन्तु वहाँ रहना उचित न समझकर वह एक दिन भाग निकला। उड़कर एक जंगल में पहुँचा, जहाँ एक दिन किसी व्याध के जाल में फँस गया। बहेलिये ने उसे एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया और ब्राह्मण ने चित्तौर में आकर राजा रत्नसेन को एक लाख रुपये में बेच दिया।

रत्नसेन को शनैः शनैः सुए से अत्यन्त प्रेम हो गया। एक दिन जब राजा आखेट के लिए गया हुआ था, उसकी रानी नागमती ने हीरामन से सगर्व पूछा, 'तोते। सच-सच बतलाओ, क्या मुझ जैसी सुन्दरी भी ससार में कोई है?' हीरामन ने हँसकर कहा, "रानी! सिंहल द्वीप की पद्मिनी तुम से कहीं अधिक सुन्दरी है। उसके लावण्य-प्रकाश के समक्ष तुम रात्रि के समान हो।" यह सुनकर इस आशंका से कि कहीं यह राजा से पद्मिनी की प्रशंसा न करदे उसने उसे मारने की आज्ञा दे दी। परन्तु धाय ने उसे न मारा और छिपा दिया। राजा ने आकर तोते को माँगा। नागमती ने राजा को क्रुद्ध और संतप्त देखकर धाय से उसे मँगवा दिया।

राजा ने हीरामन से सारी बात पूछी। उसने राजा से पद्मावती के सौन्दर्य का सविस्तर वर्णन किया, जिसे सुनकर राजा मूर्च्छित हो गया। यद्यपि हीरामन ने बहुत समझाया तथापि वह धैर्य धारण न कर सका और सिंहल द्वीप जाने को उद्यत हो गया। तोते ने जब यह कहा कि प्रेम-मार्ग बड़ा कठिन है, इस पर भोगी नहीं योगी ही चल सकते हैं तब तो वह राज-पाट त्याग योगी हो गया और मेखला, सिंधी,

चक्र, धंधारी आदि धारण कर योगी के वेश में सोलह सहस्र योगी राजकुमारों के साथ सिंहल द्वीप को चल दिया। नागमती आदि ने उसे बहुत प्रलोभन दिया परन्तु वह न माना। इस यात्रा में तोते को उसने अपना पथ-प्रदर्शक गुरु बनाया।

रत्नसेन योगी राजकुमारों के साथ मार्ग की अनेक कठिनाइयों के पश्चात् कलिंग देश आया और वहाँ के राजा गजपति से जहाज लेकर सिंहल द्वीप की ओर चल दिया। क्षार, क्षीर, दधि, उदधि, सुरा, किलकिला और मानसरोवर समुद्रों को क्रमशः पार कर वह सिंहल द्वीप पहुँचा। हीरामन ने इन सबको महादेव के मन्दिर में ठहरा दिया और स्वयं, रत्नसेन से यह कहकर कि वसन्त पंचमी के दिन पद्मावती यहाँ पूजार्थ आती है अतः यही तुम उसके दर्शन पा सकोगे, पद्मावती के पास चला गया।

हीरामन ने जाकर पद्मावती से रत्नसेन के गुणों की बड़ी प्रशंसा की जिसे सुनकर पद्मावती अत्यन्त प्रसन्न हुई। वह वसन्त पंचमी के दिन तोते के कथनानुसार मन्दिर में गई और रत्नसेन को देखा। रत्नसेन को उसने वैसा ही पाया जैसा तोते ने कहा था। उधर रत्नसेन ने जब पद्मावती को देखा तो वह मूर्च्छित हो गया। वह उसके पास गई और चन्दन से उसके वक्षस्थल पर यह लिखकर चली आई कि 'तूने अभी भिक्षा के योग्य योग नहीं सीखा है, जब समय आया तो तू सो गया।'

रत्नसेन की जब मूर्छा हटी तो वह अत्यन्त दुःखी हुआ और जल मरने के लिए उद्यत हुआ। इसी समय उसकी रक्षार्थ देवताओं की प्रार्थना से महादेव और पार्वती ने परीक्षा द्वारा उसका प्रेम सत्य जानकर उसे आश्वासन दिया और एक सिद्धि-गुटिका प्रदान की। इस गुटिका की शक्ति से वह योगियों सहित गढ़ में पहुँच गया और अगाध कुण्ड में घुसकर वज्र किवाड़ों को तोड़ दिया। प्रातः होते ही राजा ने योगियों को घेर लिया। रत्नसेन की आज्ञा से प्रेम-मार्ग में क्रोध को उचित न समझकर सभी योगी शान्त रहे। राजा गन्धर्वसेन ने उन सबको बन्दी बना लिया। यह सुनकर पद्मावती बड़ी दुःखी हुई परन्तु तोते के यह कहने से कि रत्नसेन सिद्ध हो गया है वह मर नहीं सकती, उसे शान्ति मिली।

रत्नसेन को सूली की आज्ञा हुई। एक योगी पर आपत्ति देख महादेव और पार्वती भाट-भाटिन के रूप में वहाँ आये और राजा को बहुत समझाया कि रत्नसेन राजा है अतः सर्वप्रकार से पद्मावती के योग्य वर है। परन्तु गन्धर्वसेन और भी क्रुद्ध हुआ। अब तो योगी भी युद्ध के लिए तैयार हुए। महादेव, विष्णु, हनुमान आदि भी योगियों की रक्षार्थ प्रवृत्त हुए परन्तु जब गन्धर्वसेन ने उन्हें पहचान लिया तो वह महादेवजी के पैरों में गिर पड़ा। अन्त में पद्मावती का विवाह रत्नसेन के साथ कर दिया गया।

उधर सिंहल द्वीप में रत्नसेन सुख से रहने लगा। उसे एक वर्ष हो गया। इसी

बीच में वियोग से नागमती की बड़ी दुर्दशा हो गई। उसके वियोग में पशु-पक्षी भी व्याकुल हो गये। एक दिन एक पक्षी ने उसके दुःख का कारण पूछा। नागमती ने उममे सारां व्यथा कह सुनाई, जिसे सुनकर उसने उसे सहायता का वचन दिया और रानी का संदेश लेकर सिंहल द्वीप पहुँचा। वहाँ समुद्र-तट पर एक वृक्ष पर जाकर बैठ गया सयोग से राजा रत्नसेन भी मृगया खेलता हुआ वहाँ आ पहुँचा। इसी समय पक्षी ने नागमती की वियोगावस्था और चित्तौर की दुर्दशा का वर्णन करना प्रारम्भ किया। रत्नसेन उसे सुनकर बड़ा दुःखी हुआ और कुछ समय पश्चान् पद्मावती और मित्रों के राजा द्वारा प्रदत्त शतुल धन-राशि को लेकर वह चल दिया। अपार सम्पत्ति पाकर उसे गर्व हो आया और लोभवश उसने छद्मवेष में आये समुद्र को भी दान न दिया।

सर्भा लोग जहाजो में बैठकर चल दिये। कुछ समय पश्चात् एक तूफान से वे इधर-उधर वह गये। धन, मित्र सभी कुछ समुद्र की भेट हो गया। रत्नसेन एक पट्टे के सहारे तट से जा लगा। और पद्मावती बहते-बहते समुद्र की कन्या लक्ष्मी के पास पहुँची। लक्ष्मी उसकी कथा सुनकर अत्यन्त सतप्त हुई और उसने पिता से राजा तथा अन्य सभी को ढूँढ निकालने की प्रार्थना की। अन्त में समुद्र ने सबको मिला दिया। पुन वे समुद्र पार कर कुशलतापूर्वक चित्तौर आगये। नागमती फिर पति को पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुई।

राजा रत्नसेन के दरबार में राघव चेतन नाम का एक पण्डित था जिसे यक्षिणी सिद्ध थी। एक दिन राजा ने पूछा, “दूज कब होगी?” राघव के मुख से सहसा निकल गया, “कल।” पण्डितों ने कहा, “कल नहीं परसों।” दूसरे दिन राघव ने यक्षिणी की सहायता से दूज का चन्द्रमा दिखा दिया परन्तु उसके अगले दिन जब पुनः द्वितीया का चन्द्रमा दिखलाई दिया तब तो राजा को राघव पर बड़ा क्रोध आया और उसने उसे वाममार्गी समझकर देश-निकाला दे दिया। पद्मावती ने उम दान देकर तुष्ट भी करना चाहा परन्तु वह रानी के रूप को देखकर विमुग्ध हो गया और बादशाह अलाउद्दीन से अधिक धन प्राप्त करने के लिए वह पद्मावती के रूप की प्रशंसा करने के लिए दिल्ली चला गया।

अलाउद्दीन ने जब पद्मावती के रूप-सौन्दर्य की प्रशंसा सुनी तो वह उसे पाने के लिये लालायित हो गया और शीघ्र ही एक दूत पद्मिनी को दिल्ली भेज देने के लिए चित्तौर भेजा। परन्तु जब उसे विशुद्ध उत्तर मिला तो सदल-बल चित्तौर पर चढ़ आया। आठ वर्ष तक वह गढ़ को न जीत सका। अन्त में उसने चाल चली और राजा से सन्धि कर महल में गया। वहाँ दर्पण में पद्मावती के प्रतिबिम्ब को देखकर मूर्च्छित हो गया। पुन जब राजा उसे गढ़-द्वार तक पहुँचाने आया तो उसने उसे बन्दी बना लिया। वह राजा को लेकर दिल्ली पहुँचा और कारागार में डाल दिया।

राजा के वियोग से सभी दुखी थे। रानियों की तो बुरी दशा थी। कुंभलनेर के राजा देवपाल ने इस ग्रबसर से लाभ उठाना चाहा और उसने पद्मावती के पास एक दूती के हाथों घृणित सदेश भेजा, जिसमें उसे सफलता न मिली। पद्मावती ने वैयं और बुद्धि से कार्य लिया तथा गोरा और बादल को एक युक्ति बताई। उसी के अनुसार सोलह सो पालकियों में सशस्त्र राजपूत वीरों को बिठाकर तथा बाहकों के स्थान पर भी राजपूतों को ही लेकर वह दिल्ली पहुँची। बादशाह अत्यन्त प्रसन्न हुआ और निश्चय होकर उसने रानी की प्रार्थना पर पहले उसे राजा से मिलने की आज्ञा दे दी। राजा के बन्धन काट दिये गये और उसे बादल एव कुछ वीरों के साथ चित्तौर भेज दिया गया। इधर गोरा ने वीरों के साथ अलाउद्दीन की सेना को रोका परन्तु युद्ध में सभी काम आ गये।

चित्तौड़ आने पर जब रत्नसेन ने देवपाल के दुष्ट व्यवहार को सुना तो उसने कुंभलनेर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में रत्नसेन और देवपाल दोनों ही मारे गये। पद्मावती और नागमती दोनों रानियाँ अपने मृत पति के साथ सती हो गईं। तदनन्तर अलाउद्दीन एक विशाल वाहिनी लेकर चित्तौड़ पर चढ़ आया। बादल ने उसका सामना किया परन्तु सारे राजपूत खेत रहे। स्त्रियाँ भी अग्नि में जलकर भस्म हो गईं। अन्त में जब अलाउद्दीन गढ़ में पहुँचा तो उसे सर्वत्र राख का ढेर ही मिला।

कथा का आध्यात्मिक पक्ष—जायसी ने इस सम्पूर्ण कथा को आध्यात्मिक रूप में ढाल दिया है। कथा के बीच-बीच में भी उन्होंने अनेक संकेत किये हैं। अन्त में तो उन्होंने स्पष्ट ही लिख दिया है—

चौदह भुवन जो तन उपराही । ते सब मानुस के घट माहीं ॥
तन चित्तउर, मन राजा कींहा । हिय सिंघल, बुधि पदमिनि चींन्हा ॥
गुरु सुआ जेइ पथ देखावा । बिनु गुरु जगत का निरगुन पावा ?
नागमती यह दुनिया धधा । वांचा सोइ न एहि चित्त बंधा ॥
राघव दूत सोई संतानू । माया अलाउद्दी सुलतानू ॥
प्रेम कथा एहि भांति विचारहु । बूझि लेहु जौ बूझै पारहु ॥^१

इसमें कवि ने बतलाया है कि चौदह भुवन मनुष्य के शरीर में ही हैं अतः पिंड में ही ब्रह्माण्ड है। कथा में चित्तौड़ शरीर है एव रत्नसेन मन, सिंहल हृदय, पद्मावती बुद्धि, हीरामन तोता गुरु, नागमती प्रपंच, राघव शैतान और अलाउद्दीन माया है।

इसको सूक्ष्मतः हम इस प्रकार कह सकते हैं कि शरीर में हृदय एक चेतनाश है जो साधनावश बुद्धि अर्थात् ज्ञानस्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है।

१ जायसी, ग्रन्थावली—पद्मावत, पृ० ३०१।

साधनामार्ग में गुरु ही पथ-प्रदर्शक होता है। उसके बिना मार्ग नहीं सूझता।^१ गुरु की कृपा से ही शिष्य सिद्धि के भेद को जान पाता है।^२ संसार का प्रपञ्च उसे अपनी ओर खींचता है, माया मोहिनी डालती है और शैतान उसे पथभ्रष्ट करना चाहता है तथा अन्य अनेक बाधाएँ भी आकर मार्ग को और दुरूह बनाती हैं परन्तु अन्त में धर्म, तप, नियम एवं सत्य के प्रभाव से वह सब पर विजय पाता हुआ चैतन्य देव को प्राप्त करता है।^३ इस प्रबन्ध में भी रत्नसेन को प्रेममार्ग का साधक चित्रित किया गया है। पद्मावती का रूप चैतन्य देव की प्राप्ति ही उसका ध्येय है। नागमती रूपी प्रपञ्च, अलाउद्दीन रूपी माया एवं राघव रूपी शैतान अनेक बाधाओं और कष्टों के कारण है। समुद्र आदि मार्ग की विषमताएँ हैं परन्तु सत की कृपा से वह इन सब पर विजय पाता है। और अन्त में सिहल द्वीप रूप हृदय (शिवलोक) में पहुँचकर ऊपर चढ़ता है और पुन चार स्थितियों के पश्चात् दशम द्वार (ब्रह्मरंध्र) में पहुँचता है।^४ वहीं उसे पद्मावती रूपी सिद्धि की प्राप्ति होती है।

उसमान—इनके जन्म-काल का पता नहीं। ये गाजीपुर निवासी शेख हुसैन के पुत्र थे^५ तथा इनके चार भाई और थे।^६ भाइयों के नाम इस प्रकार हैं—शेख

१ बिनू गुरु पंथ न पाइय ।

—जायसी ग्रन्थावली—पद्मावत, पृष्ठ ६२ ।

२ चेला सिद्धि सो पावै, गुरु सौं करै अछेद ।

गुरु करै जो किरिपा, पावै चेला भेद ॥

—वही, पद्मावत, पृष्ठ १०६ ।

३ दस महं एक जाइ कोइ करम, धरम, तप, नेम ।

बोहित पार होइ जब तबहि कुसल औ खेम ॥

सत साथी, सत कर संसारू । सत्त खेइ लेइ लावै पारू ॥

—वही, पद्मावत, पृष्ठ ६३-६४ ।

४ जीत पेम तुई भूमि अकासू । दीठि परा सिघल-कविलासू ।

—वही, पद्मावत, पृष्ठ ६८ ।

५ गाजीपुर उत्तम अस्थाना ।

—चित्रावली, पृष्ठ ११ ।

६ कवि उसमान बसै तेहि गाऊं । सेख हुसैन तनै जग नाऊं ॥

पांचा भाइ पांचो बुधि हिये । एक इक सो पांचो लीये ॥

शेख अज्जीज पढ़ै लिखि जाना । सागर सील ऊंच कर दाना ॥

मानुल्लह विधि मारग गहा । जोग साधि जो मोन होइ रहा ॥

सेख फंजुल्लह पीर अपारा । गर्न न काहु गहे हथियारा ॥

सेख हुसन गाएन भल आहा । गुन विद्या कहै गुनी सराहा ॥

—वही, पृष्ठ १२ ।

अजीज, शेख मानुल्लाह, शेख फैजुल्लाह और शेख हुसन। ये चिश्ती सम्प्रदाय के निजामुद्दीन औलिया की शिष्य-परम्परा में थे।^१ इन्होंने हाजी बाबा को अपना गुरु लिखा है।^२

इन्होंने हिजरी सन् १०२२ (१६१३ ई०) में 'चित्रावली' नामक प्रेमाख्यानक काव्य अवधी में चौपाई की सात पंक्तियों के पश्चात् एक दोहे के क्रम से लिखा।^३ वह समय जहाँगीर बादशाह का था। इन्होंने प्रथम स्तुति खंड में जहाँगीर की प्रशंसा भी की है। इनका उपनाम 'मान' था।^४ जोगी ढूँढन खंड में मुलतान, सिन्ध, बलूच, काबुल, बदखसाँ, खुरासान, मक्का, मदीना, बगदाद, इस्तम्बूल, मिश्र, सिंहल द्वीप, करनाटक, उडीसा, बगाल मनीपुर तथा बलद्वीप आदि स्थानों का वर्णन किया है। इससे इनके भौगोलिक ज्ञान पर अच्छा प्रकाश पड़ता है, यद्यपि विवरण पूर्णतः शुद्ध नहीं है। अग्नेजों के द्वीप बलद्वीप का भी उल्लेख है।^५ इससे ज्ञात होता है कि उस समय अग्नेज भारत में आ गये थे।

चित्रावली का कथासार—नेपाल के राजा धरनीधर के कोई सन्तान न थी। अतः उसने शिव का आराधन कर उन्हें प्रसन्न किया। पुनः शिव के प्रसाद से उसके यहाँ एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ, जिसका नाम सुजान रखा गया। बड़ा होकर एक दिन आखेट से लौटता हुआ राजकुमार वन में मार्ग भूल गया और एक देव की मढी में जा सोया। इसी बीच वह देव भी आ गया और उसने उसकी रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। थोड़ी देर के पश्चात् वह देव अपने मित्र एक अन्य देव के साथ

^१ गहि भूज कीन्हे पार जे, बिनु साहस बिनु दाम ।

कश्ती सकल जहान के, चश्ती शाह निजाम ॥

—चित्रावली, पृष्ठ १० ।

^२ बाबा हाजी पीर अपारा । सिद्ध देत जेहि लाग न बारा ॥

मोहि मया के एक दिन, श्रवन लाग गहि माथ ।

गुरमुख वचन सुनाय के, कलि महं कीन्ह सनाथ ॥

—वही, पृष्ठ १० ।

^३ सन सहस्र बाइस जब अहे । तब हम वचन चारि एक कहे ।

—वही, पृष्ठ १४ ।

^४ कथा मान कवि गायेउ नई । गुरु परसाद समापत भई ॥

—वही, पृष्ठ २३६ ।

^५ बलं द्वीप देखा अंगरेजा । जहां जाइ नहिं कठिन करेजा ॥

—वही, पृष्ठ १६० ।

रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की वर्षगाँठ का उत्सव देखने के लिए रूपनगर गया और साथ ही सुप्त सुजान को भी लेता गया। वहाँ पहुँचकर उन देवों ने राजकुमार को चित्रावली की चित्रसारी में लिटा दिया। जागने पर उसने चित्रसारी को देखा और वहाँ चित्रावली के चित्र को टेंगा हुआ देखकर उस पर आसक्त हो गया। वही पर रखे हुए रगों से उसने एक अपना भी चित्र बनाया और राजकुमारी के चित्र के पास ही उसे टाँगकर पुन सो गया। उत्सव को देखकर देव पुन उसे उसी अवस्था में उठाकर मढी में ले आये। जब वह जागा तो उसने उसे स्वप्न समझा परन्तु अपने हाथ और वस्त्रों को रग से चिन्हित देखकर उस घटना को सत्य जाना और विकल होने लगा। इसी समय उसके कुछ भृत्य उसे खोजते हुए वहाँ आये और अपने साथ उसे ले गये।

राजकुमार चित्रावली के वियोग में दुखी रहने लगा। एक दिन उसके मित्र सुबुद्धि ने उसे युक्ति बताई और उसने तदनुसार उस मढी में जाकर अन्नसत्र खोल दिया। इधर चित्रावली भी राजकुमार के चित्र को देखकर प्रेमासक्त होकर व्याकुल रहने लगी। एक दिन उसने अपने कुछ नपुंसक भृत्य योगियों के वेष में राजकुमार की खोज के लिए भेजे। एक कुटीचर ने इस बात की सूचना राजकुमारी की माँ हीरा को दे दी। उसने उस चित्र को धुलवा डाला। इससे क्रुद्ध होकर राजकुमारी ने उस कुटीचर का सिर मुँडवाकर घर से निकाल दिया। उधर उन नपुंसक भृत्यों में से एक उसी मढी पर आ पहुँचा और राजकुमार का परिचय पाकर उसे योगी के वेश में रूपनगर ले आया। वहाँ शिव-मन्दिर में सुजान और चित्रावली दोनों ने एक दूसरे के दर्शन किये। इसी बीच उस कुटीचर ने शत्रुतावश राजकुमार को अंधा कर दिया और उसे बहकाकर एक पर्वत की गुहा में छोड़ आया। वहाँ उसे एक अजगर निगल गया। उसकी विरहाग्नि से प्रतप्त होकर अजगर ने उसे उगल दिया। पुनः उसे अंधा जानकर एक वनमानुष ने एक अंजन दिया, जिससे वह फिर देखने लगा। थोड़ी देर पश्चात् वन में घूमते हुए उसे एक हाथी ने पकड़ लिया। परन्तु शीघ्र ही एक बृहद् पक्षी उस हाथी को ले उड़ा, जिससे धबकाकर उसने राजकुमार को छोड़ दिया और वह एक समुद्र पर आकर गिरा। वहाँ से भ्रमण करता हुआ वह सागरगढ़ पहुँचा और राजकुमारी कवलावती की पुष्पवाटिका में विश्राम करने लगा। कुछ समय पश्चात् राजकुमारी वहाँ आई और उसे देखकर मोहित हो गई। घर पहुँचकर उसने भोजन के लिए उसे बुलाया और आहार में अपना हार छिपाकर चोरी के अपराध में उसे बन्दी बना लिया।

इसी समय सौहिल नाम का एक राजा कवलावती के सौन्दर्य की प्रशंसा सुनकर सागरगढ़ पर चढ़ आया परन्तु सुजान ने अपने पराक्रम से उसे परास्त कर

दिया। अंत में चित्रावली की प्राप्ति-पर्यन्त संयम की प्रतिज्ञा करके उसने कंवलावती से परिणय कर लिया और राजकुमारी को साथ ले गिरनार की यात्रा के लिए चला गया। चित्रावली का भेजा हुआ योगी भी संयोग से गिरनार आ पहुँचा और राजकुमार से संदेश लेकर लौट गया। पुनः राजकुमारी का एक पत्र लेकर वह योगी के वेश में सागरगढ आया और राजकुमारी को अपने साथ रूपनगर ले गया। इस बीच में राजा के दरबार में एक कथक आया और उसने सोहिल के युद्ध की गाथा गाई, जिसे सुनकर राजा को चित्रावली के विवाह की चिन्ता हुई और उसने चार चतुर चित्रकार चारों दिशाओं में राजकुमारों के चित्र लाने के लिए भेजे। किसी दूती ने रानी से राजकुमारी के दूत भेजने का समाचार कह दिया। वह दूत सुजान को नगर के बाहर बिठाकर चित्रावली के पास आ ही रहा था कि मार्ग में ही बन्दी बना लिया गया। विलम्ब होने पर राजकुमार अत्यन्त व्याकुल हुआ और पागल की भाँति चित्रावली का नाम ले लेकर पुकारने लगा, जिसे सुनकर राजा ने उसके बंध के लिए एक हाथी छोड़ा परन्तु उसने उस हाथी को ही मार डाला। इससे राजा बड़ा क्रुद्ध हुआ और स्वयं उसके दंडनार्थ उद्यत हुआ परन्तु इसी समय एक चित्रकार सागरगढ से राजकुमार सुजान का चित्र लेकर आया और राजा को बताया कि इसी ने सोहिल को मारा था। राजा ने चित्र से पहचाना कि यह वही राजकुमार था अतः वह उसे सादर घर ले गया और पुनः चित्रावली का पाणिग्रहण उसके साथ कर दिया।

सागरगढ से सुजान के चले जाने पर कंवलावती विरह से विकल रहने लगी। उसने हंसमिश्र को दूत बनाकर रूपनगर भेजा। वहाँ पहुँचकर मिश्र ने भ्रमर की अन्योक्ति द्वारा राजकुमार को चेताया। इससे राजकुमार को कंवलावती की स्मृति हो आई और पुनः वह चित्रावली को साथ ले सागरगढ आया। वहाँ से कंवलावती को भी साथ लेकर वह स्वदेश को चला परन्तु समुद्र में तूफान आ गया और बड़ी कठिनाइयों से उसे पार कर स्थल-मार्ग से नेपाल पहुँचा। राजा ने सुजान को राज्य-भार दे दिया और फिर उसने दोनों रानियों के साथ सुख भोगते हुए बहुत काल तक राज्य किया।

कथा का आध्यात्मिक पक्ष—सूफी पद्धति की भाँति यह कथा भी अपना आध्यात्मिक पक्ष रखती है। इसमें कवि ने प्रायः जायसी का अनुसरण किया है। योगी-प्रभाव के कारण सम्पूर्ण काव्य में अद्वैत की छाप लगी हुई है। सुजान स्वयं शिव का अवतार है। राजा धरनीधर को आशीर्वाद देते हुए शिव जी ने स्वयं कहा है—

देखू देत हौं आपन अंसा । अब तोरे ह्वै हौं निजु वंसा ॥^१

पुनः जन्मखंड में पंडितों ने लग्न आदि विचार कर भी यही बताया है—

मिथुना लगन संभू औतारा ॥^१

शिव के अवतार से अद्वैत का ही भान होता है । उसमान ने लिखा भी है—
सब वही भीतर वह सब मांही । सब आपु दूसर कोउ नाहीं ॥
दूसर जगत नामु जिन पावा । जैसे लहरी उदधि कहावा ॥^२

चित्रावली और कंवलावती विद्या और अविद्या के रूप हैं । इसीलिए सुजान चित्रावली रूप विद्या की प्राप्ति तक कंवलावती रूप अविद्या का उपभोग नहीं करता । सुबुद्धि 'सुबुद्धि' जान पड़वा है, क्योंकि सुबुद्धि विद्या की प्राप्ति में सहायक होती है । दूसरे शब्दों में हम चित्रावली को चैतन्य शक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि कवि ने स्वयं सरोवर खंड में चित्रावली के जल में छिप जाने पर और किसी प्रकार भी अन्विष्ट न होने पर सखियों के मुँह से कहलवाया है कि गुप्त अवस्था में तो तुम्हें जान ही क्या सकती है, जब कि तू प्रकट रूप में भी छिपी रहती है । ब्रह्मा भी चारों वेद पढ़कर खोज कर-कर हार गया परन्तु तेरा भद न पा सका । महेश भी सेवा कर हार गये परन्तु पार न पा सके । और देवी की तो बात ही क्या है । हम अंधी है जिन्हें स्वयं कुछ भी सूझा नहीं । भला कौन सा स्थान है जहाँ तुम नहीं हो ? तुम्हारी खोज वही पा सकता है जिसे तुम मार्ग दिखाती हो, अतः केवल योगी होने और ग्रन्थ पढ़ने से कोई लाभ नहीं ।^३

परेवा खंड में भी परेवा के मुख से चित्रावली के रूप वर्णन द्वारा इसी भाव की व्यंजना करते हुए कहा गया है कि यह चित्रावली वह है जिसका सभी ध्यान करते हैं, पृथ्वी पर घर-घर में जिसकी चर्चा है तथा सारा चराचर जगत ही जिसकी चाह में लीन है । जो पुरुष जान-बूझकर भी उसे भुला देता है वह जीता हुआ भी मृत के समान है । सूर्य और चन्द्रमा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते । वह मनुष्य धन्य है

१ चित्रावली, पृष्ठ २० ।

२ वही, पृष्ठ १ ।

३ गुपुत तोहि पावाह का जानी । परगट महं जो रहहि छपानी ॥
चतुरानन पढ़ि चारौ वेदू । रहा खोजि पै पाव न भेदू ॥
संकर पुनि हारे कै सेवा । ताहि न मिलिज आर को देवा ॥
हम अंधी जेहि आप न सूझा । भेद तुम्हार कहाँ लौं बूझा ॥
कौन सो ठाऊँ जहाँ तुम नाहीं । हम चषु जोति न देखिंह काहीं ॥
पावै खोज तुम्हार सो, जेहि देखलावहु पंथ ।
कहा होइ जोगी भए, औ पुनि पढ़े गरंथ ॥

जो उसके मार्ग पर न मन लगाता है।^१

आगे इसी मार्ग पर सिद्धि-प्राप्ति तक चार नगर रूप चार स्थितियों का वर्णन किया गया है। प्रथम भोगपुर है, जहाँ इन्द्रिय-विषय अपनी ओर खींचते हैं। जो इनमें न रचकर काम-श्रोधादि को जीत लेता है वही आगे बढ़ता है और गोरखपुर नामक नगर में पहुँचता है। यहाँ वह योगी होकर चलता है और गुरु द्वारा अन्तर्दृष्टि पाकर आगे बढ़ता है। पुनः तृतीय नेहनगर में प्रवेश पाता है। इस स्थिति में उसे समता-भाव प्राप्त हो जाता है और फिर योगी वेश भी छूट जाता है। तदनन्तर वह रूपनगर में पहुँचता है। यही अन्तिम स्थिति है, यही लक्ष्य है। यह स्थिति बड़ी दुर्गम है। यहाँ करोड़ों में कोई-कोई पहुँचता है।^२

शेख नवी कृत ज्ञानदीप—शेख नवी जौनपुर ज़िले में मऊ के निवासी थे। ये जहाँगीर के शासनकाल में सन् १६१६ ई० के लगभग विद्यमान थे। इन्होंने 'ज्ञानदीप' नाम की एक कहानी लिखी, जिसमें राजा ज्ञानदीप और देवजानी की प्रेम-कथा वर्णित है।

कासिमशाह कृत हंस जवाहिर—कासिमशाह दरियाबाद (बाराबंकी) में अमानुल्लाह के यहाँ उत्पन्न हुए थे। और जाति के हीन थे इनका समय १७३१ ई० के लगभग माना गया है, क्योंकि इन्होंने तत्कालीन दिल्ली के बादशाह मुहम्मद शाह की प्रशंसा की है। इन्होंने 'हंस-जवाहिर' नामक एक प्रेम-कथानक काव्य लिखा, जिसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की प्रेम-कहानी है। कथा का सार इस प्रकार है—

बलख नगर में सुलतान बुरहान के घर हंस नाम का एक प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ और चीनराधिपति आलमशाह के घर जवाहिर नाम की एक सुन्दरी कन्या ने जन्म लिया। बड़े होकर इनके हृदय में प्रेम का बीजारोपण हुआ। हंस जवाहिर की प्राप्ति

^१ वह चित्रावलि आहे सोई । तीन लोक वेद सब कोई ॥
सुरपुर सब ध्यान ओहि घरहीं । अहिपुर सब सेव तेहि करहीं ॥
मृतुमंडल जो देखा हेरी । घर-घर चलै बात तेहि केरी ॥
पंछी वोहि लगि फिरहि उदासा । जल के सुत ओहि नाउ पिपासा ॥
परवत जर्षाह मौन होइ नाऊं । आसन मारि बैठि एक ठाऊं ॥
पहुसी दहु जो सरग लहु बाढ़ी । सेवा करतहि एक पग ठाढ़ी ॥
जानि बूझि जो ताहि बिसारा । सो मनु जियतहि भरा अड़ारा ॥
अति सुरूप चित्रावली, रवि ससि सर न करेइ ।
धन सो पुरुष औ धन हिया, ओहिक पंथ जिउ देइ ॥

—चित्रावली, पृष्ठ ७८ ।

^२ चित्रावली, पृष्ठ ८०-८३ ।

के लिए घर से योगी होकर निकला और अनेक कष्टों के पश्चात् उसे प्राप्त कर घर लौटा ।

यह कथा भी उपर्युक्त कथाओं की भांति अध्यात्मपरक ही है ।

नुर मुहम्मद—ये जौनपुर जिले में सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे । पुन. ये आजमगढ़ में अपने श्वसुर शमसुद्दीन के यहाँ रहने लगे थे । इनका समय १७४० के आसपास है । क्योंकि इन्द्रावती में दिल्ली के बादशाह मुहम्मद शाह की प्रशंसा की है । इन्होंने फारसी में अनेक पुस्तकें लिखी । हिन्दी में 'इन्द्रावती' और 'अनुराग बाँसुरी' ये दो काव्य लिखे । इन्द्रावती का रचना-काल सन् ११५७ हिजरी (सन् १७४४ ई० के लगभग) है ।^१ अनुराग बाँसुरी का सन् ११७८ हिजरी (सन् १७६४ ई० के लगभग) है ।^२ अनुराग बाँसुरी तो तत्त्वज्ञान की मजूषिका ही है । ईश्वर-जीव के मध्य मनोवृत्तियों के सहारे प्रेम-कथा का ऐसा सुन्दर चित्रण अन्यत्र मिलना दुर्लभ है । इनका उपनाम 'कामयाब' था ।^३

इन्द्रावती का कथासार—कालिंजर देश के राजकुमार राजकुंवर को पिता की मृत्यु के उपरान्त शासन-भार मिल गया और सपत्नीक सुख से राज्य करने लगा । एक दिन कुंवर को स्वप्न में अत्यन्त लावण्यमयी रमणी दृष्टिगोचर हुई, जिसके प्रेम-पाश में आबद्ध हुआ वह विकल रहने लगा । मनपुरनिवासी उसके भत्री बुद्धसेन ने उसकी विकलता का कारण जान अनेक चित्तों से रमणियों के चित्र बनवाये और कुंवर को दिखाये परन्तु उनमें एक भी चित्र स्वप्न-दृष्ट युवती का न था । अन्त में कुंवर अपनी पुष्पवाटिका में तप करते हुए एक तपस्वी के पास गया और अपनी कथा सुनाई । उसने बतलाया कि आगमपुर नाम का एक नगर है, जिसका मार्ग सात वन और अपार समुद्र से बड़ा दुर्गम है । वहाँ ईश्वर का एक मंडप है जहाँ योगी, तपी, सन्यासी और वैरागी दिन-रात अलख का नाम जपते हैं । ऐसे धर्मनगर का राजा जगपति है । उसी की कन्या इन्द्रावती (पूर्वनाम रत्नजोति) को तुमने स्वप्न में देखा है । उसे गुरु की कृपा से कोई मरजिया ही पा सकता है । कुंवर की प्रार्थना से तपस्वी ने उसे दिव्य दृष्टि दी, जिससे उसने पथ समेत आगमपुर को देखा ।

^१ सन् इग्यारह सौ रहेउ, सत्तावन उपराइ ।

कहे लगेउ पोथी तबै, पाय तपी कर बांह ॥

—इन्द्रावती, पृष्ठ ४ ।

^२ इह इग्यारह सै अठहत्तर । फेर सुनाएउ बचन मनोहर ॥

—अनुराग बाँसुरी, पृष्ठ १ ।

^३ 'कामयाब' कहं कौन जगावा । फिर हिन्दी भाखे पर आवा ॥

—अनुराग बाँसुरी, पृष्ठ १ ।

इसके पश्चात् वह स्त्री, राज्य आदि को छोड़कर योगी हों गया और आठ साथियों को लेकर आगमपुर को चल दिया। देहपुर नामक स्थान पर रात्रि बिताई। भोर होते ही वह सधन बनो के पास आया। बनो को पार करते हुए भिन्न-भिन्न वन में इन्द्रिय, बुद्धि आदि भिन्न मित्रों ने कुंवर को रोकना चाहा परन्तु वह न रुका और अन्त में देहन्तपुर में आया। वहाँ अन्य साथियों को छोड़ बुद्धसेन के साथ आगे चला और वन-पर्वतों को लाँघता हुआ समुद्र पर पहुँचा। वहाँ से कायापति के साथ समुद्र पार गया और जिउपुर में वास किया। फिर आगे उसने बुद्धसेन को भी छोड़ दिया और केवल प्रेम को साथ ले आगे बढ़ा। आगमपुर पहुँचकर वह रात्रि को ईश-मण्डप में रहा। वहाँ प्रातः ही मन फुलवारी में गया।

उधर इन्द्रावती को भी स्वप्न में एक योगी दिखलाई दिया था, जिसने समुद्र से मोती निकालकर उसकी माँग में सेदुर भरा था, अतः वह भी प्रेम-पाश से आबद्ध हो चुकी थी। जब उसे अपनी चेता नाम की मालिन से यह ज्ञात हुआ कि कोई योगी उसकी प्राप्ति के लिए फुलवारी में आकर साधना में लीन है तो वह फुलवारी में गई। कुंवर उसे देख कर मूर्च्छित हो गया। इन्द्रावती एक पत्र लिखकर वहाँ से चली आई। उस पत्र में लिखा था—

‘जीव नाम का एक राजा है। उसने शरीरपुर में स्थान पाया और नगर की शोभा को देखकर भुला गया। उसी नगर में एक दुर्जन नाम का राजा था। एक दिन जीव राजा ने अपने मन्त्री बुद्ध से कहा कि दुर्जन माया-मोह में पडा हुआ है और मेरे मार्ग में एक काँटा है। एक नगर में दो राजा नहीं रह सकते। बुद्ध ने उसे सावधानी से राज्य करने को कहा। राजा का मन नाम का एक पुत्र था, जो एक सुन्दरी को चाहता था परन्तु पान न सका था। एक दिन उसने दुर्जन को बुलाकर सारा भेद कहा। दुर्जन ने राजा जीव से कहा कि कायापुर में दरसन (दर्शन) नाम का एक राजा है। उसकी रूप नाम की अति लावण्यमयी कन्या है। यदि उसका विवाह मन से हो जाय तो बड़ा सुखकर हो। राजा को यह बात बहुत रुची और उसने दृष्टि नामक दूत को कायापुर भेजा। कन्या से पूछने पर दरसन ने कहला भेजा कि कन्या नहीं मानती। इस पर जीव अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और कायापुर के पास पहुँच बुद्ध को दूत बनाकर भेजा। वह सारा वृत्तान्त जानकर आया। इधर रूप ने चितवन नाम की दासी को मन का रूप आदि देखने के लिए भेजा। धीरे-धीरे रूप को दया आई और मन का आना-जाना प्रारम्भ हो गया। अन्त में दोनों का परिणय हो गया। मन के एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुए। जीव राजा बालकों के फेर में पड़ गया अतः उसने राज-कार्य को दुर्जन को सौंप दिया। अब जीव के सेवक दुर्बल हो गए। बुद्ध ने जीव को समझाया परन्तु वह न समझा। अन्त में बुद्ध ने साहस तपी से राजा का भेद कहा। साहस ने उपाय बताया कि प्रीतपुर नाम का एक स्थान है, वहाँ कृपा नाम का राजा

है। उसके पास जाओ, वह तुम्हारा काम बना देगा। दोनों कृपा के पास गये। कृपा ने बुद्धि की सहायता से जीव के हृदय में प्रेम का संचार करा दिया और महाराज सुख-दाता के प्रसाद से जीव को पुनः शरीरपुर का अधिपति बना दिया।”

मूर्च्छा के हटने पर कुँवर ने पत्र को पढ़ा और सम्पूर्ण रहस्य से अवगत होकर प्रेमोन्माद से और भी विकल होने लगा। पुनः मालिन द्वारा पत्र-व्यवहार हुआ। अन्त में कुँवर ने पवन के हाथों सन्देश भेजा। इन्द्रावती ने भी उसी के हाथों अपना सन्देश भेज दिया। उसे सुन कुँवर प्रेमपुर में प्रेमपति नामक मद्यप के पास गया और उससे एक प्रेम का प्याला पी वह राजद्वार पर स्थित स्नेह-वृक्ष की छाया में बैठ गया और राजा जगपति द्वारा समुद्र से मोती निकालने के नियम को सुनकर इन्द्रावती की अट्टालिका के नीचे आया। इन्द्रावती के दर्शन तो पाये परन्तु ऊपर न पहुँच सका। इसी समय एक रागी से प्रेम राग सुनकर वह बुद्ध समेत समुद्र की ओर चला। बीच में दुर्जन नाम के गढ़पति ने उसे बन्दी बना लिया। रात्रि को उसकी मोहिनी स्त्री ने दस रूपवती स्त्रियों को साथ ले कुँवर को रिभाया परन्तु उसका प्रेम सच्चा था। अन्त में मोहिनी हार मानकर चली गई।

राजा जहाँ बन्दी था वही एक वृक्ष पर प्राण नाम का एक सुआ बैठा था। उससे परिचय हो जाने पर कुँवर ने उसे इन्द्रावती के पास भेजा। इन्द्रावती ने उसे पिंजरे में डाल दिया। रात को दीपक के प्रति सुए की उक्ति को सुन इन्द्रावती ने उससे आने का कारण पूछा। सुए ने समस्त समाचार सुना दिया। उसे सुन इन्द्रावती ने एक पत्र लिखकर सुए के बाँध दिया। उसमें लिखा था कि मेरे पिता का मित्र कृपाराय है। यदि उसे समाचार मिले तो वह तुम्हें छुड़ा लेगा। पत्र को पढ़कर कुँवर ने बुद्धसेन को कृपाराय के पास भेजा। बुद्धसेन ने कृपाराय की बड़ी सेवा की जिससे प्रसन्न हो कृपाराय ने जगपति की सहायता से दुर्जन पर आक्रमण कर दिया। गर्वराय के कहने से दुर्जन ने भी उसका सामना किया। क्षमा और धर्मराय के हाथों क्रमशः दुर्जन के कोप और मदनसिंह नाम के भट पराजित हुए दोनों दलों में घोर संग्राम हुआ और कृपाराय के हाथों दुर्जन मारा गया। तब कृपाराय ने कुँवर को बन्दीगृह से निकाला और समुद्र में मोती का स्थान बता मार्ग बता दिया। जब जगपति ने यह समाचार सुना तो उसने कुँवर को वापिस बुला लिया।

इन्द्रावती की विरह-व्याकुलता को बढ़ता हुआ देख सखियों ने नित्य-प्रति प्रेम-कहानियाँ कहनी प्रारम्भ की जो प्रायः अध्यात्मपूर्ण होती थी। इन कहानियों से इन्द्रावती की विरहाग्नि और भड़क गई। उधर कुँवर निराश हो समुद्र में डूबने के लिए चल दिया। मार्ग में गोसाईं गुरुनाथ मिले। उन्होंने उसे धैर्य बँधाया और राजा जगपति के पास लाकर उसका वास्तविक परिचय दिया। तत्पश्चात् राजा की आज्ञा

और गुरुनाथ का आशीर्वाद पाकर वह मोती निकालने समुद्र पर गया। अनेक कष्ट और परीक्षाओं के पश्चात् उसने अपना विरहाग्नि से समुद्र को सन्तप्त कर मोती प्राप्त किया। फिर वह आगमपुर लौट आया। राजा जगपति ने शुभ दिन देख इन्द्रावती का विवाह कुँवर के साथ कर दिया।

कथा की आध्यात्मिकता—कथा प्रत्यक्षतः अध्यात्मपूर्ण ही है। कवि ने कालिंजर देश और राजकुमार राजकुँवर के अतिरिक्त सभी नामों की कल्पना मन, बुद्धि, गरीर प्राण, दया, कृपा, क्षमा, प्रेम, स्नेह, काम, क्रोध, मद, दृष्टि, चितवन एव पवन आदि साधना में प्रयुक्त अग प्रत्यंगो एव मनोभावो के नामों पर ही की है। इसमें कुँवर जीवात्मा और इन्द्रावती ब्रह्म की ज्योति है। इन्द्रावती का पूर्व नाम रत्नज्योति ही था। लिखा भी है कि वह रूप प्रकाशमान दीपक है और उस पर सारा संसार पतंग बना हुआ है।^१ बुद्धसेन ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान ही जीवात्मा को सिद्धि-प्राप्ति तक सहायता करता है। सच्चे प्रेम का प्याला पीकर ही जीवात्मा अनेक साधनाओं के पश्चात् ब्रह्म-ज्योति को प्राप्त करती है—यही इसमें दर्शाया गया है।

इसमें अवान्तर कथाएँ भी अध्यात्मपूर्ण ही हैं जैसा कि पत्र की कथा से स्पष्ट है।

अनुराग-बाँसुरा की संक्षिप्त कथा—चतुर्दिक फूली हुई मन फुलवारी से युक्त मूरतिपुर नगर में जीव नाम का राजा राज्य करता था। उसका अन्तःकरण नाम का एक पुत्र था। उसके दो संगी थे, संकल्प और विकल्प। अन्तःकरण के तीन परम प्रिय मित्र भी थे—बुद्धि, चित्त और अहंकार। उसकी महामोहिनी नाम की एक स्त्री थी।

एक बार श्रवण नाम का ब्राह्मण विद्यापुर से पढकर लौटा। उसके गले में एक मोहनमाला पडी थी जो उसे अपने मित्र ज्ञातस्वाद से उपहार में मिली थी और ज्ञातस्वाद ने जिसे सनेह नगर के राजा दर्शनराय की पुत्री सर्वमंगला से पुरस्कार रूप में प्राप्त किया था। जब अन्तःकरण ने उस माला को श्रवण के कंठ में देखा और उसका भेद जाना तो वह सर्वमंगला का प्रेमी बन गया। पिता ने पुत्र की प्रेम-वार्ता को बूझ द्वारा जानकर कठिनाइयों के कारण उसे रोकना चाहा, परन्तु वह न माना। बुद्धि, संकल्प एवं विकल्प ने भी प्रयत्न किये किन्तु वह कब रुकने वाला था। अन्त में सनेह नगर को प्रस्थान कर ही दिया। इसी समय एक सनेह गुरु नाम का वैरागी सनेह नगर से आया, जिससे उसने सर्वमंगला के विषय में सब कुछ जान लिया। गुरु ने उसके प्रेम को जानकर अपने उपदेशी सुआ को उसके साथ कर दिया और स्वयं तीर्थ-यात्रा के लिए चला गया। माता-पिता, कलत्रादि सभी को छोड़कर अन्तःकरण

^१ है वह रूप दीप अंजियारा। है पतंग तापर सारा ॥

सुआ के साथ प्रेम-मार्ग पर योगी होकर रूप सनेही, राम सनेही तथा बास सनेही आदि मित्रों के साथ चल दिया। मार्ग में इन्द्रियपुर के निकट आया तो वहाँ के राजा अघेष्ट ने उसे मनभावनी आदि कुछ रंगीलियों द्वारा पथ-भ्रष्ट करना चाहा, जिन्होंने रूप, रस, गंधादि से उसे लुभाया परन्तु वह विचंचित न हुआ। उसके मित्र वही रमण करने लगे। वह आगे बढ़ता गया और अन्त में सनेह नगर पहुँच गया। वहाँ एक देवहरा में ठहरा।

उधर सर्वमंगला ने स्वप्न में एक दिन मँडराता हुआ भँवर और दूसरे दिन एक योगी देखा जो उसकी पूजा में लीन और कृपा का भिक्षुक था। स्वप्न पर विचार करने पर निश्चित हुआ कि कोई व्यक्ति सर्वमंगला के प्रेम में डूबकर योगी बना हुआ है। एक दिन सर्वमंगला अपनी सखियों के साथ आँगन में बैठी थी कि उपदेशी सुआ अन्तःकरण के पास से उसके पास आया और उसके बुलाने पर हाथ पर जा बैठा। शनैः शनैः उसने सारा भेद कह सुनाया। अब तो सुए ने मध्यस्थ का कार्य किया और चित्र एव सदेशों का आदान-प्रदान कराना प्रारम्भ कर दिया। एक दिन अन्तःकरण भवन के पास चला आया। उधर से सर्वमंगला ने भी देखा। दोनों की आँखें मिलते ही अन्तःकरण मूर्च्छित हो गया। इस प्रकार प्रेम-व्यापार चलता रहा।

जीव राजा को जब पुत्र का कोई समाचार न मिला तो उसने महाप्रभु दर्शन-राय के पास अनुग्रहार्थ पत्र भेजा। इसी समय सनेह गुरु वैरागी भी तीर्थयात्रा से लौटा और उसने राजा से अन्तःकरण का परिचय कराया। तब तो राजा ने सहर्ष सर्वमंगला का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात् अन्तःकरण घर लौट आया।

कथा में अध्यात्म—पढ़ने मात्र से ही इस कथा का अध्यात्म बुद्धिगत हो जाता है। मूर्तिपुर नगर शरीर है जिसमें जीव नाम का राजा है। अन्तःकरण उसका पुत्र है। दर्शनराय ईश्वर है और सर्वमंगला उसका ज्ञान है। जीव को सकल्प और विकल्प अन्तःकरण में ही हुआ करते हैं। बुद्धि, चित्त एव अहंकार अन्तःकरण के साथी होते ही हैं। यहाँ अन्तःकरण-चतुष्टय में से मन को छोड़ दिया गया है और उसे फुलवारी का रूप दिया गया है। महामोहिनी माया है, जिसे छोड़कर सर्वमंगला रूप ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए जीव चलता है। सनेह गुरु स्नेह है, जो जीव को मार्ग पर लगाता है। इन्द्रियपुर पचेन्द्रियों है और अघेष्ट पापेच्छा है। मनभामनी निपद्य-प्रवृत्ति है, जो जीव को शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श नामक इन्द्रिय-विषयों की ओर आकृष्ट करती है। परन्तु प्रेमी जीव इनमें मन नहीं लगाता। अन्त में समय द्वारा अनेक कठिनाइयों को पार करता हुआ जीव दर्शनराय रूप ईश्वर की कृपा से सर्वमंगला रूप ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करता है। इसमें सनेह गुरु रूप स्नेह (प्रेम) लक्ष्य की प्राप्ति पर अन्तःकरण सहायक देता है।

नर मुहम्मद के साथ ही इन प्रेमाख्यानक काव्यों का क्रम समाप्त हो जाता है।

इनके पश्चात् फाजिल शाह ने 'प्रेम रतन' लिखा जिसमें नूरशाह और माहे मुनीर की प्रेम-कथा है। परन्तु यह महत्त्वपूर्ण नहीं है। इस परम्परा में उपर्युक्त कवि और काव्यों के अतिरिक्त अन्य कवि या काव्य इतने महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। पहले कहा जा चुका है कि कबीर, दादू आदि कुछ ऐसे सन्त हुए हैं जिन्होंने सूफीमत के अनेक सिद्धान्तों को अपनाया और उन्हें अपने वचनों में व्यक्त किया। शाह बरकतुल्ला ने (१६६०-१७२६ ई०) प्रेम प्रकाश में बतलाया है कि जीव ईश्वर का ही अंश है और जब प्रेम द्वारा निजत्व का लोप हो जाता है तो जीवात्मा परमात्मा से मिल जाती है।

प्रेमाख्यातक सूफी काव्यों में साम्य—प्रेमाख्यानक सूफी काव्यों में कई बातें समान हैं। य काव्य मुसलमानों द्वारा लिखे गये। शाहजहाँ के समय में हुए केवल सूरदास नामक एक हिन्दू द्वारा लिखित 'नल-दमयन्ती' कथा नाम की कहानी मिली है जो साहित्य की दृष्टि से अथम कोटि की है। ये सभी कवि मुसलमान होते हुए भी अत्यन्त उदार थे। सभी ने हिन्दू कथाओं को लेकर ही प्रेम-कथाये लिखी हैं। वास्तव में हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य का जो सुन्दर चित्रण हमें इन काव्यों में मिलता है वह अन्यत्र नहीं। यही कारण है कि इनमें खण्डन-मण्डन की प्रणाली को छोड़ा तक नहीं गया है और हिन्दू देवताओं को बड़े सम्मान के साथ चामत्कारिक घटनाओं में प्रदर्शित किया गया है।

ये सभी काव्य फारसी की मसनवियों के ढग पर लिखे हुए हैं। इनमें भारतीय सर्गबद्ध काव्य-शैली को नहीं अपनाया गया है। मसनवियों की शैली के अनुसार प्रथम स्तुतियाँ होती हैं जिनमें प्रायः क्रमानुसार ईश्वर, मुहम्मद साहब, खलीफा, गुरु एव शाहबेक की स्तुति का प्राधान्य होता है। इनमें भी इसी सरणी का अनुसरण है। आगे मसनविया की प्रणाली पर ही इनमें प्रसङ्गों के नाम पर सर्गों का नाम दिया गया है। परन्तु प्रकृति-वर्णन भारतीय ढग पर ही हुआ है।

अवधी भाषा इनका माध्यम है। इन सब में कुछ चौपाइयों के पश्चात् एक दोहे का क्रम रखा गया है। मृगावती और मधुमालती में चौपाई की पाँच पक्तियों के पश्चात् तथा पद्मावती और चित्रावली में सात पक्तियों के पश्चात् एक दोहे का क्रम रखा गया है। नूर मुहम्मद ने अनुराग बांसुरी में छ पक्तियों के पश्चात् दोहा न रखकर एक बरवै रखा है।

ये सारी कथाये अध्यात्म से अंतर्प्रोत हैं। लौकिक प्रेम-कथाओं में दिव्य प्रेम की भाँकी है, अतः रहस्यात्मकता की अखण्ड व्यापकता है। जीवात्मा ईश्वरीय अंश है एव सम्पूर्ण विश्व भी उसी का प्रदर्शन है। इसीलिए जीवात्मा ईश्वर से ऐक्य प्राप्त करने के लिए सदैव व्याकुल रहती है। गुरु से ईश्वर, जीव और जगत का वास्तविक रूप जानकर जब मनुष्य के हृदय में प्रेम उद्दीप्त हो जाता है तब कठिन साधना के पश्चात्

वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है । बस यही इन प्रेम-कथाओं का वर्ण्य विषय है । लक्ष्य की सुन्दर व्यजना के साथ-साथ स्थान-स्थान पर सदाचरण का भी समावेश है । इनमें वर्णित प्रकृति के रम्य रूपों में ईश्वरीय सुषमा व्याप्त-सी दीख पड़ती है ।

इन सभी काव्यों में योगी भावना कार्य कर रही है । ऐसा दीख पड़ता है कि इन साधकों पर योगियों का अपार प्रभाव था । सभी में नायक योगी होकर ही निकले हैं और योग-साधना से ही उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है तथा गोरखनाथ, गोपीनाथ और भर्तृहरि का नाम तो प्रायः देखने में आता है ।^१ यही कारण है कि अद्वैत का प्रतिपादन अच्छा हुआ है ।

भारतीय सूफीमत में बाह्य सूफीमत से अपनी कुछ विशेषतायें हैं । इसमें हिन्दू-मुस्लिम विचारधाराओं के सम्मिश्रण द्वारा निर्गुण-सगुण के समन्वय में जो अद्वैत का पुट दिया गया है उससे ऐसा विचित्र रंग आया है कि देखते ही बनता है । प्रेम-कथाओं द्वारा सूफी सिद्धान्तों का विवेचन बड़ा रुचिकर और ग्राह्य हो गया है । अब अग्रिम कुछ पर्वों में विस्तारत यह बतलाया जायगा कि भारतीय सूफीमत का स्वरूप क्या है और उसके सिद्धान्तों का विवेचन किस प्रकार हुआ है । ✓

^१ तजा राज राजा भा जोगी । औं किंगरी कर गहेउ वियोगी ॥

कथा पहिरि दंड कर कहा । सिद्ध होइ कहं गोरख कहा ॥

—जायसी ग्रन्थावली—पद्मावत, पृ० ५३ ।

जौ भल होत राज और भोगू । गोपिचन्द नहिं साधत जोगू ॥

राजा भरथरि सुना जो जानी । जेहि के घर सोरह सौ रानी ॥

कुच लीन्हे तरवा सह्राई । भा जोगी कोउ संग न लाई ॥

—वही, पद्मावत, पृ० ५५ ।

भसम अंग पग पाँवरी, सीस कलपि करि केस ।

कथ पहिरि लै दड कर, देखन निसर्यो देस ॥

—चित्रावली, पृ० ६८ ।

पहिरि लेहु पग पाँवरी । बोलहु सिरि गोरख ॥

—वही, पृ० ८५ ।

भएउ कुंवर बैरगी भेसू । लाख बैराग भुलान योगेसू ।

—अनुराग बाँसुरी, पृ० ३५ ।

जाकी चितवन भए बेहाथा । नाथ मछन्दर गोरखनाथा ॥

—इन्द्रावती, पृ० ४३ ।

अष्टम पर्व हिन्दी-काव्य में सूफी-सिद्धान्त

पिछले पर्व में यह बतलाया गया है कि हिन्दी साहित्य में सूफीमत के सिद्धान्तों का विवेचन पूर्णतः हम केवल उन काव्यों में पाते हैं जो मुस्लिम साधकों द्वारा प्रेमाख्यान रूप में लिखे गये और यत्र-तत्र अज्ञत उनमें जो अन्य सन्तों द्वारा मुक्तक रूप में लिखे गये। रहस्यवादी प्रेमाख्यानक परम्परा में जायसी एवं नूर मुहम्मद का नाम विशेष उल्लेखनीय है। द्वितीय प्रकार के सन्तों में कबीर, दरिया तथा शाह बरकतुल्ला आदि प्रसिद्ध हैं। जायसी आदि ने प्रेम-कथाएँ लिखते हुए उन्हें अध्यात्मपरक बताकर बीच-बीच में अनेक रहस्यमय सकेतो प्रारा सूफीमत के विभिन्न सिद्धान्तों को क्वचित् प्रत्यक्षतः और क्वचित् अप्रत्यक्षतः प्रतिपादित किया है। कबीर आदि ने प्रायः स्पष्टता को अपनाया है। रहस्य के प्रकटीकरण के लिए प्रतीकों का प्रयोग दोनों ने ही किया है।

हिन्दी साहित्य में इन कवियों के काव्यों में हमें जो कुछ भी सूफीमत मिलता है उसके पर्यालोचन से यह परिणाम निकलता है कि वह मध्य पूर्व के प्रदेशों में सिद्धान्तीभूत सूफीमत से बहुत-कुछ विभिन्नता रखता है और उसकी अपनी विशेषताएँ हैं। इससे पूर्व पर्वों में जो सूफीमत का दिग्दर्शन कराया गया है उसकी अपेक्षा भारतीय सूफीमत में एक सबसे बड़ा प्रभाव हम योगियों का देखते हैं। बाह्यसूफीमत में ध्यानार्थ अनेक आसनो का महत्त्व होते हुए भी हठयोग को कोई स्थान न था। परन्तु जायसी आदि ने इडा आदि नाडियों एवं शून्य आदि का प्रतिपादन कर हठयोग को अपनाया ही है। स्थान-स्थान पर गोरखनाथ, गोपीचंद एवं भर्तृहरि का नाम लेते हुए योग-साधना को श्रेष्ठ बतलाया गया है—

जौ भल होत राज ओ' भोगू । गोपीचंद नहिं साधत जोगू ॥^१

राजा भरथरि सुना जो ज्ञानी । जेहि के घर सोरह से रानी ॥

कुच लीन्हें तरवा सहलाई । भा जोगी, कोउ संग न लाई ॥^२

गोरख सिद्धि दीन्ह तोहि हाथू । तारी गुरु मछंदरनाथू ॥^३ —जायसी

जायसी के अतिरिक्त अन्य सूफियों ने भी इनकी महत्ता को स्वीकार किया है—

^१ जायसी ग्रन्थावली—पद्मावत, पृष्ठ ५५ ।

^२ वही, पद्मावत, पृष्ठ ५५ ।

^३ वही, पद्मावत, पृष्ठ ६८ ।

उपर्युक्त विवरण से हमें ज्ञात होता है कि इन सूफियों पर योगियों का अखंड प्रभाव था। ये वेश को महत्त्व न देकर उमें बाह्य लक्षण मात्र मानते थे। नूरमुहम्मद ने लिखा है कि ईश्वरीय साक्षात्कार के निमित्त वेश कोई मूल्य नहीं रखता। उसके लिए तो वेश-भावना का त्याग करना ही पड़ता है—

भेष किहू वह भीख न पावउँ । तब पावऊँ जब भेष नसावहुं ॥^१

पद्मावती में अलाउद्दीन द्वारा राजा रतनसेन के बन्दी किये जाने पर पद्मावती योगिन होकर अपने प्रिय के पास जाना चाहती है। तब उसकी सखियाँ प्रिय-मिलन के हेतु बाह्य वेश को केवल स्वाग ही बतलाती हैं और कहती हैं कि प्रिय का वियोग ही परम योग है, अजलि ही खप्पर है, दीर्घ उच्छ्वास ही सिंगी का फूँकना है और प्रेम ही गटरमाला है। विरह घघारी है, अलक ही जटा है, प्रिय के पन्थ को पुनः पुनः निहारने वाले चंचल नेत्र ही चक्र हैं तथा सहज परिधान ही कथा है। भूमि ही मृग-छाला है, आकाश ही छत्र है, हृदय की अनुरक्तता ही वस्त्ररजन है, मन माला का फेरना ही मन्त्रजाप है एव शरीर के पंचभूत ही भस्म हैं। और प्रिय कथा का सुनना ही कुण्डल है, चरणों पर छाई धलि ही खडाऊँ तथा गोरा-बादल रूप आश्रय ही अघारी है—

भीख लेहु, जोगिन ! फिरि मांगू । केत न पाइय किए सवांगू ॥
यह बड़ जोग वियोग जो सहना । जे पीउ राखै तेहुं रहना ॥
घर ही सहं रहु भई उदासा । अंजुरी खप्पर सिंगी सांसा ॥
रहै प्रेम मन अरुभा गटा । विरह धंधारि अलक सिर जटा ॥
नेन चक्र हेरे पिउ पंथा । कया जो कापर सोई कंथा ॥
छाला भूमि, गगन सिर छाता । रंग करत रह हिरदय राता ॥
मन माला फेरें तंत ओही । पांचौं भूत भसम तन होहीं ॥

कुडल सोइ सुनु पिउ कथा, पंवरि पांव पर रेहु ।

दंडक गोरा बादलहि, जाइ अघारी सेहु ॥

कबीर आदि सन्त तो वेश के परम विरोधी थे ही। साधना को प्रमुखता देते हुए इन सूफियों ने योगियों से हठयोग की चर्चा को साधनार्थ ग्रहण किया ही है। पूर्व पर्व में बज्रयानी सिद्धों एवं नाथपंथी योगियों की हठयोग सम्बन्धी साधना-पद्धति का विवेचन किया जा चुका है। यहाँ कुछ उद्धरणों से हम यह सिद्ध करेंगे कि इन सूफी साधकों ने उसे कहाँ तक अपनाया।

^१ इन्द्रावती, पृष्ठ २५।

^२ जायसी अन्धावली—पद्मावत, पृष्ठ २७८।

योग के अनुसार पिण्ड में भी ब्रह्माण्ड की कल्पना की गई है। जायसी ने 'जो बरम्हंड सो पिंड है, हेरत अंत न जाहि'^१ इस वचन से इसे स्वीकार किया है। इसलिए बाह्याचार तथा बाह्य उपासना को कोई महत्त्व नहीं दिया गया है। कबीर ने हठयोग को पूर्णतः ही अपनाया है और यत्र-तत्र उसकी विवेचना भी विशदता से की है। एक स्थान पर वे लिखते हैं कि योग-साधना में लीन आत्मा महारस अमृत का उपभोग करती है और आनन्द मनाती है। वह ब्रह्माग्नि में काया को जलाती और ध्यान में अज्ञपा जाप करती है। आसन मारकर त्रिकूट में सहज समाधि द्वारा इन्द्रियों को विषयो से खींच लेती है तथा डडा, पिंगला और सुषुम्ना नाडियों की विभूति से मनोमार्जन कर निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार करती है—

आत्मा अनंदी जोगी, पीवै महारस अमृत भोगी ॥ टेक ॥

ब्रह्म अगनि काया पर जारी। अज्ञपा जाप उनमनीं तारी ॥

त्रिकुट कोट में आसण मांडे। सहज समाधि विषै सब छांडे ॥

त्रिवैरी विभूति करै मन मंजन। जन कबीर प्रभु अलख निरंजन ॥^२

इन चार पंक्तियों में ही हमें योग का सार दीख पड़ता है। 'आत्मा अनन्दी योगी' एवं 'प्रभु अलख निरंजन' इन दो वाक्यों के सामंजस्य से अद्वैत का ही प्रतिपादन हुआ है।

जायसी ने भी शरीर में 'जो ब्रह्माण्डे सो पिंडे, जो पिंडे सो ब्रह्माण्डे' के आधार पर व्यष्टि में समष्टि का निरूपण करते हुए ब्रह्माण्ड के सप्त खण्डों की कल्पना की है। 'पहिल खंड जो सनीचर नाऊ'^३ इसमें प्रथम खण्ड शनीचर से आगे वृहस्पति, मंगल, आदित्य, शुक्र, बुध, और सोम तक सप्त ग्रहों की स्थिति के आधार पर सप्त खंड माने हैं।^४ सबसे नीचे शनिचर और सर्वोपरि सोम है। सप्तम खण्ड सोम है, जो भृकुटि के मध्य कपाल में है। यही ब्रह्मरन्ध्र कहलाता है। वह बन्द रहता है। जो कोई उसे खोलता है वही बड़ा सिद्ध है—

सातवं सोम कपार महं, कहा सो दसवं दुबार।

जो वह पंवरि उघारै, सो बड़ सिद्ध अपार ॥^५

इसी ब्रह्मरन्ध्र में ब्रह्म का वास है। जो कोई खण्डो को क्रमशः लाँघता हुआ

^१ जायसी ग्रन्थावली—अखरावट, पृष्ठ ३०६।

^२ कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १५८।

^३ जायसी ग्रन्थावली—अखरावट, पृष्ठ ३१५।

^४ वही, अखरावट, पृष्ठ ३१५-३१६।

^५ जायसी ग्रन्थावली—अखरावट, पृष्ठ ३१६।

शिखर पर पहुँचता है वही अमृत का पान करता है—

जम सुमेरु पर अमृत मूरी । देखत नियर, चढ़त बड़ि मूरी ॥

नांघि हिंवचल जो तहं जाई । अमृत मूरि पाइ सो खाई ॥^१

परन्तु ब्रह्मरन्ध्र तक पहुँचने का मार्ग बड़ा कठिन है । पहले बतला आये हैं कि योगी कुण्डलिनी नाम की सर्पाकार शक्ति को जागृत कर ऊर्ध्व-प्रसरण कराता है । जो सुषुम्ना नाडी के मध्य से षट्चक्रों को पार करती हुई जाती है । इसकी ऊर्ध्व स्थिति में परम ज्योति का साक्षात्कार होता है । जायसी भी कहते हैं कि शरीरगत, तरीकत, हकीकत और मारिफत नाम की चार सीढ़ियों से खण्डों पर चढ़ा जाता है । इसमें इडा, पिंगला और सुषुम्ना नाडी रूप त्रिवेणी का बड़ा महात्म्य है—

सात खंड औ' चारि निसैनी । अगम चढ़ाव, पंथ तिरवेनी ॥^२

'चार निसैनी' से हठयोग के अष्टांगों में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि माने जा सकते हैं । अष्टांगों में शरीर-संयम के लिए प्राणायाम का बड़ा महत्त्व है । जायसी ने 'पौन बाँध सो जोगी जती'^३ कहकर प्राणायाम के साधक को ही योगी कहा है । इस प्राणायाम में इडा और पिंगला नाडियों का प्रधान कार्य है । ये ही श्वसोच्छ्वास पर साधना द्वारा विजय दिलाती हैं । श्वास-संयमन के पश्चात् सुषुम्ना नाडी के मार्ग से शक्ति ऊर्ध्व-गमन करती है । इसी में योगी के योग की सफलता है ।

जब साधक की चेतना-शक्ति ब्रह्मरन्ध्र में पहुँचती है तो उसे अनाहत नाद सुनाई पड़ता है । जायसी ने सिंहलगढ को शिवलोक बतलाते हुए 'नव पौरी पर दशम दुआरा । तेहि पर बाज राज घरियारा'^४ द्वारा दशम द्वार पर बजते हुए राज घड़ियाल से ब्रह्मरन्ध्र में अनाहत शब्द की ही व्यजना की है । नूर मुहम्मद ने भी अनाहत नाद का उल्लेख करते हुए सिद्ध पुरुष को ही उसके श्रवण योग्य बतलाया है—

नाद अनाहद अंहद, सुनै अनाहद कौन ।

सिद्ध होइ अपने गन, सुनै अनाहद तौन ॥^५

इस उपर्युक्त विवेचन से यह प्रमाणित हो जाता है कि सिद्ध और नाथपंथी योगियों द्वारा गृहीत हठयोग की परम्परा को किस सीमा तक इन सूफी सन्तों ने अपनाया । परन्तु यह ध्यान देने योग्य बात है कि इन सन्तों ने हठयोग को राजयोग की सिद्धि का साधन ही माना है ।

^१ जायसी ग्रन्थावली—अखरावट, पृष्ठ ३१५ ।

^२ वही, अखरावट, पृष्ठ ३२० ।

^३ वही, पद्मावत, पृष्ठ ७५ ।

^४ जायसी ग्रन्थावली—पद्मावत, पृष्ठ १६ ।

^५ इन्द्रावती, पृष्ठ १२१ ।

इन सूफियों ने ईश्वर, जीव एव जगत् की व्याख्या करते हुए जीव को ईश्वरीय अंश तथा जगत् को ईश्वरीय प्रदर्शन माना है। सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न मतानुसार अनेक प्रवाद हैं परन्तु इन्होंने शून्य से ही इसकी उत्पत्ति मानी है। बौद्धों के 'न कुछ' प्रयोजन वाले शून्यवाद से इनका शून्यवाद भिन्न है। इनके मतानुसार शून्य से तात्पर्य ब्रह्म ही है। जायसी ने 'सुन्नहि ते उपजे सब कोई। पुनि विलाइ सब सुन्नहि होई'^१ कहकर शून्य से ही सबकी उत्पत्ति और उसी में सब का लय माना है। आगे इसी शून्य को ब्रह्म कहते हुए जीव को उसका अंश बतलाते हैं—

जा जानहु जिउ बसै सो तहंवां। रहै कवल हिय संपुट जहंवां ॥

दीपक जँस बरत हिय आरे। सब घर उजियर तेहि उजियारे ॥

तेहि महं अंस समानेउ आई। सुन्न सहज मिलि आवै जाई ॥^२

अर्थात् सुषुम्ना नाडी पर हृदय-कमल में जीव का वास है। हृदयालय में वह दीपक की भाँति जगमगाता है, जिससे समस्त शरीर-सदन प्रकाशित होता रहता है। उसमें ब्रह्म का ही अंश समाया हुआ है अतः निर्गुण ब्रह्म ही अव्यक्त रूप से आता-जाता है। यहाँ पर हृदय में जीव के वास से तात्पर्य किसी निश्चित स्थान में जीव की सत्ता से नहीं है वरन् शरीर-यंत्र में इसके प्राधान्य की अपेक्षा से ही ऐसा कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि जीव ब्रह्म से भिन्न सत्ता नहीं रखता प्रत्युत् ब्रह्म ही अंश रूप से शरीर में रहा हुआ है और उसी का कायाबद्ध अंश जीव के नाम से पुकारा जाता है। जीवों की अनेकरूपता और बहुसंख्यता नामरूपोपाधि भेद से ही है। शाह बरकतुल्ला^३ ने ज्ञानी लोगों को सम्बोधन करते हुए कहा है कि 'हम और ईश्वर एक ही हैं, यथा बीज और वृक्ष, तन्तु और वस्त्र एव उदधि और तरंग भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हुए भी वस्तुतः एक ही हैं दो नहीं।

अद्वैत में ब्रह्म की ही केवल एक सत्ता का प्रतिपादन है। परन्तु विश्व की व्याख्या के लिए माया का विधान भी बड़ा महत्त्व रखता है। यहाँ तक कि 'मायी सृजते विश्वमेतत्'^४ कहकर उस सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म को मायावी कहा गया है। यह इस विश्व-प्रपञ्च का माया से ही सृजन कर माया से ही स्वयं अन्य-सा होकर स्थित रहता है। प्रकृति ही माया है जो विक्षेप तथा आवरण-शक्ति में एक को अनेक रूप

१ जायसी ग्रन्थावली—अखरावट, पृष्ठ ३२४।

२ वही, अखरावट, पृष्ठ ३२५।

३ शाह बरकतुल्लाज्ज कौट्टीब्यूशन टू हिन्दी लिट्रेचर (भाग १), प्रेमप्रकाश, दो० ११८-१९।

४ श्वेताश्वतरोपनिषद, ४, ९।

करके दिखाती है। दृश्य जगत् ब्रह्म से अविच्छिन्न कोई सत्ता नहीं रखता बरन् अग्नि में से निकले हुए स्फुल्लिगो की भाँति वही है। इसलिए यह सब उसी का रूप है।

इन सूफियों ने इस अद्वैत को अपनाया तो सही परन्तु माया को महत्त्व न दिया।^१ जायसी ने 'माया अलाउद्दी सुलतानू' कहकर स्पष्ट माया का उल्लेख किया है। नागमती को भी दुनिया-धन्धा ही बतलाया है, जो माया का ही प्रतिरूप है। इसी प्रकार अन्य प्रेममार्गी साधको ने भी नायिका की सपत्नियों एव मासूकों द्वारा माया का आभास दिया है। परन्तु जिस अर्थ में अद्वैत में माया का प्रयोग हुआ है उस अर्थ में उन्होंने नहीं किया है। कबीर इस विषय में अवश्य इनसे भिन्न है। उन्होंने माया का प्रतिपादन अद्वैत मतानुसार ही किया है परन्तु माया को भी 'आप ब्रह्म जीव माया' कहकर ब्रह्म का ही प्रतिरूप बतलाया है।^२ प्रेममार्गी सूफियों ने माया का अर्थ भ्रम अथवा मिथ्यात्व न लेकर जगत्-प्रपंच ही लिया है, ऐसा प्रेमकथाओं से प्रतीत होता है। अखरावट में भी जायसी ने लिखा है—

माया जरि अस आपुहि खोई। रहे न पाप, मंलि गइ धोई ॥

गौं दूसर भा सुन्नहि सुन्नू। कहं कर पाप, कहां कर पुन्नू ॥^३

अर्थात् माया के नष्ट होने पर अपने आपवो ऐसे खो दे जिससे पाप पुण्य न रहें, मलिनता नष्ट हो जाय। उसमान ने भी माया पवन के झकोरे से हृदय-भवन में दीप्त ज्ञान-दीप का निर्वापण लिखा है—

हिरदं भवन घरी डुइ जारा। दीपक ग्यान कीन्ह उजियारा।

पुनि जो माया पौन झकोरा। बुझा दीप मिट गयो अंजोरा ॥^४

नूर मुहम्मद ने भी अनुराग बाँसुरी में लिखा है कि वैरागी नाना स्थानों में भ्रमण करता है और ईश्वरीय सृष्टि से बहुविध ज्ञान का उपाजन करता है तथापि मन माया से परिपूर्ण ही रहता है और आश्रय-स्थान के लिए लालायित रहता है—

तबहुं या मन माया-भरा। ठाँव लागि अनुरागी परा ॥^५

इस प्रकार हम देखते हैं कि इन सूफियों ने माया का अर्थ जगत्-प्रपंच ही लिया है जो मन को लुभाकर आत्मा को अपने मूलस्रोत से पृथक् रूप देने में सहायक होता है। इससे इन्होंने मायावाद को इसी रूप में अपनाया है कि दृश्य जगत् ब्रह्म का

१ जायसी ग्रन्थावली—पद्मावत, पृष्ठ ३०१।

२ कबीर वचनावली, पृष्ठ २०३।

३ जायसी ग्रन्थावली—अखरावट, पृष्ठ ३३४।

४ चित्रावली, पृष्ठ २०।

५ अनुराग बाँसुरी, पृष्ठ २३।

प्रदर्शन अथवा अभिव्यक्ति है। यह उसी से उत्पन्न हुआ है अतः सत्ता में होता हुआ भी उसी का प्रतिरूप है। यह नश्वर है, ब्रह्म में ही इसका लय है परन्तु भ्रम या मिथ्या रूप नहीं है। जहाँ भी इन्होंने संसार के लिए भ्रम रूप लिखा है, वहाँ यही तात्पर्य है कि अध्यात्म की दृष्टि से वह सत्य नहीं है। चित् और अचित् दोनों ही ब्रह्म के रूप हैं अतः दृश्य-जगत् ब्रह्म का ही रूप होने के कारण निराधार नहीं कहलाया जा सकता। नाम और रूप नश्वर हैं, किन्तु इनका आधार परम सत्ता है जो कूटस्थ है। इसीलिए सूफी लौकिक प्रेम को अध्यात्म प्रेम का साधन मानते हैं। नाम और रूप तिरस्करणीय नहीं किन्तु उपयोगी पदार्थ हैं, जिनकी सहायता से आत्म-सत्ता का बोध प्राप्त होता है। लोक-प्रेम के सादृश्य से आत्मरति की अभिव्यक्ति होती है और जब साधक अध्यात्म-प्रेम में संलग्न हो जाता है तब उपमेय का निगरण होकर उपमान का साक्षात्कार होता है तथा आत्मरति प्राप्त होती है। इस रति का अधिष्ठान स्वयं आत्मा है, जो अद्वैत-वादियों अथवा सूफियों का एक परम रहस्य है। शैतान की वंचना से ही ईश्वर से पृथक् करके माया को इन्होंने शैतान रूप बताया है।

ईश्वरीय अंशरूप जीवात्मा संसार-प्रपंच में फँसता है और अपने को प्रायः ईश्वर से भिन्न समझता है परन्तु उद्गम को भूल नहीं पाता। सदैव उसे अपने पूर्व अनन्त सौन्दर्य और अनन्त ऐश्वर्य की स्मृति आती रहती है जिससे ईश्वरीय जमाल (सौन्दर्य और माधुर्य पक्ष) तथा जलाल (प्रताप और ऐश्वर्य पक्ष) को खोकर पछताता रहता है—

छोड़ि जमाल जलालहिं रोवा । कौन ठाँव तें देउ बिछोवा ॥^१

यह पछतावा ही उसमें प्रेम की पीर जगा देता है और सदैव उसके विरह में तड़पने का कारण होता है। जीव ईश्वर का ही अंश है अतः ईश्वर भी उससे एकरूपता प्राप्त करने के लिए विकल रहता है। सूफियों में अद्वैत से यह एक बड़ी विशेषता है, ईश्वर को जहाँ निराकार माना गया है वहाँ उसे अनन्त सौन्दर्य और प्रेमरूप भी माना गया है। उसने स्वयं अपने सौन्दर्य पर मुग्ध होकर सृष्टि का सृजन किया है। इस प्रकार अपने सौन्दर्य का प्रम ही सृष्टि का कारण हुआ है। प्रथम मुहम्मद अथवा 'आदर्श पुरुष' का संकल्प किया और उस संकल्प पुरुष के प्रीत्यर्थ सृष्टि का निर्माण किया। अल्लाह में मनुष्य के निमित्त यह मधुर भाव की प्रतीति भारतवर्ष की सगुण भक्ति की परम्परा से बहुत-कुछ मिलती-जुलती है। भारतीय पद्धति में भी नारायण नर के लिए चिन्तन करता है और नर-नारायण का यह जोड़ा भक्ति मार्ग में सदैव से प्रसिद्ध है।

^१ जायसी ग्रन्थावली—अखरावट, पृष्ठ ३०८ ।

सभी प्रेमाख्यानक काव्यों में साधक के साथ हमें साव्य भी विरह-विकल दीख पड़ता है। इसीलिए इन्होंने ईश्वर को प्रेम ही नाम दे दिया है। शाह बरकतुल्ला ने लिखा है कि वही प्रियतम है, वही प्रेमी है और वही प्रेम है—

कहीं माशूक कर जानां कहीं आशिक सितानां माना ।

कहीं खुद इश्क ठहराना सुनो लोगों सुखा बानी ॥^१

इन सूफियों ने निराकार ईश्वर को साकार रूप दिये बिना ही उसमें जो माधुर्य रस की अभिव्यंजना की वह स्तुत्य है, क्योंकि भारतीय भक्ति-मार्ग में निराकार ईश्वर साकार होने से नहीं बच सका है। प्रसगवश सूफियों ने अपने हिन्दी काव्य में जहाँ भी इस्लामी प्रथाओं एवं मान्यताओं का उल्लेख किया है वहाँ हमें इस भ्रम में पड़ना चाहिए कि इनका ये इसी रूप में अर्थ करते हैं जिस रूप में शरीअत के मानने वाले। इस्लामी शरीअत के मानने वाले अपने धर्म-ग्रन्थों का अर्थ अभिधामूलक करते हैं, किन्तु सूफियों को अभिधामूलक अर्थ अर्थात् वाच्यार्थ मान्य नहीं। वे उनका व्यंग्यार्थ ग्रहण करते हैं। इसलिए सामान्य शब्द होते हुए भी सूफियों के मतानुसार अर्थ-भेद की स्वीकृति कर लेना परमावश्यक है। इसीलिए हमने मुहम्मद साहब को आदर्श पुरुष कहा है।

इस प्रकार इन्होंने इस्लाम के ही एकेश्वरवाद के आधार पर एक ईश्वर को माना परन्तु उसमें तत्कालीन भक्ति-धाराओं से जल-कण ले लेकर अपनी प्रेम-सरिता को प्रवाहित किया। योगियों और सिद्धों के प्रभाव के अतिरिक्त इन पर अद्वैत का प्रभाव था। परन्तु जिस रूप में इन्होंने इसको ग्रहण किया उसका सूक्ष्म प्रतिपादन कर दिया गया है। इनके अतिरिक्त इन्होंने हठयोग के साथ-साथ तंत्र और रसायन-विद्या से इष्ट सिद्धियों का भी उल्लेख किया है, जो साधक को प्राप्त होती रहती हैं। जायसी ने महादेवजी से रत्नसेन को सिद्धि गुटिका दिलवाई है।^२ उसमान ने भी सुजान को प्रस्थान के समय नेत्रों में लुकअजन और मुख में गुटिका का प्रयोग करते हुए लिखा है।^३ नूरमुहम्मद भी अनुराग बाँसुरी में सर्वमंगला के वर्णनमात्र से कुँवर पर टोने

^१ शाह बरकतुल्लाज्ज कौन्ट्रीब्यूशन टू हिन्दी लिट्रेचर (प्रथम भाग), प्रेमप्रकाश, पृष्ठ १३३।

^२ जब संकर सिधि दीन्ह गुटेका। परी हूल, जोगिन्ह गढ़ छंका ॥

—जायसी ग्रन्थावली—पद्मावत, पृष्ठ ६४।

^३ नैनन्ह महं तुल अंजन दीन्हा। ओं मुख घालि गोटिका लीन्हा ॥

—चित्रावली, पृष्ठ ८६।

तथा मन्त्र का-सा प्रभाव बतलाते हुए उनके महत्त्व को मानते ही हैं।¹ परन्तु इसमें यह नहीं समझना चाहिए कि इन साधकों ने उन्हें साधक का अग्र माना है। वे इनके चमत्कारों में विश्वास तो रखते ही हैं परन्तु इन्हें साधना के गौण परिणाम ही मानते हैं। मुख्य लक्ष्य और सिद्धि तो ईश्वर रूप इष्ट की प्राप्ति ही है।

उपर्युक्त विवेचन से हमें इनके विचार-समन्वय का पता चल गया है। अब आगे ईश्वर, जीव एव जगत् के स्वरूप को बतलाकर इन सूफियों की साधना पर प्रकाश डाला जायगा।

¹ मानहुं पढ़ा कांवरू टोना । भा बाउर वह कुंवर सलोना ॥
मनु नरसिंही मंत्र जगावा । पढ़ा कुंवर पर, चेल भुलावा ॥

नवम पर्व हिन्दी सूफी काव्य में निराकार देव की उपासना

इस्लाम में एकेश्वरवाद की मान्यता है और सूफीमत में अद्वैतवाद की । एकेश्वरवाद से तात्पर्य एक ईश्वर की सर्वोपरि सत्ता का मानना है । वह विश्व का विश्वात्मा है, परम देव है, और जीव, प्रकृति का विधाता, पालयिता एवं संहारकर्ता भी वही है । वह सबसे पृथक् भी सबका जनक है । उसकी इच्छा ही जगत् का मूल कारण है । अनेक देव उसकी इच्छा पर विश्व का संचालन करते और अविनाश आज्ञा-पालन में लीन रहते हैं । प्रलयोपरान्त निर्णय के दिन का स्वामी भी वही है । विश्वोत्पत्ति की इच्छा में मुहम्मद साहब का विशेष प्राधान्य है । निर्णय के दिन भी उन्हें ही मध्यस्थ का कार्य करना पड़ता है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि एकेश्वरवाद दृश्य-जगत् की सत्ता को पूर्णतः मानता हुआ अदृश्य जगत् की सत्ता को भी मानता है । यह सत्ता मायाजन्य नहीं वरन् वास्तविक है । सब कुछ ईश्वर ने ही उत्पन्न किया है परन्तु ईश्वर से पृथक् है । आकाश-नैल्य एव प्रकाश से अन्धकार में आने पर नेत्रों के समक्ष तैरते हुए-से तिलमिलों की भाँति यह भ्रम नहीं है । जीवों का उद्गम भी ईश्वर ही है परन्तु पुनः वे भिन्न रूप ही हैं । विश्व-संचालन में हाथ बँटाने वाले फरिश्ते (देव) भी ईश्वरीय सृष्टि होते हुए भी पृथक् सत्ता रखते हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें ईश्वर, जीव, एव जगत् की पृथक्-पृथक् सत्ता को माना ही गया है । परन्तु अद्वैतवाद में ऐसा नहीं है । हम अद्वैत को भ्रमवाद कह सकते हैं । इसके अनुसार एक ब्रह्म की ही वास्तविक सत्ता है । शेष चराचर जगत् मायावश उसी से उत्पन्न हुआ है और उसी में विलीन हो जाता है । अतः ब्रह्म से उसका अभेद है । जिस प्रकार अग्नि और स्फूर्लिंग तथा जल और जल-बिन्दु में कोई अन्तर नहीं है उसी प्रकार ब्रह्म से निःसृत सृष्टि और मूल स्रोत में कोई अन्तर नहीं । यही कारण है कि नामरूपात्मक दृश्य जगत् की व्याख्या के निमित्त इसमें 'प्रतिबिम्बवाद', 'विवर्तवाद' आदि वार्दों तथा 'कनक कुण्डल न्याय' आदि न्यायों का समावेश किया गया है । ब्रह्म बिम्ब है और जगत् उसका प्रतिबिम्ब, अतः यह विवर्त अथवा विकार है । वास्तव में यह सब एक सुवर्ण से निर्मित कुण्डल, ककण एव काची प्रभृति आभूषणों के समान है । जिस प्रकार स्वर्ण से आभूषणों की नाम-रूप के अतिरिक्त कोई पृथक् सत्ता नहीं उसी प्रकार ब्रह्म से भिन्न इसकी भी कोई सत्ता नहीं । नाम-रूप भी उपाधि मात्र है ।

सूफी साधकों ने उपासनार्थ निराकार ब्रह्म को ही अपनाया है परन्तु उनकी

उपासना प्रेम-प्रधान है। इसकी अभिव्यक्ति के लिए उन्हें साकार का आश्रय लेना पड़ा है। किन्तु साकार केवल वाचारम्भण है। तत्त्वत उपास्य देव निराकार हैं। यही सूफीमत की भारतीय भक्ति मार्ग से विशेषता है।

अब हम हिन्दी काव्य के आधार पर सूफियों द्वारा प्रतिपादित ईश्वर के स्वरूप की विवेचना करते हैं।

ईश्वर एक है। उसके समान दूसरा नहीं है अतः वह अद्वितीय है। उसका कोई स्थान नहीं है और न कोई स्थान उससे रिक्त है। वह रूप-रेख से हीन तथा निर्मल है।

हैं नाहिं कोई ताकर रूपा । ना ओहि सन कोइ आहि अनूपा ॥

ना ओहि ठाऊं, न ओहि बिन ठाऊं । रूप रेख बिन निरमल नाऊं ॥^१

वह सृष्टि का कर्त्ता है और इस विषय में अकेला ही है। वह हमारी प्रकट और गुप्त सभी बातों को जानता है अतः सर्वज्ञ है। उसी ने धावापृथ्वी तथा सूर्य-चन्द्र का स्रजन किया है। उसके समान दूसरा नहीं है—

अहइ अकेल सो सिरजनहारा । जानत परगट गुपुत हमारा ॥

कीन्ह गगन रवि सीस महि मेरा । कोउ नाहीं जोरी तेहि केरा ॥^२

उस ईश्वर ने सर्वप्रथम मुहम्मद रूप ज्योति का प्रकाश किया और उसी के प्रीत्यर्थ संसार का निर्माण किया। पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि की सृष्टि उसी ने की है तथा दृश्यमान विविध चित्र उसी ने बनाए हैं। मर्त्य, ऊर्ध्व और अधोलोक तथा उनमें नाना जीवों की उत्पत्ति का उद्गम वही है। सूर्य, चन्द्र और तारे उसी की सृष्टि हैं। अतः अहोरात्र का कर्त्ता वही है। ताप, शीत और छाया उसी की इच्छा के फल हैं तथा चमकती हुई विद्युत्लता से युक्त मेघमाला भी उसी की लीला का फल है। सप्त-भूमियों से युक्त ब्रह्माण्ड तथा चौदहों भुवनों की उत्पत्ति उसी से हुई है—

कीन्हेसि प्रथम ज्योति, परकासू । कीन्हेसि तेहि पिरीत कैलासू ॥

कीन्हेसि अग्नि, पवन, जल, खेहा । कीन्हेसि बहुते रंग उरेहा ॥

कीन्हेसि धरती, सरग, पतारू । कीन्हेसि बरन बरन औतारू ॥

कीन्हेसि दिन, दिनअर, ससि, राती । कीन्हेसि नखत तराइन पांती ॥

कीन्हेसि धूप, सीउ और छांहा । कीन्हेसि मेघ, बीजू तेहि मांहा ॥

कीन्हेसि सप्त मही बरम्हंडा । कीन्हेसि भुवन चौदहौ खंडा ॥^३

इन सब को उसने इच्छामात्र से किया। उसकी इच्छा में बाधा डालने वाला

^१ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृ० ३ ।

^२ इन्द्रावती, पृ० १ ।

^३ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृ० १ ।

कोई नहीं अतः वह जो चाहता है वही करता है। भौतिक शरीर में प्राण डालने वाला भी वही है—

जो चाहा सो कीन्हेसि, करे जो चाहै कीन्ह ।

बरजनहार न कोई, सबे चाहि जिउ दीन्ह ॥^१

नूरमुहम्मद ने “है जेहि नाद जगत यह करो”^२ से परोक्षतः यह कहा है कि ईश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति ‘कुन’ शब्द से की। परन्तु इस से यह नहीं समझना चाहिए कि ईश्वर साकार है। नूरमुहम्मद ने अपने को पक्का मुहम्मदी लिखा है अतः उन्होंने इस सिद्धान्त को कुरान से ही ग्रहण किया, परन्तु इस से तात्पर्य अव्यक्त शब्द से ही है। उसमान ने भी इच्छामात्र को ही सर्वोपरि कहा है।—

सो सब कीन्ह जो चाहा, कीन्ह चहै सो होय ॥^३

इस सम्पूर्ण संसार के सृजन में उसे क्षण भी नहीं लगा। सब को पल मात्र में ही बना डाला। बिना स्तम्भ और टेकों के ही इस आकाश को तान दिया—

निमिख न लागत करत ओहि, सबे कीन्ह पल एक ।

गगन अंतरिख राखा, बाज खंभ बिनु टेक ॥^४

कबीर ने भी ईश्वर को एक निर्जीव तख्तर कहा है जिस में दृश्य-जगत् के नाना पदार्थ प्रकट हुए अनन्त फलों के समान हैं—

भोमि बिना अरु बीज बिन, तख्तर एक भाई ।

अनन्त फल प्रकासिया, गुरु दीया बताई ॥^५

वह सम्पूर्ण विश्व का लक्ष्मण है परन्तु स्वयं अजन्मा है। भाँति-भाँति के रूपों को बनाया है परन्तु स्वयं अवर्ण और अरूप है—

सो करता जेहि काहु न कीन्ह ॥^६

× ×

कीन्हेसि रूप वरन जहं ताई । आपु अवरन अरूप गुसाई ॥^७

जायसी ने भी लिखा है कि वह ईश्वर सृष्टि का कर्ता होता हुआ भी अलक्ष्य,

१ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृ० ३ ।

२ अनुराग बाँसुरी, पृ० ४६ ।

३ चित्रावली, पृ० २ ।

४ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृ० २ ।

५ कबीर ग्रन्थावली, पृ० १३६ ।

६ चित्रावली, पृ० २ ।

७ वही, पृ० १ ।

अरूप और अवर्ण है । यह प्रकट भी है और गुप्त भी परन्तु सर्वव्यापी है । उसे उन्मार्गी नहीं जान सकता । न उसके पिता हैं न माता और न कोई पुत्र । उसका सगा-सम्बन्धी भी कोई नहीं है । उसे किसी ने नहीं बनाया है । वह सृष्टि से पूर्व भी था और अब भी है । सृष्टि के उपरान्त भी वह रहेगा । अतः वह अनादि और अनन्त है—

अलख अरूप अवरन सो कर्ता ।

परगट गुप्त सो सरव वियापी । धरमी चीन्ह, न चीन्ह पापी ॥

ना ओहि पूत न पिता न माता । ना ओहि कुटुब न कोई संग नाता ॥

वे सब कीन्ह जहाँ लगी कोई । वह नहिं कीन्ह काहु कर होई ॥

हुत पहिले अरु अब है सोई । पुनि सो रहै रहै नहिं कोई ॥^१

नूर मुहम्मद ने भी उस कर्ता को एक बतलाकर कहा कि उसे किसी ने उत्पन्न नहीं किया और न कोई उसके समान है—

सिर्जन हार एक है, काहू जना न सोइ ।

आप न काहू सों जना, वह समान नहिं कोइ ॥^२

सम्पूर्ण विश्व का वह स्रष्टा है परन्तु किसी विशेष स्थान पर आसीन नहीं है । सभी में समान रूप से व्याप्त है—

अग्नि पवन रज पानि के, भांति-भांति व्योहार ।

आपु रहा सब मांहि मिलि, को निगरावै पार ॥^३

वह सबके भीतर भी है और बाहर भी । सब कुछ वही है, दूसरा और कोई कुछ नहीं है । यथा समुद्र में लहरे उठती हैं परन्तु वे उस से भिन्न नहीं हैं उसी प्रकार यह जगत् भी उसी से उत्पन्न हुआ है अतः भिन्न नहीं—

सब वहि भीतर वह सब मांहि । सब आपु दूसर कोउ नाहीं ॥

दूसर जगत नाम जिन पावा । जैसे लहरी उदधि कहावा ॥

ज्ञान नैन जो देखै कोई । वारिध बिना आन नहीं होई ॥^४

शाह बरकतुल्ला इस अभिन्नता को द्योतित करने के लिए ईश्वर को विभु बतलाते हुए कहते हैं कि वह हम सब में इस प्रकार व्याप्त हो रहा है जिस प्रकार वस्त्र में तन्तु—

१ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृ० ३ ।

२ इन्द्रावली, पृ० १३६ ।

३ चित्रावली, पृ० १ ।

४ चित्रावली, पृ० १ ।

इल्लल्लाह बिकुल्लशे, ऐसैं भयो मुहीत ।

रुई तार ज्यो चीर मे, त्यो जग मे जग मीत ॥^१

कबीर ने इसी बात को इस प्रकार कहा है कि ईश्वर विश्व में और विश्व ईश्वर में रमा हुआ है । अतः वह घट-घटवासी है—

खालिक खलक खलक मे खालिक, सब घट रह्यौ समाई ।^२

उन्होंने ईश्वर को कबीर ही बतलाकर लिखा है कि 'हम' सब में है और 'सब' हम में है । इस से भिन्न दूसरा कुछ नहीं । तीनों लोको में हमारा ही प्रसार है । जन्म-मरण हमारा ही खेल है । पददर्शनों में हमारा ही स्वरूप वर्णित है । हमारे न रूप है और न रेख । हमी स्वयं अपने आपको देखते हैं—

हम सब मांहि सकल हम मांही । हम थैं और दूसरा नाही ॥

तीनि लोक मे हमारा पसारा । आवागमन सब खेल हमारा ॥

खट दरसन कहियत हम भेखा । हमहीं अतीत रूप नहीं रेखा ॥

हमहीं आप कबीर कहावा । हमही अपनाँ आप लखावा ॥^३

इस प्रकार ईश्वर की विभूता बतलाकर अद्वैत का प्रतिपादन किया गया है । जायसी ने भी लिखा है कि मैंने जाना कि तुम मेरे में व्याप्त हो और जब मैं ध्यानपूर्वक देखता हूँ तो ज्ञात होता है कि तुम सर्वत्र विद्यमान हो—

मैं जानेउं तुम मोही मांहा । देखौं ताकि तौ हौं सब पाहां ॥^४

दादू का कथन है कि वह ईश्वर सब में इस प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार तिलो में तेल, पुष्पो में सुगन्ध और दूध में मक्खन—

जीये तेल तिलनि में, जीयें गंधि फुलनि ।

जीयें माखण घीर मे, ईयें रव रहनि ॥^५

ऐसा होने से वह सभी पदार्थों में रमा हुआ है परन्तु इस से यह नहीं समझना चाहिए कि वह पदार्थों से भिन्न एक शक्ति है । वह सब में व्याप्त हुआ भी सब का उपादान कारण है । यारी ने कहा है कि सुवर्ण से यदि कोई आभूषण बनाया जाय तो वह अपने मूल से भिन्न नहीं हो जाता है वरन् उन दोनों में एकरूपता ही है । स्वर्ण

^१ शाह बरकतुल्लाज कौट्टीव्यूशन टू हिन्दी लिट्रेचर (प्रथम भाग), प्रेमप्रकाश, पृ० ६ ।

^२ कबीर ग्रन्थावली, पृ० १०४ ।

^३ कबीर ग्रन्थावली, पृ० २००-२०१ ।

^४ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृ० ३७ ।

^५ सन्तवानी संग्रह (पहला भाग), पृ० ८५ ।

के मध्य भूषण और भूषण के मध्य स्वर्ण है । कहने का तात्पर्य यह है कि नामरूपो-पाधि रूप ही भेद है, वास्तविक कोई भेद नहीं—

गहने के गढ़ें कहीं सोनो भी जातु है ।

सोनो बीच गहनो और गहनो बीच सोनो है ॥^१

बुल्लेशाह ने भी यही लिखा है कि मुनार से आप गहने गढवाइये परन्तु इन मे आकृति के अतिरिक्त मूलतः कोई भेद नहीं । इसी प्रकार सम्पूर्ण संसार मे दृश्यमान पदार्थो मे वही व्याप्त है, उसी के ये सब प्रदर्शित बाह्य रूप है । ध्यानपूर्वक देखा जाय तो एक रूप के अतिरिक्त अन्य कोई रूप दृष्टिगोचर नहीं होता—

बुल्ला चल्ल सुन्यार दे, जित्थे गहना घड़िये लाख ।

सूरत आपो आपनी, तू इको रूप ये आख ॥^२

उसकी व्याप्तता अन्त और बाह्य दोनो रूप से है । केवल यह नहीं कि पदार्थो के मध्य तो है पर बाह्याकाश मे नहीं । वह सर्वत्र अलक्ष्य रूप में अविच्छिन्नता से रहा हुआ है । बाल का शताश स्थान भी ऐसा नहीं जहाँ पर वह नहीं है । जिस प्रकार जल में घट और घट मे जल हो तो उसके बाहर-भीतर जल हो जल होता है । परन्तु जब घट का विनाश हो जाता है तो जल, जल मे ही समा जाता है । इस से यह नहीं समझना चाहिए कि घट के भीतर और बाहर रहे हुए जल मे भिन्नता थी और घट ध्वस्त होने पर उन जलों मे एकरूपता हुई । वास्तव मे उन में कोई भेद न था, केवल आधार-भेद ही था जो उपाधि रूप है—

जल में कुंभ कुंभ मे जल है, बाहरि भीतरि पांनिं ।

फूटा कुंभ जल जलहि समाना, यहू तत कथौ गियानी ॥^३

ईश्वर की विभुता से यह नहीं समझना चाहिए कि वह कोई साकार शक्ति है जो सर्वत्र एकरूप से तनी हुई है । बुल्ला साहिब का कथन है कि वह सब का आधार होता हुआ भी स्वयं निराधार है । उसका स्वरूप अनन्त है अतः वचनातीत है । परन्तु सभी के विन्दु-प्रदेश मे वह विराजित है अतः वही गवेषणीय है—

प्रभु निराधार अधार उज्जल, विन्दु सकल विराजई ।

अनन्त रूप सरूप तेरो, मौ पै वरनि न जावई ॥^४

इस से प्रतीत होता है वह निराकार है । यही कारण है कि उसके स्वरूप का

^१ सन्तवानी संग्रह (पहला भाग), पृ० १४७ ।

^२ सन्तवानी संग्रह (पहला भाग), पृ० १५२ ।

^३ तबीर ग्रन्थावली, पृ० १०३ ।

^४ सन्तवानी संग्रह (पहला भाग), पृ० १७३ ।

चिन्तन अनेकों ने किया है पर कोई नहीं कर पाया है—

सब चित्तरे चित्र के हारे । ओहिक रूप कोइ लिखे न पारे ॥^१

उसके जीव नहीं है फिर भी जोता है, हाथ न होते हुए भी रचना करता है, जिह्वा बिना भी सब कुछ बोलता है और शरीर के अभाव में भी सर्वत्र विद्यमान है । अशरीरी होने से इन्द्रियों से हीन है तथापि सुनता और देखता है । हृदय के अभाव में भी सब कुछ गुनता है । आश्चर्य तो यह है कि सर्वत्र सत्तावान् होता हुआ भी न तो पदार्थों से सगठित है और न विघटित । एकरूप से सर्वत्र अविरल व्याप रहा है । जिनकी अन्तर्दृष्टि खुली हुई है वे उसे देख पाते हैं परन्तु जो ज्ञानशून्य हैं उनके लिए वह अत्यन्त दूर है—

जीउ नाहि, पै जियै गुसाई । कर नाहीं, पै करै सबाई ॥

जीभ नाहि, पै सब किछु बोला । तन नाहीं, सब बाहर डोला ॥

स्वन नाहि, पै सब किछु सुना । हिया नाहि, पै सब किछु गुना ॥

नयन नाहि पै सब किछु देखा । कौन भाँति अस जाइ विसेखा ॥

ना वह मिला न बेहरा, ऐस रहा भरपूरि ।

दीठिबंत कहँ नीयरे, अंध मूर्खहि दूरि ॥^२

ऐसा निराकार ईश्वर ही सब में रम रहा है । ऐसा तनिक भी स्थान नहीं जहाँ वह नहीं । उसी ने सम्पूर्ण विश्व का सृजन किया है परन्तु उसे कोई जान नहीं सका है—

सोई करता रमि रहा, रोम रोम सब माँहि ।

तिन सब कीन्ह सिरिष्ट यह, गाहक कीन्हो नाहि ॥^३

विश्व का स्रष्टा और व्यापक शक्ति होते हुए भी ईश्वर दृश्यमान् जगत् से भिन्न नहीं है । यह सम्पूर्ण जगत् उसी का प्रदर्शन है । उस से भिन्न और कुछ नहीं है—

परगट गुपुत विधाता सोई । दूसर और जगत नाहि कोई ॥^४

जायसी ने भी लिखा है कि इस ससार सागर में वही एक जल है और नाना योनियों में वही प्रकट हुआ है । प्राणियों में जीव उसी का अंश है । नानाविध पदार्थों में वही क्रीड़ा कर रहा है—

रहा जो एक जल गुपुत समुंदा । बरसा सहस अठारह बुंदा ।

सोई अंस घटं घट मेला । औ सोइ वरन होइ खेला ॥^५

^१ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृ० २०६ ।

^२ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृ० ३ ।

^३ चित्रावली, पृ० २ ।

^४ वही, पृ० २ ।

^५ जायसी ग्रन्थावली—अखरावट, पृ० ३०५

संसार में बाहर-भीतर सर्वत्र वही एक है, कोई दूसरा नहीं। भला एक म्यान में दो तलवारे आ सकती है ? कदापि नहीं—

एक से दूसर नाहि बाहर भीतर बूझि ले ।

खॉड़ा दुइ न समाहि, मुहम्मद एक मियान महँ ॥^१

इसलिए 'म' और 'तू' में कोई भेद नहीं है। 'मे' भी 'तू' है और 'तू' भी 'मे' है। जब सारा विश्व उसी का प्रदर्शन है, जीव भी उसी का ग्रह है तब यह भेद हो भी कैसे सकता है ? अखिल घट राशि में वही तो समाया हुआ है—

मैं तै तै मैं ए हूँ नाही । आपँ अकल सकल घट माही ॥^२

बुल्लेशाह ने भी अद्वैत की भावना को इस प्रकार समझाया है कि उर्दू के दो अक्षर हैं। ऐन् (ع) और गैन् (غ)। नुक्ते अर्थात् बिन्दु मात्र के योग से ऐन् गैन् बन गया। परन्तु जब उस बिन्दु को दूर कर दिया जाता है तो गैन् पुन ऐन् बन जाता है। इसी प्रकार विविध नाम और रूपों के कारण पदार्थों में नानात्व उपचारतः आया हुआ है परन्तु जब गुरु अन्तर्दृष्टि खोलकर इस भेद-बुद्धि को दूर कर देता है तब वह भेद नष्ट हो जाता है—

टुक बूझ कबन छप आया है ।

इक नुकते में जो फेर पड़ा, तब ऐन गैन का नाम धरा ।

जब मुरसद नुकता दूर किया, तब ऐनों ऐन कहाया है ॥^३

पुन. ग्रागे हिन्दू और मुसलमानों को समझाते हुए वे इसी भावना को इस प्रकार रखते हैं कि हिन्दू और मुसलमान भिन्न-भिन्न नहीं हैं। यदि द्वित्व का भाव मिटा दिया जाय तो संसार के सारे उपद्रव शान्त हो जायें। भले और बुरे का भी कोई भेद नहीं, क्योंकि घट-घट में वही व्याप्त हो रहा है—

दुई दूर करो कोई सोर नहीं, हिन्दू तुरक कोई होर नहीं ।

सब साधु लखो कोई चोर नहीं, घट-घट में आप समाया है ॥^४

इस अद्वैत के कारण ही ईश्वर और जीव का अभेद है अतः वह आप ही भोगी है और आप ही योगी है। विषय-वासनाओं में लिप्त हुआ वही विविध भोगों का उपभोग करता है और नानाविध योग की साधना का साधक भी वही है। कहने का तात्पर्य यह है कि योगी और भोगी में भिन्न-भिन्न आत्मा नहीं है। दोनों में एक ही तत्त्व व्याप्त हो रहा है—

^१ जायसी ग्रन्थावली—अखरावट, पृ० ३३५ ।

^२ कबीर ग्रन्थावली—पृ० १५७ ।

^३ पन्तवानी संग्रह (दूसरा भाग), पृ० १६० ।

^४ वही, पृ० १६० ।

आपुहि भोगि रूप एरि, जगमो सानत भोग ।

आपुहि जोगी भेस होइ, निस दिन साधत जोग ॥^१

नूर मुहम्मद ने अनुराग बाँसुरी में कुँवर के वर्णन द्वारा परम तत्त्व का विवेचन करते हुए अद्वैत का बड़ा अच्छा प्रतिपादन किया है । वे लिखते हैं कि वह स्वयं ही कमल है और स्वयं ही सूर्य । दीप भी वही है और पतंग भी वही । इससे व्यञ्जित होता है कि वह परम रूपवान है तथा उसके दिव्य सौन्दर्य पर मुग्ध होने वाला भी वही है । कमल और पृथ्वी दोनों वही है । इसमें जनक और जन्य तथा कार्य और कारण का परस्पर अभेद प्रतीत होता है । ब्रह्माण्ड में विद्यमान समुद्र, पृथ्वी, आकाश, वन और पर्वत सब वही है । इस सारे विश्व-दर्पण में उसी का प्रतिबिम्ब दृष्टिगोचर होता है । परन्तु ऐसा तभी होता है जब अन्तःकरण निर्मल हो जाता है—

कहत न पारौं कुँवर बखानू । आपुहि रहा कमल औँ भानू ॥

आप दीप औँ दीपक दोही । आप कंज, कीलालय ओही ॥

आप समुद्र, आप कन्तारू । आप इला आकाश पहारू ॥

जा दिन ता तन निरमल होई । होइ निरमले दरपण सोई ॥

देखि परं ओहि दरपन माहीं । मूल बदन प्रतिमा परछाहीं ॥^२

शाह बरकतुल्ला ने भी कहा है कि बीज और वृक्ष एक ही हैं । इसी प्रकार तन्तु और वस्त्र तथा समुद्र और तरंग परस्पर भिन्न नहीं हैं—

बीज बिरछ नहिँ दोग्य हे, रुई चार नहिँ दोग्य ।

दधि तरंग नहिँ दोग्य हे, बूभो ज्ञानी लोय ॥^३

इससे यही ध्वनित होता है कि विश्व उसी परमात्मा का प्रदर्शन है तथा उसे से भिन्न नहीं है । तब जीव और ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं । परन्तु इसलिए दादू दयाल ने अपने भीतर ही अपने को खोजने के लिए कहा है । परन्तु यह गुरु की कृपा से ही होता है । साधना-पथ पर चलते हुए जब मन को मथा जाता है तब मथित मट्ठे में मक्खन की भाँति हम उसको पाते हैं । मन में वह निरंजन इस प्रकार समाया हुआ है जैसे काष्ठ में अग्नि—

^१ इन्द्रावती, पृ० ६ ।

^२ अनुराग बाँसुरी, पृ० ८ ।

^३ शाह बरकतुल्लाज़ कौटुंबीयूशन ट् हिन्दी लिट्रेचर (भाग एक), प्रेमप्रकाश, पृ० २५ ।

आप आपण मे खोजों रे भाई ।
 वस्तु अगोचर गुरु लखाई ॥टेक॥
 ज्युं मही बिलोये लाखन आवं ।
 त्युं मन मठियाँ ते तत पावें ॥
 काठ हुतासन रह्या समाइ ।
 त्युं मन माँह निरंजन राइ ॥^१

कबीर ने इस अन्तर्दामी गलश्य परमात्मा को नाद और बिन्दु से अगम्य और अगोचर बतलाया है और कहा है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश उन पञ्च-भूतों से वह पृथक् है । वह निर्गुण है अतः सत्व, रज और तम इस गुणत्रय से वह पृथक् है । परन्तु वह हृदय मे ही प्राप्त है । इसे मसार नहीं जानता जिस प्रकार कस्तूरी मृग की नाभि में विद्यमान होती है किन्तु वह उसकी सुगन्धि पर मुग्ध हुआ उसे वन में खोजता फिरता है—

नाद बिन्दु तें अगम अगोचर, पांच तत्त तें न्यारा ।
 तीन गुनन तें भिन्न है, पुरुष अलख अकारा ॥^२
 कस्तूरी कुंडल बसैं, मृग हुँदें वन माँह ।
 ऐसे घट में पीव है, डुनियाँ जाने नाँह ॥^३

उसमान ने भी यही कहा है कि जिस प्रकार कस्तूरी मे सुगन्धि रहती है उसी प्रकार घट में ही निरंजन का वास है—

मृगमद माँह वास ज्यों रहई । त्यों घट माँह निरंजन अरहई ॥^४

वह ईश्वर घट-घट में बसता है अतः वह किसी विशेष स्थान पर, मन्दिर या मस्जिद में नहीं है । पाषाण-प्रतिमा में विभुता के नाते उसका वास होते हुए भी उसे खोजा नहीं जा सकता । वहाँ पर खोज कर किसी ने उसे नहीं पाया है । वह तो केवल सुए से सेमर के पुष्प पर चोंच मारने के तुल्य है, जिस से कुछ हाथ नहीं आता—

पाहन पूजि सिद्धि किन पाई, सेमर सेइ सुआ पछिताई ॥^५

मन्दिर या मस्जिद की भाँति प्रयाग आदि तीर्थों मे भी वह प्राप्य नहीं है । काशी में करवट लेकर प्राण-बलि से भी वह नहीं मिलता । स्थान-स्थान पर जाइये परन्तु वह मिलने वाला नहीं और न कोई मिला सकता है—

^१ सन्तवाणी संग्रह (दूसरा भाग), पृ० ६८ ।

^२ सन्तवाणी संग्रह (पहला भाग), पृ० २३ ।

^३ वही (पहला भाग), पृ० ३५ ।

^४ चित्रावली, पृ० ४४ ।

^५ चित्रावली, पृ० ६८ ।

गड़ुं पयाग, मिला नाँह पीऊ । करवत लोन्ह, दीन्ह बलि जीऊ ॥

× × ×

हेरत कहुँ न पिउ मिला, न कोइ मिलवनहार ॥^१

वह ईश्वर परम सौन्दर्यशाली है अतः प्रेम का पात्र है । इसीलिए सूक्तियों ने उसे प्रियतम का रूप दिया है । हृदय माधुर्यभाव का आधार है । हृदय में ही निर्मलता आने पर उसका आभास मिलता है । इसीलिए कहा गया है कि प्रियतम का वास हृदय में ही है—

हिरदय भीतर पिउ बसे^२

परन्तु जब एवः मनुष्य 'मैं मैं' द्वारा द्वैत का अनुभूययी है तब तक उसे ईश्वर का परिचय प्राप्त नहीं हो सकता—

मैं मैं मैं जब लग मैं कीन्हां । तब लग मैं करता नाँह चीन्हां ॥^३

जब उसे यह निश्चय हो जाता है कि 'तू मैं' और 'मैं तू' एक है, इनमें कोई भिन्न भाव नहीं है तथा 'मैं तू' कहना छोड़ देता है तभी उसे ज्ञात होता है कि सब कुछ वही है—

'तू मैं' 'मैं तू' एक है, और न दूजा कोय ।

'मैं तू' कहना जब छुटे, वही वही सब होय ॥^४

इस प्रकार हम देखते हैं कि अद्वैत की जो प्रतिपादना उपनिषदों में हुई है । उसका आभास हम यहाँ पाते हैं । परन्तु अद्वैत के ब्रह्मवाद की भाँति यहाँ शुष्क ब्रह्मवाद नहीं है । चित् अचित् का विवेचन होते हुए भी पार्थक्य को स्थान नहीं है । सृष्टि के सृजन का जो स्वरूप और त्रम इन सूक्तियों ने प्रदर्शित किया है उससे ऐसा ज्ञात होता है कि ईश्वरीय सत्ता से यह सब बिल्कूल पृथक् है । हम दृष्टान्त से इसे कहना चाहें तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि ईश्वर एक प्रकाशपुंज है तो विश्व निखिल पदार्थ उसकी अशभूत रश्मियाँ हैं और यदि वह एक महान् व्यापक समुद्र है तो यह सब तरंग रूप है ।

निर्गुण निरंजन के इस स्वरूप में प्रेमोपासना से जो प्रेमरूपता दी गई है वह माधुर्य और मादन भाव की जननी होकर हमारे समक्ष आई है । प्रेमी जीव ही अपनी प्रियतमा ईश्वर के लिए विकल नहीं रहता वरन् ईश्वर भी जीव से मिलने को तड़पता

१ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृ० २७६-२७७ ।

२ वही, पदमावत, पृ० २७६ ।

३ कबीर ग्रन्थावली, पृ० १०८ ।

४ शाह बरकतुल्लाज कौट्टीब्यूशन ट हिन्दी लिट्रेचर, (भाग १) प्रेम प्रकाश, पृ० २४ ।

हैं। ऐसी अवस्था में साकारता और समुणता का प्रतिबिम्ब-सा दीख पड़ता है। बिना इसके प्रेम-साधना सफल भी नहीं हो सकती। अतः इन सूफियों का अद्वैत विशिष्टाद्वैत से अधिक मेल खाता है। अन्यथा प्रेमी और प्रियतम के मध्य प्रेम-प्रासाद ही खड़ा नहीं हो सकता। मूलतः एक होते हुए भी इस व्यवहार के लिए उपचारतः इनमें भिन्नता की स्थापना करनी ही पड़ती है।

सूफियों ने ईश्वर में अनन्त सौन्दर्य माना है इसलिए वह प्रेम का पात्र है। वह स्वयं प्रेम रूप भी है। जायसी ने मानसर में स्नान करती हुई पद्मावती के रूप पर लब्ध हुए अत्यन्त धुब्ध सरोवर से यह व्यंजित किया है कि ईश्वरीय सौन्दर्य से मानस हिलोर लेने लगता है—

सरोवर रूप विमोहा, हीये हिलोरहि लेइ।^१

पद्मावती के रूप की चर्चा करते हुए सूर्य से भी अधिक उसके सौन्दर्य की व्यंजना की गई है—

सुरज किरिन जसि निरमल, तेहिते अधिक सरीर।^२

यहाँ भरे शरीर से तात्पर्य उसका रूप ही है। शाह बरकतुल्ला ने लिखा है कि चतुर्दिक संसार पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि ईश्वरीय सौन्दर्य ही पूर्ण विकास में तरंगित हो रहा है—

‘प्रेमी’ हर दरसन ललित, फूल रही फुलवार।

‘फिस्तमाबात’ बल् अर्ज में देखो आँख पसार ॥^३

उसमान ने चित्रावली के दरसन खण्ड में चित्रावली के सौन्दर्य से परम चैतन्य शक्ति के सौन्दर्य की व्यंजना करते हुए लिखा है कि उसके रूप से समस्त संसार में प्रकाश हो गया, यहाँ तक कि सूर्य लुप्त हो गया। उस प्रकाश-पुंज से रश्मियों का जल इतनी तीव्रता और चमचमाहट से निकला कि विश्व का कोना-कोना उससे व्याप्त हो गया। सुर, असुर, नाग, नर, नारी, जलचर एवं थलचर सभी प्राणी तथा योगी लोग चौंभिया गये। उनके नेत्र उसका भार न सह सके और कोई न जान सका कि यह प्रकाश कैसा है—

चित्रावली भरोखे आई। सरग चाँद जनु दीन्ह देखाई।

भयो अँजोर सकल संसारा। भा अलोप दिनकर मनियारा ॥

^१ जायसी ग्रन्थावली—पद्मावत, पृ० २४।

^२ वही, पद्मावत, पृ० २०६।

^३ शाह बरकतुल्लाज्ज कौट्टीव्यूशन टू हिन्दी लिट्रेचर (भाग १), प्रेम प्रकाश, पृ० ८।

चौधे सुर सब सुरपुर माहीं । चौधे नाग देखि परछाहीं ॥

चौधे महिमंडल नर नारी । चौधे जल थल जिव सब भारी ॥

चौधे जोगी अहे तराहीं । कस अंजोर कोउ जाने नाहीं ॥^१

इस सौन्दर्य प्रकाश को देखकर सुजान को मूर्छा आ गई—

दरपन माहँ कुंअर दोख छाया । गयौ मुरछि सुधि रही न काया ॥^२

सौन्दर्य के इस वर्णन से ईश्वर में साकारता का आरोप नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं सौन्दर्य रूप ही है । सारे विश्व में उसी का सौन्दर्य लक्षित हो रहा है । वह सौन्दर्य हृदय में ही साक्षात्कार का विषय है । वह प्रकाश रूप में ही निर्मल हृदय में अन्तर्दृष्टि से देखा जाता है । उपरिलिखित पंक्ति में 'दरपन' से तात्पर्य स्वच्छ हृदय ही है और 'कुंवर' से साधक । सूफियों के अनुसार साधक को जब ईश्वर का साक्षात्कार होता है तब उसे मूर्छा आ जाती है । इसी अवस्था को हाल या परमाह्लाद की अवस्था कहा गया है ।

जायसी ने तो पद्मावती के रूप के वर्णनमात्र से बादशाह अलाउद्दीन को मूर्छा दिलाकर यह अभिव्यक्त किया है कि माया भी ईश्वरीय सौन्दर्य पर मुग्ध है ।—

जौ राघव धनि बरनि सुनाई । सुना साह, गइ मुरछा आई ॥^३

इस प्रकार हम इस ईश्वर को अनन्त सौन्दर्यशाली पाते हैं । सूर्य, चाँद और तारों में उसी का प्रकाश है । उषा की शुभ्रता और सांध्य बेला की रवितमा में उसी का आकर्षण है, सुमनो में उसकी मंजुता और शिशुओं में उसी की मुग्धता है, तरल तरंगों में उसी का लास्य और पवन में उसी की मादकता है । कहने का तात्पर्य यह

क जहाँ भा सान्दर्य है, माधुर्य है एवं मुग्धता और मादकता है वहाँ वही तो अलक्ष्य रूप में है । यही नहीं प्रकृति के उग्र रूप में भी उसी का शिव एवं भव्य रूप विद्यमान है । पदार्थों का अपना क्या है ? सब कुछ उसी का तो है । नूर मुहम्मद ने उसे रूप का महान् दीपक कहा है जिस पर समस्त संसार शलभ बना हुआ है—

है वह रूप दीप जजियारा । है पतंग तापर संसारा ॥^४

अनन्त सौन्दर्य के अतिरिक्त उस में अनन्त शक्ति भी विद्यमान है । अल्लाह की भाँति किसी विशेष पाद-पीठ पर बैठकर फरिश्तों से वह विश्व-संचालन में सहायता नहीं लेता है । और न राम और कृष्ण की भाँति संसार में अवतार ले कर

१ चित्रावली, पृ० १०६ ।

२ वही, पृ० १०६ ।

३ जायसी ग्रन्थावली—पद्मावत, पृ० २१६ ।

४ इन्द्रावती, पृ० ७६ ।

अधर्म का उत्थापन और धर्म का संस्थापन करने ही आता हूँ । वह तो अलक्ष्य रूप में सर्वत्र व्याप्त हो रहा है । सृष्टि का कर्त्ता ही वही है तब उससे बढ़कर है ही कौन ? उसने जो चाहा सो किया । उसे रोकने वाला कोई नहीं—

जो चाहा सो कीन्हेसि, करै जो चाहै कीन्ह ।

बरजनहार न कोई, सवै चाहि चित दीन्ह ॥^१

वह पर्वत को ढाह सकता है, चीटी को हस्ति के तुल्य बना सकता है, बज्र को तृण और तृण को बज्र बना सकता है—

परवत ढाह देख सब लोगू । चाँटहि करै हस्ति सरि जोगू ।

वज्राहिं तिनकाँह मारि उड़ाई । तिनहि बज्र करि देह बड़ाई ॥^२

उसने अगम और अपार सागर का सृजन किया है, परन्तु यदि वह चाहे तो उसे तारकतुल्य बना सकता है और तारे को समुद्र बनाकर उस में मेरु जैसे महान् पर्वत को बुद्बुद् की भाँति तैरा सकता है । अग्नि में प्रचण्ड ज्वालामुखों का निर्माण उसी ने किया है परन्तु वह उन्हे हिम समान शीतल बना सकता है । पानी में अग्नि का संचार कराना तथा पत्थरो को तृण की भाँति जलाना उसके बाएँ हाथ का खेल है । सब का सृजन, गढन और भंजनकर्त्ता वही है और दूसरा कोई नहीं—

कीन्हेसि अग्नि अगम अपारा । चहइ सो करै जैस लघु तारा ॥

औ तारहि को समुंद बनावै । मेरु बबूला जैस तरावै ॥

कीन्हेसि अग्नि बीच अति ज्वाला । चहै तो करै हिमंचल पाला ॥

ओ पाव्री चहै अग्नि संचारं । पाहन मेलि जैस तून जारं ॥

भंजइ गढ़इ विधाता सोइ । दूसर और जगत नहि कोई ॥^३

जबकि ईश्वर का ही सब कुछ प्रदर्शन है तब सर्वशक्तिमत्ता तो स्वतः ही आ जाती है । जायसी ने इसीलिए कहा है कि ससार अस्थिर है, नश्वर है । यदि कोई स्थिर या नित्य है तो वही जगदीश्वर । उसकी इच्छा ही प्रधान है अतः उसकी शक्ति से बाहर कुछ नहीं है । वह पदार्थों का सृजन कर भंजन भी कर सकता है और फिर उन्हे उसी अवस्था में ला सकता है—

सबै नास्ति वह अहधिर, ऐसा साज जेहि केर ।

एक साजै औ भाजै, चहे सबारं फेर ॥^४

^१ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृ० ३ ।

^२ वही, पदमावत, पृ० ३ ।

^३ चित्रावली, पृ० २ ।

^४ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृ० ३ ।

एसा निराकार सर्वशक्तिमान् परमात्मा निर्गुण होते हुए भी दयालु है, दाता है तथा गुणो का भण्डार है—

तू बयाल, गुन निरगुन दाता ।^१

उसके गुणो का पार किसी ने नहीं पाया है । उसके स्वरूप को अनेक चित्तेरों ने चित्रित किया है पर कर न पाए है । इसीलिए जायसी ने कहा है कि सप्त स्वर्गों को कागज, पृथ्वी और समुद्र को स्याही तथा समस्त बनो की असख्य लेखनियाँ बना कर भी उसे वर्णित किया जाय तो भी उसकी गति का पार नहीं पाया जा सकता—

सात सरग औ' कागद करई । धरती समुद्र दुहूँ मसि भरई ॥

जावत जग साखा बन टाखा । जावत केस रोंव पंखि पाखा ॥

जावत खेह रेह दुनियाई । मेघ बूंद औ' गगन तराई ॥

सब ।लखनी के लिखु संसारा । लिखि न जाइ गति समुद्र अपारा ॥^२

एसा सर्वगुण सम्पन्न परमात्मा निर्गुण और निराकार भी है परन्तु सौन्दर्य रूप है । इसीलिए सूफी लोग उसके रूप के पतंग बने रहते हैं । वे उसे प्रेम रूप ही मानते हैं । सौन्दर्य का प्रेम से घनिष्ठ सम्बन्ध है । इस्लाम के अनुसार ईश्वर ने अपना रूप देखने के लिए ही तो विश्व में अपना प्रदर्शन किया है । वह स्वयं अपने से प्रेम करता है । यही नहीं विश्व से ही प्रेम करता है । दादू ने लिखा है कि प्रेम ईश्वर ही है तथा वह उसी का अश और स्वरूप है—

इसक अलह की जाति है, इसक अलह का अंग ।

इसक अलह औजूद है, इसक अलह का अरंग ॥^३

प्रेमरूप होने के कारण ईश्वर में सौष्ठव की ही प्रधानता है परन्तु इन सूफियों ने इस में पारुष्य को भी माना है । इसीलिए साधक के हृदय में भय का संचार भी रहता है । जायसी ने लिखा है कि सूर्य, चाँद और तारे तेरे डर से ही अहोरात्र दौड़ते रहते हैं तथा पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु पर तेरा ही कठोर अनुशासन है । कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब उसी के भय से क्रियाशील हैं—

चाँद सुरज औ' नखतन्ह पांती । तेरे डर धावाँह दिन राती ।

पानी पवन अग्नि औ' माटी । सबके पीठ तौरिहँ साँटी ॥^४

जीव और शरीर के मध्य वियोग भी उसी ने दिया है, यह भी एक परम भय

१ जायसी ग्रन्थावली—पदमावती पृ०, ७१ ।

२ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत पृ०, ४ ।

३ सन्तवानी संग्रह (पहला भाग), पृ० ८३ ।

४ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृ० १८० ।

है। इसी से जीव ईश्वर को प्रेम करता है और सदैव के लिए इस दुख से छूटकर उससे मिल जाना चाहता है। यदि वह ऐसा न करता तो उसे कोई पहिचानने का प्रयत्न न करता—

तन जीउ महेँ विधि दान बिछोऊ। अस न करै तो चीन्ह न कोऊ ॥^१

ईश्वर के इस भयावह रूप को सूफियो ने इस्लाम से ही ग्रहण किया है। इस्लाम का अल्लाह कठोर अनुशासक है, ऐसा पहले कहा जा चुका है।

^१ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृ० १२४।

दशम पर्व सृष्टि

इन सूफियों ने ईश्वर की व्यापक अलक्ष्य सत्ता मानते हुए भी सृष्टि की उत्पत्ति को आकस्मिक नहीं माना है और न यही माना है कि सृष्टि उससे पृथक् है। हाँ, इतना कहा जा सकता है कि उपचारतः यह उससे भिन्न है परन्तु वास्तव में उसी का प्रदर्शन है। इन कवियों ने अपने काव्यों में ईश्वर की स्तुति करते हुए सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में बहुत-कुछ कहा है परन्तु जायसी ने अखरावट में इसका विषद विवेचन किया है।

उस ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, जो सर्वत्र अविच्छिन्न रूप से व्याप्त हो रहा है—

सोई कर्ता रमि रहा, रोम रोम सब माहिं ।

तिन सब कान्ह सिरिष्ट यह, गाहक कीन्हों नाहिं ॥^१

शाह बरकतुल्ला ने ईश्वर को मसि का रूपक देते हुए कहा है कि हम सब छोटे-बड़े रूप में उसी से बने हुए अक्षर हैं—

हम अच्छर करतार मसि, लहु गुरु बरन बसीत ।

कोइ पेसी नेमि कोइ, राजा रंक अतीत ॥^२

नूर मुहम्मद ने लिखा है कि उसने 'कुन' शब्द से सृष्टि का निर्माण किया अर्थात् उसने केवल यही कहा कि 'होजा' और यह सब कुछ हो गया ..

है जेहि नाद जगत यह करो ।^३

जायसी के कथनानुसार ईश्वर ने शून्य से इस विश्व की रचना की। न तो प्रथम आकाश था, न पृथ्वी थी और न सूर्य-चन्द्रमा थे। केवल शून्य ही था। उसी में सर्वप्रथम मुहम्मद अर्थात् आदर्श पुरुष का सकल्प (archtype) उदय हुआ।—

गगन हुता न भहि हुती, हुते चंद नहिं सूर ।

ऐसइ अन्धकूप महं, रचा मुहम्मद नूर ॥^४

^१ चित्रावली, पृ० २ ।

^२ शाह बरकतुल्लाज्ज कौन्ट्रीब्यूशन टू हिन्दी लिट्रेचर (भाग १), प्रमप्रकाश, पृ० १ ।

^३ अनुराग बांसुरी, पृ० ४६ ।

^४ जायसी ग्रन्थावली—अखरावट, पृ० ३०३ ।

सर्वप्रथम वह ईश्वर ही था । उसने इस सृष्टि की रचना क्रीडामात्र में ही की । समस्त महाशून्य में उसी की एक व्यापक सत्ता थी, कोई दूसरा पदार्थ न था । आदि पुरुष के हितार्थ उसने अठारह सहस्र जीव-योनियों की सृष्टि की । हमारे यहाँ चौरासी लक्ष योनियाँ मानी हैं । जायसी ने अठारह सहस्र योनियों का सिद्धान्त इस्लाम से अपनाया । इन योनियों की रचना तो की परन्तु प्राणियों को हम जो करता हुआ देखते हैं वास्तव में वह एक छायामात्र है । प्रकट और गुप्त रूप में वही रहा हुआ है । उसके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है—

आविहु ते जो आदि गोसाईं । जेइ सब खेल रचा दुनियाई ॥
 एक अकेल, न दूसर जाती । उपजे सहस्र अठारह भाती ॥
 वे सब किछु, करता किछु नाहीं । जैसे चलै मेघ परछाही ॥
 परगट गुप्त विचारि सो बूझा । सो तजि दूसर और न सूझा ॥^१

स्वर्ग, पृथ्वी आदि के अभाव में बिना किसी साधन तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि के रूप के बिना भी नाम-स्थान के अभाव रूप केवल महाशून्य से उस निराकार परमेश्वर ने इसका निर्माण किया । अपने आप में ही सर्वप्रथम एक प्रकाश रूप निर्मल दीपक को बनाया, जो मुहम्मद था । इसमें ससार महाशून्य प्रकाशमान हो गया—

हुता जो सुन्न म सुन्न, नावं ठावं ना सुर सबद ।
 तहाँ पाप नाहि पुन्न, मुहमद आपुहि आपु महँ ॥
 सरग न, धरती न खभ मय, बरम्ह न विसुन महेश ।
 बजर बीज बारौ अस, ओहि न रंग, न भेस ॥
 तब भा पुनि अंकूर, सिरजा दीपक निरमला ।
 रचा मुहम्मद नूर, जगत रहा उजियार होइ ॥^२

मुहम्मद कोई पृथक् व्यक्ति न था । उसी प्रकाशरूप परमात्मा ने अपने ही अंश रूप उसे उत्पन्न किया । इससे मुहम्मद साहब की प्रकाशरूप में नित्यता सिद्ध होती है । यही संसार का सार था—

पुरुष एक जिन्ह जग अवतारा । सबन्ह शरीर सार संसारा ॥

आपन अंस कौन्ह दुइ ठाऊं, एक क धरा मुहम्मद नाऊं ॥^३

इसी मुहम्मद के प्रीत्यर्थ उसने विश्व का सृजन किया—

^१ जायसी ग्रन्थावली—अखरावट, पृ० ३०३ ।

^२ वही, अखरावट, पृ० ३०४ ।

^३ चित्रावली, पृ० ५ ।

प्रथम जोति विधि ताकर साजी । औ तेहि प्रीति सिहिटि उपराजा ।^१

उसमान ने भी यही लिखा है कि यदि मुहम्मद न होते तो ससार की रचना ही न होती—

जो न करत वह ओकर चाऊ । होत न जग महं एक उपाऊ ।^२

ईश्वर के मुहम्मद के प्रति इसी प्रेम-बीज से दो अंकुर निकले । एक श्वेत और दूसरा श्याम । जब यह अंकुर शिशु तरु हुए तो श्वेत तरु से जो पत्र निकला वह पृथ्वी कहलाई और श्याम तरु से जो पत्र निकला वह आकाश कहलाया—

तेहिक प्रीति बाज अस जामा । भए दुइ बिरिछ सेत औ, सामा ॥

होतै विरवा भए दुइ सत्ता । पिता सरग औ धरती माता ॥^३

इस प्रकार ईश्वर ने एक से द्वित्व का सम्पादन किया । यहा उदाहरण देते हुए जायसी ने लिखा है कि यथा लेखनी का मुखचीर कर जब दो भाग कर दिये जाते हैं तभी वह कार्य करती है उसी प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति के आरम्भ मे ही जब द्वित्व सत्ता मे आया तभी सृष्टि-क्रम आगे चला—

चलि सो लिखनी भइ दुइ फारा । बिरिछ एक उपनी दुइ डारा ॥^४

यह वृक्ष का रूपक हमे उपनिषदों मे भी मिलता है । श्वेताश्वतरोपनिषद् में लिखा है कि जिससे उत्कृष्ट और कुछ नहीं है तथा न जिससे कुछ छोटा है और न बड़ा है, वह अद्वितीय परमात्मा प्रकाश रूप में वृक्ष के समान स्थिर भाव से स्थित है तथा वही सम्पूर्ण विश्व मे व्याप्त हो रहा है—

यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चि

अस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित् ।

वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक

स्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्वम् ॥^५

द्वित्व का सम्पादन होने पर सूर्य-चाद, दिन-रात, पुण्य-पाप, सुख-दुख और हर्ष-विषाद की सृष्टि की पुनः स्वर्ग-नरक, भले-बुरे और सत्यासत्य का निर्माण किया—

सुरुज, चाँद दिवस औ राती । एकहि दूसर भएउ सँघाती ॥

मटेनि जाइ पुनि औ, पापू । दुख औ, सुख, आनन्द संतापू ॥

औ, तब भए नरक केकूटू । भल औ, मन्द, साँच औ, भूटू ॥^६

^१ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृ० ४ ।

^२ चित्रावली, पृ० ५ ।

^३ जायसी ग्रन्थावली—अखरावट, पृ० ३०५ ।

^४ वृक्ष, अखरावट, पृ० ३०५ ।

^५ श्वेताश्वतरोपनिषद्, ३, ६ ।

^६ जायसी ग्रन्थावली—अखरावट, पृ० ३०५ ।

उपनिषदों में भी यही लिखा है कि उस ब्रह्म से ही सम्पूर्ण जगत उत्पन्न हुआ । वह स्वतः अदृश्य, अग्राह्य, अगोत्र, अवर्ण, चक्षुश्रोत्रादि इन्द्रियों से हीन, श्रपाणिपाद, नित्य, विभु, सर्वगत, सूक्ष्मातिसूक्ष्म तथा अन्वय है और सर्वभूतों का कारण है । उसने इस विश्व को अपने मे से इस प्रकार प्रकट किया जिस प्रकार दृश्य-पदार्थों में मकड़ी अपने मे से ही जाला बनाती है, पृथ्वी में से ही त्रीपधियाँ निकलती हैं और जिस प्रकार सजीव पुरुष से केश और लोभ उत्पन्न होते हैं—

यत्तदद्रेश्यमग्राह्यमगात्रमवर्णमचक्षुः श्रोत्रं तदपाणिपादम् ।

नित्यं विभुं सर्वगतं सूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ।^१

यथोर्णनाभिः सृजते गृह्यते च

यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति ।

यथा सतः पृषात्केशलोमानि

तथाक्षरात्सम्भवतीह विश्वम् ॥^२

आगे इसी ब्रह्म को विश्वात्मा का रूप देकर कहा गया है कि ब्रूलोक जिसका मस्तक है, चन्द्र और सूर्य चक्षु हैं, दिशाएँ श्रोत्र हैं, वेद रूप ज्ञान ही वाणी है, वायु प्राण है एवं विश्व जिसका हृदय है और जिसके पैरों से पृथ्वी उत्पन्न हुई है वह ब्रह्म ही सर्व भूतों का अन्तरात्मा है—

अग्निर्मूर्धा चक्षुषो चन्द्रसूर्यो

दिशः श्रोत्रे वाग्विद्वताश्च वेदाः ।

वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य

पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा ॥^३

इस प्रकार सूफियों द्वारा स्वीकृत सृष्टि की रचना बहुत-कुछ उपनिषदों में प्रतिपादित विश्वोत्पत्ति से मिलती है । सृष्टि के मूल तत्त्वों का उत्पादन कर ईश्वर अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसने इब्लीस (शैतान) को बनाया, जिससे सभी डरते रहें—

नूर मुहम्मद देखि तब, भा हुलास मन सोइ ।

पुनि इबलीस संचारेउ, डरत रहै सब कोउ ॥^४

इसके पश्चात् जिबरील, मकाईल इसराफील और इजराईल ये चार फरिश्ते उत्पन्न किये । ये अन्य फरिश्तों के नायक हुए । ईश्वर ने पुनः आदम को बनाना चाहा । चारों फरिश्तों ने चारों भूतों से शरीर की रचना की और उसमें पंचभूतात्मक इन्द्रियों

१. २ मुडकोपनिषद् मुण्डक १, (खंड १) ६-७ ।

३ वही, मुण्डक २, (खंड १) ४ ।

४ जायसी ग्रन्थावली—अखरावट, पृ० ३०५ ।

सृजन किया तथा नव खूले द्वारों के ऊपर दशम द्वार ब्रह्मरंध्र को बनाया जो बन्द ही रखा—

पहिलेइ रचे चारि अद्वैयक । भए सब अद्वैयन के नायक ॥

भइ आयसु चारिहु के नाऊं । चारि वस्तु मेरवहु एक ठाऊं ॥

तिन्ह चारिहु के संदिर सँवारा । पाँच भूत तेहि महँ पैसारा ॥^१

यह आदम कोई भिन्न व्यक्ति न था वरन् ईश्वर से वह उसी प्रकार अभिन्न था जिस प्रकार माता से गर्भ—

रहेउ न हुइ महँ बीच, बालक जैसे गरम...महँ ॥^२

यहूदी और ईसाइयों ने आदम को ईश्वर के अनुरूप ही माना है । जायसी भी 'उहैरूप आदम भवतरा'^३ ने यही सूचित करते हैं । नूर मुहम्मद ने भी मनुष्य की रचना उसी के समान मानी है—

कीन्ह रूप मानूष को, अपने रूप समान ॥^४

कुरान के अनुसार आदम की उत्पत्ति के पश्चात् सबको उसकी बदना करने के लिए आज्ञा हुई । सबने वंदना की परन्तु शैतान ने उसे स्वीकृत न किया । इसी अपराध में उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया । उसे प्राणियों को कुमार्ग पर ले जाने का कार्य सौंपा गया । आदम के साथ हौवा का भी सृजन हुआ था । शैतान ने इनको भी गेहूँ का फल खिलाकर पथ-भ्रष्ट कर दिया जिससे इन्हे स्वर्ग छोड़ना पड़ा । संसार में आकर उन्हीं से अनेक सतानें हुई—

धरिमिहि धरि पापी जेइ कीन्हा । लाइ संग आदम के वीन्हा ॥^५

आदम हौवा कहँ सुजा, लेइ घाला कविलास ।

पुनि तहवाँ ते काढा, नारद के विसवास ॥^६

खाएनि गोहँ कुमति भुलाने । परे आइ जग में पछिताने ॥^७

तिन्ह संतति उपराजा, भाँतिहि भाँति कुलीन ।

हिन्दू तुयक बुबौ भए अपने अपने दीन ॥^८

यहूदी और ईसाई मत में भी ऐसा ही माना गया है । ये तीनों सामी मत

१ जायसी ग्रन्थावली—अखरावट, पृ० ३०६ ।

२ वही, अखरावट पृ० ३०६ ।

३ वही अखरावट, पृ० ३०८ ।

४ इन्द्रावती, पृ० १७१ ।

५ ७ जायसी ग्रन्थावली—अखरावट, पृ० ३०७ ।

६ ८ वही, अखरावट; पृ० ३०८ ।

इसी कारण शैतान को ईश्वर का प्रतिपक्षी मानते हैं। परन्तु सूफी शैतान को विरोधी न मानकर ईश्वर का भवन मानते हैं। उनका कहना है कि उसने जो कुछ किया या वह जो कुछ करता है, वह ईश्वर की आज्ञा से ही। वह तो एक खरा परीक्षक है जो सभी को उन्मार्ग के परिणामों से सन्मार्ग पर लाया करता है। इसीलिए जायसी ने शैतान को नारद कहा है और नारद वैष्णव मत से परम भगवद्भक्त कहा गया है। नारद भी पुराणों में कलह-प्रिय प्रसिद्ध ही है। इसके अतिरिक्त पिण्ड में भी ब्रह्माण्ड को माना है। सृष्टि के उपरान्त आदम को 'यह जग भा दूजा'^१ से दूसरा जगत् ही कहा है। नारद को आदम के पिण्ड में ही ईश्वर ने ब्रह्म का गुप्त स्थान दिखाया और उससे कहा कि तू मेरा अद्वितीय सेवक है अतः तू इस दशम द्वार अर्थात् ब्रह्मरक्षक का रक्षक होकर रह।

इस प्रकार हम देखते हैं कि नारद ईश्वर से कोई भिन्न शक्ति नहीं है। भला-बुरा सब उसी के रूप है—

धूप छाँह बोट पिय के रंगा ।^२

फरिश्तो आदि का जो वर्णन किया गया है, वे भी ईश्वर से पृथक् नहीं हैं। शून्य से ही सबका सृजन हुआ था। अतः सबके रूप में वही सब कुछ करता है—

आदि किएउ आदेस, सुन्नाह ते अस्थूल भए ।

आपु करै सब भेस, मुहमद चादर ओट जेउं ॥^३

सूफी वास्तव में इस ससार को ईश्वर से पृथक् कोई पदार्थ-समूह नहीं मानते। सारा ससार उसी का प्रदर्शन है अतः वह उसका दर्पण है—

जग भे जावत है सब बना, ताबत करता को दरपना ॥^४

हठयोग के आधार पर इन सूफियों ने पिण्ड में भी ब्रह्माण्ड की कल्पना की है—

बुन्दहि समुद समान, यह अचरज कासौ कहौं ?

जो हेरा सो हेरान, मुहमद आपुहि आपु मुहँ ॥^५

जिस प्रकार व्यापक ब्रह्म समस्त ब्रह्माण्ड में व्याप्त है उसी प्रकार पिण्ड में भी। सम्पूर्ण विश्व उसी का रूप अतः पिण्ड भी उसी का प्रतिरूप है। जायसी ने लिखा है—

^१ जायसी ग्रन्थावली—अखरावट पृ० ३०७ ।

^२ वही, पद्मावत, पृ० १६७ ।

^३ जायसी ग्रन्थावली—अखरावट, पृ० ३०८ ।

^४ इन्द्रावती, पृ० ५६ ।

^५ जायसी ग्रन्थावली—अखरावट, पृ० ३०८ ।

माथ सरग, धर धरती भएऊ । मिलि तिन्ह जग दूसर होइ गएऊ ॥
 माटी मांसु, रक्त भा नीरू । नसै नदी, हिय समुद गँभीरू ॥
 रीढ़ सुमेरु कीन्ह तेहि केरा । हाइ पहार जुरे चहुँ फेरा ॥
 बार बिरिछ, रोवाँ खर जामा । सूत सूत निसरे तन चामा ॥
 सातों दीप, नवौ खंड, आठों दिसा जो आहि ।

जो बरमंड सो पिण्ड है, हेरत अन्त न जाहि ॥^१

अर्थात् शरीर में सिर तो स्वर्ग है धड़ पृथ्वी है, मांस मिट्टी है, रक्त जल है, नसें नदी है और हृदय गम्भीर समुद्र है । रीढ़ (मेरुदण्ड) सुमेरु पर्वत है तथा उसके चारों ओर अस्थि-समूह अनेक अन्य पर्वत हैं । बाल वृक्ष हैं और रोम तृण । इनके अतिरिक्त मान द्वीप, नद गण्ड और आठ दिशाएँ ब्रह्माण्ड की भांति इस पिण्ड में भी हैं ।

पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु से इस शरीर का निर्माण किया और ब्रह्माण्ड की भांति डमरु भी वही पूर्ण रूप में व्याप्त हो रहा है—

आगि, बाउ, जल, धूरि चारि मेरइ भाँडा गढ़ा ॥

आपु रहा भरि पूरि मुहमद आपुहि आपु महँ ॥^२

जायसी ने और भी लिखा है कि नासिका सरात का पुल है, जो मुसलमानों के विश्वास के अनुसार स्वर्ग के मार्ग में पड़ता है और जो पापियों के लिए पतला तथा धर्मात्माओं के लिए चौड़ा हो जाता है । सिर को पहले ही स्वर्ग कह आये है । भौंहे उसके दो पार्श्व हैं । दाएँ और बाएँ नथुने से चलने वाले श्वास-प्रवाह ही सूर्य एवं चांद हैं । जाग्रत अवस्था ही दिन है और सुप्तावस्था रात्रि । हर्ष प्रभात है तथा विषाद संध्या । शरीर में मुख-भोग ही बंकुठ है और दुख-रोग नरक । रोना ही वर्षा है, क्रोध ही गर्जन है, हँसी बिजली है और दया ही हिमपात है । इनके अतिरिक्त श्वासों के परिमाण से घडी, पहर, पङ्क्तु तथा बारहो मास इसी शरीर में हैं—

नासिक पुल सरात पथ चला । तेहि कर भौंहेँ हँ दुइ पला ॥

चाँद सुरुज दूनो सुर चलही । सेत लिलार नखत भलमलहीं ॥

जागत दिन, निमि सोवत माँझा । हरष भोर, विसमय होइ साँझा ॥

सुख बंकुठ भुगुति औ' भोगू । दुःख हे नरक जो उपजँ रोगू ॥

बरखा बदन, गरज अति कोह । बिजरी हँसी हिवंचल छोह ॥

घरी पहर देहर हर सासा । बीतै छओ ऋतु बारह मासा ॥^३

^१ जायसी ग्रन्थावली—अखरावट पृ० ३०६ ।

^२ जायसी ग्रन्थावली—अखरावट, पृ० ३०६ ।

^३ वही, अखरावट, पृ० ३०६ ।

शाह बरकतुल्ला ने भी शरीर को ईश्वर का मन्दिर बतलाते हुए कहा है कि तीनों लोक इसी में है। तीर्थ-स्थान भी इसी में हैं। सर्व दर्शनों का आधार भी इसी में है तथा ईश्वर भी इसी में विराजमान है—

बेह देहरा पूजियौ, तान लोक तिन माँह ।

तीरथ, षट्दर्शन संच्यो, मेरे बंटे नाँह ॥^१

इस प्रकार पिण्ड में भी ब्रह्माण्ड की कल्पना कर ईश्वर-प्राप्ति का स्थान इसी में बतलाया है। सारी सृष्टि का यह एक लघु आदर्श है। इस्लाम के अनुसार सृष्टि के पवित्रतम स्थान, देव, पुरुष और पुस्तके इसी शरीर में मानी जा सकती हैं। यह शरीर संसार है, जिसमें पृथ्वी और स्वर्ग समाया हुआ है। शरीर में माथे को मक्का समझो और हृदय को मदीना जिसमें पैगम्बर का नाम सदैव रहता है। श्रोत्र, नेत्र, घ्राण और मुख ये चार सेवक हैं। चाहे इन्हे चार फिरस्ते जिब्रईल, मकाईल, इसराफील और इन्नराईल कहो या मुहम्मद साहब के चार यार, उमर, उसमान, अबूबकर और अली अथवा चार पीर या तौरेत, जबूर, इंजील और कुरान ये चार आसमानी किताबें पुकारो अथवा इन्हें अली, हसन, हुसेन आदि इमाम (धर्मधिष्ठाता) जानो—

घा-घट जगत बराबर जाना । जेहि महुँ धरती सरग सभाना ।

साथ ऊँच मक्का बन ठाऊँ । हिया मदीना नवीक नाऊँ ॥

सरवन, आँखि, नाक, मुख चारी । चारिहु सेवक लेहु विचारा ॥

भावे चारि फिरिस्ते जानहु । भावे चारि यार पहिचानहुँ ॥

भावे चारिहु मुरसिद कहऊ । भावे चारि किताबें पढ़ऊँ ॥

भावे चारि इमाम जे आगे ।^२

ये लोग साधक थे अतः मुसलमान होते हुए भी इन्होंने इस्लामी विश्वासों को साधना की कसौटी पर कसा है और उन्हें अध्यात्म में ढाल दिया है। इसीलिए ये पिण्ड में भी ब्रह्माण्ड की कल्पना करते हैं और शब्द के अभिधामूलक अर्थ को व्यंग्यार्थ के रूप में प्रकट करते हैं। यह कल्पना कोई नई कल्पना न थी। योग के अनुसार ही ऐसी मान्यता है। गीता में भी अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान् कृष्ण ने अपने शरीर में चराचर जगत को दिखाने से पूर्व यह कहा है —

इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं यस्याद्य सचराचरम् ।

मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि ॥^३

^१ शाह बरकतुल्लाज्ज कौन्ट्रीव्यूशन टू हिन्दी लिट्रेचर (प्रथम भाग), प्रेमप्रकाश, पृ० १५ ।

^२ जायसी ग्रन्थावली—अखरावट, पृ० ३१० ।

^३ श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय ११, श्लोक ७ ।

अर्थात् हे अर्जुन ! इस मेरे शरीर में एकत्र ही चराचर सम्पूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है, वह देख ।

ऊपर जो सृष्टि का वर्णन हुआ है तथा पिण्ड में ब्रह्माण्ड की चर्चा की गई है, यह केवल दृश्य-जगत् को समझने के लिए ही है । वस्तुतः यह सृष्टि ईश्वर से कोई पृथक् सत्ता नहीं रखती । यह उसी का प्रकट रूप है, उसी की माया है । ईश्वरीय सत्ता ही सब जगत् का अधिष्ठान है । जब उसने अपनी शक्ति के प्रभाव को देखना चाहा तभी उसने शून्य में अपने से ही विश्व की रचना कर डाली । यहाँ शून्य का अर्थ शून्य नहीं । ध्याकृत जगत् की अपेक्षा नाम रूप से रहित (अव्याकृत) सत्ता का नाम शून्य है । सूफियो का शून्य यहूदी या अन्य मतावलम्बियों का शून्य नहीं जिसका अर्थ है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति हुई । शून्य अभाव नहीं वरन् यह शून्य वह सत्ता है जिसमें सब भाव अन्तर्निहित हैं । क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती । गीता में भी लिखा है कि 'नासतो विद्यते भावो'^१, अर्थात् असत् का अस्तित्व नहीं हो सकता ।

सारा ससार एक दर्पण रूप है जिसमें वह परमार्थ सत्ता ही प्रतिबिम्बित हो रही है । या यों कहिये कि द्रष्टा और दृश्य वस्तुतः एक ही निर्गुण सत्ता के प्रतिरूप है । वह स्वयं हो कर्ता है, स्वयं ही कार्य है और स्वयं ही कारण है अर्थात् इस 'त्रिपुटी' का आधार एक ही सत्ता है । अन्तर्जगत और बाह्य जगत् में जो कुछ भी है वह उसी का प्रतिबिम्ब है—

सबं जगतं वरपनं के लेखा । आपुहि वरपनं आपुहि देखा ॥^२

नूर मुहम्मद ने भी यही लिखा है कि इस विश्व-दर्पण में वही प्रतिभाषित हो रहा है—

देखि परे ओहि वरपन माहीं ।^३

उसमान भी सम्पूर्ण विश्व में प्रकट और गुप्त रूप में उसी एक सत्ता को स्वीकार करता है—

परगट गुप्त विधाता सोई । दूसर और जगत नहि कोई ॥^४

कबीर ने कहा है कि इस विश्व में वही एक है । अन्य जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब कृत्रिम है यथा दर्पण में प्रतिबिम्ब—

^१ गीता, अ० २, श्लोक १६ ।

^२ जायसी ग्रन्थावली—प्रखरावट, पृष्ठ ३१६ ।

^३ अन्नराग बांसुरी, पृष्ठ ८ ।

^४ चित्रावली, पृष्ठ २ ।

साधो एक आपु जग माहीं ।

दूजा करम भरम है किरतिम ज्यों दरपन में छाहीं ॥^१

इस प्रकार हम देखते हैं कि इन सूफियों ने सृष्टि के सम्बन्ध में अद्वैत के प्रतिबिम्बवाद अथवा 'प्राभासवाद' को ग्रहण किया है। इससे स्पष्ट है कि इस सत्ता की सत्ता परमार्थ गत्ता से भिन्न नहीं। परमार्थ से पृथक् लोकसत्ता भ्रम है। शाह तरबुतुल्ला ने भी इसे भ्रम कहा है। इसमें वास्तविकता वही ईश्वर है—

‘प्रेमी’ यह जग देखेन, अरज, ओट दिख लाल ।^२

परमार्थ ने ‘तम’ के व्यवहार पक्ष को ही स्वप्नवत् कहा है—

..... ‘कामभाव’ जगधरा, सधन मसखन ॥^३

जायसी ने आत्मता को परमार्थवादी २ या ३ उममें चिख्व होकर अपने में ही उम ईश्वर की गोज करने के लिए कहा है

छोड़ि वेहु सब धंधा, काड़ि जगत सो हाथ ।

घर माया कर छोड़ि कं, धर काया कर साथ ॥^४

सूफीमत में भारतीय परम्परा के अनुसार व्यावहारिक सत्ता निराधार नहीं, पारमार्थिक सत्ता पर आश्रित है इसीलिए उनके मत में भी लोकव्यवहार शाश्वत धर्म (सत्य, शिव और सुन्दर) के आधार पर ही होना चाहिए, विशृङ्खल रूप में नहीं। सूफियों ने इसीलिए लोक-प्रेम को विशेष रूप से महत्व दिया है क्योंकि इसके सहारे उनको आत्मरति प्राप्त हो सकती है और यह लोक-प्रेम (इस्के मजाजी) अध्यात्म-प्रेम (इस्के हकीकी) का साधन बन सकता है।

अन्त में यह ध्यान देने योग्य बात है कि सृष्टि का जो निरूपण सूफी ग्रन्थों में पाया जाता है, वह इस्लामी परम्परानुगत है, सूफियों की अपनी देन नहीं। इसे स्वीकार करने में या इस जैसे किसी अन्य व्याख्यान को स्वीकार करने में सूफियों को कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि सृष्टि-क्रम का सम्बन्ध सूफी सिद्धान्त से कुछ नहीं। एक लोक हो या अधिक्, अठारह सहस्र योनियाँ हों या चौरासी लक्ष, यह गणना कथनमात्र है। तात्पर्य यह है कि इस अनेक रूप संसार की उत्पत्ति का आधार एक ही सत्ता है और वह एक सत्ता ही अनेक नाम रूपों में विराजमान है। बिना उस आधार सत्ता के सृष्टि की उत्पत्ति असम्भव है। यह एक सत्ता ही सत्ता का उपादान तथा निमित्त कारण है अतः इसके बाहर कोई और सत्ता नहीं।

^१ कबीर वचनावली, पृष्ठ २०४।

^२ शाह बख्तुल्लाज कौट्टीव्यगन्तू हिन्दी निट्टेचर (प्रथम भाग), प्रेम प्रकाश, पृष्ठ ६।

^३ अनुराग बाँसुरी, पृष्ठ २८।

^४ जायसी ग्रन्थावली—अखरावट, पृष्ठ ३१८।

एकादश पर्व जीव

जीव के विषय में इन सूफियों ने अद्वैत को ही अपनाया । जीव और ब्रह्म में वस्तुतः कोई भेद नहीं है । जीव ब्रह्म का ही अंश है—

रहा जो एक जल गुप्त समुदा । बरसा सहस्र अठारह बुंदा ॥

सोई अंस घटै घट मेला । ओ सोइ बरन बरन होइ खेला ॥^१

श्वेताश्वतरोपनिषद् में ब्रह्म को ही स्त्री, पुरुष, कुमारी, कुमारी एव वृद्ध बतलाया गया है—

त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी ।

त्व जीर्णो दंडेन बंचसि त्व जातो भवसि विश्वतो मुखः ॥^२

गीता में भी 'ममैवाशो जीवलोकै जीवभूतः सनातनः'^३ कहकर जीव को ब्रह्म का ही अंश बतलाया है ।

भिन्न-भिन्न प्राणियों में वर्ण-वर्ण के कलेवर धारण किये वही क्रीडा कर रहा है । मूलत जीवात्मा परमात्मा में अभिन्न है । अपने इस अभिन्न रूप को न पहचानने के कारण जीव लोक में दुख भोगता है ।

नूर मुहम्मद ने लिखा है कि हम दाता, कर्ता, दृष्टा, श्रोता एव वक्ता नहीं हैं वरन हम में रहा हुआ वही देता है, वही करता है, वही देखता है, वही सुनता है और वही बोलता है—

आपुहि दाता करता होई । दिष्टा श्रोता वक्ता सोई ॥^४

उसमान ने भी 'एक जोत परगट सब ठाऊँ'^५ कहकर एकरूपता ही बतलाई है । आगे मुहम्मद साहब की प्रशंसा करते हुए उन्होंने यही कहा है कि ईश्वर ने उनमें अपना ही अंग डाला और एक पृथक् मुहम्मद नाम रख दिया—

आप अंस कीन्ह दुह ठाऊँ । एक क धरा मुहम्मद नाऊँ ॥^६

^१ जायसी ग्रन्थावली—अखरावट, पृ० ३०५ ।

^२ श्वेताश्वतरोपनिषद् अ० ४, मंत्र ३ ।

^३ गीता, अ० १५, श्लोक ७ ।

^४ इन्द्रावती, पृ० ५४ ।

^५ चित्रावली, पृ० ४ ।

^६ वही, पृ० ५ ।

इन प्रेममार्गी कवियों के अतिरिक्त कबीर ने भी इस अद्वैत का विवेचन किया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार प्रकाश और किरण सूर्य से भिन्न नहीं उसी प्रकार जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं। प्रकाश किरण में और किरण सूर्य में रहती है परन्तु वस्तुतः वे भिन्न नहीं। इसी प्रकार व्यापक ब्रह्म के मध्य घट-घट में रहा जीव भी उस से पृथक् नहीं—

ज्यों रवि मद्धे किरिन देखिए किरिन मध्य परकासा ॥

परमात्म से जीव ब्रह्म इमि जीव मध्य तिमि स्वांसा ॥^१

वह ब्रह्म ही बीज है, वही वृक्ष है, वही अकुर है तथा फल-फल और छाया भी वहीं है। वही सूर्य है, वही किरण है और वही प्रकाश है। जीव और माया भी वही है—

आपहि बीज वृच्छ अकूरा, आप फूल फल छाया ।

आपहि सूर किरिन परकासा आप ब्रह्म जिव माया ॥^२

शाह भी जीव और ब्रह्म की अभिन्नता की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि तुम किस से और करते हो, दूसरा कोई नहीं है। जिसके तुम भय हो वही सब में व्याप्त हो रहा है—

किस सौ वेरी ह्वै रह्या, दूजा कोई नाहि ।

जिसके अंग थे ऊपज्या, सोई है सब माहि ॥^३

प्रेमी कवि ने हिन्दू और मुसलमान दोनों में एक ही ईश्वर का प्रकाश माना है 'प्रेमी हिन्दू तुरक में, हर रंग रहो समाय'।^४

विविध साधक-कवियों के इन उपरोक्त उद्धरणों से ज्ञात होता है कि जीव की सत्ता ब्रह्म से पृथक् नहीं है। वास्तव में ब्रह्म ही है। नाम रूप की उपाधि सहित ब्रह्म का नाम जीव है। वह ब्रह्म ही उपाधिवश संसार में फँसा हुआ जीव रूप प्रतीत होता है और अज्ञान को ब्रह्म से पृथक् समझता है। जब यह द्वित्व मिट जाता है तब पुनः अभिन्न भाव हो जाता है। संसार में चित् और अचित् ब्रह्म के ही दो पक्ष हैं अतः जीव को कोई पृथक् सत्ता नहीं। इसलिए जायसी ने कहा है कि ऐ जीव ! तू अपनी पृथक् सत्ता या अहंभाव को दूर कर ब्रह्म से एक होकर रह—

एक हो सौ बुद्ध होइ, दुह सौ राज न चल सकै ।

बीचसे आपुहि खोइ, सुहमव एक होइ रह ॥^५

^१ कबीर वचनावली, पृ० २०१ ।

^२ वही, पृ० २०३ ।

^३ संतवाणी संग्रह, पृ० ६५ ।

^४ शाह बरकतुल्लाज कोट्टीब्यूशन टू हिन्दी लिट्रेचर, (प्रथम भाग), प्रेमप्रकाश, पृष्ठ ८ ।

^५ जायसी ग्रन्थावली—अखरावट, पृ० ३१४ ।

हम पहले कह आया है कि सूफियो ने इस ब्रह्म और जीव के अभेद सिद्धान्त को अद्वैत मत से ग्रहण किया । उपनिषदों में 'नास्ति द्वैत'^१, 'एकमेव सत्'^२, 'नेह नानास्ति किञ्चन'^३ इत्यादि वाक्यों से अद्वैत का जो विवेचन हुआ, उसका ही यह अदम्य प्रभाव है । जीवात्मा उपाधिवश प्रपञ्च में पड़ जाता है अतः उस में ईश्वर के जमाल और जलाल गुण सीमित हो जाते हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर का अनन्त सौन्दर्य और माधुर्य पक्ष तथा शक्ति और ऐश्वर्य पक्ष अपने अनन्त विकास में नहीं रहते—

छोड़ि जमाल जलालहि रोवा । कौन ठां व ते देउ बिछोवा ॥^४

ससार ईश्वर का अचित् पक्ष है । इस में जीवात्मा उसका चित् पक्ष है, अतः जीव का ससार से जातीय सम्बन्ध नहीं है । यहाँ तो केवल भ्रमवश वह प्रपञ्च में पड़ा हुआ अपने को ईश्वर से भिन्न समझ रहा है । भ्रम ही बन्धन है । इस भ्रम के निवारण होने पर ही जीवात्मा शरीर बन्धन से मुक्त होकर मृत्यु को पार करता है और अमर पद प्राप्त करता है । इसीलिए शाह बरकतुल्ला यमराज से कहते हैं कि रे यम ! क्या तू बावला हो गया है कि जो तू मुझे लेने आया है । मैंने तो पहले ही अपने भ्रम के समक्ष आत्म-समर्पण कर दिया है । पुनः वह जीवात्मा से कहते हैं कि प्रेम-बंधन में अपना जीवन दे दो । अन्यथा मृत्यु इस पर अधिकार कर लेगी । रे मूर्ख ! सोच, इन दोनों में से क्या हितकर और श्रेष्ठ है—

'जम' जनि बोरा होइ तूं, डोरत घेरत आना ।
हम तो तब ही दे चुके, प्राणनाथ को प्राणा ।
प्रेम पंथ जी दीजिये, 'जम' लहो यह पौना ।
बौरे मन तू न्याव कर, दुइ में नीको कौना ।

अमर पद की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अनेक प्रकार की साधना करनी पड़ती है । इस साधना से मनुष्य का हृदय पवित्र होता है और जिसका हृदय पवित्र होता है वही उसे जान सकता है । हृदय रूपी दर्पण सब के पास है परन्तु जिसका दर्पण स्वच्छ है वही परमात्म-स्वरूप को देख सकता है और जिसका दर्पण अस्वच्छ है—

^१ छान्दोग्योपनिषद्, ६, २, १ ।

^२ बृहदारण्यकोपनिषद् ४, ४, १६ ।

^३ जायसी ग्रन्थावली—अखरावट, पृ० ३०८ ।

^४ शाह बरकतुल्लाज कौन्ट्रीब्यूशन टू हिन्दी लिट्रेचर, (प्रथम भाग), प्रमप्रकाश पृ० २३ ।

इन प्रेममार्गी कवियों के अतिरिक्त कबीर ने भी इस अद्वैत का विवेचन किया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार प्रकाश और किरण सूर्य से भिन्न नहीं उसी प्रकार जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं। प्रकाश किरण में और किरण सूर्य में रहती है परन्तु वस्तुतः वे भिन्न नहीं। इसी प्रकार व्यापक ब्रह्म के मध्य घट-घट में रहा जीव भी उस से पृथक् नहीं—

ज्यों रवि मढे किरिन देखिए किरिन मध्य परकासा ॥

परमात्म में जीव ब्रह्म इमि जीव मध्य तिमि स्वांसा ॥^१

वह ब्रह्म ही बीज है, वही वृक्ष है, वही अंकुर है तथा फूल-फल और छाया भी वहीं है। वही सूर्य है, वही किरण है और वही प्रकाश है। जीव और माया भी वही है—

आपहि बीज वृच्छ अंकुरा, आप फूल फल छाया ।

आपहि सूर किरिन परकासा आप ब्रह्म जिब माया ॥^२

शाह भी जीव और ब्रह्म की अभिन्नता की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि तुम किस से दूर करते हो, दूसरा कोई नहीं है। जिसके तुम अंश हो वही सब में व्याप्त हो रहा है—

किस सौ बेरी हूँ रह्या, दूजा कोई नाहिं ।

जिसके अंग थे ऊपज्या, सोई है सब माहिं ॥^३

ऐसी कवि ने हिन्दू और मुसलमान दोनों में एक ही ईश्वर का प्रकाश माना है 'प्रेमी हिन्दू तुरक में, हर रंग रहो समाय' ।^४

विविध साधक कवियों के इन उपरोक्त उद्धरणों से ज्ञात होता है कि जीव की सत्ता ब्रह्म से अलग नहीं है। जीव वास्तव में ब्रह्म ही है। नाम रूप की उपाधि सहित ब्रह्म का नाम जीव है। वह ब्रह्म ही उपाधिवश संसार में फँसा हुआ जीव रूप प्रतीत होता है और अपने को ब्रह्म से पृथक् समझता है। जब यह द्वित्व मिट जाता है तब पुनः अभिन्न भाव हो जाता है। संसार में चित् और अचित् ब्रह्म के ही दो पक्ष हैं अतः जीव की कोई पृथक् सत्ता नहीं। इसलिए जायसी ने कहा है कि ऐ जीव ! तू अपनी पृथक् सत्ता या अहंभाव को दूर कर ब्रह्म से एक होकर रह—

एकहि तैं दुइ होइ, दुइ सों राज न चलि सकै ।

बीचहिं आपुहि खोइ, मुहंभव एकै होइ रहू ॥^५

^१ कबीर वचनावली, पृ० २० ।

^२ वही, पृ० २०३ ।

^३ संतवाणी संग्रह, पृ० ६५

^४ शाह बरकतुल्लाज काट्टीव्यूशन टू हिन्दी लिट्रेचर, (प्रथम भाग), प्रेमप्रकाश, पृष्ठ ८ ।

^५ जायसी ग्रन्थावली—अखरावट, पृ० ३१४ ।

जिस का दर्पण ऊजला, सो दर्पण देखें माहि ।

जिसकी मंली आरसी, सो मुख देखें नाहि ॥^१—दादू

दरिया साहब ने भी कहा है कि तुम सब मे हो और सब तुम मे हे परन्तु इस रहस्य को कोई सन्त ही जान सकता है—

सब महँ तुम तुम में सबे, जानि मरम कोई संत ॥^२

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जब जीव ईश्वर का ही अंश है तब वह पाप-कर्म क्यों करता है और दुख से क्यों पीड़ित है, क्योंकि ब्रह्मा तो शुद्ध और आनन्द स्वरूप है । इस शका का समाधान इस प्रकार किया जा सकता है कि सुख-दुख और पाप-पुण्य व्यावहारिक सत्ता के लक्षण है और व्यावहारिक सत्ता काल्पनिक अथवा भ्रम मात्र है इसलिए पारमार्थिक सत्ता पर पाप तथा दुख का आरोप नहीं किया जा सकता । पारमार्थिक सत्ता अपने स्वातन्त्र्य मे सर्वथा निरपेक्ष है । इसलिए व्यवहार में दुख तथा पाप का अवकाश होने पर भी परमार्थ मे इन दोषो का आरोप नहीं किया जा सकता । अतः यह मानने मे कोई आपत्ति नहीं कि जीव परमार्थ स्वरूप में ब्रह्मा का अंश है । व्यवहार का लाक्षण परमार्थ सत्ता पर नहीं पड सकता क्योंकि व्यावहारिक सत्ता काल्पनिक अथवा भ्रम मात्र है जैसा कि पहले कहा जा चुका है ।

^१ सन्तवानी संग्रह, (पहला भाग), पृ० ६६ ।

^२ वही, (पहला भाग), पृ० १२५ ।

द्वादश पर्व गुरु

सूफीमत में गुरु की बड़ी महिमा है—यह कहा जा चुका है। संसार एक अन्ध-कारपूर्ण बीहड़ वन है, जिस में मार्ग का पाना बड़ा दुष्कर है। इसमें पथ-प्रदर्शक की परम आवश्यकता है। वही अपने ज्ञान-दीपक से गन्ता को मार्ग दिखाता है। यदि गुरु हाथ पकड़ ले तो वह लक्ष्य पर पहुँच जाता है अन्यथा प्रपञ्च रूप गहारा की भूल-भूलियों में ही चक्कर काटता रहता है और कभी भी गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुँचता उसके बिना पथ नहीं मिलता—

बिनु गुरु पंथ न पाइय, भूलें सो जो भेट ।^१

सद्गुरु का मिलना बड़ा कठिन है परन्तु जिसे वह मिल जाता है वह सुखकर मार्ग पर ही चलता है। कारण यह है कि वह फिर पथभ्रष्ट नहीं होता। उसे दीपक मिल जाता है और वह उसके प्रकाश में सौधा ही चला जाता है। उसे विषमताएँ भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं अतः वह उन पर विजय पाता हुआ बढ़ता है और अपने हृद्द नेता के नेतृत्व में सभी कठिनाइयों को पार करता हुआ परमानन्द का अनुभव करता है—

जेइ पावा गुरु मीठ सो सुख सारग महँ चलें ।

सुख अनंभ भा दीठ, भूहमव साथी पोड़ जेहि ॥^२

गुरु के ज्ञान-दीपक बिना मार्ग निशामन मार्ग की भाँति अग्रगम हो जाता है। सर्वत्र अज्ञान का अन्धकार ही अन्धकार व्याप्त रहता है अतः कुछ सूझ नहीं पडता। मार्ग पर अकेले चलना तो वैसे ही भयावह होता है, उस पर भी अन्धकार विषमताओं को गुप्त रूप से लाकर उसे और बाधामय बना देता है। इस अवस्था में मार्ग भला कैसे मिल सकता है ?

रेनि अँधेरी अग्रम अति, अगुवा नाहीं संग ।

पथ अकेला बापुरा किमि कर पावें भंग ॥^३

स्वयं मार्ग कभी देखा नहीं और प्रदर्शक को अपनाया नहीं फिर भला मार्ग का परिचय कैसे पा सकता है। अतः वह चतुर्दिक मार्ग की खोज में भटकता ही रहता है—

^१ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृ० ६२ ।

^२ वही, अखरावट, पृ० ३२२ ।

^३ चित्रावली, पृ० ४३ ।

जा कहँ गुरु न पथ दिखावा, सो अथा चारिहुँ दिसि थावा ॥^१

परन्तु जब सद्गुरु मिल जाता है तो उसकी सहायता से साधक का अज्ञान दूर हो जाता है और ज्ञान प्राप्त होता है । गुरु को महिमा अपार है । वह स्वयं मार्ग पा चुका है अतः उसका जीवन परमार्थ के लिए ही होता है। जो गद्भाव में उसकी शरण में आता है, उसे वह ज्ञान-दीपक दिखा देता है। गुरु के उपकारों की कोई सीमा नहीं क्योंकि वह अन्तर्दृष्टि को खोलने वाला है, जिस के खुलते ही मनुष्य अज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है । उसे गुप्त रहस्य हस्तामलकवन् हो जाते हैं और अज्ञान का नाशकार हो जाता है—

सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार ।

लोचक अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार ॥^२

गुरु की प्राप्ति पर यदि शिष्य तनिक भी भेद-भाव रखना है तो उसे सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती । उसे निश्चल और निःस्वार्थ होकर गुरु के चरणों में अपने को अर्पित कर देना ही होगा तभी वह लक्ष्य को पा सकता है, क्योंकि इस से वह गुरु की कृपा का पात्र हो जाता है । गुरु की कृपा ही रहस्यों का उद्घाटन कराती है और तब शिष्य सन्मार्ग का अनुगामी हो जाता है—

चेला सिद्धि सो पावै, गुरु सो करै अछेद ।

गुरु करै जो किरिपा, पावै चेला भेद ॥^३

दादू दयाल ने भी यही कहा है कि सद्गुरु के मिल जाने पर भक्ति और मुक्ति का भाण्डार ही मिल जाता है । बिना गुरु के भक्ति धारा सल्लक्ष्य की ओर प्रवाहित नहीं होती अतः परमात्म-दर्शन प्राप्त नहीं होता—

सतगुरु मिले तो पाइये, भक्ति मुक्ति भंडार ।

दादू सहजें देखिये, साहित्य का दीदार ॥^४

गुरु ही इस विषय में समर्थ होता है । यारी का कथन है कि गुरु के चरणों की धूल उस अंजन का कार्य करती है जो आँखों में लगाने पर अज्ञानांधकार को मिटा देता है । इस से प्रकाश हो जाता है और निराकार परमात्मा प्रकाश रूप में दृष्टिगोचर होता है—

गुरु के चरणों की रज लेके, दोउ नैन के वच अंजन दिया ।

तिमिर भेटि उंजियार दुआ, निरंकार पिया को देखि लिया ॥^५

१ चित्रावली, पृ० ६५ ।

२ सन्तवानी संग्रह (पहला भाग), पृ० १ ।

३ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृ० १०६ ।

४ सन्तवानी संग्रह (पहला भाग), पृ० ७७ ।

५ वही (दूसरा भाग), पृ० १४५ ।

मनुष्य गुरु के बिना साधना-मार्ग में निपट प्रसमर्थ है। शरीर की बाह्य गृद्धि से कोई लाभ नहीं। ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए हृदय की निर्मलता आवश्यक है और वह काम-तोषार्थि अन्तर्मल की शुद्धि के बिना असम्भव है। बुल्लेशाह के कथनानुसार बिना सद्गुरु के उस प्रन्तर्मल का प्रभ्रालन केवल पूजा-पाठ आदि से नहीं हो सकता अतः वह निष्फल ही है—

बाहरां पाक कोते की होदा, जो अंदरों न गई पतीती ।

बिन मुरशिद कामिल दुम्ला तेरी, ऐवें गई इबादत वीली ॥^१

गुरु का इतना माहात्म्य ज्ञान के कारण शिष्य का सद्गुरु की खोज करती पड़ती है क्योंकि यदि गुरु स्वयं अन्धा है और उसे प्रज्ञानवश कुछ सूझ नहीं पड़ता तो शिष्य को भला क्या मार्ग दिखायेगा क्योंकि शिष्य भी तो अन्धा ही है। कबीर का कहना है कि इस प्रकार अज्ञानी गुरु प्रबोध शिष्य को अन्धा अन्धे की भांति अंधाधुंध टेलता हुआ प्रपंच के अन्ध-कूप में जा गिरता है—

जाका गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध ।

अंधे अंधा डेलिया, बीऊ कूप परंत ॥^२

संसार में केवल सिर भुंडाने और इधर-उधर फिरने से कोई योगी या सिद्ध नहीं हो जाता। योग और सिद्धि की प्राप्ति गुरु की कृपा में ही निहित है—

भूंड भुंडाये जग फिरे, जोगी होइ न सिद्ध

जा कहें गुरु किरपा करीह, सो पावै नौ निद्ध ॥^३ —उसमान

वह गुरु मुल्ला या काजी नहीं हो सकता जो नमाज पढ़ाते हैं, मंत्र दीक्षा देते हैं तथा सदा शरअ (इस्लाम के विधान) का डर दिखाते हैं। बुल्लेशाह का कहना है कि भला हमारे प्रेम को इस शरअ से क्या—

मुल्ला काजी नमाज पढ़ावन, हुकम सदा दा भय सिखलावन ।

साढ़े इसक नूं की सरा दे नाल ॥^४

वह गुरु पंडित होना चाहिए। पंडित से अभिप्राय है जो ज्ञानी है और जिस ने तत्त्व को जान लिया है। वह कभी सत्य के विरुद्ध बात नहीं कहता और सदा पथ-भ्रष्ट को सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करता रहता है—

१ सन्तवानी संग्रह (पहला भाग), पृ० १५३ ।

२ सन्तवानी संग्रह (भाग पहला), पृ० ४ ।

३ चित्रावली, पृ० ८६ ।

४ सन्तवानी संग्रह (दूसरा भाग), पृ० १६० ।

पंडित केरि जीभ मुख सूधी । पंडित बात न कहै विरुधी ।

पंडित सुमति देइ पथ लावा । जो कुपंथि तेहि पंडित न भावा ॥^१

नूरमुहम्मद ने अनुराग बासुरी में सनेह गुरु के मुख से कहलवाया है कि केवल दाढ़ी रखाने, माला फेरने या किसी भेष के धारण करने से तपी या वैरागी नहीं होता । उसका योग तो तभी पूरा होता है जब मन की माला जपता है और ध्यान में ही स्मरण करता है—

है धैराग पंथ अनि गाढ़ी । चलि न सकै जिन्ह के मुख दाढ़ी ॥

तपी न होहि भेस कैं किहें । रंग दुकूल माला के लिहें ॥^२

मन के मालें सुमिरें नेही लोग । ध्यान औ सुमिरन सों, पूरन जोग ॥^३

जब केवल बाह्य आचारों से तपी और वैरागी नहीं हो सकता तब वह सद्गुरु के उत्तम पद को कैसे पा सकता है ? कबीर ने तो बाह्य वेष की बड़ी निन्दा की है । उनकी दृष्टि में गुरु और गोविन्द (ईश्वर) में कोई अन्तर नहीं है । 'गुरु गोविन्द तो एक है'^४ इस वाक्य से उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है । जायसी ने भी, 'आपुहि गुरु आपु भा चेला'^५ कहकर इसकी पुष्टि की है । वे एक पग आग और बढ गये हैं । उन्होंने सच्छिष्य, सद्गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं माना है । यद्यपि यह वाक्य अद्वैत की दृष्टि से है तथापि इससे गुरु का माहात्म्य तो व्यजित है ही । रत्नसेन के मुख से पद्मावती को गुरु कहलाकर भी यही बात ध्वनित की गई है—

सो पदमावति गुरु हों चेला । जोग तंत जेहि कारन खेला ॥^६

उसमान ने भी ईश्वर को ही पथ-प्रदर्शक कहा है—

पावैं खोज तुम्हार सो, जेहि देखावहु पंथ ।^७

इस प्रकार सूफियों में गुरु को बड़ा उच्च स्थान दिया गया है । भूले को मार्ग पर लाने वाला, रहस्यों का उद्घाटन करने वाला तथा ईश्वर से मिलाने वाला गुरु ही है । अतः गुरु ईश्वर से कम नहीं । कबीर ने एक स्थान पर गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर कहा है, क्योंकि गुरु ईश्वर का बोध कराने वाला है—

^१ जायसी ग्रन्थावली, पदमावत, पृ० ३६ ।

^२ अनुराग बासुरी, पृ० ३२ ।

^३ वही, पृ० ३३ ।

^४ कबीर वचनावली, पृष्ठ ३ ।

^५ जायसी ग्रन्थावली—अखरावट, पृष्ठ ३३४ ।

^६ वही, पदमावत, पृष्ठ १०५ ।

^७ चित्रावली, पृष्ठ ४८ ।

गुरु गोविंद बोज़ खड़े, काके लागू पाँच ।
बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद विद्यो बताय ॥^१

ऐसे सद्गुरु का आश्रय तो साधक के लिए परम आवश्यक है। इस संसार-सागर में सद्गुरु ही हमारा कर्णधार है। यदि हमें इस माधना-पथ पर यात्रा करनी है तो उसके ज्ञान-प्रकाश से ही मार्ग के ग्रन्थकार को हटाना पड़ेगा और तभी हम पार हो सकेंगे—

सुकृत पिरेमाहिं हितु करहु, सत बोहित पतवार ।

खेवट सतगुरु ज्ञान है, उतरि जाव भी पार ॥^२ दरिया—

यह पहले कहा जा चुका है कि सूफी का चरम लक्ष्य तत्त्व का साक्षात्कार करना है। यह साक्षात्कार ही सूफी के लिए मुख्य प्रमाण है। गुरु अथवा ग्रन्थ ये सब साधन मात्र हैं, साध्य नहीं। गुरु यदि साक्षात्कार कराने में सफल है तो गुरु मान्य है अन्यथा नहीं। तत्त्व-दर्शन जो सूफी को अपनी आत्मा में सीधा उपलब्ध होता है, उसके लिए ऐसा प्रमाण है जिसके आगे गुरु का प्रमाण भी गौण है। गुरु की उपादेयता ज्ञान-प्राप्ति तक ही सीमित है। ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् सब बाह्य प्रमाण जिसमें गुरु भी सम्मिलित है, सूफी की दृष्टि में हेय है। यही कारण है कि इस्लामी शरीअत में सम्मानित पैगम्बर को निर्णय-दिवस का मध्यस्थ मानने के लिए ज्ञाननिष्ठ सूफी कभी उद्यत नहीं।

^१ सन्तवानी संग्रह (पहला भाग), पृष्ठ ९०

^२ सन्तवानी संग्रह (पहला भाग), पृष्ठ १२१

त्रयोदश पद्य प्रेम और विरह

सूक्तियों की साधना में प्रेम का बड़ा माहात्म्य है। भक्ति में जिस देवधिपयक रति का प्रतिपादन हुआ है उसमें श्रद्धा एवं भय की प्रधानता होती है। भारतीय भक्ति-पद्धति में इन तत्त्वों के होते हुए भी प्रेम का अंश विद्यमान था। कृष्ण और गोपियों के अलौकिक प्रेम में हमें इस प्रेम के पूर्ण दर्शन होते हैं। भागवत में चित्रित इस प्रेम का उल्लेख हमने पहले कर दिया है परन्तु हिन्दी में सर्वप्रथम साधना के निमित्त प्रेम को आधार बनाते हुए हम सूफी सन्तों को ही पाते हैं। प्राप्त सामग्री के आधार पर ज्ञानमार्गी और प्रेममार्गी जिन दो प्रकार के साधकों का उल्लेख हुआ है उनमें प्रथम वर्ग के लोगो ने भी प्रेम को महत्त्व दिया ही है। इन सूफियों के लिए यह कोई नया मार्ग न था। परम्परा से ही उन्हें यह प्राप्त हुआ था। फारस आदि देशों में यह मानव-मन में माधुर्य भर ही चुका था और यहाँ भी वैष्णव सम्प्रदाय की भक्ति-परम्परा में प्रेम का उद्भाव चिरकाल से ही था। परन्तु इन्होंने निराकारो-पासना में प्रेम की आधार-शिला पर साधना का एक ऐसा सुन्दर भवन खड़ा किया और अन्य तत्कालीन परम्पराओं से सामग्री लेकर उसमें ऐसा पुट दिया कि देखते ही बनता है।

फारसी मसनवियों के आधार पर प्रेममार्गी कवियों ने प्रेमाख्यानक काव्य लिखे जिनमें प्रेम-कहानियाँ ही हैं। नायक एक प्रेमी है जो किसी रमणी के प्रेम-पासा में आबद्ध हो योगी होकर निकल पड़ता है और अनेक कष्टों के उपरान्त अपनी प्रियसी को प्राप्त करता है। चार प्रकार के प्रेमों में से प्रायः चतुर्थ प्रकार से ही प्रेम का आयोजन हम इन कथाओं में पाते हैं। भारतीय सस्कृति में विवाह का बड़ा महत्त्व है। इसे एक धार्मिक क्रिया माना गया है। अपरिचित अवस्था में ही वर-वधू के पाणिग्रहण के उपरान्त उनमें जो प्रेम का उद्भाव होता है और पुनः जनैः जनैः मधुरता को प्राप्त होता है वह उनका पवित्र दाम्पत्य-प्रेम कहलाता है। दूसरे प्रकार का प्रेम वह है जो किसी रम्य स्थान पर परिचय से उत्पन्न होता है। इसमें नायिका का सौन्दर्य एवं हाव-भाव तथा समीपस्थ प्रकृति-सौन्दर्य उद्दीपन का कार्य करता है। विवाह इसका परिणाम होता है। विवाह से पूर्व अधिकांशतः नायक और नायिका दोनों ही विरह से तड़पते रहते हैं। इस बीच दूती-प्रयोग एवं पत्र-प्रेषण भी होता है जो विरह को और जगाकर प्रेम-परिपाक का कारण होता है। कभी-कभी क्षणिक संयोग प्राप्त हो जाता है। तृतीय प्रकार का प्रेम प्रायः कामुकता-पूर्ण ही होता है। बहु पत्नियों में प्रेम का जो रूप हो

सकना है वही इस कोटि में आता है। चतुर्थ प्रकार का प्रेम प्रायः गले ही पड़ा करता है। यह चित्र या स्थान में दर्शन, गुण-श्रवण अथवा तत्सम्बन्धी किसी सुन्दर वस्तु के दर्शन में हुआ करता है। पद्मावती में गुण-श्रवण, चित्रावली में चित्र-दर्शन एवं अनुराग वागुरी में मोहनमाला देखकर ही प्रेम का उद्भाव हुआ है। इन्द्रावती में स्वप्न-दर्शन से ही राजकुंवर प्रेमपाश में बंध गया है। मधुमालती में यह प्रेम दर्शन से हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुधा चतुर्थ प्रकार से ही प्रेम की उद्भूति इन काव्यों में हुई है।

इन काव्यों में प्रमकथाएँ अव्यय लिखी हैं परन्तु इनसे ईश्वरीय प्रेम की ही व्यञ्जना की गई है। स्थान-स्थान पर ईश्वरीय सौन्दर्य, शक्ति और वैभव का वर्णन कर संकेतों द्वारा यही प्रदर्शित किया गया है कि सासारिक प्रेम ईश्वरीय प्रेम की एक सीढ़ी है। ईश्वर स्वयं प्रेम रूप है अतः उसी से निसृत सारी सृष्टि भी प्रेम की प्रतिमूर्ति ही है। सासारिक प्रेम हृदय में निहित मूल प्रेम का अभिव्यंजक हो जाता है। भला जो प्रेम के रहस्य को नहीं जानता वह प्रेम-साधना ही क्या करेगा ? इसलिए सूफियों ने इसके मजाजी (सांसारिक प्रेम) को इसके हकीकी (ईश्वरीय प्रेम) का साधक माना है।

जायसी ने लिखा है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति मुहम्मद रूप ज्योति के प्रीत्यर्थ ही हुई।^१ उसमान ने सृष्टि में प्रेम को ही आदि तत्व माना है। ईश्वर सौन्दर्य रूप है। वह स्वयं अपने सौन्दर्य पर मुग्ध हुआ और स्वयं से प्रेम करने लगा। यही प्रेम सृष्टि का कारण हुआ—

आदि प्रेम विधि ने उपराजा । प्रेमहि लागि जगत सब साजा ॥

आपन रूप देखि सुख पावा । अपने हीए प्रेम उपजावा ॥^२

जहाँ सौन्दर्य है वही प्रेम है। सौन्दर्य और प्रेम मिलकर सुख की सृष्टि करते हैं। इन्होंने ही विरह को जन्म दिया है। संयोग में यही सुख के कारण होते हैं किन्तु वियोग में दुख के। संयोग सदा नहीं रहता है, कभी न कभी वियोग का मुख देखना ही पड़ता है। और जितना अधिक प्रेम होता है वियोग में दुख की मात्रा भी उतनी ही अधिक होती है। जहाँ प्रेम है वहाँ विरह अवश्य है और विरह है तो तपन, तड़पन एवं विकलन आदि भी हैं। इन्हीं में परम पीड़ा भी है किन्तु वह पीड़ा बड़ी मधुर होती है। यही विरह प्रेम के परिपाक का कारण होता है। इसीलिए इसे बड़ा मूल्य दिया गया है—

^१ प्रथम ज्योति विधि ताकर साजी । तेहि प्रीति सिहिटि उपराजी ॥

—जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृष्ठ ४ ।

^२ चित्रावली, पृष्ठ १३ ।

रूप प्रेम मिलि जो सुख पावा । दूनहूँ मिलि विरहा उपजावा ॥

जहाँ प्रेम तहँ विरहा जानहु । विरह बात जनि लघु करि मानहु ॥^१

शाह बरकतुल्ला ने भी कहा है कि जहाँ प्रेम है वहा वियोग है तथा वियोग के दुःखातिरेक में प्रेम बढ़ता है—

जहाँ प्रीत तहँ विरह हँ ।^२

जैसेसुइ विरहा कठिन है, तैसेसुइ बाढ़त पीत ।^३ ये सौन्दर्य, प्रेम और विरह जगत में सृष्टि के मूलाधार है—रूप प्रेम विरहा जगत, मूल सृष्टि के श्थम ।^४

इन प्रेमी साधकों को प्रेम-भगवान की लीला ही सर्वत्र दृष्टिगोचर होती थी । इस सृष्टि का मूलाधार प्रेम ही है । सब प्रेम-बन्धन मे ही बँधे हैं । ऐसा कौन है जो प्रेम-त्राण से बिधा नहीं तथा पागल हुआ धिरनी की भाँति चक्कर नहीं काटता है । आकाश मे असंख्य ग्रह और उपग्रह सब उसी की खोज मे घूम रहे हैं । पृथ्वी उसी के वाण से बिद्ध है । खड़े हुए वृक्ष इसी की साक्षी दे रहे हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य ही नहीं पशु-पक्षी एवं उद्भिज जगत भी प्रेम मे लीन तथा विरह से विकल है—

उन्ह बानन्ह अस को जो न मारा ? बेधि रहा सगरौ संसारा ॥

गगन नखत जो जाँह न गने । वे सब बान ओही के हने ॥

धरती बान बेधि सब राखी । साखी ठाढ़ देहि सब साखी ॥

रोवं रोवं मानुस तन ठाढ़े । सूतहि सूत बेध अस गाढ़े ॥^५ —जायसी

इसीलिए जायसी ने कहा है कि त्रिभुवन एवं चौदहों खंडों मे सर्वत्र मुझे यही सूझ पड़ता है कि प्रेम के अतिरिक्त अन्य कुछ भी सुन्दर नहीं है—

तीनि लोक चौदह खंड, सब परँ मोहि सूझि ॥

पेम छाँड़ि नहि लोन किछु, जो देखा मन बूझि ॥^६

प्रेम दैवी विभूति है अतः इसकी साधना बड़ी कठिन है । जिसके हृदय मे प्रेम-समुद्र लहराता है, वह कभी मरता नहीं है । वह उसकी अगाधता में डुबकियाँ ले लेकर मोती निकाला करता है—

जाना जेहिक प्रेम मह हीया । मरँ न कबहँ सो मरजीया ॥^७ —नूरमुहम्मद

^१ चित्रावली, पृष्ठ १३ ।

^{२,३} शाह बरकतुल्लाज कौट्टीब्यूशन टू हिन्दी लिट्रेचर (भाग एक), प्रेमप्रकाश, पृष्ठ २० ।

^४ चित्रावली, पृष्ठ १४ ।

^५ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृष्ठ ४३ ।

^६ वही, पदमावत पृष्ठ ३९ ।

^७ इन्द्रावती, पृष्ठ ६ ।

नूर मुहम्मद ने 'जा मन जमा प्रेम रस, भा दोउ जग को राय'^१ कहकर प्रेमी को दोनों लोको का राजा बतलाया है। प्रेमोदय में ईश्वरीय गुण का विकास होता है अतः उसे ईश्वरत्व एवं बन्धन-मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। यही कारण है कि वह स्वामीपद में विभूषित होता है। जायसी भी यही कहते हैं कि प्रेम का खेल कठिन अवश्य है परन्तु जिसने इसे खेला है वह दोनों लोकों से पार हो गया है। प्रेम मार्ग पर सिर दिये बिना संसार में जीवन ही निष्फल है—

भलेहि प्रेम है कठिन दुहेला । बुझ जग तरा प्रेम जेइ खेला ॥

जो नहिं सोस प्रेम पथ लावा । सो प्रियमी महँ काहे क आवा ॥^२

स्फियों के प्रेम में रति भाव प्रधान है। प्रियतम के प्रति पूर्ण रति के बिना विविध वेश निष्फल है। यदि रति है तो वन और सदन सब समान हैं। चाहे जहा रहकर उसे अपनाइये वह प्रसन्न होगा। कबीर का कहना है कि प्रेम का प्याला पीने पर रोम-रोम में उसका उन्माद हो जाता है अतः पुनः कोई अन्य आचरण अच्छा नहीं लगता। यही कारण है कि उसके प्रेम में अनन्यता होती है। जब उसका प्रेम परिपूर्ण है तब प्रियतम भी बाह्याचार की अपेक्षा नहीं करता। वह भी तो केवल भाव का ही भूखा है—

प्रेम भाव इक चाहिये, भेष अनेक बनाय ।

भावेँ घर में वास करु, भावेँ वन में जाय ॥

कबीर प्याला प्रेम का, अंतर लिया लगाय ।

रोम रोम में रसि रहा, और अमल क्या लाय ॥^३

दिव्य प्रेम की अभिव्यक्ति पर सर्व प्रकार का आवरण हट जाता है। तन कुन्दन हा जाता है, मन मँज जाता है, हृदय तपकर निर्मल हो जाता है और वह सुरत-निरत हो जाता है—

दादू इसक अलाह का, जे कबहूँ प्रकटै आइ ।

तन मन विल अरवाह का, सब पड़वा जलि जाय ॥^४

जो प्रेम के रंग में रंग जाता है उसकी भूख और नींद नष्ट हो जाती है। उसके पेट की भूख हृदय में आ जाती है। हृदय प्रियतम को समा लेना चाहता है। आँखें भी वियोग-साधना में योग साधे बैठी रहती हैं। अतः पलक तक नहीं मारतीं, भला फिर नींद कहाँ? भूख और नींद के अभाव में उसे विश्राम भी नहीं—

^१ इन्द्रावती, पृष्ठ ६ ।

^२ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृष्ठ ४० ।

^३ सन्तवानी संग्रह, (पहला भाग), पृष्ठ २० ।

^४ वही, (पहला भाग), पृष्ठ ८३ ।

जेहि के हिये पेम रँग जामा । का तेहि भूख नीँव विसरामा ॥^१ —जायसी
जब प्रेम का बन्धन ही उसे प्रिय लगता है तब अन्य बन्धन भा भी कैसे
सकता है। उसे ज्ञात हा जामा हे कि जगत-बन्धन दुखदायक है और प्रेम-बन्धन ही
आनन्दप्रद है—

दूसर बन्द न भावत, जहाँ प्रेम को बन्द ।

जगत बन्द दुखदायक, प्रेम बन्द आनन्द ॥^२

इस प्रेम का माता केवल प्रियतम को चाहता है। वह भिक्षा चाहता है परन्तु
अपने आराध्य की। वह अपने प्रियतम से कुछ न चाहकर उसे ही पाना चाहता है।
उसकी तीव्रतम इच्छा यही रहती है कि एक बार मिलन हो जाय। इन्द्रावती में नायक
के मुख से केवल इन्द्रावती की प्राप्ति की इच्छा द्वारा कवि ने यही व्यजित किया है—

इन्द्रावती को मिलन है, उत्तम भीख हमार ।

जग में दूसर भीख को, अहों न चाहनहार ॥^३

जायसी भी यही कहते हैं कि जब तक प्रिय नहीं मिलता, तब तक प्रेमी प्रेम-पीर
से विकल रहता ही है जैसे शुकित स्वाति नक्षत्र की बूँद के लिए समुद्र के अथाह जल में
साध साधे पड़ी रहती है—

जब लगि पीउ मिलै नहिँ, साधु पेम क पीर ।

जैसे सीप सेवाति कहँ, तपै समुद्र सँभ नीर ॥^४

प्रिय की प्राप्ति तक प्रेम का मधुर उन्माद उसके लिए कल्पतरु तथा चिन्तामणि
का कार्य करता है। प्रेम-दग्ध हुआ भी वह छाया और आतप को तुल्य ही समझता है।
वह प्रिय-मिलन के लिए आकाश और पाताल को एक कर देना चाहता है। पदमावती,
में रत्नसेन को पदमावती के निमित्त प्रेम-भार्ग पर सप्त पातालो को खोजने तथा सप्त
स्वर्गों का आरोहण करने का भी अदम्य साहस करते हुए पाते हैं—

सप्त पतार खोजि कै, फाढ़ों वेद गरंथ ।

सात सरग चढ़ि धावों, पदमावति जेहि पंथ ॥^५

इस अदम्य साहस का यही कारण है कि प्रिय-वियोग में प्रेम शरीर को शीरं
अवश्य करता है परन्तु शक्ति को बढ़ाता है। इस मार्ग के यात्री को सम और विषम
सब समान हैं। अथाह जलराशि की अगाधता तथा गहन वनों की अगम्यता उसके

^१ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृष्ठ ५८ ।

^२ इन्द्रावती, पृष्ठ ६६ ।

^३ वही, पृष्ठ ७६ ।

^४ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृष्ठ ७४ ।

^५ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृष्ठ ६३ ।

मार्ग में तनिक भी बाधा नहीं डालती । उसके लिए कुटिल भी ऋजु हो जाता है—

दधि आरारण्य प्रेम पद आगे । सूधो पथ होत अनुरागें ॥^१

उसमान ने 'प्रेम पट्टार स्वर्ग ते ऊँचा'^२ कहकर प्रेम को स्वर्ग से भी ऊँचा बतलाया है । जायसी भी 'जहा प्रेम कह कसल खेमा'^३ इस वाक्य से प्रेम की कठिनता ही बतलाते हैं । नूर मुहम्मद ने तो 'कठिन प्रेम का फाद, मुकुत न होइ'^४ तथा 'तरफराड जिमि वन सरजादू । तिमि प्रेमी को हं मरजादू'^५ लिखकर प्रेमपाश से मुक्ति असम्भव बतलाई है और कहा है कि प्रेमी विरह में स्थल पर पड़ी मछली क भाँति तड़पता और छटपटाता ही रहता है । परन्तु इस विकलता में भी उसे असीम आनन्द मिलता है । ईश्वर ने मनुष्य को जो हृदय दिया है वह प्रेमोन्माद में अतुल बलशाली हो जाता है । यही कारण है कि वह समस्त प्रेम पीडा को सह लेता है । सूफियों में प्रवाद है कि अल्लाह ने प्रेम की पीर को आकाश को देना चाहा परन्तु उसने इसकी दुष्करता देख लेना स्वीकृत न किया तब उसने मनुष्य को ही इसके योग्य समझकर इसे दिया ।^६ जायसी ने लिखा है कि प्रेम की चिनगारी से पृथ्वी और आकाश दोनों ही डरते हैं । वह विरही और उसका हृदय धन्य है जहाँ यह अग्नि समा जाती है—

मुहमद चिनगी प्रेम कै, सुनि महि गगन डेराइ ।

धनि विरही औ' धनि हिया, जहँ अस अग्नि सनाइ ॥^७

इस प्रेम की कठिनता तो प्रतीत होती है परन्तु साथ ही इसकी पीर में प्रेमी को जितना रस मिलता है वह इसी से प्रतीत होता है कि वह कुशल-क्षेम की चाहना तक नहीं करता और सर्वस्व दाव पर लगा देता है । धन-विभव, जन-परिजन सभी त्याग कर जगत से विरक्त हो जाता है और केवल प्रेम-संगीत ही चाहता है—

ना चाहत हौं कसल घेम् । जाइ सो जाइ रहै सँग पेम् ॥^८

प्रम प्रेमी में रहता है और वह प्रियतम के प्रति होता है अतः जहाँ प्रियतम है

१ अनुराग बाँसुरी, पृष्ठ २१ ।

२ चित्रावली, पृष्ठ ४० ।

३ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृष्ठ ६३ ।

४ अनुराग बाँसुरी, पृष्ठ १६ ।

५ अनुराग बाँसुरी, पृष्ठ १८ ।

६ चतुर अकास प्रेम कह चीन्हां । यारें ताको भार न लान्हां ॥

—वही, पृष्ठ १८ ।

७ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृष्ठ १८ ।

८ इन्द्रावती, पृष्ठ १५६ ।

वही सुख है। प्रियतम के अभाव में प्रेमी विरही हो जाता है और अनेक कार्यों का अनुभव करता है। परन्तु वह उन्हें अभिशाप नहीं वरदान समझता है और तपने में असीम आनन्द प्राप्त करता है। इसी में उसके प्रेम की सफलता है। दादू का कथन है कि प्रेम ही वह है जिसके परिणामस्वरूप प्रेमी प्रेमी न रहकर प्रेम-पात्र बन जाता है और ऐसे प्रणयपात्र का प्रेमी ईश्वर ही होता है—

आसिक मासुक ह्वै गया, इसक कहावै सोइ ।

दादू उस मासुक का, अल्लाहि आसिक होइ ॥^१

प्रेमी है ही वह जो सर्वत्र प्रेम ही प्रेम देखता है। सब कुछ ईश्वर का ही प्रदर्शन है। ईश्वर प्रेमरूप ही है अतः यह सब प्रेम-देव ही की लीला का प्रसार है। इसलिए ईश्वर का प्रेमी सदैव प्रेम-साधना में ही लीन रहता है और अपने प्रियतम की ओर ही बढ़ता रहता है। बुल्लेशाह बढावा देते हुए कहते हैं कि ऐ प्रेमी ! तू बढ़े जा और अपने प्रियतम ईश्वर से जा मिल—

आसिक सोई जेहड़ा इसक कमावे । जित बल प्यारा उत बल जावे ॥

बुल्लेशाह जा मिल तू अल्लाहे नाल ॥^२

ईश्वर के इस प्रेमी को अपने प्रियतम के अतिरिक्त और कुछ न चाहिए। संसार का कोई भी प्रलोभन उसे लुभा नहीं सकता। कनक और कामिनी उसके लिए क्रमशः मृत्तिकावत् और मोम की पुतली के समान हैं। भला उसके प्रियतम में कौनसा वैभव नहीं और कौन कामिनी उससे अधिक सौन्दर्यशालिनी है। वही उसका स्वर्ग है। पदमावती में पार्वती जब अप्सरा के छद्म वेश में रत्नसेन की परीक्षा करने आती है तो वह उपेक्षा भाव से यही कहता है कि यद्यपि तू सुन्दरी है परन्तु मुझे अपने प्रिय के अतिरिक्त अन्य से कोई सम्बन्ध नहीं और न मुझे स्वर्ग की ही चाहना है, क्योंकि वही मेरा स्वर्ग है जिसके निमित्त मैं प्रेम-पथ पर प्राणों को हथेली पर लिये फिरता हूँ

भलोह रंग अछरी तोर राता । मोहि सूर सों भाव न बाता ॥

हौं कविलास काह लं करऊँ ? सोइ कविलास लागि जेहि मरऊँ ॥^३

सूफियों में प्रतीकोपासना का बड़ा महत्त्व है। प्रेम भी एक प्रतीक ही है जिसके सहारे प्रियतम ईश्वर की साधना साधी जाती है और जिसका परिणाम प्रायः प्रिय-मिलन ही होता है। सूफियों में ईश्वर और जीव की अभिन्नता है। जीव ईश्वर का ही अंश है अतः वस्तुतः वही प्रेमी है और वही प्रियतम। प्रेमी कवि बरकतुल्ला ने

^१ सन्तवानी संग्रह (पहला भाग), पृष्ठ ८३ ।

^२ वही (दूसरा भाग), पृष्ठ १६० ।

^३ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृष्ठ ६१ ।

कहा है कि वही ईश्वर कही प्रेमी और कही प्रियतम तथा कही स्वयं प्रेम है—

कहीं माशूक कर जानां कहीं आशिक सितों माना ।

कहीं खुद इश्क ठहराना सुनो लोगो सुखा बानी ॥^१

इससे यही सिद्ध होता है कि प्रेमी जीव अपने ही वृहद् रूप से प्रेम करता है । परन्तु प्रेम की उद्भावना से पूर्व अहम्मन्यता एवं ममत्व के भाव में यह अपने को भिन्न मानता है । जायसी का कहना है तुम उस 'मैं मे' को हटा दो तो तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम्हारे भीतर प्रकट और गुप्त रूप से वही रमा हुआ है—

'हैं ही' करव अडारहु खोई । परगट गुप्त रहा भरि सोई ॥^२

सूफियों की इस प्रेम-साधना में यही विशेषता है कि प्रियतम में अभिन्नता समझकर ही इस मार्ग पर चला जाता है । भिन्नता एकता की साधिका कभी नहीं हो सकती । बरकतुल्ला ने अपने को खोकर ही अपने को पाना लिखा है । यथा बीज मिट्टी में मिलकर ही रंग लाता है उसी प्रकार सर्वत्र जब उसी को देखा जाता है और मन का संयमन कर प्रेम का रहस्य जान लिया जाता है तभी इस साधना की पूर्ति होती है अन्यथा प्रियतम का मिलन एक स्वप्न ही रहता है—

देखी में अद्भुत निर्गुण बानी ।

आपन खोय आप कों पावै, बूझै ग्यान कहानी ॥

जैसे बीज खेह में मिल कै, लावत है बहु रंग ।

त्यों वही अन्तर आप देखै, दूजो नाहिं प्रसंग ॥

प्रेम गुहार भली विधि लागी, मन राखे आधीन ।

तब बूझै 'पेमी' या भेदाहिं, नाहिं तू तेरह तीन ॥^३

इस अभिन्नता के कारण ही प्रेमी का प्रेम प्रियतम के मन में भी प्रेम की उद्बुद्धि का कारण होता है । पुनः प्रियतम भी अपने प्रेमी के लिए तड़पने लगता है । पद्मावती काव्य में सुन्दरी पद्मावती भी रत्नसेन के योग से प्रभावित हो स्वयं भी वियोग में योग साधती है । रजनी में उसे नींद नहीं आती । शैया पर लेटना भी सहा नहीं है भानों किसी ने उस पर कपिकच्छुआ का जाल बिछा दिया है । चन्द्र, चन्दन और चीर सभी तो जलाने लगे हैं । प्रचण्ड विरहागिन शरीर को दग्ध कर रही है । रात्रि कल्प के समान बड़ी हो गई है और एक-एक पग पहाड़ हो गया है—

^१ शाह बरकतुल्लाज कौट्टीब्यूशन टू हिन्दी लिट्रेचर (पहला भाग), प्रेमप्रकाश पृष्ठ १३३ ।

^२ जायसी ग्रन्थावली—अखरावट, पृष्ठ ३२६ ।

^३ शाह बरकतुल्ला कौट्टीब्यूशन टू हिन्दी लिट्रेचर (पहला भाग), प्रेमप्रकाश पृष्ठ ६१ ।

पदमावती तेहि जोग संजोबा । परी पेम बस गहे बियोगा ॥
 नींद न परै रैनि जौं आवा । सेज कँवाच जानु कोइ लावा ॥
 दहे चंद औ' चन्दन चीरू । दगध करं तन विरह गँभीरू ॥
 कल्प समान रैनि तेहि बाढ़ी । तिल तिलभर जुग-जुग जिमि गाढ़ी ॥^१

इससे यह व्यजित होता है कि प्रियतम ईश्वर भी प्रेमी साधक में मिलन के लिए विकल रहता है । आगे यह व्यथा और भी अधिक व्यक्त हुई है । जब पद्मावती कहती है कि कौन सी मोहिनी है जिसके वश तेरी व्यथा मेरे मन में भी उत्पन्न हो गई है जिससे बिना जल के मछली की भाँति मैं तड़पती हूँ और 'पिउ पिउ' रटते तो पपीही हो गई हूँ—

कौन मोहनी दहूँ हृत तोही । जो तोहि बिथा सो अपनी मोही ॥
 बिनु जल मीन तलफ जस जीऊ । चातकि भइउँ कहत 'पिउ-पिऊ' ॥^२

पद्मावती काव्य की भाँति अन्य प्रेमाख्यानक काव्यों में भी नायिका के वियोग-दुख से यही व्यंजित होता है । इस प्रकार 'दोऊ प्रेम पीर में भूरत'^३ कहकर नूर मुहम्मद ने यही बतलाया है कि केवल प्रेमी ही नहीं वरन् प्रियतम भी दाह-दुःख सहता है । जब यह प्रेम दोनों के हृदय में बढ जाता है तो दोनों एक हो जाते हैं । यही कारण है कि विरह प्रेम का पोषक ही होता है परन्तु इसे प्रेमी ही जानता है—

प्रेम बढ़े जो बुझ मन, बोऊ एक होय ।

बिछुरे ते बाढ़त अधिक, बूभे प्रेमी होय ॥^४

प्रेम की इस एकनिष्ठता और तल्लीनता में दोनों की ऐसी एकरूपता होती है कि परस्पर सुख-दुख का भान भी होने लगता है । टीस यहाँ उठती है तो वेदना वहाँ होती है; प्रेमी के पग में काँटा चुभता है और प्रियतम को साजता है और प्रिय का छाला फूटकर प्रियतम की आँखों से गिरता है—

जैते चुभे काँट पग तेरे । सुनि साले सब हियरं मोरे ॥

औ' छाला जब पायन परा । फूटि पानि मम नैनन्हू डरा ॥^५

इस दिव्य प्रेम का परिणाम बड़ा मधुर होता है । जो कोई प्रेम-मार्ग को पार कर प्रियतम का साक्षात्कार कर लेता है वह फिर आकर इस भौतिक प्रपंच में फँसता

^१ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृष्ठ ७३ ।

^२ वही, पदमावत, पृष्ठ १३८ ।

^३ अनुराग बाँसुरी, पृष्ठ ६७ ।

^४ इन्द्रावती, पृष्ठ १० ।

^५ चित्रावली, पृष्ठ १०१ ।

नहीं है। वह उस उत्तम पद को पा लेता है जहां मृत्यु नहीं तथा मदा मुक्त का ही वास है—

प्रेम पंथ जो पहुँचे पारा। बहुरि न मिले आइ एहि छारा ॥

नेह पावा उत्तम कोलासू। जहाँ न मोच, सदा सुख बामू ॥^१

प्रेम के इस महत्त्व को 'प्रेमी' कवि ने 'जिन पायो तिन प्रेम ते'^२ कहकर सर्वोपरि दर्शाया है। उसमान ने तो-जान, ध्यान, जप, तप, मयम एवं नियम को मध्यम और प्रेम को उत्तम बतलाया है अतः प्रेमी ज्ञानी, ध्यानी, जपो, तपो, संयमी एवं नेमी सभी से बढ़कर है—

ज्ञान ध्यान महिम सबे, जप तप सजम नेम।

मान सो उत्तम जगत जन, जो प्रति पारै प्रेम ॥^३

इस प्रेम की प्रतीकोपासना में सुरा शब्द का बड़ा महत्त्व है। सुरा भी एक प्रतीक ही है। प्रेमोन्माद के लिए इसका व्यवहार होता है। इन सूफियों ने अधिक तो नहीं पर जहाँ कहीं इसका उल्लेख किया ही है। यथा सुरा-पान करने से मनुष्य उन्माद में सब कुछ भूल जाता है उसी प्रकार प्रेम-सुरा पीने पर उसकी वाह्य चेतना नष्ट हो जाती है और उसे केवल उसके ध्यान के अतिरिक्त और किसी का ध्यान नहीं रहता जिसने उसे पागल बना दिया है। जायसी का कथन है कि प्रेम-मदिरा का पान कर लेने पर जीने-मरने का भय दूर हो जाता है—

सुनु, धनि ! प्रम सुरा के पिए। मरन जियन डर रहै न हिए ॥^४

उसमान ने तो चित्र-दर्शन से ही प्रेमोदय हो जाने पर चित्रावली के प्रेम-मद-पान का वर्णन किया है। जिसके उन्माद में वह उन्मादिनी बनी हुई है—

चित्र प्रेम चित्रावली हीयें। माती रहै प्रेम पद पीयें ॥^५

प्रेमी साहसी हो जाता है तथा शक्ति क्षीण होने पर भी अति साहसिक कार्य करता है उसका कारण ही यह है कि प्रेम-सुरा के पीने पर उसके मन में कोई डर नहीं रहता। इसके बिना हृदय से भय जाता ही नहीं है—

^१ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृष्ठ ६२।

^२ शाह बरकतुल्लाह कौटुंब्युशन टू हिन्दी लिट्रेचर (प्रथम भाग), प्रेमप्रकाश पृष्ठ ६०।

^३ चित्रावली, पृष्ठ २३६।

^४ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृष्ठ १४१।

^५ चित्रावली, पृष्ठ ५१।

बिना कदम्बरि के पियेँ, त्रास न मन सों जात ।^१

सुरा के साथ सूफियों में साकी का भी बड़ा महत्व है। यह प्रणय-मदिरा पिलाने वाला होता है। नूर मुहम्मद ने लिखा है कि मदिरा की स्मृति मात्र से ही 'साकी' का ध्यान आ जाता है और उसका साक्षात्कार उसी रमणी के रूप में होता है जिसके चन्द्र-वदन पर मन चकोर बना हुआ है—

जाइ ध्यान वाहनि सों, रामा और ।

ता मन वा ससि कारन, भएउ चकोर ॥^२

सूफियों का साकी प्रणय-पात्र ही होता है अतः उसके नेत्र भी मदिरा ही ढालते हैं। वे अपने साकी में केवल एक मदभरा प्याला चाहते हैं और उसके मृत्यु में मन को दे डालते हैं—

अरे अरे कलवार प्यारे । मदिरा ढारें नैन तुम्हारे ॥

एक पियाला भर मद दीजै । मोल पियारे मानस लीजै ॥^३

इस प्रकार इस प्रेम की साधना में सुरा, प्रेम-मद एवं साकी स्वयं प्रियतम ही होता है। प्रियतम की चाहना ही प्रेमी को विक्षिप्त-सा बना देती है, यही प्रेमी की विरहावस्था कहलाती है। सूफियों में प्रायः प्रेम की उद्भावना नायिका की ओर से ही होती है। पद्मावती आदि सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों में भी नायिका के प्रत्यक्ष या परोक्ष दर्शन, चित्रदर्शन एवं गुणश्रवण से ही नायक के हृदय में रति की अभिव्यक्ति हुई है। अतः मिलन से पूर्व हम नायक को विरह के अनेक अनुभावों और संचारी भावों का अनुभव करते हुए पाते हैं। पुनः नायक के दर्शन अथवा गुणश्रवण से नायिका भी विकल हो जाती है और विरहाग्नि में जलने लगती है। इस प्रकार प्रेमी और प्रियतम दोनों ही तपते हैं और अन्त में कुन्दन के समान खरे उतरने पर संयोग प्राप्त करते हैं।

इन सूफियों ने विरह का बड़ा वर्णन किया है। प्रेम-पीर के जगाने से ही प्रियतम सुलभ हो जाता है ऐसी इनकी धारणा है। इसीलिए प्रिय के वियोग में जलना, कलपना, भूरना, विसूरना तथा जपना और निःसंज्ञ होना आदि व्यापारों से ये प्रेम की पीर जगाते रहते हैं। ईश्वर ही इनका सबसे बड़ा प्रियतम है। उसके वियोग में साधक का समस्त शरीर जलने लगता है। पद्मावती में योगी रत्नसेन की कथा तक विरहाग्नि से जल रही है—

^१ इन्द्रावती, पृष्ठ ३४ ।

^२ अनुराम बाँसुरी, पृष्ठ ५० ।

^३ इन्द्रावती, पृष्ठ ७८ ।

कथा जरै, आदि जनु लाई । विरह धँदार जरत न बुभाई ॥^१

अनुराग बागुरी में भी अन्त करण वियोग के कारण दुर्बल और पीला हो गया है—

अन्तःकरण प्रेम की बाधा । गौर बदन भा बुरबल आधा ॥^२

अग्ने प्रिय के दर्शनाय मन विकल रहता है । शरीर का प्रत्येक अंग प्रिय के दर्शन पाना चाहता है उसनिम्न, उसका रोग-रोग नैत्र बना हुआ है । यही कारण है कि प्रेमी को न रात्रि में नींद आती है और न दिन में चैन पड़ता है—

दरसन देखे कारनाह, रोम रोम भये नैन ।

नींद न आवत निति कहै, वासर परत न चैन ॥^३

जायसी ने विरहाग्नि को सामान्य अग्नि से कही प्रचंड माना है । विरही सम्मुख होकर इसमें जलता है परन्तु कभी पीठ नहीं देता । ससार में अग्नि-धारा की प्रखरता प्रसिद्ध है परन्तु विरह की ज्वाला उसमें भी विषम है । फिर भी वह शरीर को भट्टी बनाकर अपनी अस्थियों को ईंधन बना स्वयं ही जलाता रहता है—

जहाँ सो विरह अग्नि कहै डीठी । सौह जरै, फिरि देह न पीठी ॥

जग महँ कठिन खड़ग के धारा । तेहि तें अधिक विरह के भारा ॥^४

विरह के दग्ध कीन्ह तन भाठी । हाड़ जराय वीन्ह सब काठी ॥^५

विरह में प्रायः अश्रुधारा बहा करती है । सम्भवतः इसलिए कि विरह-शलाका कलेजे में छेद कर देती है जिससे वही आँखों की राह चू चूकर निकला करता है—

विरह सराग करेज पिरोबा । चुड़ चुड़ परे नैन जो रोबा ॥^६

विरहाग्नि जब शरीर में बलती है तो शरीर दग्ध होने लगता है । यह शरीर में बलूत वृक्ष के काष्ठ के समान सुलगती है किन्तु धुआँ नहीं देती—

विरह अग्नि उर महँ बरै, एहि तन जानै सोइ ।

सुलगै काठ विलूत ज्यों, धुआँ न परगट होइ ॥^७ —उसमान

इस विरह में उन्मादवश कभी रोना आता है, कभी हँसी और कभी अश्रुपात ही होने लगता है । हृदय इठ इठ और मिड़ मिड़ कर रह जाता है परन्तु फिर भी मृत्यु नहीं आती इसका कारण यही है कि प्रिय का ध्यान-तन्तु उसे बाँधकर रखता है—

१ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृष्ठ ७२ ।

२ अनुराग बाँसुरी, पृष्ठ १६ ।

३ इन्द्रावती, पृष्ठ, ४४ ।

४-५ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृष्ठ ६५ ।

६ चित्रावली, पृष्ठ ६५ ।

७ वही, पृष्ठ १६३ ।

उन्नमाद सों रोवइ हँसई । आंसू धरती मोती खसई ।

जियत रहइ ध्यान के बाहाँ । ना तौ होत मरन पल माहाँ ॥^१

इस विरह की व्यापकता का जैसा वर्णन इन सूफी कवियों ने किया है वैसे अन्य किसी ने नहीं। प्रेमी के साथ प्रियतम भी विकल रहता है, वह भी तड़पता है, यह पहले कहा जा चुका है। सूफी सिद्धान्त के अनुसार जिस प्रकार जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए विकल है उसी प्रकार परमात्मा भी जीव से मिलने के लिए उत्सुक है। भारतीय परम्परा के अनुसार भी यदि गोपियाँ कृष्ण से मिलने के लिए उत्कण्ठित हैं तो कृष्ण भी गोपियों से मिलने के लिए परम उत्सुक है। प्रेमाख्यानक काव्यों में सभी नायिकाएँ विरह से विकल हैं तथा उन्हें संयोग होने पर ही सुख मिला है। नागमती, कँवलावती आदि के विरह-वर्णन से यही ज्ञात होता है कि सारा संसार ही प्रपंच समेत विरह से व्याकुल हो रहा है। नायक, नायिका एवं उपनायिकाओं का विरह एकत्व की ही सूचना देता है। एक ईश्वर के प्रेम में ही समस्त ससार विरही हुआ दुखी हो रहा है। जायसी का कहना है कि विरहाग्नि से सूर्य दिन और रात तपता है तथा कम्पित-सा दिखलाई देता है। क्षण में स्वर्ग और क्षण में पाताल को जाता है परन्तु तनिक भी चैन नहीं पाता—

विरह के आगि सूर जरि कांपा । रातिहि विवस जरं ओहि तापा ॥

खिनहि सरग खिन जाइ पतारा । थिर न रहँ एहि आगि अपारा ॥^२

जीवात्मा ईश्वर का ही भ्रंश है इसलिए वह सदैव अपने मूल से मिलने के लिए तड़पता रहता है। यह विरह उसकी साधना में बड़ी सहायता देता है। यह प्रेम की पीर को जगा देता है और पीर आत्म-चैतन्य को जगाती है। जीव के सजग हो जाने पर सुरति जग जाती है जिससे 'पिउ पिउ' के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता—

विरह जगावँ वरद कौँ, वरद जगावँ जीव ।

जीव जगावँ सुरति कौँ, पंच पुकारं पीव ॥^३

—दादू

विरह के पश्चात् मिलन का जो परम सुख होता है, इसको प्रेमी ही जानता है। दुख के काले बादल हट जाते हैं और सुख का तारा उदित हो जाता है—

बिछुरंता जब भेटे, सो जाने जेहि नेह ।

सुख सुहेला उगवँ, दुःख भरै जिनि मेह ॥^४

^१ इन्द्रावती, पृष्ठ १४६ ।

^२ जायसी ग्रन्थावली—पदमावती, पृष्ठ ७८ ।

^३ सन्तवानी संग्रह (भाग पहला) पृष्ठ ८२ ।

^४ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृष्ठ ७६ ।

निष्कर्ष यह है कि सामारिक दुखों को मिटाने का एकमात्र उपाय सूफीमत के अनुसार ईश्वरी प्रेम की भावना है। ईश्वरीय प्रेम के माध्यम में ही जीवन की कटुता विलीन हो सकती है, यह सफ़ी सिद्धान्त की लौकिक उपयोगिता है। इस प्रकार लोक तथा अध्यात्म दोनों का समन्वय इस मत में प्राप्त होता है।

चतुर्दश पद्ये भारतीय सूफी-साधना

सूफियों में साधना का विशेष महत्त्व है, क्योंकि साधना का ही फल प्रिय-मिलन है। यह पहले कहा जा चुका है कि सूफीमत में ब्रह्म की एकता मान्य है अपरच संसार ईश्वरीय सत्ता का प्रतिबिम्ब है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह संसार नश्वर है। परन्तु यह परम प्रलोभक है अतः इसने मानव-हृदय को अपने माया-जाल में फंसा लिया है। हृदय-दर्पण में सांसारिक प्रपंच की छाया प्रतिबिम्बित होती है अतः यह प्रायः मलिन रहा करता है। इसीलिए जीवात्मा संसार से अपने को अभिन्न समझा करता है और ईश्वर का स्मरण कदाचित् ही करता है। कभी सुबुद्धि इसे मार्ग पर लाती भी है तो विषय-प्रवृत्तियाँ पुनः उन्मार्ग पर ले जाती हैं। किन्तु किसी पथ-प्रदर्शक की कृपा से जब ज्ञान के प्रकाश द्वारा हृदय निर्मल हो जाता है तब जीव को पारमार्थिक सत्ता का ज्ञान होता है और हृदय (कल्ब) को अपने जीवन-स्रोत से पुनः मिलने के लिए तड़पन होने लगती है। इसी का नाम प्रेम-पीर है। सूफी इसी पीर को जगाते हैं और शनैः शनैः अनेक साधनों द्वारा अनेक स्थितियों को पार करते हुए अपने प्रियतम का साक्षात्कार करते हैं। अपने प्रियतम से मिलना ही उनकी सिद्धि है। यही इनका स्वर्ग और यही मुक्ति है।

ऐसे प्रिय-मिलन के लिए सांसारिकता का त्याग अनिवार्य है। शाह बरकतुल्ला "तजौ कुटुम को हेत हित, करता प्रेम की हान" ^१ से यही कह रहे हैं कि सांसारिक सम्बन्ध हेय है, क्योंकि यह परम प्रेम की हानि करता है। यदि संसार से प्रेम है तो ईश्वर से नहीं हो सकता। मन का प्रवाह एक ही ओर जा सकता है। संसार ईश्वर का अचित् पक्ष है। चेतन जीवात्मा को अचेतन जगत् से क्या सम्बन्ध? यह संसार तो नश्वर है। नश्वर जगत् को छोड़ शाश्वत ब्रह्म से ही नाता जोड़ना है।

संसार में सभी कुछ नश्वर है। जो भी दृश्यमान है उसका विनाश अवश्य है। संसार का अर्थ ही संसरण है अतः परिवर्तनशीलता ही इसका सच्चा स्वरूप है। उसमान ने इसे जल-प्रवाह के समान कहा है, जिसमें आने वाली कोई वस्तु स्थिर नहीं रहती।

यह जग जस पानी कर थावा । जो कछु गा सो बहुरि न थावा ॥ ^२

^१ शाह बरकतुल्लाज्ज कौटुंबीकेशन टू हिन्दी लिट्रेचर (प्रथम भाग), प्रेमप्रकाश, पृ० २४।

^२ चित्रावली, पृ० १५।

इसीलिए इस भीतिक जीवन का भी जागृता भरोसा ? जायसा का कथन है कि जिस प्रकार स्नान में प्रान्त गुण की नाभप्रिया जगने ही मृगमरीचिका हो जाती है उसी प्रकार जीवन का सम्पूर्ण विनाश एक आधे पल में ही विनष्ट हो जाता है—

एहि जीवन के आस का जस सपना पल आधु ।^१

जब ससार नश्वर है तथा जीवन भी निस्सार है तब यह सारा प्रपंच झूठा है, निस्सार है। निस्सार होते हुए भी जगज्जाल बड़ा लुभावना है। जायसी ने नागमती के मुख से “बोलहु गुम्रा गियारे नाहा। मोरे रूप कीइ जग माहा”^२ कहलाकर यही ध्वनित किया है कि प्रपंच का आकर्षण सवार में सर्वोपरि है। इसीलिए असत्य होते हुए भी मन इसमें भूला हुआ है—

एहि झूठी माया मन भूला ।^३

इस असार संसार का रस भी इतना मृदु है यह एक आश्चर्य की बात है। जीवात्मा इसमें क्यों भूला हुआ है इसका उत्तर नूरमुहम्मद ने यही दिया है कि संसार रस का पायी आगम रस को नहीं पाता है अतः उसकी अन्तर्दृष्टि जागरूक नहीं होती तथा परमरस का पान तो वही कर सकता है जिसकी अन्तर्दृष्टि खूल गई है—

जगरस बीच परा जो कोई। आगम रस नहि पावहि सोई ॥

रस पावै जो जेहि करतारा। दया बिष्ट सों हिया उधारा ॥^४

हृदय की दृष्टि का खुलना बड़ा कठिन है। सभी अध्यात्मवादियों की भाँति इन सूफियों ने भी मन को दुर्दुम्य बतलाया है। जायसी ने “यह मन कठिन मरै नाहिं मारा”^५ लिखकर मन की वक्ष्यता को दुष्कर ही कहा है। नूरमुहम्मद भी “मन न मरै वरु पारा मरही,”^६ इस वाक्य से यही कह रहे हैं। भगवान् कृष्ण ने भी अर्जुन को उपदेश देते हुए “असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलै”^७ इस वाक्य से यही कहा था कि मन बड़ी कठिनता से वशीभूत होता है। परन्तु यह निश्चित है कि अन्तर्दृष्टि के खुलने पर ही विदवात्मा से परिचय प्राप्त होता है—

“होइ बिष्टि सँ सिध परकासु। सिध मेरु धरती कँलासु ॥”

१ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृ० ६२।

२ वही, पदमावत, पृ० ३४।

३ वही, पदमावत, पृ० ३७।

४ इन्द्रावती, पृ० १००।

५ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृ० २७।

६ इन्द्रावती, पृ० ५२।

७ गीता, अ० ६, श्लोक ३५।

८ अनुराग बाँसुरी, पृ० ८।

यह अन्तर्दृष्टि तन-मन को वश करके पर ही खुलती है। उसमान ने कहा है कि “तन सों भोग जोग मन सेती।”^१ वास्तव में शरीर भोगों का साधन है अतः मनोनिग्रह से पूर्व संयमन परम आवश्यक है। बुल्लेशाह तन और मन दोनों के दमन के लिए कहते हैं कि शरीर को भट्टी बनाओ और उसमें ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करो तथा अस्थियों का ईंधन बनाकर उसमें योग दो तब उस पर अमृत-मुरा का निर्माण हो सकेगा—

बुल्ले इस तन दो तू भाठी कर । बाल हुड्डा नूं काठी कर ॥

ज्ञान अगन सों ताती कर । फिर तिस पर मधुआ बाखीवा ॥^२

यहाँ पर भट्टी से तात्पर्य शरीर-संयमन के लिए योग-साधन ही ज्ञात होता है क्यों अस्थियों के दाह से प्राप्त क्षोणता योग-साधनों से ही आती है।

साधना में शरीर-संयमन के साथ मनोनिग्रह का बड़ा महत्व है इसका कारण यही है कि मन ही आत्मा-तत्त्व के परिचय में प्रधान कारण है। जायसी ने लिखा है कि हृदय-कमल के पुष्प के समान हैं और जीव उसमें सुगन्धिवन् रहा हुआ है। अतः शरीर का ध्यान छोड़ मन में ही भूले रहना चाहिए तभी परम तत्त्व की पहचान होती है—

हिया कबैल जल फूल, जिउ तेहि महँ जस वासना ।

तन तजि मन महँ भूल, मुहमद तब पहचानिए ॥^३

मनोनिग्रह के लिए बुल्लेशाह ने मन को मूँज के पूले के समान एकान्त में बैठकर कूटना कहा है—

बुल्ला मन मँजोला मँजदा, किते गीसे बहि के कूट ।^४

मन के कूटने से उसके काम, क्रोध और मद आदि विकार दूर हो जाते हैं और इन विकारों के अपसार में ही सारभूत ईश्वर का स्मरण हो सकता है। इसीलिए दाहू दयाल अपने मन को विकारों को छोड़कर ही स्मरण की शिक्षा देते हैं—

जियरा मेरे सुमिर सार, काम क्रोध मद तजि विकारा ॥^५

जब तक विकारों का मैल न हटेगा तब तक बाह्य शुद्धि या बाह्याचार कुछ भी काम न आवेगे अतः मन की एकाग्रता द्वारा सुरति-सदन में ही उसका मार्ग खोजना चाहिए—

१ चित्रावली, पृ० १६ ।

२ सन्तवानी संग्रह (दूसरा भाग), पृ० १८६ ।

३ जायसी ग्रन्थावली—अखरावट, पृ० ३२५ ।

४ सन्तवानी संग्रह (पहला भाग), पृ० १५२ ।

५ वही, (दूसरा भाग), पृ० ६६

भीतरमें लि चहल के लागी, ऊपर तन का धोवें हैं ।

अविगति सुगति महल के भीतर, बाका पंथ न जोवें हैं ॥^१

—दरिया साहब

उपरिलिखित सम्पूर्ण विवेचन का सार हम बुल्लासाहिव के शब्दों में इस प्रकार रख सकते हैं कि गसर अमार है अतः इसमें आने पर जागरूक हो जाना चाहिए और सर्वस्व का त्याग कर एव शरीर का संयमन कर मन को राम-नाम में ही पगा देना चाहिए ।

जग आये जग जागिये, पगिये हरि का नाम ।

बुल्ला कहें विचारि कं, छोड़ि देहु तन धाम ॥^२

सूफियों की साधना का हम प्रेम-साधना कहें तो उचित होगा । संसार से मन हटाकर अपने प्रियतम का योग साधना परम आवश्यक है । जो योगी है उसे संसार की विषय वासनाओं से क्या ? इसीलिए जायसी ने “जोगिहि कहा भोग सों काजू”^३ कहकर योगी को धन-धाम तथा राज-काज से दूर रहने का उपदेश दिया है । योगी को तो वही चाहिए, जिसके वियोग में उसने योग साधा है । उसमान ने सच्चा योगी उसे ही कहा है जो दर्शनों का अभिलाषी है—

जोगी सोइ बरस कर दाता ।^४

वियोगी योगी जिस प्रेम मार्ग पर चलता है वह बड़ा कठिन है । शाह बरकतुल्ला ‘पंथ भीत को कठिन है’^५ इस वाक्य से प्रेम-पंथ की कठिनता ही बतलाते हैं । इस मार्ग के यात्री को योगांगों द्वारा शरीर को साधना पड़ता है । पुनः प्रियतम तक पहुँचने के लिए मार्ग में अनेक स्थितियों के पार करने में विविध बाधाओं का सामना करना पड़ता है । काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह रूप दुर्वासनाओं को परास्त करने के पश्चात् ही वह उस भवन का द्वार खोलने में समर्थ होता है जहाँ अनन्त प्रकाश के रूप में उसका इष्ट उस से मिलने के लिए उद्यत रहता है । सभी सूफियों ने इस मार्ग की दुर्गमता को बड़े भयावह शब्दों में चित्रित किया है । जायसी ने उस मार्ग को बड़ा विषय बतलाते हुए सुई के नाके के समान लघु कहा है जिस पर यात्री को चलना

^१ संतवानी संग्रह (पहला भाग), पृ० १५२ ।

^२ वही (पहला भाग), पृष्ठ १४० ।

^३ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृ० ५५ ।

^४ चित्रावली, पृ० ८६ ।

^५ शाह बरकतुल्लाख कौन्दीब्यूशन ट हिन्दी लिट्टेचर, (प्रथम भाग) प्रेम-प्रकाश, पृ० २५ ।

पड़ता है। उस पर भी चढाव कुटिल है तथा सात खंड चढ़ने पडते हैं। ये खंड शरीर में मूलाधार आदि चक्र ही है। इन खंडों के चढ़ने में प्रत्याहार, ध्यान और समाधि इन योग के चार अंगों द्वारा अथवा शरीरगत, तरीकत, हकीकत और मारिकत इन साधक की चार अवस्थाओं द्वारा सिद्धि प्राप्त करता है, तभी लक्ष्य तक पहुँच पाता है—

पै सुठि अगम पंथ बड़ बाँका । तस मारग जस सुई क नाका ॥

बाँक चढाव, सात खंड ऊँचा । चारि बसेरे जाइ पढ़ंचा ॥^१

पदमावती में सिंहल द्वीप को कैलाश बतलाकर मार्ग में क्षार, क्षीर आदि सप्त समुद्रों की जो विषमता बतलाई है उस से ब्रह्मरन्ध्र तक पहुँचने में शरीरस्थ सप्त खंडों की विषमता ही व्यंजित होती है—

खार, खीर, दधि, जल उदधि, सुर, किलकिला अकूत ।

को चढ़ि नाँधे समुद ए, है काकर अस बूत ॥^२

इन सप्त समुद्रों के पार किसी धर्मी, कर्मी, तपी तथा नेमी का ही पोट जाता है और तभी उसे शिव की प्राप्ति होती है—

बस महँ एक जाइ कोइ करम, धरम, तप, नेम ।

बोहित पार होइ जब तबहि कुसल औ' खेम ॥^३—जायसी

चित्रावली में मार्ग की कठिनता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यह पंथ बड़ा ही दुर्गम है, इसे क्रीडावश सुगम नहीं समझना चाहिए। इस पर वही चल सकता है जिसका कलेजा लोहे का है। जो निशि-वासर सुप्त पड़ा रहता है और आधे पल के लिए भी जाकर अपने को नहीं सँभालता वह भला इस साधना को क्या ले सकता है—

कहेसि कुँअर यह पंथ दुहेला । अस जनि जानु हँसो औ' खेला ॥^४

जाइ सोई जो जिउ परतेजा । सार पाँसुली लोह करेजा ॥^५

निशि वासर सोवहि परा, जागेसि नहि पल आध ।

धर न सँभारसि आपना, का खेवे ऐहि साध ॥^६

इससे भी साधना-मार्ग का काठिन्य ही व्यंजित है। इस मार्ग पर उसमान ने भोगपुर, गोरखपुर, नेहनगर और रूपनगर इन चार नगरों की स्थिति बतलाई है। जब यात्री रूपनगर के लिए प्रस्थान करता है तो भोगपुर में इन्द्रियविषय उसे अपनी ओर खींचते हैं परन्तु वह उनमें अनुरक्त न होता हुआ तथा काम-क्रोधादि पर विजय पाता हुआ

^१ जायसी ग्रन्थावली—अखरावट, पृ० ३१५ ।

^२ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृ० ५६ ।

^३ वही पदमावत, पृ० ६३ ।

^{४.५.६} चित्रावली, पृ० ७६ ।

आगे बढ़ता है। पुनः गोरखपुर पहुँचने ही योग को साधता है और गुरु की महायत्ना में अन्तर्दृष्टि द्वारा देखता हुआ नेहनगर की ओर चलता है। यहाँ प्रेम की पूर्ण अभिव्यक्ति हो जाती है और अब उसे बाह्य वेष-भूषा का तनिक भी ध्यान नहीं रहता। इसके उपरान्त वह रूपनगर में पहुँचता है। यही उसका चरम लक्ष्य है। इन चारों नगरों में चार स्थितियाँ ही सूचित होती हैं। आगे कवि ने 'यह सो पंथ खरग की धारा। सहस्र माह कोउ गवने पारा'^१ कहकर इस पंथ को असिधारा बतलाया है। कबीर भी 'कबीर मारिग कठिन है'^२ इस वाक्य से मार्ग को कठिन ही बतला रहे हैं। इस मार्ग की दुर्गमता पर विजय पाना किंगी-किरी का ही काम है और वह भी उसका जिसे पथःप्रदर्शन मिल गया है। तूर मुहम्मद ने परिपाटी के अनुसार अगम पंथ में साति गहन बन श्री अथाह समुद्रों का उल्लेख किया है। उनका कहना है कि इस मार्ग में नेता के बिना निर्वाह नहीं होता—

अगम पंथ भों सात बन, श्रीर समुद्र अयाह ।

होत न कैसेहु मग भों, अगुवा बिना निवाह ॥^३

मार्ग को मुगम बनाने के लिए गुरु की परम आवश्यकता है। सन्मार्ग को प्रकाशित कर वही आगे बढ़ता है। शरीर एवं मन का निग्रह सद्गुरु के मार्ग-प्रदर्शन के बिना नहीं हो सकता। वास्तविकताओं का उद्घाटयिता भी वही है। उसके बिना सत्यासत्य का विवेक नहीं होता, अतः ज्ञान की ज्योति को जगाने वाला भी वही है। इस प्रकार शरीरगत के पश्चात् तरीकत, हकीकत, और मारिफत स्थितियों की प्राप्ति में प्रायः सहायक गुरु ही होता है। जायसी ने अपने गुरु की प्रशंसा करते हुए परोक्षतः यही बात कही है—

कही तरीकत चिसती पोरु । उधरित असरफ श्री जहँगीरु ॥

तेहि के नाब छदा हौं धाई । देखि समुद जल जिल न डेराई ॥

जेहि के ऐसन सेवक भला । जाइ उतारि निरभय सो खला ॥

राह हकीकत परे न छूकी । पंठि मारफत मार बुडुकी ॥^४

ज्ञान का प्रकाश जब तक हृदय में न होगा उसे कुछ न सूझ पड़ेगा।^५ जायसी ने 'तेहि कत बुधि जेहि हिये न नैना।'^६ इस वचन से ज्ञान को हृदय के नेत्र ही कहा

^१ चिन्तावली, पृ० ८४ ।

^२ कबीर ग्रन्थावली, पृ० ३१ ।

^३ इन्द्रावती, पृ० १४ ।

^४ जायसी ग्रन्थावली—अखरावट, पृ० ३२१ ।

^५ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृ० २१ ।

है। ज्ञान की स्थिति में ही हृदय स्वच्छ होता है और फिर उमम ईश्वर का निर्मल रूप निहारा जा सकता है—

ग्यान अन्त घट माहँ थिराई । निरमल रूप निहारहु जाई ॥^१

सूफियों में ज्ञान का बड़ा मूल्य है। ईश्वर, जीव और जगत् का वास्तविक स्वरूप इसी से जाना जाता है। जायसी ने 'ज्ञान सो जो परमारथ बूझा'^२ कहकर ज्ञान का लक्षण यह बतलाया है कि जिससे परमार्थ का बोध हो। साथ ही 'दिरिट' सो धरम पंथ जेहि सूझा'^३ से उन्होंने दृष्टि को धर्म-मार्ग की प्रकाशिता कहा है। इस प्रकार ज्ञान और दृष्टि में साम्य बतलाकर परोक्षतः बुद्धि से भेद बतलाया गया है। वास्तव में बुद्धि इस मार्ग में प्रेरिका हो सकती है, पथ-प्रदर्शिका नहीं। ज्ञान की स्थिति में बुद्धि को विलीन ही कहना चाहिए क्योंकि उस समय बुद्धि जो कुछ करती है वह ज्ञान के प्रकाश में ही करती है। इसीलिए जानोद्भास में प्रवृत्ति अन्तर्मुखी हो जाती है और चिन्तनप्रायता आ जाती है। नूर मुहम्मद ने ज्ञान की स्थिति को ससार से विमुख नयन रखना कहा है—

अंधे नैनो सो राखे, ज्ञान भरा जो कोइ ॥^४

चिन्तन में इष्ट का ध्यान होता है। इसके लिए निजत्व का त्याग करना अनिवार्य है। पद्मावती अपनी प्राप्ति के विषय में कहती है कि मैं सप्त स्वर्गों के शिखर पर रहने वाली रानी हूँ। मुझे वही पा सकेगा जो प्रथम निजत्व का नाश कर देगा—

हौं रानी पदमावती, सात सरग पर बास ।

हाथ चढ़ौं मैं तेहिके, प्रथम करे अपनास ॥^५

नूर मुहम्मद भी अनुराग बाँसुरी में सर्वमंगला की प्राप्ति के लिए यही कहते हैं कि जब तक कोई अपनत्व को नहीं भूला है तब तक उसका दर्शन नहीं पा सकता। जो निज को भुलाकर ध्यान लगावे, तपस्या करे, अभिमान का त्याग कर हृदय में आराधना करे तथा एकाकी रहकर प्रेम-गुरु से शिक्षा लेता हुआ अन्तःकरण को निर्मल बनाये वही प्रकाश रूप में उसे पा सकता है—

जब लगि है आपा सहँ कोई । तब लगि ताको वरस न होई ॥

ध्यान लगावे करे तपस्या । तजो दर्प, बित बेइ नमस्या ॥

^१ चित्रावली, पृ० ४४ ।

^२ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृ० १६६ ।

^३ वही, पदमावत, पृ० १६६ ।

^४ इन्द्रावती, पृ० १२५ ।

^५ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृ० १०० ।

ध्यान द्विं नित्त रहै अकेला । हाइ सनेह गुरु का चेला ॥

अन्तःकरण करै निरमला । उबै तबै रवि सोरह कला ॥^१

इससे हमे ज्ञात होता है कि ध्यान के लिए, एकरूपता आवश्यक है और वह निजत्व के खोने पर ही आती है । सूफियों के यहाँ ध्यान की पूर्व अवस्था में जाप एवं स्मरण का बड़ा महत्त्व है । जाप को ही वे जिक्र कहते हैं । जिक्र में 'ला इलाह इल्लिल्लाह' इस मंत्र का विविध प्रकार से जाप होता है । नूर मुहम्मद कहते हैं कि जब तक प्रेम व्याप्त नहीं होता, तभी तक अज्ञान-निद्रा व्याप्त रहती है किन्तु प्रेमवश जब जाप होता है तो यह निद्रा भाग जाती है—

जब लगी प्रेम न व्याये, तब लगी स्वाप ।

स्वाप जात जब आवत, पाइत जाप ॥^२

इसी जाप की लीनावस्था स्मरण कहलाती है । कबीर ने इस स्मरण को 'कह कबीर सुमिरन किये, साईं माहिं समाय'^३—इस वाक्य से ईश्वरीय मिलन का साधन कहा है । नाम-स्मरण की यथार्थ अवस्था तभी समझनी चाहिए जब तन-मन में एकलीनता हो जाती है तथा आदि, मध्य एवं अवसान में कभी भी विस्मृति नहीं होती—

नाँव लिया तब जाणिये, जे तन मन रहै समाह ।

आदि अन्त मध एक रस, कबहूँ भूलि न जाह ॥^४ —दादूदयाल

स्मरण में एकरस रहना ही श्रेयस्कर है । दरिया साहिब ने प्रेमपूर्वक चित्त की एकाग्रता के बिना स्मरण को निष्फल कहा है—

सुमिरहु सत्त नाम गति, प्रेम प्रीति चित्त लाय ।

बिना नाम नहिं बाचि हो, बिर्या जनस गंधाय ॥^५

जब ईश्वर और जीव अभिन्न ही हैं तब जीव को संसार से पृथक् अपने आप को पहिचानना ही आवश्यक है । वह स्वतः रह रहकर स्मरण करता है । यही स्मरण उसे एक दिन प्रियतम के प्रेम में इतना लीन कर देता है कि एकरूपता आ जाती है और उससे मिलन का कारण हो जाता है । इसीलिए नूरमुहम्मद 'सुमिरहु ताहि विसारहु नाही',^६ इस वचन से अद्विराम स्मरण का सदुपदेश दे रहे हैं ।

यह कहा जा चुका है कि स्मरण ध्यान का ही अंग है । ध्यान में ही स्मरण

^१ अनुराग बाँसुरी, पृ० १४ ।

^२ अनुराग बाँसुरी, पृ० २२ ।

^३ सन्तवानी संग्रह, (पहला भाग), पृ० ६ ।

^४ वही, (पहला भाग), पृ० ७६ ।

^५ सन्तवानी संग्रह, (पहला भाग) पृ० १२२ ।

^६ इन्द्रावती, पृ० १०८ ।

करते हुए एकरूपता आती है । प्रियतम से इस एकरूपता में प्रेम-तन्तु ही प्रधान है । इसी प्रेम-तन्तु में बँधे हुए ध्यान करना ही सुरत कहलाता है । इसके लिए उसी प्रकार एकाग्रता की आवश्यकता है जिस प्रकार शर साथे एक अहेरी अपने अहेर पर एकटक ध्यान लगाये रहता है । उसमान ने कहा है कि जब तक ध्यान न किया जायगा तब तक दर्शनों की प्राप्ति नहीं हो सकती । इसके लिए हमें दूर नहीं जाना है । हम हृदय में ही उस परम रूप का प्रतिबिम्ब पड़ रहा है । वास्तव में उसके बिना तो जीवन ही नहीं । हम भी तो वही हैं अतः गुरु-वचन रूप अंजन को नेत्रों में माल लो, हृदय-वर्षण को माँज डालो और जगत्प्रपंच को जलादो तभी हृदय में पडते हुए उस परमरूप के प्रतिबिम्ब को तुम देख सकते हो—

जौलों ध्यान घरं नहि कोई । तौलों दरस न प्रापत होई ।
घट में परम रूप परछाहीं । जा बिनु जग महँ जीवन नाहीं ॥
गुरु वचन चषु अंजन देहु । हिया मुकुर मंजन करि लेहु ।
माया जारि भसम के डारौ । परम रूप प्रतिबिम्ब निहारौ ॥^१

और एकाग्र भाव से जो कोई किसी की खोज करता है उसे वह अवश्य मिल जाता है—

जोहि काहू खोजे कोऊ, एक मन एक चित्त लाइ ।

होइ दूर जो अति तऊ, नियरहि मिले सो आइ ॥^२

इस ध्यान की सिद्धि के लिए शरीर को आसनों द्वारा संयमित किया जाता है । जायसी ने भी बज्रासन लगाकर इडा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों की साधना का उल्लेख किया है—

सब बैठहु बज्रासन मारी । गहि सुल्लभना पिंगला मारी ॥^३

यहाँ बज्रासन आदि उपलक्षण मात्र हैं । इनसे प्रधान आसन, नाड़ी, एवं चक्रादि का ग्रहण हो जाता है ।

इस सब साधना का एक ही लक्ष्य है और वह है प्रियतम का साक्षात्कार । नूर मुहम्मद ने इन्द्रावती में 'मोहि विसराम कहाँ है, जब लग दरस न होइ'^४ कहकर यही व्यंजित किया है । प्रेमी सदा दर्शनों का ही प्यासा है । यह ध्येय भूतिमान् नहीं है अतः उसका केवल ध्यान ही हो सकता है । इसके लिए जायसी के 'भापुहि

^१ चित्रावली, पृ० ६१ ।

^२ वही, पृ० ५६ ।

^३ जायसी ग्रन्थावली—अक्षरावट, पृ० ३२८ ।

^४ इन्द्रावती, पृ० २८ ।

खोए पिउ मिले'^१ उस वाक्य के अनुसार निजत्व का लय परम आवश्यक है। स्वीय व्यक्तित्व का खो देना ही तो उस परम स्वरूप ईश्वरीय व्यक्तित्व का पाना है—

जब मैं आपन नाम भुलावउ । तब वह नाम जगत रस पावहुँ ॥^२

प्रेमी कवि ने भी 'तिरवेनी के घाट में बैठो मन चिन लाय'^३ द्वारा उक्त नाड़ीत्रय की साधना से ध्यान का आदेश देते हुए 'मैं तू कहना जब छुटे, वही वही सब होय'^४ से एकत्व की प्रतिपादना की है। यही अवस्था फना और वका नाम से पुकारी जाती है। आत्मलय का नाम ही फना है और ईश्वरीय व्यक्तित्व की प्राप्ति ही वका है। ये दोनों अभाव और भाव रूप एक ही अवस्था के दो रूप हैं। आत्मा जब अपना वास्तविक परिचय पाती है तब वह मौन रूप हो जाती है। यह मौनरूपता ही अभाव है। और साथ ही वह एक ऐसा यन्त्र-सा हो जाती है जिसका निनादी वही परम रूप है जिसमें लीन होकर वह मौन रूप हो गई है। यही भावरूपता है। परन्तु इस रहस्य को कोई जानता है—

'ताल् कल्ल' बोऊ कहें, ध्योरा बूभे कोय ।

इक 'बका' एक 'फना' है, पेस पुराने लोय ॥^५

इसमें 'प्रेम पुराने लोय' से अनुभवी प्रेमियों को सम्बोधित करते हुए इस रहस्य के जानने में उन्हीं के सामर्थ्य की व्यंजना की गई है।

जिस ध्यान का विवेचन करते हुए ऊपर कहा गया है कि ध्यान की एकाग्रता में ईश्वर का साक्षात्कार होता है, उसकी चरम सीमा समाधि ही है। इस ध्यान से मन मँज जाता है अतः उसमें जो कुछ भासित होता है वही वास्तविक है। सूफी इसी को स्वप्न कहते हैं। सांसारिक पक्ष में जिसे हम स्वप्न कहते हैं वह तो अपनी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं रखता। नूर मुहम्मद के अनुसार वह तो जाग्रत अवस्था में की गई चेष्टाओं का प्रतिफल है—

स्वाप आप नहीं राखत काया । हं वह जाग लोक कं छाया ॥^६

इस स्वप्न की व्याख्या से प्रतिबिम्बवाद का ही आभास दिया गया है। आगे

^१ जायसी ग्रन्थावली—मखरावट, पृ० ३२० ।

^२ इन्द्रावती, २५ ।

^३ शाह बरकतुल्लाह कौन्हीबूशन टू हिन्दी लिट्रेचर, (प्रथम भाग), प्रेम-प्रकाश, पृ० १४ ।

^४ वही, पृ० २४ ।

^५ वही, पृ० २६ ।

^६ अनुराग बाँसुरी, पृष्ठ ५३ ।

इन्होंने उसी को स्वप्न माना है जिसमें दृश्य जगत के सभी दृश्यों के मूल परमेश्वर का साक्षात्कार होता है—

बलो सपन बरसन जिन्ह होई । बरसन मूल होइ जग सोई ॥^१

सत्य स्वप्न देखने के लिए जहाँ ध्यान में मनोमार्जन का महत्त्व बतलाया गया है वहाँ साक्षात्कार के लिए ब्रह्मरंध्र को भी बड़ा मूल्य दिया गया है। साधना में मन-प्रवृत्ति के सम्पूर्ण प्रवाह को रोककर इसी में उसका पर्ययमान होता है। जायसी ने इसको दशम द्वार कहा है। वे कहते हैं कि मन रूपी चोर को दशवें द्वार में पहुँचाये तभी कुछ प्राप्त हो सकता है—

साईं के भंडार, बहु मानिक मुकुता भरे ।

मन चोरहि पैसार, मुहमद तौ किछु पाइए ॥^२

इन्होंने पद्यावती काव्य में सिधल गठ को शरीर बतलाने हुए नौ पीरियों के ऊपर गुप्त दशम द्वार से ब्रह्मरंध्र को सूचित किया है। वहाँ का मार्ग बड़ा कठिन है। मार्ग में काम-क्रोधादि पंच कोतवाल फिरते हैं। उन पर विजय पाकर ही कोई (योगियों की) पिपीलिका गति से आगे बढ़ सकता है। जो कोई समुद्र में शक्ति के खोजने वाले मरजिया के समान हृदय रखता है वही इस द्वार को खोलकर शिवलोक में पहुँच सकता है और प्रियतम का साक्षात्कार कर सकता है—

गढ़ तक बाँक जैसि तोरि काया । पुख वेखु ओही के छाया ॥

पाइय नाहिं जूझ हठि कीन्है । जेइ पावा तेइ आपुहि चीन्है ॥

नौ पीरी तेहि गढ़म भियारा । औ' तहँ फिरहि पाँच कोट बारा ॥

बसवें दुआर गुपुत एक ताका । अगम चढ़ाय, बाट सुठि बाँका ॥

भेदै जाइ सोइ बह घाटी । जो लहि भेव, चढ़े होइ चाँटी ॥^३

× × ×

जस मरजिया समुव भँस, हाथ भाव तब सीप ।

बूढ़ि लेइ जो सरग दुआरी, चढ़े सो सिधल बीप ॥^४

वहाँ पहुँचने के लिए 'जाइ सो तहाँ सरस मन बँधी'^५ इस वाक्य से ज्ञात होता है कि प्राणायाम की परम आवश्यकता है। प्राणायाम से स्वास का संयम होता है

^१ अनुराग बाँसुरी, पृष्ठ ६६ ।

^२ जायसी ग्रन्थावली—अखरावट, पृष्ठ ३१८ ।

^३ जायसी ग्रन्थावली—पदभावत, पृष्ठ ६३ ।

^४ बंही, पृष्ठ ६३ ।

^५ बंही, पृष्ठ ६३ ।

और तभी ध्यान में एकाग्रता आती है तथा समाधि लगती है। ध्यान का पूर्वरूप जाप होता है और अन्तिम समाधि। रत्नसेन भी 'पद्मावती, पद्मावती' का ही जाप करता है और पुनः समाधि को प्राप्त होता है—

बँट सिधछाल्ता होइ तपा । 'पदमावति पदमावति' जपा ।

बीठि समाधि ओही सौं लागी । जेहि दरसन कारन बेरागी ॥^१

जब समाधि लग जाती है तो ध्याता, ध्यान और ध्येय की एकरूपता हो जाती है। उस समय एकरस हुआ मन रस का पान करता है और सर्वत्र प्रकाश ही अनुभव करता है। कबीरदास कहते हैं कि ज्ञान के गुड और ध्यान के महुण से भव-भट्टी पर जो आसव तैयार किया है उसे सुपुम्ना नारी को सहज शन्य में समाकर कोई विरला ही पीता है—

अवधू मेरा मन मति वारा ।

उम्नि चह्या भगन रस पीवं, त्रिभुवन भया उजियारा ॥

गुडकरि ग्यान ध्यान कर महुवा, भव भाठी करि भारा ॥

सुषमन नारी सहजि समानीं, पीवं पीवनहारा ॥^२

इस समाधि में ही जब दशम द्वार खुल जाता है तो प्रियतम का साक्षात्कार हो जाता है। उस अनन्त प्रकाश रूप सौन्दर्य के दर्शन से हाल आ जाता है और साधक को मूर्छा आ जाती है। जायसी ने पद्मावती के दर्शन से रत्नसेन की मूर्छा द्वारा यही व्यंजित किया है—

नयन कचोर पेस मद भरे । भइ सुविस्टि जोगी सहँ ढरे ॥

जोगी विस्टि विस्टि सौं लीन्हा । नैन रोपि नैनहि जिठ वीन्हा ॥

जेहि मद चढ़ा पार तेहि पाले । सुधि न रही ओहि एक पियाले ॥^३

इसी प्रकार नूर मुहम्मद ने भी अनुराग बाँसुरी में 'दोऊ नयन दरस होइ गएऊ । कुँवर सनेही मुरछित भएऊ'^४ से यही सूचित किया है।

इस मिलन की अवस्था में ब्रह्मरंध्र में अनहद नाद सुनाई देता है और प्रकाश ही प्रकाश दृष्टिगोचर होता है। इसी बात को जायसी रत्नसेन के पद्मावती से मिलने पर निम्न पंक्तियों से छोटित करते हैं—

^१ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृष्ठ ७१ ।

^२ कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ११० ।

^३ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृष्ठ ८४ ।

^४ अनुराग बाँसुरी, पृष्ठ ८३ ।

आजु इन्द्र अछरी सौं मिला । सब कविलास होहि सोहिला ॥

धरती सरग चहूँ विसि, पूरि रहे मसियार ।

बाजत आवैं मंदिर, जहूँ होइ मंगलाचार ॥^१

यह अनहद नाद इतना मधुर होता है कि छत्तसों राग-रागिनियाँ सयुक्त हुई-
सी जान पडती हैं—

बाजत अनहद बांसुरी, तिरवैनी के तीर ।

राग छत्तीसो होइ रहे, गरजत गगन गंभीर ॥^२

यही मिलन की अवस्था सूफियों के यहाँ परम लक्ष्य की सिद्धि है, साधना का
फल है और प्रेम का साफल्य है ।

^१ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृष्ठ १२२ ।

^२ सन्तवानी संग्रह (पहला भाग), पृष्ठ १२० ।

पंचदश पद्ये आचार

हिन्दी-साहित्य में सूफियो की देन काव्य रूप में ही है अतः उनके काव्यों के आधार पर जिस रूप में सूफीमत की प्रतिपादना हुई उसका विवेचन हो चुका है। अब साधक के साधना-मार्ग की प्रारम्भिक अवस्था में आचार पर तनिक विचार किया जाता है क्योंकि इसके बिना तो वह अधिकारी ही नहीं होता। सभी साधक निश्चित ध्येय तक पहुँच जायें यह कोई अनिवार्य नहीं है परन्तु आचार का पालन तो प्रत्येक दशा में उत्थान का ही कारण होता है।

ये सभी सूफी साधक थे अतः अपनी प्रेम-गाथाओं एवं मुक्तक काव्यों द्वारा इन्होंने साधना-पथ का ही विवेचन किया है परन्तु साथ ही साधना में योग देने वाले आचार की ओर भी ये संकेत करते गये हैं। मानव-जीवन में मूलभूत पदार्थ धर्म ही है। इसी की सत्ता में वास्तविक जीवन की सत्ता है। उसमान का कहना है कि धर्म से सिद्धि प्राप्त होती है अतः धर्म-मार्ग को छोड़ना मनुष्य का कर्तव्य नहीं है।—

धरम पंथ छाड़ौ जनि कोई । धरमहि सिद्धि परापित होई ॥¹

धर्म का आचरण केवल सिद्धि की प्राप्ति के लिए ही नहीं है वरन् संसार के प्रत्येक क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है। राज-धर्म भी इसके क्षेत्र से बाहर नहीं। नूर-मुहम्मद ने धर्म को ही राज्य का मूल कहा है और अधर्म को उसके विनाश का कारण बतलाया है—

धरम मूल है राज को अधरम किहें नसाय ॥²

यह कहा जा चुका है कि जो कुछ कर्तव्य है वही धर्म है। कर्तव्य सार्वकालिक और सार्वभौमिक सच्चाई का ही नाम है। अतः जो कुछ सत्य है वही धर्म है ऐसा भी कहा जा सकता है। इसीलिए जायसी ने 'जहाँ सत्य तहाँ धरम सँधाता'³ कहकर सत्य की स्थिति में धर्म की स्थिति को माना है। धर्म की स्थिति में पाप हेय और पुण्य उपादेय हो जाता है क्योंकि पाप असत्य रूप है और पुण्य सत्य रूप। अच्छाई पुण्य है और बुराई पाप। इनमें से पुण्य-मार्ग ही पवित्र है अतः उसे ही ग्रहण करना चाहिए। यद्यपि पुण्य और पाप सूफियों के यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से कोई विशेष महत्त्व नहीं

¹ चित्रावली, पृष्ठ ४४।

² इन्द्रावती, पृष्ठ १२७।

³ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृष्ठ ३८।

रखते, क्योंकि पाप भी ईश्वरीय इच्छा का प्रतिफल है तथापि सामाजिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से इनका बड़ा महत्त्व है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है अतः समाज के प्रति तथा समाज में माता-पिता, गुरु एवं अन्य व्यक्तियों के प्रति उसके अनेक कर्तव्य हैं जिन्हें पालना परमावश्यक है। ये ही कर्तव्य पुण्य रूप हैं। इन्हें उसे अपनाना ही चाहिए। उसमान ने चित्रावली में लिखा है कि पाप-मार्ग को छोड़कर पुण्य-मार्ग को ग्रहण करना चाहिए जिससे ससार में कीर्ति हो और गुण-गाथा चलती रहे—

तजहु पाप पंथहि जिय जानी । करहु पुन्य जो रहै कहानी ॥^१

सन्मार्ग के अनुसरण से मनुष्य भला हो जाता है अतः वह सर्वत्र सफलता का ही मुँह देखता है। जायसी 'अन्तहि भला भले कर होई'^२ कहकर इसी बात को बतला रहे हैं। आगे राम और रावण के उदाहरण में वे इसे और स्पष्ट करते हैं। रावण ने पाप को अपनाया था अतः उसे दोनों लोको में पाप का भागी होना पड़ा तथा इसके प्रतिकूल राम ने सत्य को ग्रहण किया था अतः वे विजयी हुए और आसुरी वृत्ति उन्हें सिद्धि से वंचित न कर सकी—

रावन पाप जो जिउ धरा, दुवौ जगत मुँह कार ।

राम सत जो मन धरा, ताहि छरै को पार ॥^३

इस धर्म के आचरण से मनुष्य में मनुष्यता जग जाती है अतः वह अपने कर्तव्यों का प्रतिफल ध्यान रखता है। प्रेम-काव्यों में हमें यत्र-तत्र दक्षित नायकों की मातृ-पितृ-भक्ति, गुरु-श्रद्धा, स्त्री-प्रेम, सखा-सोहार्द तथा देव-रति आदि कर्तव्य पद्धतियाँ इसी बात का पाठ पढ़ाती हैं। सपत्नियों का जो परस्पर प्रेम प्रदर्शित किया गया है और दाम्पत्य-जीवन में सदाचरण का जो आदर्श रखा गया है वह अनुकरणीय है। नूर मुहम्मद ने इन्द्रावती में एक स्थान पर माता-पिता की प्रसन्नता से स्वर्ग एवं मुक्ति की फल-प्राप्ति तक लिखी है—

मात पिता को जो रहसावा । सो बंकुंठ मुकुत फल पावा ॥^४

गुरु का माहात्म्य तो पग-पग पर पाया जाता है और स्त्री-प्रेम का तो अखंड साम्राज्य ही है। विवाहोपरान्त परित्यक्ता स्त्रियों की स्मृति आते ही नायक विकल हो जाते हैं और पुनः आकर उन्हें सन्तुष्ट करते हैं। मित्रों को भी वे अन्त तक नहीं छोड़ते। सिद्धि-प्राप्ति में देव-रति तो अपना विशेष महत्त्व ही रखती है। इस प्रकार

^१ चित्रावली, पृष्ठ ५४ ।

^२ जायसी ग्रन्थावली—पदभावत, पृष्ठ २५२ ।

^३ वही, पृष्ठ २७१ ।

^४ इन्द्रावती, पृष्ठ १३६ ।

हम देखते हैं कि प्रेम-काव्यों में साधना-पद्धति के साथ-साथ कर्तव्य-पद्धति का भी अच्छा परिचय दिया गया है ।

धर्म-मार्ग हमें दिखाता है कि मनुष्य-जाति मानवता के नाते एक ही है । विविध मतों के अनुसरण में अथवा भिन्न-भिन्न मीमात्रों में आवद्ध होने से कोई भिन्न नहीं हो जाता । ईश्वर एक है और सभी मनुष्य उसी के अंश हैं अतः हिन्दू और मुसलमानों में कोई अन्तर नहीं—

अल्लहु गेव सकल घट भीतर, हिरदै लेहु विचारी ।

हिंदू तुरक बुह महि एकै, कहै कबीर पुकारी ॥^१ —कबीर

इस एकता और प्रेम के तो ये सूफी साधान् मूर्ति ही थे । इसीलिए ये उदारशय और विशाल हृदय थे । ये गुण ही मनुष्य को ऊँचा बनाते हैं । नूर मुहम्मद के अनुसार हृदय की उच्चता ही मनुष्य की उच्चता है और हृदय की नीचता ही नीचता है—

जेहि मन ऊँच ऊँच भा सोई । जेहि मन नीच नीच सो होई ॥^२

यदि मनुष्य को ऊँचा बनना है और निम्न स्तर से ऊपर उठकर उच्चता की अट्टालिका में जा विराजना है तो जायसी इसके लिए एक प्रयोग बताते हैं और वह है उच्च संगति-सेवन । उनका कहना है कि सदा उच्च पुरुष की सेवा करनी चाहिए और ऊँचे से ही व्यवहार करना चाहिए । जिस प्रकार ऊँचे चढ़ने से ऊँचा ही दीखता है उसी प्रकार ऊँचे के पास बैठने से बुद्धि भी ऊँची हो जाती है । अतः सदैव ऊँचे की ही संगति करनी चाहिए और उच्च कार्य के लिए प्राणों तक को दे देना चाहिए—

सदा ऊँच पे सेइय बारा । ऊँचे सौं कीजिय बेवहारा ॥

ऊँच चढ़े, ऊँच खंड सूझा । ऊँचे पास ऊँच मति बूझा ॥

ऊँचे सँघ संगति निति कीजे । ऊँचे काज जीव पुनि दीजे ॥^३

साधक सदैव सन्त हुआ करते हैं अतः उन्हें उच्चता ही भाती है । सत्संगति में ही वे रहते हैं और सदा महान् पुरुषों के आदेशानुसार चलते हैं । इसीलिए सूफियों में गुरुओं की इतनी मान्यता हुई । अन्तिम रसूल उनके साथियों की एवं साथ ही अन्य सन्तों की प्रतिष्ठा का भी यही कारण था ।

इस्लाम धर्म के पंच स्तम्भों का वर्णन पहले हो चुका है । वे साधक की चार अवस्थाओं में से प्रथम शरीरगत के ही अंग हैं । सूफी इनका आचरण श्रेयस्कर मानते हैं परन्तु उनकी अपनी निजी व्याख्या है । वे ईश्वर पर जिस रूप में विश्वास करते हैं

^१ कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ३२२ ।

^२ इन्द्रावत, पृष्ठ ४४ ।

^३ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृष्ठ ६६ ।

काम क्रोध, तिसना मया, जो नहिं जात नेवारि ।

नरक होत बन सातों, हम कहें पन्थ मभार ॥^१

इस प्रकार हम देखते हैं कि साधना के लिए विकारो का नाश बड़ा महत्त्व रखता है और उनके नाश के लिए निराहारी, मिताहारी एवं सात्विकाहारी होना अनिवार्य है।

अपने प्रियतम के विरह में काम-क्रोधादि को छोड़कर काय-बलेश के साथ ही त्याग को अपनाता सूफी का एक महान् कर्त्तव्य है, जो अपने प्रियतम के लिए सर्वस्व नहीं दे सकता वह प्रेमी ही कहा ? इसीलिए आचार के लिए इन सूफियों ने लोभ की बड़ी निन्दा की है और दान की बड़ी महिमा गाई है। कबीर ने कनक के साथ कामिनी को भी एक फंदा बताकर इनके त्यागी का अपने को बदा कहा है—

एक कनक ग्रह कामिनी, जग में बोइ फंदा ।

इनपै जो न बंधावई, ताका में बंदा ॥^२

जायसी ने 'जहाँ लोभ तहें पाप सघाती'^३ द्वारा लोभ को पाप का घनिष्ठ सहचर कहा है तथा उसमान ने 'धर्म नसाइ लोभ पुनि कीये'^४ द्वारा लोभ को धर्म-नाशक बतलाया है। इसके विपरीत त्याग कल्याणकर है अतः दान एक प्रमुख कर्त्तव्यों में से है। पद्मावती में रत्नसेन द्रव्याभिमान से दान को हेय समझता है। इसीलिए उसे समुद्र में विषमताओं का सामना करना पड़ता है। जायसी दान की महिमा गाते हुए कहते हैं कि उसका जीवन और हृदय धन्य है जो महान् दाता है। जप और तप भी दान से ही सफल होते हैं। दान के बराबर संसार में अन्य कुछ नहीं है। दानी अपने मार्ग को निर्मल बना लेता है, क्योंकि कोई भी अपने साथ कुछ नहीं ले जाता, केवल दिया हुआ ही साथ जाता है—

धनि जीवन औ' ताकर हीया । ऊंच जगत महे जाकर हीया ॥

दिया सो जप तप सब उपराहीं । दिया बराबर जग किछु नाही ॥

× × ×

निरमल पंथ कीन्ह तेह जेइ रे दिया किछु हाथ ।

किछु न कोइ लेइ जाइहि दिया जाइ पै साथ ॥^५

^१ इन्द्रावती, पृष्ठ २८ ।

^२ कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १२१ ।

^३ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृष्ठ १७१ ।

^४ चित्रावली, पृष्ठ १८ ।

^५ जायसी ग्रन्थावली—पदमावती, पृष्ठ ६१ ।

उसमान भी लिखते हैं कि बिना दिये कुछ हाथ नहीं आता और न इच्छा-पूर्ति ही होती है। यह कलियुग कृष्ण रात्रि के समान है तथा मार्ग बड़ा विकट है। जिसने कुछ नहीं दिया है वह इस मार्ग में भटकता ही रहता है और कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुँचता—

दिये बिना किछु काहु न पावा । दिया आनि सब इच्छ पुरावा ॥

यहि कलि स्याम विभावरी, विकट पंथ ग्रह साथ ।

बिनु भूले बनमाह सो, जिन न दिया कछु हाथ ॥^१

उपरिलिखित विवेचन से हम इस परिणाम पर आते हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभादि विकारों का विनाश अनशन एवं दानादि का परिणाम है। सात्विक आहार तथा इनके विनाश से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन नियमों का पालन स्वतः ही हो जाता है। मन, वचन एवं कर्म में सत्यरूपता की श्रेष्ठता तो स्थान-स्थान पर गाई गई है। असत्य माया ही है अतः सन्मार्ग के यात्री को उसका त्याग अवश्यम्भावी है। इन नियमों के सद्भाव में क्षमा, शांति, सहकारिता, सहानुभूति, साहस, धैर्य और संतोष आदि गुण स्वतः भी उद्भावित हो जाते हैं।

इसके अतिरिक्त सूफी लोग प्रियतम-मिलन की यात्रा पर चलने वाले होते हैं और उनका प्रियतम निर्गुण ब्रह्म ही है जो अपने अन्दर ही खोजा जाता है अतः वे किसी भी मन्दिर, मसजिद एवं मक्का-मदीना या काशी प्रयाग के भक्त नहीं होते। जायसी पद्मावती काव्य में निम्न पंक्तियों से इसी भाव को व्यंजित करते हुए एक निर्गुण ब्रह्म की उपासना का ही उपदेश दे रहे हैं—

सिंघ तरेंदा जेइ गहा, पार भए तेहि साथ ।

ते पै बूड़े बाउरे, भेड़ पूंछि जिन्ह हाथ ॥^२

ज्ञानमार्गी सन्तों ने तो खुलकर इनकी बुराइयों की हैं। इस प्रकार सूफियों में साधना के लिए आचार का बड़ा महत्त्व है। इसके बिना मनुष्य में मनुष्यता ही नहीं आ सकती। जब मनुष्यता ही नहीं तो प्रेम कहाँ और जब प्रेम नहीं तो प्रियतम का प्रसाद कहाँ? अतः आचार का पालन सभी दृष्टियों से कल्याणकर है।

^१ चित्रावली, पृष्ठ १६ ।

^२ जायसी ग्रन्थावली—पदमावत, पृष्ठ ८७ ।

पोडश पर्व सूफीमत का हिन्दी-साहित्य पर प्रभाव

ईसा की आठवीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश से ही भारत के पश्चिमी भाग में मुस्लिम सम्पर्क स्थापित हो गया था। यद्यपि मुसलमानों के आक्रमणों का लक्ष्य धर्म-प्रचार की अपेक्षा धन और राज्य-लिप्सा ही अधिक था तथापि धर्म-प्रसार परोक्ष परिणाम तो था ही। मुहम्मद बिन कासिम के पश्चात् ग्यारहवीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में महमूद गजनवी पंजाब से आगे बढ़कर राजपूताने के मरुस्थल को पार करता हुआ गुजरात पहुँचा था और वहाँ भारत की विभूति सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर अतुल धन-राशि लेकर लौटा था। इससे बड़े-बड़े भारतीय राजाओं के हृदय में भी आतंक की लहर दौड़ गई थी। इसने १७ बार आक्रमण किये परन्तु प्रत्येक बार यह धन लूटकर ही चला गया अतः इसका आतंक बरसाती प्रवाह की भाँति अल्प काल के लिए ही होता था। परन्तु बारहवीं शताब्दी के अन्त में शाहबुद्दीन मुहम्मद गौरी ने जब साम्राज्य-स्थापना की लालसा से भारतीय नरेशों पर कुठाराघात किया तब तो जनता के समक्ष अंधेरा ही छाने लगा और देखते-देखते स्वतन्त्रता का सूर्य अस्त हो गया।

इन आक्रमणों ने राजनैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टि से भारत पर बड़ा प्रभाव डाला। जो जनता अपने रंग-रंग, रहन-सहन और अपनी ही परम्परा में भग्न थी, उसकी रंग-रीति बाधित हो गई, रहन-सहन में परिवर्तन आ गया और परम्परा रक्षित न रह सकी। कुछ बल से, कुछ छल से, कुछ साम से और कुछ दाम से शासन-सत्ताएँ बदलीं, धार्मिक विचार परिवर्तित हुए तथा सामाजिक प्रथाएँ शिथिल हो गईं। आतंक भय का ही भाई है और भय संक्रामक होता है अतः आतंकित हुआ एक व्यक्ति दूसरे को भी भीतिग्रस्त बना देता है। यही कारण हुआ कि शनैः शनैः भारतीय नरेश और शासन-संचालक इन आक्रान्ताओं से आतंकित हो गये और साम्राज्य-भावना शीघ्र ही लुप्त हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि अन्तिम हिन्दू राजा पृथ्वीराज की मृत्यु के पश्चात् दिल्ली के सिंहासन पर गुलाम वंश के नाम से एक हठ मुस्लिम राज्य स्थापित हो गया। तदुपरान्त खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी एवं भुगल राजवंशों के अनेक राजाओं ने शासन किया। इनमें से अधिकांश अधिकारी विदेशी भावना से आपूरित थे और हिन्दुओं से विद्वेष रखते थे अतः उन्होंने समय-समय पर अनेक अत्याचार किये जिनसे भारतीयों के हृदय भग्न हो गये और उनमें उठने की सामर्थ्य न रही। व्यथित हुआ व्यक्ति जब शक्तिहीन हो जाता है तब उसे आश्रय की लालसा होती

है और वह दो ही रूप में प्राप्त होता है—एक परम पिता के रूप में और दूसरा उन व्यक्तियों के रूप में जो सहानुभूति और संवेदना से भरपूर हैं, जो दया के भांडार तथा पक्षपात से परे हैं। परम पिता पीड़ितों का पाता और आततायियों का विधाता होता है चाहे वह किसी भी रूप में हो। सगुण हो या निर्गुण वह विश्व का संचालक सभी प्रकार से समर्थ है। यही कारण है कि दुखिया सदैव उसी को पुकारता है, उसी का सहारा तकता है और उसी की गोद में जा बैठना चाहता है। वह आण अवश्य करता है, मदान्धों को दंड भी देता है परन्तु दूसरों के रूप में। यही कारण है कि वह सदैव से एक रहस्य बना हुआ है। भिन्न-भिन्न देश और कालों में विविध उपासना-मार्गों एवं पदार्थ-पूजाओं का भी यही कारण है। जो जिस प्रकार से भी उससे बल पाता है वह उसी प्रकार से उसे बतलाता है। परन्तु उनकी उक्तियों में अन्तर्निहित भावनाओं के सामंजस्य का एक ही सार निकलता है और वह यह है कि वह सर्वशक्तिमान् है। यह ईश्वरीय सहायता परोक्षतः ही आती है किन्तु ससार में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो साधारण व्यक्तियों से कहीं अधिक शक्तिशाली, निष्पक्ष और उदार होते हैं। राज्यसत्ता का भय और लोभ दोनों ही उनके लिए नगण्य हैं। विश्व की विराट् सत्ता की साधना के चरम लक्ष्य के साथ-साथ मानव-हित ही उनका परम ध्येय होता है। ये ईश्वरीय शक्ति के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि ही होते हैं इसलिए इनका आश्रय भी धैर्य और शक्ति का प्रदाता होता है। इनकी आध्यात्मिक शक्ति धनी-निर्धन, शासक-शासित सभी पर समान रूप से प्रभाव डालती है। शासक नरु और शासित निर्भय हो जाते हैं।

ऐसे व्यक्ति सृष्टि के आदि से ही होते आये हैं। जब उद्धत और मदान्ध मुसलमान आक्रान्ताओं ने यहाँ की प्रशान्त जनता को रौदना प्रारम्भ किया तो उसको ढाढ़स बँधाने वाले भी साथ ही आये। ये सूफी दरवेश थे। मुहम्मद गौरी की शासन-स्थापना के साथ ही साथ हम सूफियों को प्रेम का मनोरम बीज बोते हुए देखते हैं। पहले कहा जा चुका है कि हिन्दी भाषा में सूफीमत की विवेचना पहले हुई और अवधी में उसका विकास हुआ। जायसी से पूर्व मृगावती और मधुमालती के अतिरिक्त और भी काव्य लिखे जा चुके थे। वे आज मिलते नहीं हैं परन्तु इससे यह तो निश्चितप्राय है कि इन सूफियों ने भारतीय वातावरण के अनुकूल केवल प्रचार ही नहीं किया था वरन् सुन्दर काव्य भी लिखे थे जिनमें प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों में सूफीमत के सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ था। इनका उद्देश्य ईश्वरीय प्रेम के अतिरिक्त जन-समाज को प्रेम-पाश में आबद्ध करना भी था।

इन लोगों ने मुख और लेखनी से जो कुछ भी व्यक्त किया, वह जनता के आस्वाप्तार्थ सुधा-सिन्धु ही सिद्ध हुआ और भारतीय साहित्य के लिए एक अन्ठी निधि

ही बन गया। इसने त्रिसित मानव-हृदय को शान्ति प्रदान की अतः भारतीयों ने इन सन्तों में अपने परम हितैषी और शुभचिन्तक ही पाये। प्यासे को पानी देने वाला और भूखे को भोजन-प्रदाता सदैव सम्मान्य होता है। इसी प्रकार ये सन्त भी लोगों के शीघ्र ही सम्माननीय हो गये। यही कारण था कि हिन्दू और मुस्लिम जनता पर इनका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। हिन्दुओं ने तो अपने परम सहायक ही पा लिये।

भारत में ऐसा विपम समय कभी न आया था। शक-हूणादि अनेक विदेशी जातियाँ इससे पूर्व यहाँ आई थीं और उन्होंने शासन भी किया था परन्तु वे राजनैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टियों से शीघ्र ही भारतीयता में ही निमग्न हो गई थी इसलिए कभी भी प्रेम-प्रचार की ग्रावश्यकता न पड़ी थी। मुसलमान इससे विपरीत ही सिद्ध हुए। वे भारत में आकर भी भारतीय न बन सके और सदैव यहाँ के निवासियों को घृणा की दृष्टि से देखते रहे, जिसके परिणामस्वरूप समय-समय पर अनेक अत्याचार भी करते रहे। ये सूफी सन्त मुसलमान होते हुए भी सामान्य स्तर से बहुत ऊँचे थे। इनमें धर्मान्धता न थी अतः ये उदार और विमल हृदय थे। ये परम्परा से इस्लाम के एकेस्वरवाद के स्थान पर एक व्यापक ब्रह्म को मानते आ रहे थे जिसमें भारतीय अद्वैतवाद ने अनन्यता लाकर एक मानव-समाज को ही नहीं विश्व को ही एक कर दिया था। इस प्रकार ये सूफी मुसलमान न होकर ईश्वर के प्रेमी हो गये थे। यही कारण था कि इनकी एक ही शिक्षा थी, एक ही सिद्धान्त था, एक ही मार्ग था और एक ही धर्म था और वह था प्रेम। भला जब हीरे लुट रहे हों, संज्ञाहीन व्यक्ति के अतिरिक्त और कौन ऐसा होगा जो झोलियाँ भर-भर के न लूटे। जब प्रेम-सुषा की ऐसी वर्षा हुई तो तृपित जनता उस पर टूट पड़ी और छकछककर उसे खूब पिया।

✓ सूफीमत ज्ञान और भक्ति का मध्यम मार्ग था जिसमें निर्गुणोपासना की प्रधानता होते हुए भी सगुणोपासना का बड़ा मधुर समन्वय था। भारत की भक्ति-पद्धति ने उस पर और ही रंग चढ़ा दिया था तथा साथ ही सिद्ध और योगियों की छाप भी लग चुकी थी। परन्तु यह प्रभाव एकपक्षीय ही न था, सूफियों ने भी भारतीय समाज, धर्म एवं साहित्य पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला। साहित्य समाज और धर्म का दर्पण होता है और प्रधानतः भारत में अतः जब समाज और धर्म पर क्रमशः प्रभाव पड़ा तो साहित्य पर भी प्रभाव अवश्यम्भावी था। इन्होंने स्वयं भी साहित्य का स्रजन किया और दूसरों के लिए नवीन पद्धतियों का निर्माण किया। ✓

✓ हठयोग द्वारा योगियों में जिस निर्गुण ब्रह्म की स्थापना हुई थी, उसी की मान्यता कबीर आदि ज्ञानमार्गी सन्तों में हुई। योगियों ने सिद्धों के अनेक पाखंडों का प्रतिविधान किया परन्तु उनमें भी अनेक पाखंड आ गये। वे चमत्कारों तथा सिद्धियों के स्वामी बनना चाहते थे परन्तु वास्तव में वे उनके दास थे। ज्ञानमार्गी संत इन जंजालों से पृथक् रहे परन्तु प्रेममार्गी सन्तों के प्रेमाकर्षण से बंचित न रह सके।

ज्ञानमार्गी सन्तों की साधना-पद्धति में हमें जो माधुर्य भाव दृष्टिगोचर होता है वह सूफियों की ही देन है। यद्यपि संस्कृत के भागवत आदि ग्रन्थों में गोपी-कृष्ण के प्रणय में प्रणयवाद का विवेचन हमें मिलता है परन्तु सूफियों के प्रणयवाद में एक विशेषता है। भागवत में प्रणयवाद साकार कृष्ण को लेकर है, जब कि सूफियों का प्रणय निराकार में है। सूफीमत की यही परिपाटी कबीर आदि ज्ञानमार्गी सन्तों के प्रणय में अभिव्यक्त हुई। उदाहरणार्थ सूफी प्रणयवाद से प्रभावित ज्ञानमार्गी सन्तों की कुछ वाणियाँ नीचे लिखी जाती हैं—

बालम आओ, हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया देह रे ॥ टेक ॥

सब कोई कहै तुम्हारी नारी, मो को यह संदेह रे।

एकमेक हूँ सेज न सोवै, तब लगि कंसो नेह रे ॥^१—कबीर

×

×

×

बिरह सतावै मोहि को, जिव तड़पै मोरा।

तुम देखन की चाव है, प्रभु मिलौ सवेरा ॥^२ —कबीर

×

×

×

नैहरवा हम कां नहि भावै ॥ टेक ॥

सा^० की नगरी परम अति सुन्दर, जहँ कोई जाय न आवै।

चाँद सुरज जहँ पवन न पानी, को संदेश पहुँचावै ॥

बरब यह साईं को सुनावै ॥^३ —कबीर

×

×

घूँघट का पट खोल रे, तो को पीव मिलेंगे ॥^४ —कबीर

×

×

तन तलफे हिय कछु न सोहाय।

तोहि बिन पिय मोसे रहल न जाय ॥^५ —धर्मदास

×

×

मोरा पिया बसै कौनै देस हो ॥ टेक ॥

अपने पिया को ढूँढ़न हम निकसी,

कोई न कहत सनेस हो ॥

^१ सन्तवानी संग्रह (भाग दूसरा), पृष्ठ १०।

^२ वही, पृष्ठ १०।

^३ वही, पृष्ठ १२।

^४ वही, पृष्ठ १२।

^५ वही, पृष्ठ ३६।

पिय कारन हम भई हे बावरी,

धर्यो जोगिनियों कं भेस हो ॥^१

—धर्मदास

× × ×

प्रब मेरे प्रीतम प्राण पियारे ।

प्रेम भक्ति निज नाम दीजिए, दयाल अनुग्रह धारे ॥

सुमिरीं चरन तिहारे प्रीतम, रिचे तिहारी आशा ।

संत जनां पै करी बेनती, मन दरसन की प्यासा ॥^२

—नानक

× × ×

अजहूँ न निकसै प्राण कठोर ॥ टेक ॥

वरसन बिना बहुत दिन बीते, सुन्दर प्रीतम मोर ॥

चारि पहर चारों जुग बीते रैनि गँवाई मोर ॥

अवधि गई अजहूँ नहिं आये, कतहूँ रहे चित चोर ॥

कबहूँ नैन निरखि नहिं देखे, मारग चित्तवत तोर ॥

बाबू ऐसे आतुर बिरहसिण, जैसे चन्द चकोर ॥^३

—दादूदयाल

× × ×

तेरा मैं दीवार दीवाना ।

घड़ी-घड़ी तुझे देखा चाहूँ, सुन साहिब रहिमाना ॥

हुआ अलमस्त खबर नहिं तन की पीया प्रेम पियाला ।

ठाड हो तो उँगिर-गिरि परता, तेरे रँग मतवाला ॥^४

—मलूकदास

× × ×

हैं बिल में बिलवार सही, अँखियाँ उलटी करि ताहि चित्तये ॥^५

—सुन्दरदास

× × ×

अजहूँ मिलो मेरे प्राण पियारे ।

दीनदयाल कृपाल कृपानिधि,

करहु छिमा अपराध हमारे ॥^६

—धरनीदास

^१ सन्तवानी संग्रह, (भाग २), पृष्ठ ४४ ।

^२ वही, पृष्ठ ४६ ।

^३ वही, पृष्ठ ६३ ।

^४ वही, पृष्ठ १०३ ।

^५ वही, पृष्ठ ११८ ।

^६ वही, पृष्ठ १२६ ।

इनसे ज्ञात होता है कि ये ज्ञानमार्गी सन्त भी प्रणयवाद से कितने प्रभावित हुए थे। इस प्रभाव से दूलनदास, पलटूदास आदि सन्त भी न बचे थे। इनके अतिरिक्त यारी, दरिया, बुलेशाह और बरकतुल्ला आदि तो सूफी ही थे। इन सब सन्तों के प्रणयवाद में जो रहस्यात्मकता गर्भित है वह सूफियों की ही उपज है।

इस प्रणयवाद का प्रभाव साधना तक ही सीमित न था वरन् यह मानव-समाज के लिए भी वरदान रूप में था। जो मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता भला वह ईश्वर से क्या कर सकता है? प्रथम आये हुए सूफियों ने हिन्दू और मुसलमानों के मध्य विद्वेष को मिटाने के लिए जो प्रेम का बीज बोया था वह शीघ्र ही अंकुरित हुआ और ज्ञानमार्गी सन्तों ने उसे पल्लवित किया।

अनेक समाज-सुधारकों और धर्म-प्रचारकों ने धार्मिक रूढ़ियों का तथा बाह्या-डम्बरों का घोर शब्दों में विरोध किया किन्तु सूफियों के यहाँ इस विरोध का प्रायः अभाव है। इसका यह अर्थ नहीं कि वे बाह्याडम्बरों तथा धार्मिक रूढ़ियों के पक्षपाती रहे हैं। सूफियों का मत तो यह है कि अनेकता एकता ही का रूपान्तर है। मानो सत्य का एक सोपान है जिसमें ऊपर से नीचे तक अनेक श्रेणियाँ (मंजिल) हैं। कोई किसी श्रेणी पर खड़ा है तो कोई किसी पर। ये सब श्रेणियाँ एक ही सत्यरूप सोपान में जड़ी हुई हैं और परम सत्य की पोषक हैं, घातक नहीं। इन सबका समन्वय इसी प्रकार है कि मानसिक तथा आध्यात्मिक परिस्थिति के अनुकूल विचरता हुआ मनुष्य नीचे की श्रेणी से ऊपर की ओर बढ़ता चला जाय। नीचे की श्रेणी ऊपर की श्रेणी पर ले जाने के लिए परम आवश्यक है इसलिए उसका मूलोच्छेद नहीं किया जा सकता। यदि मूर्ति-पूजन से प्रेम की पुष्टि होती है तो मूर्ति-पूजन भी अपने स्थान पर सूफी को ग्राह्य है क्योंकि मूर्त का प्रेम अमूर्त के प्रेम की ओर ले जाने वाला है। इसलिए सूफी जो प्रेममार्गी है, अन्य ज्ञानमार्गियों की भाँति फटकार से काम नहीं लेता। उसको तो प्रत्येक रूप में, चाहे वह विकल हो या सकल, प्रेम ही की दृष्टा दिखाई देती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ईश्वरीय प्रेम के साथ विश्व-प्रेम की भागीरथी को प्रवाहित करने में भारतीय सूफियों का बड़ा हाथ रहा है। इन्होंने साहित्य द्वारा तो यह कार्य किया ही, साथ ही प्रचार और मौखिक उपदेश से भी मनुष्य को मनुष्य के पास लाने में बड़ा प्रयत्न किया।

यद्यपि तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दी का हिन्दी में सूफी साहित्य नहीं मिलता परन्तु यह निश्चितप्राय है कि उस समय भी कुछ न कुछ साहित्य का निर्माण हुआ ही होगा। पन्द्रहवीं शताब्दी से तो यह साहित्य हमें मिलता ही है, जो हिन्दी साहित्य की निधि का अमूल्य अंश है। इस साहित्य ने हिन्दी साहित्य पर दो रूपों में प्रभाव डाला, एक तो काव्य के रूप में और दूसरा अध्यात्म के रूप में। पहले कहा जा चुका है कि

अमूल्य सूफी साहित्य अवधी में ही है और काव्य रूप में ही है, जो (चौपाई छन्द की) कुछ अर्द्धालियों के पश्चात् एक दोहे या बरवै छन्द के क्रम में लिखा गया है। मलिक मुहम्मद जायसी प्रेममार्गी कवियों में प्रतिनिधि माने जाते हैं और राम-भक्तों में तुलसीदास। तुलसीदास तो हिन्दी के श्रेष्ठतम कवियों में से हैं। जायसी ने अपने पदमावती काव्य को अवधी में सात अर्द्धालियों के उपरान्त एक दोहे के क्रम से लिखा है। तुलसीदास ने भी अपने रामचरितमानस को, जिसकी समता का दूसरा ग्रन्थ नहीं, अवधी में ही चौपाई आर दोहे के क्रम से ही लिखा। यद्यपि उन्होंने एक अर्द्धाली का अधिक प्रयोग किया है परन्तु इसमें पद्धति में कोई अन्तर नहीं आता। कुछ विद्वानों का कथन है कि तुलसीदास ने उम शैली को जायसी से नहीं अपनाया क्योंकि प्रेममार्गी कवियों से पूर्व भी सिद्धों एवं वीरगाथा काल के कुछ कवियों ने इस शैली को यत्र-तत्र अल्पांश में प्रयुक्त किया था। परन्तु हमें यह मान्य नहीं, क्योंकि चौपाई का प्रयोग मात्र ही इसका प्रमाण नहीं हो सकता। वह प्रयोग कई शताब्दियों पूर्व हुआ था और वह भी काव्य या काल की दृष्टि से अविच्छिन्न रूप में नहीं। प्रेम काव्यों की तो इस शैली में एक अविच्छिन्न धारा थी और तुलसीदास भक्ति काल में ही जायसी के पश्चात् हुए थे। अतः यह शैली उन्होंने जायसी से अपनायी थी, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं।

दूसरा प्रभाव अध्यात्म रूप से है। हिन्दी साहित्य में हम निर्गुण धारा के पश्चात् भक्तिक्षेत्र में सगुण धारा को पाते हैं। सगुण धारा की भी दो शाखाएँ हुईं, राम-भक्ति शाखा और कृष्ण-भक्ति शाखा। सूफियों ने जिस प्रेम का राग अलापा, सगुणोपासकों ने भी उसमें अपना स्वर मिलाया। हिन्दू-मुसलमानों के बीच एकता का जो कार्य सूफियों ने किया तुलसी ने भी उसी कार्य को बहुसंख्यक हिन्दू जाति में उनकी परम्परा के अनुकूल अपनी रचनाओं द्वारा सुचारु रूप से सम्पन्न किया। परन्तु कृष्ण-भक्ति शाखा पर सूफियों के रहस्यात्मक प्रेम की विशेष छाप पड़ती हुई दिखाई देती है। शब्द की जिस व्यंजना शक्ति से सूफी कवि काम लेते हैं, वही व्यंजना-शक्ति कृष्ण-भक्ति शाखा के कवियों में सक्रिय दिखाई पड़ती है। यह बात राम-भक्ति शाखा के कवियों में नहीं है। राम-भक्ति में तो लोक-पक्ष पर विशेष बल दिया गया है जब कि कृष्ण-भक्ति में रहस्यात्मकता पर। यहाँ कृष्ण वाच्यार्थतया माखनचोर ग्वाल-बाल नहीं हैं और न गोपियाँ अहीरनी हैं वरन् कृष्ण से ब्रह्म और गोपियों से जीवात्मा की व्यंजना की गई है,^१ तथा माखनचोर से चितचोर अथवा परम प्रेमी की व्यंजना झलक

^१ धन्य ब्रज ललनानि करतें ब्रह्म माखन खात ।

—संक्षिप्त सूरसागर, दशम स्कन्ध, पूर्वार्द्ध, पद ११८२, पृष्ठ १८७।

रही है। प्रेम की यह रहस्यात्मकता यदि भागवतादि मूल ग्रन्थों में मानी जाय तो ठीक है, तथापि जन-समुदाय में यह रहस्यात्मक अभिप्राय लुप्तप्राय ही था। इसलिए यह अनुमान अनुचित न होगा कि सूफियों का रहस्यवाद भागवतों के रहस्यात्मक अर्थ का प्रतिपादन करने में सहायक हुआ है।

कृष्ण-भक्तों की परम्परा में मीरा के पदों में सूफी प्रेम की व्यंजना विशेष रूप से उपलब्ध है। मीरा की भक्ति मधुर भाव की है। उनकी वाणी में वेदना कूट-कूट कर भरी हुई है। पदों से ज्ञात होता है कि उन्होंने अपने को गिरिधरलाल के हाथों बेच दिया है। खाते-पीते, उठते-बैठते और सोते-जागते किसी प्रकार भी चैन नहीं है। अपने प्यारे साँवरिया की सूरत में ही लीन रहती है। उन्हें उनके अतिरिक्त और कोई नहीं चाहिए। कभी रोती हैं तो कभी हा-हा खाती हैं। वे तो केवल साक्षात्कार और मिलन की भूखी हैं। गिरिधरलाल उनके पिया हैं और ये उनकी पत्नी हैं। किन्तु यह पिया कौन है? लौकिक व्यक्ति की भाँति कोई देश-काल से सीमित ब्रज-निवासी कृष्ण नहीं वरन् वह परम अघ्यात्म सत्ता है। इसके प्रेम स्वरूप का उन पर ऐसा रंग चढ़ा हुआ था कि वह मन्दिरों में कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती और गाती थी। कभी-कभी उन्हें उन्माद भी आ जाता था। मन्दिरों में कृष्ण की मूर्ति के समक्ष नाचने से हमें मीरा की उपासना को केवल साकारोपासना नहीं समझना चाहिए क्योंकि उनके अनेक रहस्यात्मक पदों से, जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं, निराकारोपासना भी व्यंजित है।

मीरा के पदों में सूफियों के समान ही हम प्रेम की पीर पाते हैं। “कैसे जिऊँ री माई हरि बिन कैसे जिऊँ री” कहकर वे हरि बिना जीना असम्भव बतलाती हैं। वे कृष्ण के रूप पर इतनी मुग्ध हो गई हैं कि उनके नेत्र दर्शनों को तरसते हैं। विकल होकर वे कहती हैं कि हे प्यारे मोहन! कभी आकर हृदय की तपन बुझा जाओ। मैं चायल हुई तड़पती फिरती हूँ, परन्तु मेरी पीड़ा को कोई नहीं जानता। जल के बिना क्या बेचारी मछली जी सकती है? मैं भी तुम्हारे बिना न जी सकूँगी अतः आकर दर्शन दे जाओ.....

कभी हमारी गली आवरे, जिया की तपन बुझाव रे।

म्यरि मोहना प्यारे।

तेरे साँबले खवन पर, कई कोट काम वारे,

तेरे खूबी के दरस बँ, नैन तरसत हमारे।

चायल फिरँ तड़पती, पीड़ जाने नहि कोई,

।जस लागी पीड़ प्रेम की, जिन लाई जाने सोई ।

कृपा कीजं दरस दीजं, मीरा नन्द के दुलारे ।^१

वे मिलन की इतनी भूखी है कि सूनी शय्या विष जैसी जान पड़ती है, सिसकते-सिसकते प्राण गले तक आ गये हैं और नेत्रों में नींद नहीं आती...

सूनी सेज जहर ज्युं लागे, सिसक सिसक जिय जावे ।

नयन निद्रा नहि आवे ॥^२

वे इसी प्रकार विरह-विकल हुई कभी-कभी प्रलाप करने लगती थी। एक बार उन्होंने एक सहचरी को सम्बोधित करते हुए कहा कि हे आली ! मेरे हृदय में मिलन-वेदना जग गई है। अब तड़पते हुए फल नहीं पड़ती, क्योंकि विरह-वाण हृदय को साल रहा है। अहर्निश मैं प्रिय के पंथ को ही निहारती रहती हूँ और पलभर भी पलक नहीं लगते। मेरी सारी सुध-बुध, जाती रही है और रात-दिन 'पीव-पीव' ही रटती रहती हूँ। विरह-सर्प ने मेरे कलेजे को डस लिया है और विष की लहर उठने लगी है। हे स्वामी ! मेरी पीड़ा को मिटाकर मुझ से आ मिलो। मैं अत्यन्त व्याकुल हो गई हूँ और अब बस तुम्हारे से मिलन की लालसा लगी हुई है—

राम मिलण के काज सखी, मेरे आरति उर जागी री ।

सलफल-सलफल कल न परत है, विरह बाण उर लागी री ॥

निस दिन पंथ निहाळ पीव को, पलक न पल भरि लागी री ।

पीव पीव में रटूं रात दिन, दूजो सुधिबुधि भागी री ॥

विरह भवंग मेरो डसो है कलेजो, लहरि हलाहल जागी री ।

मेरी आरति मेदि गुसाईं आइ मिलीं मोहि सागी री ॥

मीरा व्याकुल अति उकलारिण, पिया की उमंग अति लागी री ।^३

इन पदों में प्रेम-पीर की जो अभिव्यक्ति हुई है वह सूफियों की प्रेम-पद्धति के अनुसार ही समझनी चाहिए क्योंकि मीरा की साकारोपासना में हम रहस्यात्मक निराकारोपासना की झलक पाते हैं और निराकारोपासन में प्रेम-साधना सूफियों की ही देन है।

मीरा ने अनेक पदों में योग-साधना द्वारा निराकारोपासना की ओर संकेत किया है। गृह-त्याग के समय एक पद में उन्होंने कहा है कि मीरा को रोकने वाला कोई नहीं है, वह तो मगन होकर निकल पड़ी है। कुल की व्यावहारिक लज्जा और मर्यादा को भी उमने त्याग दिया है तथा मानापमान की भावना को भी तिलांजलि दे दी है क्योंकि वह ज्ञान-मार्ग पर पग रख चुकी है। इस मार्ग पर ब्रह्मरंघ्र की अटारिया है, जिस में प्रेम के कपाट लगे हुए हैं, तथा निर्गुण ब्रह्म की शय्या बिछी हुई।

^१ मीरा पदावली, पृ० १७, १८, पद २८ ।

^२ वही, पृ० २१, पद ३३ ।

^३ वही, पृष्ठ ६५, पद १६५ ।

है। यह शब्दा सुषुम्ना नाड़ी की है जिस पर मीरा भी प्रसाधन किये सुरति में लीन हुई बिराजमान है। राणा । तुम अपने घर जाओ, हमारी तुमसे न निभेगी—

तेरा कोई नहीं रोकनहार मगन होय मीरा चली ।
साज सरम कुल की मरजादा सिर से दूर करी ॥
मान अपमान दोऊ घर पटके निकसी हूँ ज्ञान गली ॥
ऊँची अटरिया, लाल किबड़िया, निरगुण सेज बिछे ॥
पचरंगी भालर सुभ सोहै, फूलन फूल फली ॥
बाजूबन्द, कडूला सोहै, सेंदुर मांग भरी ॥
सुमिरण थाल हाथ में लीन्हा, शोभा अधिक खरी ॥
सेज सुखमणा मीरा सोहै, सुभ है आज घरी ॥
तुम जावो राणा घर अपणो, मेरी तेरी नाहि सरी ॥^१

इसी प्रकार वे एक पद में अपने प्रियतम को नेत्रों में ही बसाने को कहती हैं। वह वही तो रहता है परन्तु दृष्टि में नहीं आता। अतः वे भृकुटी के मध्य शून्य महल (ब्रह्मरध्र) में ही ध्यान लगाकर उसे पाना और रमण करना चाहती हैं—

नैनन बनज बसाऊँ री जो मैं साहिब पाऊँ री ।
इन नैनन मेरा साहिब बसता, डरती पलक न पाऊँ री ॥
त्रिकुटी महल में बना है भरोखा, तहाँ से भाँकी लगाऊँ री ॥
सुन्न महल में सुरति जमाऊँ, सुख की सेज बिछाऊँ री ॥
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बल जाऊँ री ॥^२

वे अपने प्रिय के साथ होली खेलना चाहती हैं परन्तु यह होली लौकिक प्रेम की नहीं वरन् आध्यात्मिक अथवा रहस्यात्मक होली है। यही होली तो वास्तविक होली है।^३ जीवन में आई होली तो भला कितने दिन की है? इस होली में संगीत

^१ मीरा पदावली, पृ० ३६, ३७, पद ६४।

^२ वही, पृ० ४५, पद ७७।

^३ ज्ञातव्य : देखिये सूफी बरकतुल्ला ने भी आध्यात्मिक होली का इस प्रकार विवेचन किया है—

सुखसानी होरी हम देखी, खेलत लालन के संग प्यारी ।
पाँच पखीस छाड़ के बोरी, ग्यान रँगन में बोरी सारी ।१।
ध्यान राग बाजो अनहव को, ब्रह्म जोत दीप उजियारी ।
परै मिहिर कुंज में डार्यो, आवागमन मार पिचकारी ।२।
लाल गुलाल अबीर बरसे छवि, देखत नाचत उयोँ मतवारी ।
ऐसे खेल प 'प्रेमी' सरबस, तन मन धन कीजँ बलिहारी ।३।

—शाह बरकतुल्लाज कौण्ट्रीब्यूशन टू हिन्दी लिटरेचर, (प्रथम भाग), प्रेमप्रकाश,

क्षणिक ही होता है परन्तु उस होली में तो मधुर राग-रागनियो के साथ अनहद नाद की भंकार होती रहती है जिससे अग-अग प्रानन्द में मग्न रहता है। शील और मन्तोष की उसमें केसर और रोली होती है तथा प्रेम की पिचकारी है—

फागुन के दिन चार रे, होली खेल मना रे ।

बिन करताल पखाबज बाजे, अराहब की भनकार रे ।

बिन सुर राग छतीसू गावे, रोम रोम रंग सार रे ।

सील संतोष की केसर रोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे ।^१

इन पदों में मीरा की साधना कबीर आदि ज्ञानमार्गी सन्तों की भाँति दृष्टि-गोचर तो हो रही है परन्तु यह विशेषता है कि कबीर की साधना-पद्धति में ज्ञान की नीरसता भी है जब कि मीरा की उपासना में केवल प्रेम का माधुर्य। मीरा ने जहाँ भी निराकार की ओर संकेत किया है वहाँ हम उनकी उपासना को प्रेमोपासना ही कह सकते हैं और निराकार ब्रह्म में प्रेमोपासना सूफियों की ही पद्धति है। यदि कहा जाय कि यह कबीर आदि का ही प्रभाव है तो उचित नहीं, क्योंकि कबीर आदि में भी ज्ञान के साथ जो प्रेमोपासना आई है वह सूफियों से ही। अतः मीरा पर प्रत्यक्षतः या परोक्षतः सूफियों का प्रभाव स्पष्ट ही है।

उपर्युक्त विवेचन से हम इस परिणाम पर आते हैं कि हिन्दी-साहित्य के पूर्व-मध्य काल में सूफियों का व्यापक प्रभाव था जिसने साधना एवं व्यवहार दोनों ही पक्षों में प्रेम की मधुर धारा प्रवाहित की थी तथा प्रेम की रहस्यात्मक उपासना द्वारा ज्ञान-मार्गी सन्तों के अतिरिक्त अनेक भागवतों को प्रभावित किया था।

हिन्दी-साहित्य का उत्तर मध्य काल, जिसे हम रीति काल या शृंगार काल भी कहते हैं इस परम्परा के अनुकूल न था। इसके पूर्व ही मुगल शासक अकबर ने हिन्दुओं को उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया था, अतः हिन्दू-मुस्लिम विरोध समाप्त-सा हो रहा था। वीरवर राणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात् तो यह विरोध प्रायः जाता ही रहा। शासकों के दरबार में सुरा का दौरा हुआ और करवाल के स्थान पर कामिनी आ विराजी। लौहफलक भालों की अणियाँ अनियारे लोचनों के समक्ष कुंठित हो गईं और भोग-विलास की प्रवृत्ति ने युवती का रूप धारण कर लिया, अतः साहित्य भी मदमाती युवतीमय ही हो गया। भूषण आदि कवियों की रचनाओं में जो श्लोक हमें मिलता है वह औरंगजेब जैसे कठोर शासकों के दुर्व्यवहार से उद्बुद्ध विरोध के कारण ही। इस काल में अधिकांशतः रसराज शृंगार का ही साम्राज्य रहा, अतः वीर के

^१ मीरा पदावली, पृ० ५५, पद ६५।

अतिरिक्त निर्वेद भी विदा हो गया। हों राधा-कृष्ण सम्बन्धी साहित्य का पर्याप्त निर्माण हुआ परन्तु उसमें प्रेमोपासना नहीं सुख-साधना ही है। भला ऐसी प्रवृत्ति में भक्ति कहाँ ! यही कारण है कि इस काल में ज्ञानमार्गी एवं सूफी पीरों की गिण्य परम्परा के अतिरिक्त प्रेमोपासना प्रायः समाप्त ही हो गई।

इस काल के पश्चात् बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से हम आधुनिक काल में आते हैं। इसमें छायावाद एवं रहस्यवाद के प्रवेश के साथ ही साथ हम पुनः सूफी भावना को जागता हुआ देखते हैं। इस काल में सूफियों की भाँति सर्वप्रथम यूरोप में ईसाई सन्तों ने प्रकृति के नाना रूपों में जिस विश्वात्मा की छाया को देखा और विवेचित किया उसका सांकेतिक शब्दों में प्रतीकों द्वारा वही के कथियों ने चित्रालोक कराया। उनकी पद्धति प्रतीकवाद के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसका सर्वप्रथम अनुकरण बंगाल में हुआ जहाँ इसे छायावाद की संज्ञा दी गई। कवीन्द्र रवीन्द्र ने चित्रमयी भाषा में इस नूतन वाद के आधार पर विश्व के अणु-अणु में उस जगदीश्वर की बिखरी छटा के जो मनोरम चित्र खींचे उनसे संसार मुग्ध हो गया। हिन्दी लोक भी आकृष्ट हुआ और शीघ्र ही सर्व-समावेशिनी शक्ति के साथ उस पर टूट पड़ा। शताब्दियों पश्चात् पुनः वही प्रियतम आलम्बन बना। कौन जाने वह क्या है परन्तु सर्वत्र उसी की छटा दीखने लगी। उषा में उसी का हास, साध्य-वेला में उसी का लालित्य, चाँदनी में उसी का रूप, लहरों में उसी की सिहरन और वायु में उसी का संचार जान पड़ा। सूर्य और चाँद उसी की आँखें हैं, तारे उसकी मुस्कान के कण हैं, सुमन उसी के रोमांकुर हैं तथा विश्व के प्रकाश में वही लो खिल पड़ा है। उसकी भव्य विभूति और रम्य छटा के दर्शन अणु-अणु और पत्ती-पत्ती में होने लगे। कवि-लोक मुग्ध हो गया और भावावेश में छायामयी वाणी का ही प्रयोग करने लगा जिसका अत्रसान रहस्यपूर्ण ही होता था। पुनः वही चित्र भाषा निखरकर सामने आई, प्रतीकों का बोलवाला हुआ और अन्योक्तियाँ पर बाँधकर उड़ने लगी।

‘वह विश्वात्मा दीखता नहीं परन्तु उसका सौन्दर्य सर्वत्र दीख पड़ता है’ इसने प्रेम को उद्दीप्त कर दिया। प्रेम ने हृदय पर आसन जमा दिया। अब तो विरह का अनुभव होने लगा और प्रेम की पीर जग पड़ी। इसने एक मरोड़ पैदा कर दी जिससे कवि-हृदय की वीणा का तार-तार भँकृत हो गया है। पर मिलता नहीं है, इसने विकलता को जन्म दिया और सर्वत्र उन्मत्तता-सी छा गई। एक विचित्र भूमि के ही चित्र सामने आये। कोई दिनकर की नवोढा ऊपा पर ही मुग्ध हो रहा है तो कोई कालावगुंठन किये सकेतगामिनी रजनी के साथ स्वयं ही साजन की भाँति चल पड़ा है, कोई पवन से पथ पूछ रहा है तो कोई तरल तरंगों में उसी का नृत्य देख रहा है। कोई पक्षियों के साथ पंख पसारकर उड़ रहा है तो कोई मधुमास के साथ पुष्पों की आँखों

से ही उसे निहार रहा है । ऐसा जान पड़ने लगा कि प्रियतम पास ही तो है, यदि आलिंगन नहीं होता तो क्या, अन्तःप्रभिंगार तो हो रहा है । इस प्रकार वह अव्यक्त सत्ता पुनः चिरप्रतीक्षा, चिरचिन्तन, चिरमिलन, प्रोर चिरमादकता का विषय बनी । पीछे कहा जा चुका है कि प्रेमोपासना में जहाँ प्रेम स्वयं प्रतीक होता है वहाँ सुरा, सुराही और साकी भी प्रतीक होते हैं । प्रियतम के आते ही ये भी आ विराजे ।

इस प्रकार उन प्रतीकों के आधार पर उस अनन्त सौन्दर्यशाली प्रियतम का चित्राकन होने लगा और रहस्यमयी भाषा में उमी के रूप की अभिव्यंजना का प्रचार हो गया । अब कवि कवि के रूप में देवदूत हो गया और कल्पना परियों की भाँति पर लगाकर उड़ने लगी । यद्यपि कुछ स्वच्छन्द कवियों ने इसकी आउ में असम्बद्ध, अर्थहीन और अश्लील भाषा में भावाभास और रसाभास के दर्शन कराकर उच्छ्वेखलता का ही परिचय दिया परन्तु जयशंकर प्रसाद मुमिन्नानन्दन पंत, सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' और महादेवी वर्मा आदि ने इस धारा को उन्मार्ग में प्रवाहित होने से बचा लिया ।

सम्पूर्ण विश्व में एक सर्वोच्च सत्ता व्याप्त हो रही है । विश्व उसी के सौन्दर्य का प्रत्यक्ष प्रदर्शन है । कवि चिदचित् रूप से संसृति में सर्वत्र उस छटा को देख पाता है तो आनन्द-विभोर हुआ उसे व्यक्त करना चाहता है । परन्तु वह सामान्य भाषा में उसे कर नहीं पाता अतः लक्षणा के आधार पर प्रतीकों द्वारा उसे व्यक्त करता है । इसके लिए उसे साम्याधार पर रूपक एवं अन्योक्ति आदि का भी आश्रय लेना पड़ता है इसीलिए उसकी भाषा चित्रमयी हो जाती है । उसकी वस्तु एवं भाव-व्यंजना में उसी असीम का रूपांकन होता है । उसकी लेखनी में अमूर्त भी मूर्तिमान हो जाता है । शनैः शनैः कवि के हृदय में उस असीम से इतना प्रेम हो जाता है कि वह स्वयं उससे नाता जोड़ना चाहता है और निरन्तर उसकी ओर बढ़ने लगता है । यहाँ कवि-हृदय रहस्यमय बन जाता है । इस प्रकार छायावाद का पर्यवसान रहस्यवाद में ही होता है अतः हम छायावाद की चरमावस्था को ही रहस्यवाद कहें तो अनुचित न होगा ।

इस छायावाद और रहस्यवाद में स्पष्ट ही हम सूफी-भावना को देखते हैं । संसार में ईश्वर और सृष्टि के सम्बन्ध में चार धारणाएँ पाई जाती हैं । प्रथम, ईश्वर एक है, उसी ने सम्पूर्ण विश्व को बनाया है अतः वही इसका पालक और संहारक भी है । इस धारणा के अनुसार विश्व की सत्ता है । द्वितीय, ईश्वर है परन्तु विश्व का कर्ता नहीं, इसमें कर्म की प्रधानता है । तृतीय, एक व्यापक ब्रह्म है, भाषावश उसी से विश्व निसृत हुआ है अतः दृश्य जगत एक ब्रह्म ही है । इसके अनुसार ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं । चतुर्थ धारणा के अनुसार एक व्यापक ब्रह्म है । विश्व उसी से उत्पन्न हुआ है परन्तु भ्रम नहीं सारहीन है । इसकी मान्यता है, कि विश्व उसी के सौन्दर्य का प्रदर्शन है

जो स्वयं प्रेम और सौन्दर्य रूप है अतः विश्वात्मा प्रेम का विषय है । प्रथम धारणा में भय की प्रधानता है अतः दास्य भाव से ही भक्ति हो सकती है । इसमें ईश्वर प्रियतम नहीं हो सकता । दूसरी धारणा में तो इसका प्रश्न ही नहीं उठता । तीसरी धारणा में ज्ञान की नीरसता है इसमें अभेद वृत्ति के कारण जगत के मिथ्यात्ववश व्यापक ब्रह्म में सौन्दर्य-समन्विता का अभाव है । अतः वह प्रेम-गम्य नहीं ज्ञानगम्य है । इन तीनों धारणाओं के अनुसार न तो ईश्वर प्रेम का विषय है और न वह सौन्दर्य रूप से विश्व में व्याप्त हो रहा है अतः उसका चित्रांकन नहीं हो सकता । चित्रांकन के अभाव में ये तीनों ही छायावाद के अनुकूल नहीं हैं । आधुनिक काल में जो रहस्यवाद है वह वेदान्तियों का सा नहीं वरन् ज्ञानमार्गी सन्तों जैसा है और सूफी-प्रभाव से ज्ञानमार्गी सन्तों में प्रेमोपासना थी ही अतः ये धारणाएँ रहस्यवाद के उपयुक्त नहीं । अब केवल चतुर्थ धारणा ही रह जाती है जो छायावाद और आधुनिक रहस्यवाद के अनुकूल पड़ती है, क्योंकि उसी के अनुसार विश्व ईश्वरीय सौन्दर्य का मूर्तरूप है अतः चित्रांकन हो सकता है तथा ईश्वर प्रेम रूप है अतः उससे मिलन की चाहना हो सकती है । यह धारणा सूफियों के ही अनुसार है । सूफी लोग व्यापक ब्रह्म की बिखरी छटा ही तो देखते हैं और छायावादी भी सर्वत्र उसी की झलक पाते हैं । झलक के अनन्तर मिलन की चाहना से विरहवश जो प्रेम की पीर जगती है वह सूफियों के अतिरिक्त और है कहाँ ? अतः मानना पड़ेगा कि इस काल में छायावाद एवं रहस्यवाद पर सूफीमत का व्यापक प्रभाव है ।

प्रसाद ने चित्रांकन के अतिरिक्त वेदना को भी स्थान दिया है । उनके हृदय में भी हम उस टीस को पाते हैं जो वियोग में हुआ करती है, परन्तु पंत और निराला ने तो प्रायः अमूर्त के सद्भाव में कल्पना के सहारो भाव-लोक को साकार बनाकर चित्रांकन ही किया है । इनके अतिरिक्त रामकुमार वर्मा एवं हरिवंशराय बच्चन ने भी यत्र-तत्र इस प्रवृत्ति को अपनाया है परन्तु महादेवी वर्मा की कविताओं में हम जो वेदना पाते हैं वह किसी भी आधुनिक कवि में नहीं मिलती । वे वेदना की साकार मूर्ति ही हैं । उन्होंने जो चित्र खींचे हैं वे स्वयं वेदना से ओत-प्रोत हैं । इस दृष्टि से वर्तमान काल में वे छायावादी एवं रहस्यवादी कवियों का यथार्थ में प्रतिनिधित्व ही करती हैं । उनकी रचनाओं में विद्यमान निराकार के प्रति प्रेम-पीड़ा, विरह-विकलता और मिलन की कामना हमें स्पष्ट बतला रही है कि वे सूफी-पद्धति से किसी न किसी प्रकार अत्यधिक प्रभावित हैं । इस काल में मधु-भरे मधुकलशों के साथ मधुशालाओं में जो मधुपायी और मधुपाययिता दीख पड़े, बस सब उमर खैयाम, हाफिजे शीराजी तथा अन्य ईरानी सूफियों का ही अनुकरण है ।

इस पर्यालोचन से हम इस परिमाण पर आते हैं कि आधुनिक हिन्दी जगत् पर

सूफी-प्रभाव बड़ी व्यापकता से पडा। इस युग में जिस साहित्य का निर्माण हुआ और उसके जिस प्रबल अंग छायावाद एवं रहस्यवाद पर सूफीमत का प्रभाव है उसमें अनेक कवियों ने योग दिया है परन्तु हम महादेवी वर्मा को ही छायावादी एवं रहस्यवादी कवियों का प्रतिनिधि मानते हैं अतः उनकी रचनाओं के आधार पर ही हम इस प्रभाव की महत्ता को सिद्ध करते हैं।

इन्होंने यामा के प्राक्कथन के 'अपनी बात' नामक द्वितीय अंश में आधुनिक रहस्यवाद की रूपोद्भावना के विषय में वेदान्त, योग, सूफीमत एवं कबीर के रहस्यवाद की पृथक्-पृथक् विशेषता बतलाते हुए लिखा है कि—

“रहस्यवाद, नाम के अर्थ में छायावाद के समान नवीन न होने पर भी प्रयोग के अर्थ में विशेष प्राचीन नहीं। काल के दर्शन में इसका अंकुर मिलता अवश्य है परन्तु इसके रागात्मक रूप के लिए उसमें स्थान नहीं। वेदान्त के द्वैत-अद्वैत या विशिष्टा-कैत आदि या आत्मा की लौकिकी तथा पारलौकिकी सत्ता-विषयक मतमतान्तर मस्तिष्क से अधिक सम्बन्ध रखते हैं हृदय से नहीं, क्योंकि वही तो शुद्ध-बुद्ध चेतन को विकारों में लपेट रखने का एकमात्र साधन है। योग का रहस्यवाद, इन्द्रियों को पूर्णतः बश में करके आत्मा की कुछ विशेष साधनाओं और अभ्यासों द्वारा इतना ऊपर उठ जाता है जहाँ वह शुद्ध चेतन से एकाकार हो जाता है। सूफीमत के रहस्यवाद में अवश्य ही प्रेमजनित आत्मानुभूति और चिरन्तन प्रियतम का विरह समाविष्ट है परन्तु साधनाओं और अभ्यासों में वह भी योग के समकक्ष रखा जा सकता है और हमारे यहाँ कबीर का रहस्यवाद यौगिक क्रियाओं से मुक्त होने के कारण योग परन्तु आत्मा और परमात्मा के मानवीय प्रेम-सम्बन्ध के कारण वैष्णव युग के उच्चतम कोटि तक पहुँचे हुए प्रणय-निवेदन से भिन्न नहीं।”

“श्राज गीत में हम जिसे नये रहस्यवाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं वह इन सबकी विशेषताओं से युक्त होने पर भी उन सबसे भिन्न है। उसने पराविद्या की अपाथिवता ली, वेदान्त के अद्वैत की छायामात्र ग्रहण की, लौकिक प्रेम से तीव्रता उधार ली और इन सबको कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य-भाव-सूत्र में बाँधकर एक निराले स्नेह-सम्बन्ध की सृष्टि कर डाली। जो मनुष्य के हृदय को अवलंब दे सका, उसे पाथिव प्रेम के ऊपर उठा सका तथा मस्तिष्क को हृदयमय और हृदय को मस्तिष्कमय बना सका।”^१

इससे स्पष्ट यह तात्पर्य निकलता है कि आधुनिक रहस्यवाद में सूफीमत का

^१ यामा, अपनी बात, पृ० ६।

भी प्रभाव है। यद्यपि इसके अनुसार इममें कबीर के साकेतिक दाम्पत्य-भाव की जिसे महादेवी जी ने "वैष्णव युग के उच्चतम कोटि तक पहुँचे हुए प्रणय-निवेदन में भिन्न नहीं।" (बी) कहकर वैष्णव प्रणयवाद के समान बतलाया है, विशेष महत्ता है परन्तु यहाँ यह विचारणीय है कि वैष्णव प्रणयवाद साकार में सम्बन्ध रखता था और ईश्वर के सगुण रूप से प्रणय सुलभ भी है, फिर कबीर के निर्गुणवाद में प्रणयवाद कहाँ से आया। योगियों के योग मार्ग में प्रणय को स्थान न था और कबीर पर उनकी साधना का अत्यधिक प्रभाव था। कबीर हिन्दू-मुस्लिम एकता की प्रतिमूर्ति अवश्य थे परन्तु वे साकार को लेकर न चले। समय के अनुसार वे निराकार के पक्षपाती रहे और निराकार में प्रणयवाद सूफियों ही से आया अतः परम्परा से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः आज भी रहस्यवाद पर उन्हीं के प्रणयवाद का प्रभाव है। कबीर ज्ञानमार्गी थे अतः विश्व को ईश्वरीय सौन्दर्य का प्रदर्शन नहीं मानते थे और न हम उनके प्रणयवाद में चिरवेदना ही देखते हैं। सूफी ही विश्व में उसकी छटा को देखते और उस पर मुग्ध होकर मिलनार्थ विरह में तडपते रहते हैं। कबीर का दाम्पत्य-भाव वैष्णवों के समान हो सकता है परन्तु पद्धति सूफी ही है। अब हम महादेवी जी की ही रचनाओं से स्वयं उन पर सूफी प्रभाव बतलाते हुए आधुनिक छायावाद एवं रहस्यवाद पर सूफीमत का प्रभाव जतलाते हैं।

आज का छायावादी एवं रहस्यवादी कवि सर्वत्र उसी व्यापक ब्रह्म की छटा की छिटकी हुई देखता है। सूफी भी यही कहते हैं कि सब में उसी का जलवा है। महादेवी जी के अनुसार भी एक असीम ब्रह्म सर्वत्र प्रकाशरूप से व्याप्त हो रहा है और सभी क्षुद्र तारकों के समान है। यदि वह व्यापक प्रकाश है तो हम एक प्रकाश-बिन्दु ही हैं। और इसी प्रकार वह निराकार साकार बना हुआ है—

तुम असीम विस्तार ज्योति के, मैं तारक सुकुमार,

तेरी रेखा रूपहीनता, है जिसमें साकार ।

उसी की आभा का कण कान्तिमानो को कान्ति दे रहा है। रात्रि में तमसा-वृत्त निस्सीम गगन में टिमटिमाते तारक-दीपको की ज्योति और निशानाथ की रजत-समाज ज्योत्स्ना तथा प्रभाकर की स्वर्णिम प्रभा-राशि उसी की आभा का तो परिचय दे रहे हैं—

तेरी आभा का कण नभ को, धेता अगणित दीपक-दान,

दिन को कनक राशि पहनाता, विशु को चाँदी-सा परिधान ।^१

^१ यामा, रश्मि, पृ० ६८ ।

^२ वही, वही, पृ० १०८ ।

सारा संसार उसी प्रकाश-पुंज की रश्मियां हैं अतः हम एक ही हैं। यदि भिन्न भी हैं तो उसी प्रकार जैसे वारिद से विद्युत् जिनकी भिन्नता में भी एकरूपता ही है—

में तुमसे हूँ एक, एक है जैसे रश्मि प्रकाश,
में तुमसे हूँ भिन्न, भिन्न ज्यों धन से तड़ित् विलास ।^१

विश्व का प्रत्येक पदार्थ अपने रूप में उसी के स्वरूप को प्रदर्शित कर रहा है। कलियों की मौन चितवन ऊपा के आरक्त कपोलों की लालिमा, नक्षत्रों की चमक एवं मेघों में भरी कण्ठा तथा तरल तरंगों की अपार अनुसूति में उसी का आभास मिल रहा है परन्तु वह मिलता हृदय में ही है अन्यत्र भटकना व्यर्थ है, एक छलना मात्र है—

यह कैसी छलना निर्भय, कैसा तेरा निष्ठुर व्यापार ?

तुम मन में हो छिपे मुझे, भटकाता है सारा संसार ॥^२

इस प्रकार हम देखते हैं कि महादेवी जी उस असीम को किसी एक स्थान पर सीमित हुआ नहीं पाती और न संसार को मिथ्या ही मानती हैं वरन् सूफियों की भाँति उसे विश्व में प्रकाशरूप से प्रदर्शित हुआ ही मानती हैं। उन्हें इस विश्वात्मा का निश्चय तो है परन्तु वह क्या है, कौन है इसका पता नहीं, इसीलिए वे विकल हैं—

शून्य काल में पुलिनों पर, आकर चुपके से मौन,

इसे बहा जाता लहरों में, वह रहस्यमय कौन ?^३

वह रहस्यमय कौन है ? कौन है वह जो रात्रि के नीरव प्रहर में जब चन्द्र-रश्मियाँ कुमुद की वेदना को हरती हैं और पवन के स्पर्श से चकित अनजान-सी तारिकायें चौक पड़ती हैं तब दूर, दूर, कहीं उस पार संगीत-सा उन्हें बुलाया करता है ?—

कुमुद दल से वेदना के दाग को, पोंछती जब आँसुओं से रश्मियाँ;

चौंक उठती अनिल के निश्वास छू, तारिकायें चकित-सी अनजान-सी;

तब बुला जाता मुझे उस पार जो, दूर के संगीत-सा वह कौन है ?^४

यदि कोई हो, अलक्ष्य रूप से संकेत भी करे और मौन वाणी में बुलाये भी पर मिल न सके तो मिलन की चाहना उत्पन्न हो जाती है और फिर यही चाहना चिर-वेदना का कारण बन जाती है। सूफी इसीलिए तो तड़पते रहते हैं और उसके विरह

^१ यामा, रश्मि पृ० ६६ ।

^२ यामा, नीहार, पृष्ठ ६२ ।

^३ यामा, रश्मि, पृष्ठ ७६ ।

^४ वही, वही, पृष्ठ ७७ ।

में प्रेम की पीर जगाते रहते हैं । एक न एक दिन प्रेमी की तड़प प्रियतम को तड़पा ही देगी, इसी आशा से प्रेमी प्रेममार्ग पर सर्वस्व का त्याग कर जलने और विकल होने में ही जीवन का साफल्य समझता है । महादेवी भी इसी चिरवेदना में मग्न हैं । वे सखी से कहती हैं, हे अलि ! मैं उन्हें कैसे पाऊँ ? वे स्मृति बनकर दिन-रात मेरे मन में खटकते हैं जिससे मैं उनकी इस निष्ठुरता को न भूल सकूँ—

अलि कैसे उनको पाऊँ ?

वे स्मृति बनकर मानस में
खटका करते हैं निशबिन,
उनकी इस निष्ठुरता को
जिससे मैं भूल न पाऊँ !^१

मे प्रिय के प्रेम में मतवाली हो गई हूँ परन्तु वह बड़ा मनमीजी है । मेरे नेत्रों में छलकते आँसुओं को देखकर भी उसने मुझे अबतक जाना नहीं है । मैंने भी उसे कभी देखा नहीं है । केवल संकेत भर ही पा सकी हूँ । अब तो इस उन्माद में उसकी स्मृति भी विस्मृति ही बनकर आती है और उसके शान्त सदन में काया भी प्रतिच्छाया हो जाती है । हे सखि ! उसने मेरे साथ यह क्रीड़न-सा क्यो खेला है ?—

मुझे न जाना अलि ! उसने
जाना इन आँखों का पानी;
मैंने देखा उसे नहीं
पद-ध्वनि है केवल पहचानी;
मेरे मानस में उसकी स्मृति
भी तो विस्मृत बन आती;
उसके नीरव मंदिर में
काया भी छाया हो जाती;
क्यों यह निर्मम खेल सजनि !
उसने मुझसे खेला सा है ।^२

प्रिय जाने या न जाने, चाहे या न चाहे परन्तु प्रेमी को तो बड़े जाना ही है । हे सखि ! मैंने उसकी स्मृति में जलने को ही जीवन का सर्वस्व माना है । संसार मुझे मतवाली समझे तो समझा करे, शलभ भी तो दीप-शिखा पर जलता है । वास्तव में वह शहीद है । उसके झूलसे हुए तन का कण-कण पूजा की वस्तु है—

^१ यामा, रश्मि, पृष्ठ १०४ ।

^२ वही, नीरजा, पृष्ठ १४८ ।

क्यों जग कहता मतवाली !
 क्यों न शलभ पर लुट-लुट जाऊँ,
 भूलसे पंखों को चुनवाऊँ,
 उन पर दीप-शिखा अंकवाऊँ,
 अलि मेने जलने में ही
 जीवन की निधि पाली !^१

इस प्रकार वे जलने में ही जीवन का कोष पाती हैं। वे चाहती हैं कि वे दीपक की भाँति युग-युगों तक जलती रहे और अपने आराध्य की चिर-अनुरागिनी बनी रहें—

दीप सी युग-युग जलूँ पर वह सुभग इतना बता दे,
 फूँक से उसके बुझूँ तब धार ही मेरा पता दे !
 वह रहे आराध्य चिन्मय
 मृण्मयी अनुरागिनी में !^२

यही नहीं वे पागल संसार को भी अपने साथ जलने का ही उपहार माँगने की सम्मति देती हैं—

ओ पागल संसार !
 माँग न तू हे शीतल तममय !
 जलने का उपहार !^३

जलना विरह की पीड़ा ही तो है। सूफियों की भाँति इस पीड़ा की चिर चाहना हम महादेवी में अत्यधिक मात्रा में देखते हैं। प्रियतम इन जर्जरित प्राणों में चाहे कितनी ही कष्टना भर दे और इस छोटी-सी सीमा में अपनी निस्सीमता को मिटा दे पर प्राणों का यह श्रीडन समाप्त नहीं होगा क्योंकि उन्होंने पीड़ा में ही उसे ढूँढा है और उसमें भी वे पीड़ा ही ढूँढना चाहती हैं—

मेरे बिखरे प्राणों में
 सारी कष्टना ढुलका दो,
 मेरी छोटी सीमा में
 अपना अस्तित्व मिटा दो !

^१ यामा, नीरजा, पृष्ठ १५२।

^२ वही, सान्ध्य-गीत, पृष्ठ २१६।

^३ वही, नीरजा, पृष्ठ १२६।

पर शेष नहीं होगी यह
मेरे प्राणों की पीड़ा,
तुमको पीड़ा में डूँडा
तुम में डूँगी पीड़ा !^१

इस पीड़ा की मधुरिमावश वे अपने नयु जीवन में महान प्रियतम से तृप्ति का एक कण भी नहीं चाहती। चाहता है केवल प्यासी प्राणी, जो नित्य आगुओं का सागर भरती रहें। वे अपने प्रियतम की मानस में बसाना चाहती हैं पर पुण्य के आवरण में, जिससे उसे डूँडने के बहाने कण-कण से परिचित हो जायें—

मेरे छोटे जीवन में,
देना न तृप्ति का कण भर
रहने वो प्यासी आँखें
भरती आँसू के सागर
तुम मानस में बस जाओ
छिप दुख की अबगुंठन से
से तुम्हें डूँडने के मिस
परिचित हो लूँ कण-कण से !^२

हम सब और वह एक दिन एकाकार ही थे परन्तु बिछुड़कर पृथक् हो गये। जीवन तभी से उन्माद बना हुआ है, प्राणों के छाले जीवन की निधियाँ बने हुए हैं और मन वेदना-आसव के प्याले पर प्याले माँग रहा है—

जीवन है उन्माद तभी से
निधियाँ प्राणों के छाले,
माँग रहा है विपुल वेदना
के मन प्याले पर प्याले !^३

जीवन द्रवित होकर विरहाग्नि से वाष्प हो बदली बन गया है। अब तो जीवन की चेष्टाओं में भी जड़ता आ गई है, कल्प अन्दन में भी इतना आकर्षण हो गया है कि विद्वद् आहत होकर भी मुग्ध हो गया है तथा नेत्रों में दीपक जल रहे हैं और पलकों में तरंगिणी तरंगें ले रही हैं—

^१ यामा, नीहार, पृष्ठ ३२।

^२ वही, रश्मि, पृष्ठ ७४।

^३ वही, नीहार, पृष्ठ ३।

मे नीर भरी दुख की बबली !
 स्पन्दन में विर निस्पन्द बसा,
 कन्दन में आहत विष्व हँसा,
 मयनों में दीपक से जलते
 पलकों में निर्भरिणी मन्वली !^१

प्रिय से वियुक्त होने पर इन दुखभरी अवस्थाओं से प्रभावित हो महादेवीजी, 'विरह का जलजात जीवन'^१ कहकर जीवन को विरह का कमल बतला रही हैं और यह वरदान चाहती है कि हे प्रिय ! जो दुःख को आत्मीय समझता हो, जो वेदना को शीतल और सुगन्धित चन्दन के समान अपने प्राणों से लिपटाये रहता हो तथा जो विषम तूफानों को भी उमंग से आलिंगित करता हो और जो जीवन की पराजयों को जय सा स्वागत देता हो उसके वक्षस्थल की माला के मुक्ताफल मेरे आँसू ही बनें—

प्रिय ! जिसने दुख पाला हो !
 जिन प्राणों से लिपटी हो
 पीड़ा सुरभित कन्दन सी,
 तूफानों की छाया हो
 जिसको प्रिय आलिंगन सी
 जिसको जीवन की हारें
 हों जय के अभिनन्दन सी,
 वर दो यह मेरा आँसू
 उसके उर की माला हो !^२

इन वेदना-भरे गीतों से स्पष्ट द्योतित हो रहा है कि महादेवीजी के मन-मानस में कितना बड़ा तूफान है जिससे वे विक्षुब्ध तो हैं परन्तु प्रिय का स्मारक समझकर वरदान ही मांगती है। अपना काम तो जलना ही है और वह निरन्तर हो रहा है। प्रिय फिर भी द्रवित नहीं हुआ है अतः उन्होंने निटुर अरूप की अर्चना आरम्भ कर दी है। यह अर्चना बाह्यरूप से नहीं है। उनका लघुतम जीवन ही जिसमें प्रिय का सुन्दर मन्दिर और श्वासों ही अभिनन्दन है। अशु ही जिसमें अर्घ्य, रोम ही अक्षत और वेदना ही चन्दन है तथा स्नेह-भरा मन ही दीपक, लोचन-तारक ही त्रिकसिद्ध कमल और स्पन्दन ही जलती धूप है, एवं पलकों का ही जिसमें नतान और प्रिय-प्रिय जपते हुए अधरों का ही ताल है—

^१ यामा, सांध्यगीत, पृष्ठ २११।

^२ वही, नीरजा, पृष्ठ १३०।

^३ वही, पृष्ठ १५८।

सप्तदश पर्व सूफीमत का उर्दू साहित्य पर प्रभाव

जिसे 'उर्दू' भाषा कहा जाता है वास्तव में उसकी जननी हिन्दी ही है । यदि फारसी के विलुप्त शब्दों को निकालकर हम उसे हिन्दी ही कहे तो यन्त्रित नहीं । धर्मान्ध एवं फारसी के विद्वान् मुसलमानों को छोड़कर अन्य मुस्लिम जनता द्वारा भी जो भाषा बोली जाती रही है एवं कुछ दिन से जिसे हिन्दुस्तानी भी कहा जाता रहा है परन्तु वह हिन्दी ही है । फारसी भी दूर सम्बन्ध से संस्कृत की ही पुत्री है अतः में तो उर्दू का हिन्दी ही मानता हूँ । इसके परिणामस्वरूप यह भी मेरी धारणा है कि साधारण मुस्लिम जनता से इस प्रकार हिन्दी का ही पराक्षत प्रचार हुआ है । साथ ही प्रारम्भ में सूफीमत के प्रभाव से उर्दू साहित्य में जो शरीअत का विरोध एवं सरलता दीख पड़ती है उसका प्रभाव न्यूनाधिक रूप में आजकल चला आ रहा है और उससे यह ज्ञात होता है कि मानव-हृदय हिन्दू-मुस्लिम रूप में ही नहीं, संसार के किसी भी रूप में विभक्त नहीं है । विश्व एक प्रभु का बख्तरा हुआ रूप है और हम सब उसी के अंग हैं अतः हम में कोई अन्तर नहीं । इसीलिए हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन और फारसी आदि नामों से भेद कर विभिन्न संस्कृतियों एवं भारत और पाकिस्तान जैसी क्षेत्र-सीमाओं की स्थापना बुद्धिमत्ता के कार्य नहीं कहे जा सकते । धर्मान्धता, संकुचितता, भेद-भाव तथा विभाजन आदि विरोधपूर्ण भावनाओं से पूर्ण मनुष्य मानवीय प्रकृति से हीन ही कहे जाने चाहिए । वास्तव में उन्होंने पैगम्बरों, अवतारों एवं सच्चे धर्मगुरुओं की शिक्षाओं को समझा ही नहीं । मुसलमानों ने जिस शरीअत की दुहाई देकर संस्कृति की विभिन्नता पर देश का विभाजन कराया हम उसे उर्दू में कहाँ पाते हैं ? आज के कतिपय धर्मान्ध मुसलमानों को छोड़कर शेष उर्दू साहित्यकारों की वाणी में हम विश्व-प्रेम की ही झलक देखते हैं अतः इस पर्व में हम यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि उर्दू का मूल हिन्दी ही है तथा उसका वास्तविक रूप हिन्दी से पृथक् नहीं किया जा सकता एवं उसके साहित्य में सूफीमत के प्रभाव से शरीअत के विरुद्ध समता और एकरूपता के आधार पर विश्व-प्रेम की जो शिक्षा दी गई है वही सत्य है और उसी का ग्रहण मानव-जीवन की सफलता का लक्षण है ।

उर्दू भाषा की उत्पत्ति—भाषाओं की संज्ञा देश या जाति के नाम पर हुआ करती है परन्तु इसके विरुद्ध जिन भाषाओं की संज्ञा दो जातियों के सम्पर्क और सहवास से हुआ करती है, वह कुछ भिन्न ही होती है । उर्दू की भी यही अवस्था है ।

भारत में मुसलमानों के आ जाने पर हिन्दुओं से जब उनका सम्पर्क हुआ तो 'खड़ी बोली' के पूर्व रूप के सम्पर्क से उर्दू का ग्रंथुर जमा और मुसलमानों के सैनिक पडावों, बाजारों एवं आवासों में इसी सम्पर्क के परिणामस्वरूप भाषाओं के सम्मिश्रण से वह पल्लवित हुआ। मुसलमानों के आगमन से लेकर शताब्दियों पर्यन्त हिन्दू और मुसलमानों में संघर्ष रहने एवं फारसी के कठिन होने के कारण हिन्दुओं ने उसे बहुत पीछे सीखा परन्तु मुसलमानों ने इससे बहुत पूर्व हिन्दी का बोलना सीख लिया था। इस हिन्दी का वास्तविक व्यावहारिक रूप वह था जो दिल्ली और मेरठ के आस-पास बोला जाता था। आज भी उसका यथार्थतः प्राचीन रूप एक मुसलमान द्वारा ही प्रयुक्त होता है।

इसका प्रारम्भिक रूप ग्याग्रहवीं शताब्दी से व्यवहार में आने लगा था। इसी में जब फारसी के शब्दों का प्रयोग होने लगा तो यह उर्दू कहलाई। हिन्दी का यही व्यावहारिक रूप लगभग पाँच शताब्दियों तक प्रयोग में आता रहा परन्तु इसने साहित्यिक रूप तभी धारण किया जब दक्षिण में पहुँचा और गोलकुंडा एवं बीजापुर के नरेशों से संरक्षण पाया।

पठान बादशाहों ने दिल्ली को राजधानी बनाकर यहीं की भाषा को अपनाया था। यही नहीं उनके अधिकांश सिक्कों पर हिन्दी लिपि में ही नाम दिये जाते थे। धीरे-धीरे सम्पर्क की व्यापकता के साथ-साथ इस सम्मिलित व्यावहारिक भाषा का क्षेत्र भी बढ़ता गया। हिन्दी साहित्य के इतिहास पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि चन्द, कबीर, सूर एवं तुलसी आदि सभी हिन्दू कवियों ने अनेक फारसी शब्दों को तत्सम या तद्भव रूप में ग्रहण किया था तथा इसी प्रकार खुसरो, जायसी एवं रसखान आदि ने हिन्दी को ही अपनी रचनाओं आदि का माध्यम बनाया था। इससे ज्ञात होता है कि उस समय उर्दू का व्यावहारिक रूप सर्वग्राह्य था।

धीरे-धीरे फारसी के शब्दों की भरमार होती गई और उसी के कुछ नियम भी बतें जाने लगे तब वही व्यावहारिक भाषा उर्दू कहलाई। यदि फारसी के शब्दों को निकाल दिया जाय तो उर्दू और हिन्दी में कोई अन्तर नहीं रह जाता। फारसी के शब्दों का बाहुल्य भी इसके साहित्यिक क्षेत्र में उतरने पर ही हुआ और तभी से यह एक भिन्न भाषा बन गई। खुसरो आदि ने जिस व्यावहारिक भाषा का प्रयोग किया है वह उर्दू नहीं कही जा सकती, क्योंकि छन्द और व्याकरणशास्त्र के अनुसार वह हिन्दी ही है। लगभग पाँच शताब्दियों तक व्यवहार में आने पर जब सत्रहवीं शताब्दी के मध्य से गोलकुंडा के बादशाह मुहम्मद कुली कुतुबशाह ने फारसी छन्दशास्त्र के अनुसार हिन्दी में काव्य-निर्माण किया तभी से उर्दू का साहित्यिक काल प्रारम्भ होता है।

उर्दू का क्षेत्र—हिन्दी की भाँति बंगाली, गुजराती, राजस्थानी एवं पंजाबी आदि भाषाओं में भी अनेक फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ परन्तु वे उर्दू नहीं कही जा सकतीं।

उर्दू किसी विशेष स्थान की भाषा नहीं है प्रत्युत जहाँ हिन्दी बोली जाती है तथा जहाँ मुसलमान रहते हैं वहीं और उतने ही स्थान की यह भाषा कही जा सकती है अतः इसका कोई अविच्छिन्न व्यापक क्षेत्र भी नहीं। हिन्दी का व्यवहार उत्तर में हिमालय से नीचे विन्ध्याचल से ऊपर सिन्ध नदी से बिहार तक होता रहा है। अतः उर्दू को भी हम इसी प्रदेश की भाषा कह सकते हैं और वह भी हिन्दी के समान व्यापक रूप से नहीं।

इसके विविध नाम—हिन्दू और मुसलमानों की पारस्परिक जिस व्यावहारिक भाषा का नाम उर्दू पड़ा उसके हमें विविध नाम दीख पड़ते हैं, यथा रेस्ता, हिन्दवी, दक्खिनी और हिन्दुस्तानी। तुर्की भाषा में पड़ावों के बाजार को उर्दू कहते हैं। संनिक पड़ावों में हिन्दू-मुस्लिम सम्पर्क से ही इस भाषा की उत्पत्ति हुई अतः इसका नाम उर्दू पड़ा। उर्दू शब्द तुर्की होने के कारण प्राचीन अवश्य है परन्तु इसका भाषा के अर्थ में प्रयोग अठारहवीं शताब्दी से ही हुआ। मीर हुसैन और मीर तकी 'मीर' ने इसका नाम रेस्ता या हिन्दवी लिखा है। रेस्ता का अर्थ मिली-जुली है और यह व्यावहारिक भाषा मिली-जुली तो थी ही। हिन्दवी शब्द हिन्दी का ही रूपान्तर है, जिसका अर्थ हिन्द के रहने वालों की भाषा है। अलाउद्दीन की सेना के साथ दक्षिण में प्रवेश पाने पर कालान्तर में वही साहित्यिक रूप धारण करने के कारण इसी का नाम दक्खिनी हुआ। हिन्दुस्तानी या हिन्दोस्तानी शब्द का प्रयोग प्राचीन नहीं है परन्तु वह हुआ इसी व्यावहारिक भाषा के लिए ही था।

इसका साहित्यिक प्रयोग—उर्दू का साहित्यिक प्रारम्भ दक्षिण में गोलकुंडा एवं बीजापुर के नरेशों के संरक्षण में हुआ था। वे स्वयं अच्छे कवि थे। शनैः शनैः फारसी के ही छन्द, नियम तथा विचारों ने इस पर अपना सिक्का जमा लिया और व्यावहारिक भाषा साहित्यिक क्षेत्र में उतर पड़ी। प्रारम्भ में फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ अवश्य परन्तु वह भाषा का रूप हिन्दी के ही अधिक समीप है। उर्दू का कठोरतम रूप तो अंग्रेजों की राजनैतिक चाल का ही परिणाम था जो उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थांश से ही प्रारम्भ हुआ समझना चाहिए और जिसकी पराकाष्ठा बीसवीं शताब्दी में ही हुई। दक्षिण के शाही राजवंशों के आश्रय में उर्दू की उन्नति तो हुई परन्तु जब औरंगजेब ने इन राज्यों को नष्ट कर दिया तो साहित्य-क्षेत्र भी नष्ट हो गये। तत्पश्चात् वली ने दिल्ली आकर उर्दू का प्रचार किया। यह समय मुहम्मद शाह का था जिसमें फारसी अदालती भाषा होते हुए भी हिन्दी के व्यावहारिक रूप का अछूता मान था। नादिरशाह एवं अहमदशाह अब्दाली के आक्रमणों से जब दिल्ली पद-दलित हो गई तो उर्दू के मीर एवं सौदा जैसे महाकवि लखनऊ के नवाबी दरबार में बसे गये। यही से उर्दू की उन्नति का समय प्रारम्भ होता है परन्तु सन् १८५६ ई० में

वाजिद अली शाह के गद्दी से उतारे जाने पर लखनऊ का क्षेत्र भी क्षीण हो गया और पुनः रामपुर, हैदराबाद आदि अनेक स्थानों पर उर्दू को पोषण मिला ।

उपर्युक्त विवेचन से प्रतीत होता है कि उर्दू कोई प्राचीन स्वतन्त्र भाषा नहीं है वरन् दो जातियों के सम्पर्क से उत्पन्न हुई थी । इसका मूल हिन्दी ही है और शताब्दियों तक विविध नामों से वही व्यवहार में आती रही । इसके साहित्यिक प्रयोग के पश्चात् भी बहुत काल तक हमे इसमें हिन्दीपन ही मिलता है । इसका साहित्यिक प्रारम्भ मुहम्मद कुली कुतुबशाह की रचनाओं से ही समझना चाहिए । इसके पश्चात् गोलकुंडा एवं बीजापुर में अनेक कवि हुए परन्तु उनकी कविता में फारसी विचारधारा होते हुए भी भाषा हिन्दी ही है । वस्तुतः उर्दू का प्रथम कवि बली ही कहा जा सकता है परन्तु भाषा में हिन्दवीपन बहुत समय तक चलता रहा । उदाहरणतः कुछ पद्य नीचे दिये जाते हैं—

कुफर रीत क्या और इस्लाम रीत, हर एक रीत में इस्क का राज है ॥
उनींदी है मुंज नैन याव सेती, कहो तुम नैन में है कां की खुसारी ॥

—मुहम्मद कुली कुतुबशाह

मुंज इस्क गिरि आग का यक चिनगी है सूरज ।

इस आग के शोला का धुंवा सात गगन है ॥ .

—मुहम्मद कुली कुतुबशाह

कहीं सो मजनु हो बरे लावे, कहीं सो लैला हुए दिखावे ।

कहीं सो खरो शाह कहावे, कहीं सो शीरी होकर आवे ॥

—शाह अली मुहम्मद जाँव

ऐ रूप तेरा रती रती है, परवत परवत पती पती है ।

तू यक यू तमाम रंग तेरा ।

—काजी मुहम्मद बहरी

और मुझ पास क्या है देने की, देख कर तुझको रो ही बेता हूँ ।

क्यों कः सीरी हो हुस्न तेरे, धूप खाने से पेट भरता हूँ ?

—बली

उस बिन मुझ आँसुओं के शरारों की क्या कर्मी ।

जिस रात नहीं चाँद सितारों की क्या कर्मी ॥

—सिराज

तुझ जुल्फ में लटक न रहे दिल तो क्या करे ।

बेकार है दिल अटक न रहे दिल तो क्या करे ॥

—आजू

तुम्हारे लोग कहते हैं कमर हैं ।
कहाँ हैं, किस तरह को हैं, किधर हैं ?

—आबरू

आज तो 'नाजी' सजन से कर तू अपना अर्जें हाल ।
मरने जीने का न कर वदवास होनी हो सो हो ॥

—नाजी

दिल मेरा लेके दुबधा में पड़े हो जो इस भाँत ।
क्या सजन इसका कोई जग में खरीदार नहीं ॥

—यकरंग

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रारम्भ के उर्दू साहित्य में तथा आगे भी हिन्दीपन व्याप्त हो रहा है। मुहम्मद कुली कुतुबशाह, शाह अली मुहम्मद जीव तथा काजी मुहम्मद बहरी की भाषा तो हिन्दी ही है जिसे दक्षिण में दक्खिनी कहा जाता था।

सूफीमत का प्रभाव—उर्दू की उत्पत्ति से उसके विकास तक का काल मुस्लिम शासन-काल ही है। पहले कहा जा चुका है कि यह समय प्रारम्भ में संघर्षपूर्ण और पुनः हिन्दुओं के लिए संकटपूर्ण रहा परन्तु मुसलमानों के यहाँ स्थायी रूप से जम जाने पर परस्पर सहयोग और समन्वय की भावना अनिवार्य थी। इसी के परिणामस्वरूप कबीर, नानक आदि अनेक सन्त हुए जिन्होंने दोनों जातियों की कूप्रथाओं और बाह्या-डम्बरों का विरोध करते हुए दोनों को अविच्छन्न मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। जनता तथा शासकों ने इसका महत्त्व समझा। हिन्दी को ही व्यवहार-भाषा रखा गया तथा अनेक बुद्धिमान् उनके अनुयायी हो गये। इनके अतिरिक्त सूफी सन्त भी अपने प्रेम-धर्म का प्रचार कर रहे थे। उनके मत पर भारतीय प्रभाव अत्यधिक मात्रा में पड़ चुका था। समय के अनुसार उन्होंने भी अपने को इसी साँचे में ढाल लिया और हिन्दी द्वारा ही जनता को प्रेम का महान् सन्देश दिया। जायसी आदि की प्रेम-कहानियाँ हिन्दी की अमर कृतियाँ हैं। जायसी आदि सूफी कवियों से पूर्व ये लोग व्यावहारिक भाषा ही में अपने मत का प्रचार करते थे। यह व्यावहारिक भाषा दक्षिण में जब साहित्यिक रूप धारण कर उर्दू बनी तब भी सूफी-प्रभाव से हम इसे अतिस्रोत ही पाते हैं। उर्दू का साहित्यिक प्रारम्भ कविता से ही हुआ है और उसके प्रारम्भिक सभी कवि प्रायः सूफी ही हुए हैं।

उर्दू साहित्य के इतिहास का अध्ययन हमें बतलाता है कि उर्दू के प्रारम्भिक कवि मुहम्मद कुली कुतुबशाह, शाह अली मुहम्मद जीव एवं काजी मुहम्मद बहरी आदि सूफी ही थे। उन्होंने फारसी कवियों का ही अनुकरण किया। उर्दू के यथार्थ में प्रथम कवि बली भी एक कट्टर सूफी थे। उन्होंने सूफी धर्म की दीक्षा फारसी के कवि शाह

सादुल्ला गुलशन से ली थी तथा उन्हीं के कहने से उन्होंने फारसी के ढंग पर दीवान लिखा था। बली के दक्षिण से दिल्ली चले आने पर अनेक कवि सत्ता में आए, जिनमें से अधिकांश सूफी ही थे। आजूँ और याबरू दोनों शेख मुहम्मद गौस के तथा कवि मजमून शेख फरीदुद्दीन शकरगज के वंशज थे। मजहर तो एक सूफो फकीर ही हो गये थे। ये नक्शवंदी सम्प्रदाय के अनुयायी थे तथा इनके शिष्यों में हिन्दू और मुसलमान दोनों ही थे। सौदा और मोर की रचनाओं में भी हम सूफीमत की झलक पाते हैं। दर्द तो नक्शवंदी सम्प्रदाय के अनुयायी ही थे और ३६ वर्ष की अवस्था में मुरशिद हो गये थे। सहस्रों ही व्यक्ति इनके मुरीद थे। य सूफीमत के विद्वान् थे अतः इनकी रचनाओं में हम विचार-गाम्भीर्य एव ईश्वरीय प्रेम का पूर्ण दर्शन पाते हैं। सोज कवि भी सूफीमत के प्रभाव से दरवेश हो गये थे। जौक और गालिब की अधिकांश रचनायें भी सूफी विचारधारा से श्रोतप्रोत हैं।

दिल्ली के अतिरिक्त लखनऊ के कवि आतिश आदि भी सूफी प्रभाव से वंचित न थे। नजोर अकबरावादी प्रारम्भ में सांसारिक प्रेम के ही दास थे परन्तु पश्चात् चेतने पर सूफी हो गये थे और वास्तविक प्रेम में लीन रहने लगे थे। इनकी रचनाओं में हिन्दू-मुस्लिम द्वेष का नाम तक नहीं है। रामपुर के कवियों में अमीर मीनाई भी सूफीमत के समर्थक और पीर बन गये थे। उनकी कविता में हम सूफीमत का पर्याप्त रंग देखते हैं। हैदराबादी कवियों में ख्याति-प्राप्त कवि राजा गिरधारी प्रसाद 'बाकी' तथा महाराजा कृष्णप्रसाद 'शाद' की रचनाओं में भी सूफी विचारधारा अधिक मात्रा में मिलती है। आधुनिक काल में भी हम अनेक विषयों के साथ सूफी भावना को यत्र-तत्र व्याख्यात हुआ पाते हैं। बीसवीं सदी के प्रारम्भ के पश्चात् अकबर की कविता में सूफी-प्रभाव अधिक दीख पड़ता है। ये हिन्दू-मुस्लिम एकता के पक्षपाती थे और अद्वैत के मानने वाले थे।

इससे हमें ज्ञात होता है कि उर्दू के प्रायः सभी सम्मान्य कवि तथा कतिपय अन्य भी सूफी थे अथवा सूफीमत से प्रभावित थे। उनकी कविता में यह प्रभाव साफ दीख पड़ता है। उर्दू कविता में इस्क (प्रेम) का अखंड साम्राज्य है परन्तु पूर्णतः हम यह नहीं कह सकते कि सांसारिक प्रेम की प्रचुरता सूफीमत के प्रभाव का दुष्परिणाम थी। इसके विपरीत यह अवश्य कहा जा सकता है कि उसमें से यदि सूफीमत को निकाल दिया जाय तो अधिकांश कविता वासनामय प्रेम अथवा मिथ्या प्रशंसा की रागिनी ही रह जायगी। वास्तव में उर्दू कविता वही सुन्दर बन पड़ी है जहाँ सूफीमत ने अपना रंग चढा दिया है। उसी अंश में ईश्वरीय सौन्दर्य की जैसी झलक, विश्व-प्रेम का जैसा प्रकाशन, अद्वैत की जैसी व्याख्या और शरीरगत का जैसा विरोध हुआ है वह अनुकरणीय है। वही सत्य है और एकान्त धर्म या मजहब की सकुचित शृंखलाओं

को तोड़कर मनुष्य को उपदिष्ट करता है कि बाह्याडम्बर मानव-जीवन के भूषण नहीं दूषण हैं। उर्दू कविता को यदि ध्यान से टटोला जाय तो शरीरगत की दूषित रज हाथ भी न आयेगी। यह पहले प्रमाणित किया जा चुका है कि सूफीमत का उद्भाव ही बाह्याडम्बरों के विरोधस्वरूप और नैसर्गिक चाहना के परिणामस्वरूप हुआ था। वही भावना भारत में भी रही तथा उर्दू कविता भी उससे वंचित नहीं है। उदाहरणतः कवियों की निम्न पंक्तियों से यह सिद्ध किया जाता है कि धर्मान्ध मुसलमान जिस शरीरगत की दुहाई देते हैं वह शरीरगत उर्दू कविता में नहीं है। कुरान इस्लामी धर्म-पुस्तक हो परन्तु वहाँ तो हमें प्रकृति का कण-कण ही धर्म-पुस्तक दीख पड़ता है।

मुहम्मद कुली कुतुबशाह को उर्दू के प्रारम्भिक कवियों में से प्रथम माना जाता है। वे इस्लाम और इस्लामेतर रीतियों में कोई अन्तर नहीं मानते। उनका कथन है कि हिन्दू और मुसलमान ही क्या, मनुष्यमात्र के कार्य-सम्पादन में ईश्वरीय प्रेम ही मूल कारण है—

कुफर रीत क्या और इस्लाम रीत, हर एक रीत में इश्क का राख है।

इसीलिए सूफी किसी धर्म को बुरा नहीं मानते। सभी भिन्न-भिन्न साधनों से एक ही ओर यात्रा कर रहे हैं। संसार में कोई ऐसा स्थान या जाति नहीं है जिस पर सूफीमत ने प्रभाव न डाला हो क्योंकि सूफी शब्द की उत्पत्ति किसी निश्चित काल से सम्बन्ध रख सकती है परन्तु सूफीमत में जो भावना अन्तर्निहित है वह सार्वकालिक और सार्वभौमिक है। मुक्ति के इच्छुक भी उसी जगदीश्वर से मिलना चाहते हैं, अद्वैत के मानने वाले भी उसी ब्रह्म से एकाकार होना चाहते हैं, अग्नि-सूर्यादि के भक्त भी उनमें उसी परम वैभव का पता पाते हैं तथा प्रकृति के उपासक भी विभिन्न भूतों में महाशक्ति के नाम से उसी की शक्ति और कण-कण में उसी का सौन्दर्य देखते हैं। यही नहीं नास्तिक भी किसी अज्ञात परम शक्ति से भयभीत होता ही है और संकट में भक्त की भाँति सहारा तकता ही है। जब ऐसा है तो भिन्नता कहा? हिन्दू, मुसलमान ईसाई आदि का भेद ही कहाँ? यदि ऐसा कहा जाय कि संसार के सभी सन्त, धर्म-गुरु एवं देवदूत सूफी ही थे तो अनुचित न होगा क्योंकि उन्होंने संसार से विरक्त होकर वास्तविक प्रेम द्वारा अपने मूल को ही खोजने का तो प्रयत्न किया था। वास्तव में हम सब उसी एक शक्ति के अंश हैं अतः साधन भिन्न होते हुए भी लक्ष्य एक ही है। कुली कुतुबशाह ने भी यही कहा है कि नदियाँ सहस्रों हैं परन्तु समुद्र एक है इसी प्रकार करोड़ों बातों में सार एक ही है—

समदूर हैं एक और नदियाँ हैं सौ हजारों।

बातों सौ करोड़ हैं वे टेक रतन हैं ॥

वही एक कही मजनु होकर, कहीं लैला होकर तथा कही शीरी और कहीं

फरहाद होकर क्रीडा कर रहा है । गाह अली मुहम्मद जीव सर्वत्र उसी को देखते हैं—

कहीं सो मजनु हो बरेलावे, कहीं सो लैला हुए दिखावे ।

कहीं सो खरो शाह कहावे, कहीं सो शीरीं होकर आवे ॥

जब सम्पूर्ण जगत उसी का प्रदर्शन है तब भेद कैसा ? मन्दिर मस्जिद में वही एक रम रहा है । मीर दर्द ने इसी बात को इस प्रकार कहा है—

मदरसा था देर था या काबा था या बुतखाना था ।

हम सभी महमां थे यां इक तू ही साहबखाना था ॥

शाद भी देरोकावे में सर्वत्र उसी का प्रकाश देखते हैं । उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है—

तेरे नूर का जलवा है देरो काबे में ।

बस एक तू है, नहीं और दूसरा कोई ॥

सभी शोख और ब्राह्मण उसी की छत्र-छाया में रहते हैं । शोख का खुदा और ब्राह्मण का ईश्वर कोई भिन्न नहीं है । चोटी-दाढी या अन्य वेष-भूषा से उसे कोई प्रयोजन नहीं । वह तो प्रकाश के समान सर्वत्र फैला हुआ है अतः सृष्टि का कण-कण उसी से प्रकाशित है । मीर दर्द ने इसी भाव को निम्न पंक्तियों में स्पष्ट कहा है—

बसते हैं तेरे साया में सब शोख और ब्रह्मन ।

आबाद तुम्ही से तो है घर देरो हरम का ॥

वह ईश्वर सातवें आसमान पर कही शासनाधीश की भाँति विराजमान नहीं है । परन्तु मन्दिर, मसजिद एवं काबा और काशी में सर्वत्र होते हुए भी उसके लिए कही भटकते हुए फिरना सूफियों को मान्य नहीं । उसे ढूँढो कहीं परन्तु मिलेगा हृदय में ही । दर्द भी यही कहते हैं—

शोख काबा होके पहुँचा हम क्रियते दिल में हो ।

वहाँ मंजिल एक थी टुक राह का ही फेर था ॥

मीर तक़ी 'मीर' ने भी इसी बात को कुछ फेर के साथ इस प्रकार लिखा है कि मैं अपने को पहचानने पर खुदा को पहचान सका । इससे पूर्व तो वास्तव में उससे बहुत दूर था—

पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा के तई ।

मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था ॥

वे तो अपने दिलवर का पता काबे में न पाकर दिल में ही पाते हैं—

शुक्र काबे में कलीसा में भटकते न फिरे ।

अपने दिलवर का पता हमने लगाया दिल में ॥

जफ़र भी मसजिद और मदिन में सिर पटक-पटक कर रह गये परन्तु उन्होंने

जो प्रकाश और वैभव हृदय में पाया उसे वहाँ न पा सके—

न देखा वो कहीं जलवा जो देखा खानाए बिल में ।

बहुत मसजिद में सर सारा बहुत-सा ढूँढा बुतखाना ॥

सूफियों के अनुसार संसार में बिखरा हुआ सौन्दर्य उसी ईश्वर का है अतः किसी भी मन्दिर या मसजिद से बढ़कर वह स्थान है जिसके सौन्दर्य-दर्शन से हमें अपने स्रोत की स्मृति हो आती है। कवि अकबर ने इसी बात को काबे से इंगलिस्तान को सुन्दर बताकर उपहासपूर्ण शब्दों द्वारा निम्न पंक्तियों में कितनी सुन्दरता से कहा है—

सिधारेँ शोख काबे को हम इंगलिस्तान देखेंगे ।

वह देखें घर खुवा का हम खुवा की शान देखेंगे ॥

उर्दू के चार स्तम्भों में एक प्रसिद्ध कवि सौदा ने भी मुसलमान और अश्व्य जातियों का भेद न देखते हुए शेख को सम्बोधित कर स्पष्ट ही कहा है—

किस की मिल्लत में गिनूं आपको बतला ऐ शेख ।

तू कहे गबर मुझे गबर मुसलमां मुझको ॥

इस प्रकार जहाँ हम शरीअत के विरुद्ध एक ईश्वरीय सत्ता के कारण उर्दू कविता में मन्दिर-मसजिद एवं हिन्दू-मुसलमान का कोई भेद नहीं देखते तथा सबको समान पाते हैं वहाँ बाह्याडम्बरो का भी विरोध देखते हैं। नीचे कुछ प्रसिद्ध कवियों के पद्य दिए जाते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि वे जनेऊ और माला को समान रूप से कोई महत्त्व नहीं देते—

गर हुआ है तालिब आज़ादगी, बन्दा मत हो सजा ओ-ज़नार का ।

—बली

आफत है क़ैद सजा-ओ-ज़नार जां को, तारे हयात में नहीं गुथियाँ पसन्द ।

—सबा

देखना क़ैव ए ताल्लुक में न आना आज़ाद । वाम आते हैं नज़र सजा-ओ-ज़नार मुझे ॥

—आज़ाद

इन प्रमाणों से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि उर्दू कविता में शरीअत का स्पष्ट उल्लंघन है। अब हम इसमें सूफीमत के कुछ सिद्धान्तों को खोजना चाहते हैं। सर्वप्रथम ईश्वर और विश्व पर ही विचार करते हैं। पहले कह आये हैं कि सूफी लोग सृष्टि को ईश्वर के ही सौन्दर्य का प्रदर्शन मानते हैं। उसी ने संसार के विविध नाम और रूपों में अपने को ही प्रदर्शित किया हुआ है। हम सब उसी प्रकाश-पुंज की किरणें हैं। मुहम्मद कुली कुतुबशाह का कहना है कि अखिल विश्व उसी की ज्योति से दीप्त ही रहा है अतः कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जो उसके प्रकाश से विहीन हो—

सम्पूरन हं तुभ जल सों सब जगत ।

नहीं खाली हं नूर थे कोई शं ॥

भला ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ वह नहीं । वह सर्वत्र है—

किस ठार में बसता नहीं सब ठार हं भरपूर ।

‘मे’ और ‘तू’ कोई भिन्न-भिन्न नहीं है । संसार के विविध प्राणी नामरूपो-पाधि भेद से अपने को भिन्न समझते हैं परन्तु वास्तव में वे एक ही हैं । काजी मुहम्मद बहरी कहते हैं कि कण-कण में उसी का रूप भरा हुआ है । वह एक है और सब उसी के रंग हैं—

ऐ रूप तेरा रती-रती हं, परवत-परवत पती-पती हं ।

तू यक यू तमाम रंग तेरा ।

वली भी दूसरे शब्दों में यही कह रहे हैं—

हर ज़र-ए-आलम में खुरशीद हकीकी ।

सौदा समझाते हुए कहते हैं कि भला देख तो विश्व के पदार्थों में प्रकाश किसका है—

हर एक शं में समझ तू खूर किसका है ?

शरर में रोशनी शोला में नूर किसका है ?

इसका उत्तर वे एक स्थान पर स्वयं इस प्रकार देते हैं—

जलवा हर एक ज़रह में है आफताब का ।

ईश्वर एक महान् सूर्य है । उसी का प्रकाश कण-कण में भरा हुआ है । दर्द को भी भली भाँति इधर-उधर देखने पर उसके अतिरिक्त और कोई दृष्टिगोचर न हुआ—

जग में आकर इधर-उधर देखा ।

तू ही आया नज़र जिधर देखा ॥

जफ़र, मीर तकी ‘मीर’ और ग़ालिब भी भिन्न-भिन्न शब्दों से सर्वत्र उसी के प्रकाश-वैभव का प्रतिपादन करते हैं—

गुल में क्या शोला में क्या माह में क्या महर में क्या ।

सब में है नूर वही नूर-ए-जमाल और नहीं ॥

—जफ़र

जलवा हं उसी का सब गुलशन में ज़माने के ।

गुल फूल को है उसने दीवाना बना रक्खा ॥

—मीर तकी ‘मीर’

है तजल्ली तेरी सामाने बजूद ।

ज़रा बे पर तू ए खुरशीद नहीं ॥

—ग़ालिब

मीर अनिस ने ईश्वर को सम्बोधित कर इसी बात को कितने सुन्दर ढंग से कहा है कि उपवन में तेरी ही खोज होती है, बलबुल की वाणी में तेरा ही गान होता है और प्रत्येक पुष्प में सौरभ भी तेरा ही है। अधिक क्या कहना, प्रत्येक वस्तु में तेरा ही वैभव व्याप्त हुआ पड़ा है—

गुलशन में सब्बा को जुस्तजू तेरी हूँ
बुलबुल की जबां पे गुपतगू तेरी हूँ ।
हर रंग में जलवा है तेरी कुवरत का
जिस फूल को सूँघता हूँ बू तेरी हूँ ॥

इस प्रकार उर्दू के प्रायः सभी प्रसिद्ध कवि ईश्वर और विश्व के स्वरूप का प्रतिपादन सूफी ढंग पर ही करते हैं। जो शरीरगत के मार्ग से भिन्न है। विश्व कोई ईश्वर से पृथक् वस्तु नहीं है जिस प्रकार लहरे समुद्र से और किरणें सूर्य से। सूफीमत के अनुसार सब कुछ उसी का प्रदर्शन होते हुए भी मनुष्य को उसका प्रतिरूप माना गया है। मीरदर्द ने कहा है कि उसका प्रकाश-वैभव तो सर्वत्र ही व्याप्त हो रहा है परन्तु उस जैसा तो मनुष्य ही है—

जलवा तो हर इक तरह का हर शान में देखा ।

जो कुछ कि सुना तुझ में वो इंसान में देखा ॥

मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है इसीलिए वह कभी-कभी हृदय में उससे मिलने की सोचा करता है। यही चाहना प्रेम का रूप धारण कर लेती है और प्रबल होकर मनुष्य को प्रेमी बना देती है। फिर वह उसकी ओर बढ़ता है और प्रेम-मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। मिलन से पूर्व उसकी विकलता बढ़ती ही रहती है और प्रेम पकता रहता है। सूफीमत के अनुसार सत्य-प्रेम को पकाना ही जीवन का लक्ष्य है। उर्दू कविता में भी इस वास्तविक प्रेम का बड़ा विवेचन हुआ है। कुतुबशाह ने प्रेम-हीन पुरुष को क्रूर कहा है—

नहीं इश्क जिस वो बड़ा क्रूर है ।

इसीलिए वे 'तुझ बिना रहना न जावे' कहकर प्रेमाधिक्य में अपनी विरह-विकलता को ही प्रकट करते हैं और साकी से एक प्याला प्रेमासव पिलाने के लिए कहते हैं क्योंकि उसी के पीने से भला होता है तथा प्रियतम को लाकर मिलाने के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि उसके मिलने पर ही उन्हें चैन मिलेगा—

साकी प्याला मुंज पिला प्याला पीने होता बला ।

उस पीउ को तू लाकर मिला जिस पीउ से मुज आराम हूँ ॥

सौदा भी अपने को प्रेम में पागल बताते हुए प्रियतम को शमा और अपने को परवाना बतलाते हैं—

इश्क की खलकृत से आगे मे तेरा दीवाना था ।

संग में आतिश थी जब तू शमा में परवाना था ॥

यह प्रेम का पागलपन ईश्वर के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं से विरक्ति पैदा कर देता है । मीर तक़ी 'मीर' ने इसी पागलपन में इस विश्व को स्वप्नमात्र ही देखा था—

मस्ती में शराब के जो देखा, आलम यह तमाम शबाब निकला ।

आतिश ने लिखा है कि वे प्रेम में इतने लीन थे कि उन्हें इधर-उधर का तनिक भी ध्यान न था—

तरीके इश्क में दीवाना बार फिरता हूँ ।

ख़बर गढ़े की नहीं हूँ कुँआ नहीं मालूम ॥

इस प्रेम के मार्ग पर जो चल पड़ता है, उसे कोई कष्ट नहीं दीख पड़ता । उसके लिए सूली भी शय्या हो जाती है । जीवन का श्रम उसे भार प्रतीत नहीं होता । वह तो सिर के बल भी चलने के लिए उद्यत रहता है—

ठहरे न फिर जो राह में तेरे निकल चले ।

शल हो गये जो पाँव तो हम सर के बल चले ॥

—आतिश

सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम के अतिरिक्त कुछ नहीं देखता अतः उसे इस्लाम और कुछ भी दीख नहीं पड़ता । उसे न मन्दिर से प्रयोजन है, न मस्जिद से । उसे केवल उसी से प्रयोजन है जिसने उसे पागल बना दिया है—

किसको कहते हैं नहीं मैं जानता इस्लाम व कुफ़ ।

वैर हो या काबा मतलब मुझको तेरे दर से है ॥

—मीर तक़ी 'मीर'

आतिश का कहना है कि जब मनुष्य प्रेम से पागल हो जाता है तब किसी मत-मतान्तर का अनुयायी नहीं रहता । रहे कहीं से वह तो प्रेम में इतना मग्न है कि अब बुद्धि भी उसका साथ नहीं देती—

क़द मख़हब की गिरफ्तारी से छूट जाता हूँ ।

हो न दीवाना तू हूँ अक़ल से इंसान ख़ाली ॥

बली भी यही कहते हैं कि जब से वह प्रीतम दिखलाई दिया है तब से प्रेमामिग्न ने बुद्धि को भी जलाकर भस्म कर दिया है—

ओ समम जब से बसा दीबए हँरां में आ ।

आतिश इश्क पड़ी अक़ल के सामान में आ ॥

जब प्रेम बुद्धि को नष्ट कर देता है तब प्रेमी अपने को भी भूल जाता है और उसे वास्तविकता का परिचय प्राप्त होता है । फिर उसे अपने और ईश्वर के मध्य

कोई भेद प्रतीत नहीं होता। वह समझता है कि वही प्रेमी है और वही प्रियतम। सोदा भी अपने को ही आशिक और माशूक समझते थे—

मैं आशिक अपना और माशूक अपना आप हूँ प्यारे ।

दर्द भी निम्न पंक्ति में यही कह रहे है—

माशूक हूँ तू ही तू ही आशिक ।

मीर भी दूसरे शब्दों में इसी भाव को प्रकाशित करते हैं—

अपने ख्याल ही में गुजरती हूँ अपनी उमर ।

इस प्रकार उर्दू में प्रेम-मार्ग में अद्वैत का बड़ा सुन्दर प्रतिपादन हुआ है। सूफीमत में इस प्रेम-साधना में प्रेमी के हृदय का बड़ा महत्त्व है। हृदय ही प्रियतम-का मन्दिर है। खोजने पर वह वहीं मिलता है। सूफियों ने हृदय को मांस-पिंड न मानकर चेतन शक्ति ही माना है। यदि यह कहा जाय कि आत्मा और हृदय में केवल नाममात्र का ही अन्तर है तो अनुपयुक्त न होगा। हृदय में ही प्रतिबिम्ब पड़ता है। प्रायः इस पर पाप-मल का आवरण रहा करता है इसलिए ईश्वरीय प्रकाश का अनुभव भी नहीं के तुल्य होता है परन्तु जब यह दर्पण की भाँति निर्मल हो जाता है तो इसमें सत्स्वरूप प्रतिबिम्बित होने लगता है और ईश्वरीय प्रकाश हो जाता है। वम, यही आत्मानुभूति है, प्रिय की प्राप्ति है अथवा महामिलन है। मीर दर्द ने कहा है कि यदि हृदय स्वच्छ हो तो उसमें ही नहीं, विश्व में चतुर्दिक् उसी का सौन्दर्य दीख पड़ता है—

ऐ दर्द कर टिक बिल को आइनाए साक़ तू ।

फिर हर तरफ़ नज़ारा हुस्ने जमाल कर ॥

हृदय की पवित्रता के निमित्त ससार से मुख मोड़ना आवश्यक है, इसीलिए सूफी प्रेम-साधना के लिए अपने प्रियतम के विरह में सब कुछ त्याग देते हैं। भूख-प्यास भी उनकी दासी हो जाती हैं। कभी-कभी तो उन्हें अपने तन की भी सुध नहीं रहती। संसार का तो क्या जब तक अपने शरीर तक का ध्यान रहता है प्रेम-साधना नहीं हो सकती। आतिश भी यही कहते हैं कि ससार में लीन होकर मुरीदी पाना असम्भव है—

तलब दुनिया को करके जान मुरीदी हो नहीं सकती ।

संसार से मुख मोड़ना धन, पुत्र, कलत्रादि सभी से मुख मोड़ना होता है। इधर-उधर ईश्वर की खोज में भटकना व्यर्थ है। पूजा-स्थानों या तीर्थों में सिर मारना अपने को नष्ट करना है। वह तो हृदय में ही है अतः वही उसे खोजना चाहिए—

काबा ओ दैर में ना फहमी से फिरता हूँ ख़राब ।

दूर समझा है जिसे वह करीब इंसान से ॥

—आतिश

प्रेमी को संसार-त्याग से भी सन्तोष नहीं मिलता। वह अपने प्रियतम की

स्मृति और जाप में अपने को भी भूल जाता है क्योंकि वह जानता है—

खुदी बगर मिटाए खुदा नहीं मिलता ।

तक उसने अपने को भुलाया नहीं है वह लीन कैसे हो सकता है ? यहाँ पर खुदी से तात्पर्य अपनी पृथक् सत्ता को भुला देने से है । जब प्रेमी को अपनी पृथक् सत्ता का ही भान नहीं होता तब उसे पूर्णतः लीन समझना चाहिए । इसी को सूफी फना की अवस्था कहते हैं । इसी तल्लीनता की अवस्था को वली ने किस सुन्दरता से कहा है—

अमन में बहर के हरगिज़ नहीं हुआ मालूम ।

कि कब है फसल रबी और कहाँ है फसल खिज़ाँ ॥

मीर भी बेखुदी से अपने को भूलकर कहते हैं—

बेखुदी ले गई कहाँ हमको देर से इंतज़ार है अपना ।

गालिब भी इस आत्म-विस्मृत अवस्था को इस प्रकार कह गये हैं—

हम वहाँ है जहाँ से हम को भी

कुछ हमारी ख़बर नहीं आती ।

इसी फना की अवस्था के विरुद्ध सत्पक्ष को बका कहते हैं अर्थात् आत्म-लय ईश्वर की प्राप्ति है । सूफीमत में इसी अवस्था को प्राप्त करना जीवन का चरम लक्ष्य है । यहीं जीवात्मा अपने मूल से मिल जाता है । यहीं उसे संसार की वास्तविकता का पता प्राप्त होता है । ऐजाज़ ने कहा है कि जिन्हें अपना भी भान नहीं, जो अपने को भुला चुके हैं, वास्तव में संसार की वास्तविकता का पता उन्होंने ही पाया है—

उन्होंने को दुनियाँ की सब ख़बर है जिन्हें कुछ अपनी ख़बर नहीं है ।

उपरिलिखित विवेचन से हम इस परिणाम पर आते हैं कि उर्दू-साहित्य का ध्यान ग्रंथ काव्य भी सूफी-भावना से ओतप्रोत है । एक तो कवि स्वयं ही स्वच्छन्द प्रकृति का होता है और दूसरे उस पर उदार भावना का प्रभाव हो तब तो वह और भी स्वतन्त्र हो जाता है । उदारता उसके हृदय की देवी हो जाती है और फिर वह भाव-संकोच की शृंखलाओं से आबद्ध नहीं रह सकता । उर्दू कवियों पर भी प्रारम्भ से जो सूफी प्रभाव रहा, उसने उन्हें विशालहृदयता दी और साथ ही शरीरगत की सीमाओं का उल्लंघन करने का साहस प्रदान कर उन्हें विश्व-प्रेम का पुजारी बनाया । उन्होंने भली भाँति समझ लिया था कि शरीरगत तो केवल अन्धाधुन्ध सिर भूकाने के बराबर है तथा वास्तविकता तो उस विश्वात्मा में ही मन लगाना है जिसका प्रकाशमय रूप-वैभव विश्व के कण-कण में दृष्टिगोचर हो रहा है । वही सब का स्रोत है अतः उसी में लीन हो जाना ही जीवन की सार्थकता है । जब वही है और सब स्वप्नमात्र है तब आकृति, वेष-भूषा, भाषा, स्थान एवं मत-मतान्तर के भेद से मनुष्यों में भेद ही

अष्टावश पर्व उपसंहार

निश्चित देश, काल तथा धर्म का सहारा लेकर एक निश्चित जाति द्वारा प्रसारित होने से सूफीमत ने मुस्लिम रहस्यवाद का नाम अवश्य पाया परन्तु इसमें जो भावना व्याप्त हो रही है वह किसी एक देश, एक स्थान, एक धर्म और एक जाति से सम्बन्ध नहीं रखती। यही कारण था कि नूतन धर्म के सत्ता में आते ही तलवार का भय विद्यमान रहते हुए भी उसी के अनुयायियों के मध्य उन्हीं के द्वारा प्रतिपालित विधि-विधानों एवं बाह्याडम्बरो के विरुद्ध इसने अपने आकार को फैलाया, जिसकी विशालता में भी इस्लाम के विरुद्ध भय के स्थान पर वह आकर्षणपूर्ण सौन्दर्य था कि जिसने अपनी छटा को एक बार यूरोप के पश्चिम से लेकर एशिया के सुदूर दक्षिण-पूर्वी देशों तक छिटका दिया। यह तो एक प्रकाश-स्तम्भ है जिसके प्रकाश में सभी बिना किसी भेद-भाव के अपने-अपने मार्ग को देख पाते हैं। इसकी तरलता में कठोरता है, न संकुचितता और न इसे किसी देश, जाति या धर्म की सीमा ही आवद्ध कर सकती है। यह तो एक नैसर्गिक भावना है जिसकी सर्वग्राहकता ब्रह्म की भाँति समस्त ब्रह्माण्ड में व्याप्त हो रही है। इसीलिए जहाँ भी इसका संदेश पहुँचा, वहाँ भला किसने उसका स्वागत न किया? संदेश भी प्रेम का और वह भी ईश्वरीय!

स्फियों का ईश्वर किसी एक जाति या धर्म का विशेष गुणों से युक्त अल्लाह, गौड, राम अथवा अन्य किसी सत्त्वरूप ईश्वर नहीं है। वह न किसी एक स्थान पर बैठा है, न अवतार लेता है और न शासनाधीश की भाँति कहीं से विश्व का संचालन करता है। वह तो एक व्यापक शक्ति है जिसे किसी भी निश्चित नाम से पुकारा जा सकता है। हम सब उससे पृथक् नहीं हैं। वही हमारा स्रोत है अतः हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी नाममात्र के ही भेद हैं। सभी का लक्ष्य विविध साधनों से एक ही स्थान पर पहुँचना है और वह है अपने मूल विश्वात्मा से एकरूपता। जाप सुमरनी पर हो या खड्ताल बजाकर, आराधना मन्दिर में हो या मसजिद में अथवा किसी अन्य स्थान में और अन्य रूप से हो तथा एकान्त में तपश्चरण किया जाय या समाधि लगाई जाय परन्तु इन सब का उद्देश्य एक ही है। उसका नाम आत्मबोध, ईश्वर-प्राप्ति, संसार से मुक्ति, निर्वाण, महामिलन एवं साक्षात्कार कुछ भी कहा जा सकता है। भेद तो केवल नाम में ही है अन्तर्भावना में नहीं। इसीलिए ईरान आदि देशों में आर्य धर्म के सम्पर्क से विकसित होकर जब सूफीमत भारत में आया तो उसने

अपने को यहाँ के साँचे में ढाल लिया। भक्ति-मार्ग के विविध साधनों में उपयुक्त माधनों को ग्रहण कर दिव्य प्रेम का संदेश दिया और बताया कि इसी प्रेम द्वारा हमें उस विश्वात्मा की भाँकी मिल सकती है जिसके विरह में हम तुम ही नहीं पत्ती-पत्ती तक विकल हो रही है।

सूफीमत में ईश्वर के अतिरिक्त सब कुछ न कुछ है अतः देश, धर्म और जाति आदि के भेद भी न के तुल्य ही हैं। सम्पूर्ण मानव-जाति ही एक जाति है, विश्व का सबाई-सार ही एक मानव-धर्म है और ब्रह्माण्ड ही एक देश है। इसलिए देश, धर्म या जाति के नाम पर लड़ना कोरी मूर्खता है, मानवता का हनन है और ईश्वरीय आज्ञाओं का साग्रह उल्लंघन है। सूफियों ने इसी भावना से प्रेरित होकर फारसी, हिन्दी, उर्दू आदि सभी भाषाओं द्वारा एक ही प्रेम का संदेश सुनाया। यहीं तो मनुष्य एक स्तर पर आकर बैठता है और अन्धकार के अभाव में प्रकाश द्वारा सन्मार्ग पर चलना हुआ अपने प्रियतम की ओर ही प्रस्थान करता है।

विश्व के सभी महात्मा यथार्थ में सूफी ही हैं। वे विविध देश, वेश और भाषाओं में कालानुसार विभिन्न तारों पर एक ही राग गाते हैं। राम, कृष्ण, बौद्ध, महावीर, ईसा, मूसा और मुहम्मद आदि सभी महात्मा एक ही संदेश लेकर आगे थे और वह था नश्वर संसार से नाता तोड़कर विश्वात्मा में मिल जाना। वह मन्दिर-मसजिद आदि पूजा-स्थानों एवं काबा-काशी आदि तीर्थों में मिलने वाला नहीं है। वह तो निर्मल हृदय में ही मिलता है अतः संसार से विरक्त होकर केवल उसी से प्रेम करते हुए उसको वहीं पर खोजना चाहिए। उपर्युक्त देवदूतों एवं महापुरुषों की भाँति सहस्रों साधु-सन्तों ने यही उपदेश दिया है और भविष्य में भी यही संदेश सुनाई देता रहेगा।

सूफीमत ने दिव्य प्रेम की आड़ में जो विश्व-प्रेम का पाठ पढ़ाया है वह मानव-समाज के लिए ही नहीं प्राणिमात्र के लिए एक वरदान है। दया, धामा, सहानुभूति और सहकारिता आदि महान् गुण विश्व-प्रेम के ही अनुचर हैं। इनके सद्भाव में हिंसा, असत्य, स्तेय तथा अन्य दुराचरणों को पग रखने को भी स्थान नहीं मिलता अतः विश्व-प्रेमी का हृदय सदैव निर्मल हुआ करता है और वही सच्चा ईश्वर-प्रेमी होता है। वर्तमान काल में महात्मा गांधी इसके पूर्ण आदर्श थे। उनके रामराज्य में यही पूत भावना तो अन्तर्निहित थी, जिसे संसार न समझ सका। विश्व की शान्ति-स्थापक संस्थाएँ भी तो मध्यस्थों द्वारा उसी संदेश का प्रचार करती हैं जिसके अभाव में युद्ध पर युद्ध होते हैं परन्तु फिर भी युद्धों की समाप्ति नहीं होती। वास्तव में आतृभाव की व्यापक स्थापना सूफीमत के आधार पर की जा सकती है। आप उसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं परन्तु उनकी अन्तरात्मा एक ही रहेगी।

प्रकृति भी मूक भाषा में अपने कण-कण से इसी मंदेश को देती है। यही कारण है कि प्रकृति का प्रेमी कवि उसमें एक व्यापक चेतन सत्ता का आभास पाता है और उस मूक भाषा को समझकर स्वयं भी वही राग अलापने लगता है। कवि इसीलिए धर्म-पुस्तकों की आज्ञा का अनुचर नहीं रहता। उसे तो ईश्वरीय सौन्दर्य के वैभव से परिपूर्ण सम्पूर्ण प्रकृति ही धर्म-पुस्तक दीख पड़ती है। वह उसे ही पढ़ता है और विपमता से परे समता का राग सुनाता रहता है। इसी को हम ईश्वरीय प्रेरणा कह देते हैं ऋषि-मुनियों एवं पैगम्बरों को यही प्रेरणा प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ करती है।

इस प्रकार सूफीमत को हम एक विश्व-धर्म कह सकते हैं क्योंकि इसका सार विश्व का मार है। इसकी छत्र-छाया सर्वत्र समान रूप से पड़ती है अतः यहाँ सभी समान हैं। भिन्न-भिन्न मत दूसरों को पराया बताते हैं परन्तु यह परायों को भी अपना बताता है। यद्यपि सूफी नाम से आज इसका ह्रास-सा दीख पड़ता है परन्तु संसार में शान्ति-दूतों एवं शान्ति-संस्थाओं से इसी की भावनाका तो प्रचार हो रहा है तथा शान्ति के उपायों में नाम-भेद से इसी के प्रेम-मार्ग का बोलबाला है। ठीक भी है, इसके अतिरिक्त शान्ति भी कहाँ है ? भेद-भाव से परे प्रेम के साम्राज्य में ही तो शान्ति पैर पसारकर सोती है और चैन की बंसी बजती है। इसके अतिरिक्त सब कुछ कोलाहल-पूर्ण है—युद्ध, कलह और हलचल से परिपूर्ण नितान्त मरुस्थल है।

संसार में प्राणिमात्र का अध्ययन मनोवैज्ञानिकों को इस निष्कर्ष पर लाया है कि प्रेम का कोई न कोई रूप सभी में न्यूनाधिक रूप में विद्यमान है। इसलिए सभी में सहयोग की भावना मिलती है। क्रोध, द्रोह आदि मानसिक विकारों को छोड़कर प्राणियों में सुख और शान्ति की चाहना भी इसीलिए है। यह भाव सदैव से है और सदैव रहेगा। भविष्य में सूफीमत की उपयोगिता इसी में है कि क्षुब्ध और विपन्न प्राणियों को यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी नाम या भिन्न नाम द्वारा प्रेम और शान्ति का पाठ पढ़ाता रहेगा। यह कहा जा चुका है कि सूफीमत में जो अन्तर्निहित भावना है वह सार्वत्रिक एवं सार्वकालिक है अतः अभिधान से कोई प्रयोजन नहीं। भविष्य में जब भी प्रेम-प्रचार, शान्ति-प्रयत्न, संगठन-कार्य एवं सहयोग-विधान होंगे उसमें सूफीमत की भावना कार्य कर रही होगी तथा प्रेम-प्रचारक, शान्तिकारक, संगठन-कर्त्ता एवं सहयोग-विधायक—चाहे वह पीर हो या पैगम्बर, कोई सन्त पुरुष हो या अवतारी—सभी के रूप में एक सूफी रहा हुआ होगा। वास्तव में बापू का रामराज्य अर्थात् संसार में स्थायी शान्ति-स्थापना प्रेम-मार्ग द्वारा ही हो सकती है।

सूफीमत की यात्रा में हम तीन मुख्य प्रस्थान पाते हैं—(१) अरब, (२) ईरान, और (३) भारत। ये सूफीमत के प्रस्थानत्रय कहे जा सकते हैं। इस मत ने अरब में ज्ञान-भार्ग सिखलाया, ईरान में आध्यात्मिक प्रेम अथवा भक्ति-मार्ग की घोषणा की तथा

भारत में ज्ञान और भक्ति के आधार पर कर्म-मार्ग की प्रेरणा दी। कर्म-मार्ग में तात्पर्य यही है कि उन्होंने ऊँच-नीच तथा छुआछूत के भाव को मिटाकर हिन्दू-मुसलमानों में भेद-भाव के स्थान पर ऐक्यवाद की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने भागवत धर्म के रहस्यात्मक प्रणयवाद की आध्यात्मिक व्याख्या की और हिन्दी-साहित्य को छायावाद एवं रहस्यवाद से विभूषित किया।

हिन्दी काव्य पर सूफी विचारधारा का जो अनूठा प्रभाव पड़ा है उससे हिन्दी-साहित्य की बहुत समृद्धि हुई है। भक्ति-मार्ग की कविताओं में साकार रूप को मिटाए बिना निराकार की प्राप्ति का मार्ग-प्रदर्शन सूफीमत की अभिव्यञ्जनात्मक शैली का ही परिणाम है। इस शैली के अनुकूल नामरूपादि सब आकार परमार्थ सत्ता के प्रतीक हैं। इस प्रतीकार्थ की अभिव्यञ्जना-शक्ति परमार्थ सत्ता के ज्ञान की प्राप्ति के लिए सहायक है, इसीलिए मान्य है। इस अर्थ शैली से हिन्दी-साहित्य को यह लाभ पहुँचा कि परम्परागत साकारोपासना का त्याग किये बिना निराकार की उपलब्धि का मार्ग प्रदर्शित हो गया। प्राचीन मर्यादा भी न टूटी और विचार भी आगे बढ़ा। यही विचार-धारा आधुनिक हिन्दी-काव्य में छायावाद एवं रहस्यवाद के रूप में प्रस्फुटित हुई, जिसने हिन्दी-काव्य की शोभा में चार चाँद लगा दिये। सकीर्णता, संकोच, नियन्त्रण इन सबके स्थान में अब इसी विचारधारा के प्रभाव से उदारता, व्यापकता, सहिष्णुता तथा स्वातन्त्र्य की हिन्दी-साहित्य में श्री-वृद्धि हुई और भविष्य में होने की आशा की जा सकती है।

इस उपयोगिता और महत्ता को दृष्टि में रखते हुए मैंने इस विषय को चुना तथा नैसर्गिक भावना से सम्बन्धित रूप में प्रतिपादित किया है। निकल्सन आदि विद्वानों द्वारा मान्य सूफी शब्द की सूफ (ऊन) से व्युत्पत्ति के प्रति मेरी उपेक्षा में भी यही कारण है क्योंकि इतनी प्रगल्भ भावना और महान् सिद्धान्त के अनुयायी एवं प्रचारक का सूफी अभिधान केवल ऊनी वस्त्र के आधार पर पड़ा हो, यह उपयुक्त ज्ञात नहीं होता। इससे पृथक् सोफिया अर्थात् ज्ञान (मं० स्वभास) से इसके वास्तविक लगाव में मैंने अपनी रुचि प्रदर्शित की है क्योंकि सूफी अन्तर्दृष्टि में ही हृदय में ईश्वरीय प्रकाश का अभेद रूप से साक्षात्कार करते हैं। 'अरब, मीरिया, मिश्र, फारस एवं स्पेन आदि स्थानों में विविध विचारधाराओं से प्रभावित होकर तथा विकास को प्राप्त होकर भी इस मत ने विशालहृदयता को न छोड़ा तथा पुनः भारत में प्रवेश पाकर यही के वातावरण में इसने उसी उदारता में सबको प्रेम का पाठ पढ़ाया—इसके इतिहाससहित सविस्तर विवेचन में तथा इस मत के उज्ज्वल सिद्धान्तों के प्रतिपादन में भी मुझे इसकी महती उपयोगिता ने ही प्रेरणा दी है।

ऐसा महान् एवं उपयोगी विषय हिन्दी में अब तक अधिकांशतः उपेक्षित-सा ही था। यद्यपि श्री चन्द्रबली पांडे ने अपनी 'सूफीमत अथवा तसव्वुफ़' नामक पुस्तक में

सूफीमत का विशद विवेचन किया है तथापि उन्होंने केवल मोटे रूप में ही उसे व्याख्यात किया है। भारतीय सूफियों ने यहाँ की विचारधाराओं से प्रभावित होकर हिन्दी में प्रेमाख्यानक एवं मुक्तक काव्यों द्वारा सूफीमत के सिद्धान्तों को जिस रूप में रखा उसको उन्होंने नहीं छुआ है। इनके अतिरिक्त विविध इतिहास की पुस्तकों में इस विषय के केवल संकेत ही मिलते हैं। श्री रामचन्द्र शुक्ल आदि विद्वानों ने जायसी तथा नूरमुहम्मद आदि की कुछ रचनाओं का सम्पादन करते हुए उनकी भूमिका में तत्तद रचना में प्रतिपादित सिद्धान्तों का सुन्दर चित्रांकन किया है परन्तु उन्होंने भी सामूहिक रूप में कहीं भी हिन्दी में सूफी-साहित्य के आधार पर निश्चित एवं सारभूत सिद्धान्तों की खोज नहीं की है। मैंने इन दुष्कर कार्य को अपने हाथ में लिया और यत्न-पूर्वक खोज की है।

मैंने इस विषय को सूफीमत के निकास से विकास तक की पृष्ठभूमि के साथ भारत में प्रवेश से लेकर मध्यकाल से अब तक का पर्यालोचन करते हुए तथा सिद्धान्तों की खोज के साथ-साथ इसके व्यापक प्रभाव को भी दर्शाते हुए, प्रतिपादित किया है। सूफे सूफीमत के प्रभाव की व्यापकता में कबीर, मीरा आदि कवि आश्रय-सा लेते दीख पड़े तथा आधुनिक काल में छायावाद, रहस्यवाद एवं हालावाद आदि वाद भी कुछ सीमा तक उसी के प्रतिरूप जान पड़े अतः मैंने एक पुथक् ही पर्व लिखकर इस प्रभाव की महत्ता को प्रदर्शित किया है। उर्दू का मूल हिन्दी ही है अतः उर्दू साहित्य पर भी इस प्रभाव को बतलाते हुए सिद्ध किया है कि वहाँ शरीअत का नहीं हकीकत का राज्य है। वास्तव में यह तो वह सचाई है जो सदैव और सर्वत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है।

कही-कही पर मैंने विद्वानों से मतभेद होने पर अपने विचार प्रकट किये हैं तथा अपनी शैली से उन्हें व्याख्यात किया है। श्री रामचन्द्र शुक्ल आदि विद्वानों ने सगुण का प्रयोग साकार एवं निर्गुण का निराकार के लिए किया है। परन्तु मेरी दृष्टि में यह एक मूल हुई है, जिसका अनुकरण अन्य सभी लेखकों द्वारा अन्धाधुंध किया गया है। निराकार भी सगुण हो सकता है। यदि निराकार को निर्गुण ही माना जाय तो उसमें किसी गुण का आरोप नहीं हो सकता अतः वह प्रेम और सौन्दर्यरूप न होकर प्रीति का विषय भी नहीं हो सकता। निर्गुण निराकार ब्रह्म भक्ति का विषय नहीं हो सकता और सगुण (साकार) ईश्वर राम-कृष्ण आदि भिन्न-भिन्न रूपों में अवतरित होने के कारण व्यक्तिगत हो जाता है अतः साम्प्रदायिकता का केन्द्र बनकर अशान्ति, कलह और वैमनस्य का कारण होता है। सूफियों ने प्रेम-मार्ग के अनुगामी होने के कारण गुणों का आरोप कर निराकार ब्रह्म को अपनाया। इस मान्यता में प्रेम-लक्षण भक्ति भी सम्भव है और साम्प्रदायिकता की दुर्गन्ध भी नहीं आने पाती। इस तथ्य पर मेरी

दृष्टि पड़ी अतः मैंने इस भूल को सुधारने का प्रयत्न किया है । अन्यथा सूफीमत की प्रेम-साधना का आधार ही नहीं रहता । यही क्यों, कबीर आदि जानमार्गी सन्तों तथा मीरा आदि कृष्ण-भवतों के रहस्यात्मक पदों में प्रेमोपासना अमंगल हो जायगी तथा इस्लाम के अस्लाह का स्वरूप भी यथार्थतः विवेचित न हो सकेगा क्योंकि वह भी निराकार होता हुआ सगुण ही है । यहाँ इतना मैं अवश्य कहेंगा कि श्री रामचन्द्र शुक्ल की उपर्युक्त भूल का कारण मध्यकालीन व्यक्तियों का उन्हीं अर्थों में उन शब्दों का प्रयोग है ।

इसके अतिरिक्त मैंने इस मान्यता को भी मूल्य नहीं दिया है कि सूफी लोग ईश्वर को पत्नी समझकर प्रेम-साधना करते हैं । विद्वानों में यह भी एक भ्रमात्मक धारणा बनी हुई है कि वे जानमार्गी एवं प्रेममार्गी सन्तों की प्रेम-साधना में परस्पर भेद दिखाते हुए पति-पत्नी-भाव के विपर्यय पर बल देते हैं अर्थात् कहते हैं कि कबीर आदि ईश्वर को पति और स्वयं को पत्नी मानकर तथा सूफी ईश्वर को पत्नी एवं अपने को पति मानकर साधना के पक्षपाती हैं । उनके अनुसार कबीर आदि की मान्यता भारतीय पद्धति के अनुकूल है तथा सूफियों की प्रतिकूल । ऐसा कहना भ्रममूलक ही है । प्रेम-साधना में 'कृष्ण की प्रसन्नता के लिए राधा का रूप धारण करना अथवा निरंजन की प्राप्ति के लिए अपने को 'बहुरिया' समझकर प्रिय के लिए तउपना या ईश्वर को प्रियतमा का रूप देकर और स्वयं उसके प्रेमी बनकर विरह-विकल रहना' कोई अर्थ नहीं रखता । ये तो प्रतीकमात्र हैं । प्रेम करना है, किसी भी रूप में करो, कोई अन्तर नहीं । यदि एकान्ततः उपर्युक्त कथन मान लिया जाय तो सूफियों से राबिया आदि स्त्रियों तथा भारतीय भक्त कवियों की प्रेम-पद्धति का स्वरूप क्या होगा ? क्या राबिया ने पति बनकर प्रेम-साधना की थी तथा भक्तों की साधना में प्रकृति-विपर्यय से अस्वाभिकता न आ जायगी ? इससे यह मानना पड़ेगा कि प्रेमोपासना में किसी भी रूप में पति-पत्नी-भाव वस्तुतः कोई महत्त्व नहीं रखता । यह तो साधना की एक सरणी है, किन्तु ध्येय एक ही है और वह है प्रेम द्वारा ईश्वर से एका-कारता ।

इस विषय के जिस रहस्यमय सौन्दर्य का चित्रांकन नशन ढंग से मैंने किया है, मुझे आशा है कि विद्वानों को मनोग्राह्य होगा । अन्त में मैं यह कहकर समाप्त करता हूँ कि यह विषय जितना सुन्दर है उतना ही उपादेय है क्योंकि विश्व-शान्ति का उपाय विश्व-प्रेम में ही है और वह विश्व-प्रेम दिव्य प्रेम का ही प्रतिरूप है, जिसकी छटा हमें प्रेममार्गी हिन्दी-साहित्य में विपुल रूप से दृष्टिगोचर होती है ।

परिशिष्ट १

प्रमुख अ भारतीय सूफी सन्त

राबिया (आठवीं शताब्दी का मध्य)

अबू हाशिम (७७८ ई०)

अबू याजीद (बायजीद) — ८१५-९१२ ई०

अबू सुलेमान (८३० ई०)

अबू-सईद-अल् खराज (९वीं शताब्दी का उत्तरार्ध)

धुलनन (९वीं शताब्दी का उत्तरार्ध)

अबुल हसन-अल्-नूरी (९०७ ई०)

जुनेद (९१० ई०)

मसूर-अल्-हल्लाज (१०वीं शताब्दी का पूर्वार्ध)

अबू बक्र शिब्लि (९४६ ई०)

अबू अब्द-अल्-चिहनी (निधन-काल ९६६ ई०)

अबू तालिब (९९६ ई०)

अबू सईद बिन अबुल खेर (९६७-१०४९ ई०)

अल् गजाली (१०५९-११११ ई०)

हुजवीरी (११वीं शताब्दी का उत्तरार्ध)

कुशेरी (१०७४ ई०)

अबुल कादिर जिलानी (१०७८-११६६ ई०)

उमर खटयाम (११२३ ई०)

सनाई (निधन-काल ११३१ ई०)

फरीदुद्दीन अत्तार (११५७-१२३० ई०)

मुहीजद्दीन इब्नुल अरबी (११६५-१२४० ई०)

सादी (११८८-१२९१ ई०)

इब्नुल फारिद (१२३५ ई०)

शाख शूख शिहाब अल दीन सुहरावर्दी (१३ वीं शताब्दी का पूर्वार्ध)

जलालुद्दीन रूमी (१२०७-१२७३ ई०)

- शबिस्तरी (१२५०-१३२० ई०)
बहा अल्दीन नक्शबन्द (निधन-काल १३८८ ई०)
हाफिज (निधन-काल १३९० ई०)
जिली (१४१० ई०)
जामी (१४१४-१४९२ ई०)

परिशिष्ट २

प्रमुख भारतीय सूफी सन्त

(चिश्ती सम्प्रदाय)

✓ मुहोउद्दीन चिश्ती (सन् ११६२ ई०)

कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी

शेख फरीदुद्दीन शकरगंज

✓ निजामुद्दीन औलिया (१३वीं शताब्दी का पूर्वार्ध)

अलाउद्दीन अली ग्रहमद साविर

✓ शेख सलीम (सन् १५७२ ई०)

(सुहरावर्दी)

बहा-अल्-हक बहाउद्दीन जकरिया (११७०-१२६७ ई०)

जलाल अल्दीन तबरीजी (१२४४ ई०)

सैयद जलालुद्दीन सुखपोश (१२६१ ई०)

सईद जलाल (मखदूम जहानियान)

बरहान ए-अल्दीन कुतुबे आलम (१४५३ ई०)

जादू जलालुद्दीन

बाबा फक्र अल्दीन

(कादरी)

सैयद बन्दागी मुहम्मद गौथ (१५वीं शताब्दी का अन्त)

शेख मीर मुहम्मद-मिर्या मीर-(निधन-काल १६३५ ई०)

ताज अल्दीन (१६६८ ई०)

(नक्शाबन्दी)

शेख अहमद फाहकी (निधन-काल १६२५ ई०)

ख्वाजा मुहम्मद बाकी बिल्लाह बैरंग (निधन-काल १६०३ ई०)

(शाल्तारी)

मुहम्मद गौथ (१५६२ ई०)

बजीह अल्दीन गुजराती (१५६६ ई०)

शाहे पीर (१६३२ ई०)

परिशिष्ट ३

अ—हिन्दी के प्रमुख सूफी कवि एवं उनके काव्य

कवि	काव्य	रचना-काल
कुतुबन	मृगावती	हिजरी सन् ६०६ (सन् १५०१ ई०)
सैयद	मधुमालती	जायसी से पूर्व
आयसी	पदमावती (पदमावत)	हिजरी सन् ६२७ ई० (सन् १५२० ई० प्रारम्भ काल) (सन् १५४० ई० समाप्ति काल)
	आखिरी कलाम अखरावट	हिजरी सन् ६३६ (सन् १५२८ ई०)
खसमान	चित्रावली	हिजरी सन् १०२२ (सन् १३१३ ई०)
शेख नबी	ज्ञान दीप	सन् १६१६ ई०
शाह बरकतुल्ला	प्रेमप्रकाश	सन् १६६८ ई०
कासिम शाह	हंस जवाहिर	सन् १७३१ ई०
नूर मुहम्मद	इन्द्रावती	हिजरी सन् ११५७ (सन् १७४४ ई०)
”	अनुराग बांसुरी	हिजरी सन् ११७८ (सन् १७६४ ई०)
फाजिल शाह	प्रेम रत्न	सन १८४८ ई०

आ—सूफीमत से प्रभावित सन्त एवं कवि

ज्ञानमार्गी	कृष्णोपासक	आधुनिक काल
कबीर		के सन्धी
दादू	मीरा आदि	छायावादी,
भारी		रहस्यवादी
परिया		एव
बुल्ला साहिब		हालावादी कवि
बल्लेशाह आदि		प्रतिनिधि महादेवी वर्मा)

परिशिष्ट ४

कतिपय अरबी, फारसी एवं सूफी पारिभाषिक शब्द

अवल (बुद्धि)	जहाद (नफ्स के विरुद्ध युद्ध)
अल्लाह (ईश्वर)	जात (मूल सत्ता)
आबिद (उपासक)	जाहिद (एकान्तप्रिय प्रेमी)
आरिफ (ज्ञानी)	जिक्र (जाप)
इलहाम (देववाणी)	तरीकत (अनुभव)
इल्म (बौद्धिक ज्ञान)	तवक्कुल (ईश्वरीय विश्वास)
इश्क (प्रेम)	तसव्वुफ (सूफीमत)
इश्के मजाजी (सांसारिक प्रेम)	तौबा (पश्चाताप)
इश्के हुकीकी (ईश्वरीय प्रेम)	तौहीद (एक ईश्वर पर विश्वास)
उसं (पीरों की समाधि पर लगने वाला मेला)	दरगाह (मकबरा)
झीलिया (पहुँचे हुए मुस्लिम सन्त)	दरवेश (फ़कीर)
कमाल (पूर्णता गुण)	धिक्र (स्मृति, जाप)
क़यामत (निर्णय का दिन)	नफ्स (वासनापूर्ण आत्मपक्ष)
क़ल्ब ((हृदय)	नमाज (प्रार्थना, भजन)
क़व्वाल (गायक)	नासूत (विकास की प्रथम स्थिति)
कुन (होजा)	पीर (गुरु)
ख़फी (जिक्र का एक भेद, मनन एवं खिस्तन,	फकद (आत्मभाव के पूर्ण विनाश की अवस्था)
ख़ानकाह (आश्रम)	फना (आत्मलय की अवस्था)
गज़ल (एक छन्द)	फना अल् फना (फना की उच्चतर अवस्था)
जकात (दान)	फरिश्ता (देवता)
जबर्क़त (विकास की तृतीय स्थिति)	बका (परमात्मरूपता)
जमात (सौन्दर्य गुण)	मकामात (स्थितियाँ)
ज़लाल (गौरव गुण)	मज़ार (समाधि, कब्र)
ज़ली (जिक्र का एक भेद, उच्च स्वर से नामोच्चारण)	मलकूत (विकास की द्वितीय स्थिति)

मसनवी (एक छन्द, कथा काव्य)	शैल (धर्म गुरु)
मारिफत (रहस्यज्ञान)	सफ (पंक्ति)
माशूक (प्रियतम)	सफ़ा (पवित्र)
मुरशिद (गुरु)	सफ़र (अरब की एक जाति)
मुरीद (शिष्य)	सरं (हृदय का अतस्थल)
मोयिन (सालिक से पूर्व की स्थिति)	सलावत (पंचकालिक नमाज)
रमजान (वह मास जिसमें मुहम्मद माहब को ईश्वरःय प्रेरणा मिली थी)	साकी (मधुपाययिता)
रसूल (पैगम्बर)	सालिक (नवशिक्षित साधक)
रबाई (एक छन्द)	सिद्दीक (अध्यात्मिक गुरु के लिए प्रयुक्त शब्द)
रूह (आत्मा)	सिफात (गुण)
रोज़ा (उपवास)	सुक्र (तल्लीनता में उन्मादावस्था)
लाइलाह इल्लल्लाह (ईश्वर के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं)	सुफ़ (चबूतरा)
साहूत (विकास की अतुर्थ स्थिति)	सफ (ऊन)
वज्द (सहजानन्द)	हक (वास्तविकता से परिचित)
वली (अलिया का एक वचन)	हकीकत (वास्तविक ज्ञान)
बस्ल (ईश्वर से अभेदावस्था)	हज (मक्का की यात्रा)
वहदतुल बजूद (ईश्वर से भिन्न कुछ नहीं)	हबीबुल्ला (ईश्वर का प्यारा)
शरीअत (विधि-विधान)	हाल (ईश्वर में तन्मयता)
शह (सहजानन्द की पराकाष्ठा)	हाहूत (विकास की अन्तिम स्थिति)
	हुसन (सौन्दर्य)

परिशीलित ग्रंथावली

(BIBLIOGRAPHY)

आंग्ल ग्रंथ

- A History of Persian Literature, 'Vol. 1 & 2 : Edward G. Browne.*
- Al-Ghazzali, the Mystic : Margaret-Smith, M.A. D. Lit.*
- A Literary History of 'the Arabs : Reynold A. Nicholson, M.A.*
- An Introduction to the History of the Sufism : Arthur J. Arberry Lit. D.*
- An Introductory History of Persian Literature : Rev. Joel Waiz Lall, M.A.M.O.L.*
- Arabic Thought and its Place in History : De Lacy O' Leary, D.D.*
- Buddhism : Dr. Paul Dahlke.*
- Buddhism in Christindom : Arthur Lillie.*
- Buddhist Meditation : G. Constant Lounsbury.*
- Celtic Religion : Edward Anwyl, M.A.*
- Christian Mysticism : William Ralph Inge K.C.V.O., D.D.*
- Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory : Duncan B. Macdonald, M.A. D.D.*
- Encyclopædia Britannica, Vol. 21.*
- Encyclopædia of Islam, Vol. 4. Edited by M. Th. Houtsma, A. J. Wensinch, H.A.R. Gibb, W. Heffening and E. Levi Provencel.*
- Encyclopædia of Religion and Ethics, Vol. 11 & 12. Edited by James Hastings.*
- Hindu Mysticism : Mahendra Nath Sircar.*
- History of Mediaeval India : Dr. Ishwari Prasad, M.A. D. Lit.*
- History of Urdu Literature : Rambabu Saxena.*
- In an Eastern Rose Garden, Published by the Sufi Movement.*

- Islam and Zoroastrianism* : Khwaja Kamaluddin.
Islamic Sufism : Sirdar Iqbal Ali Shah.
Kundalini (An Occult Experience) : G.S. Arundale.
Lectures on the Origin and Growth of Religion . Max Muller,
 K. M.
Mohammad, Buddha and Christ : Marcus Dods, D.D.
Mohammad the Prophet . Maulana Muhammad Ali, M.A.L.L.B.
Mysticism East & West : Rudolph Otto.
Mysticism : Evelyn Underhill.
Mysticism, Old and New : Arthur W. Hopkinson.
Oriental Mysticism : E. H. Palmer.
Outlines of Islamic Culture, Vol. I. : A.M.A. Shustery.
Outlines of Islamic Culture, Vol. II. : A.M.A. Shustery.
Persian Literature : Reuben Levy, M.A.
Rabia the Mystic : Margaret Smith, M.A. Ph. D.
Shah Barakat-Ullah's Contribution to Hindi Literature
 Dr. Laxmidhar Shastri, M.A. Ph. D.
Shinto (The Ancient Religion of Japan) : W. G. Aston,
 C.M.G., D. Lit.
Studies in Early Mysticism (In the near and Middle East)
 Margaret Smith, M.A. Ph. D.
Studies in Islamic Mysticism · Reynold Alleyne Nicholson,
 Lit. D.L.L.D.
Studies in Islamic Poetry · R A. Nicholson.
Studies in Mysticism · Arthur Edward Waite.
Studies in Persian Literature : Hadi Hasan
Studies in the Quran : Ishtihaq Hussain Qureshi, M.A.
Studies in the Relationship between Islam and Christianity,
 Lootfuj Levonian.
Sufi Quarterly, Vol. I. : Ronald A. L. Mumtaz Armstrong.
The Glorious Quran Translated : Marmaduke Pickthall.
The History of Buddhist Thought : Edward T. Thomas.
 M. A. D. Lit.
The Holy Bible.
The Idea of Personality in Sufism : R. A. Nicholson Lit.
 D. L.L.D.

- The Influence of Islam* E. J. Bolus, M.A. B.D.
- The Legacy of Islam* Sir Thomas Arnold and Alfred Guillaume.
- The Life of Mahomet* Emile Dermenghem.
- The Message (A Verbatim Report of a Lecture) given by*
Inayat Khan.
- The Metaphysics of Rumi* : Dr. Khalifa Abdul Hakim,
M A. Ph. D.
- The Mystics, Ascetics, and Saints of India* · John Campbell
Oman.
- The Mystics of Islam* : Reynold A. Nicholson, M.A. Lit. D.
- The Mystical Philosophy of Muhyid-ud-din Ibnul 'Arabi'* :
A. E. Affifi, B.A. Ph. D.
- The Nirgun School of Hindu Poetry* · P. D. Barthwal.
- The Persian Mystics 'Attar* · Margaret Smith, M.A. Ph.D.
- The Persian Mystics 'Jalaluddin Rumi* : F. Hadland Davis.
- The Religious Attitude and Life in Islam* : Duncan Black
Macdonald, M.A. D.D.
- The Religion of Ancient China* : Herbert A. Giles, M.A.
LL.D.
- The Religion of Ancient Egypt* : W. M. Flinders Petrie.
- The Religion of Ancient Greece* · Tane Ellem Harrison.
- The Religion of Ancient Palestine* : Stanley A. Cook, M.A.
- The Religion of Ancient Rome* : Cyril Bailey, M. A.
- The Religion of Ancient Scandinavia* : W. A. Craigie, M.A.
- The Religion of Babylonia and Assyria* : Theophilus
G. Pinches, LL.D.
- The Spirit of Islam* : Amar Ali, Syed P.C. U.D. D.L. C.I.E.
- The Sufi Movement* : Inayat Khan.
- The Theory of Mind as Pure Act* : Giovanni Gentile,
Translated by H. Wildon Carr, D. Lit.

हिन्दी-ग्रन्थ

अनुराग बांसुरी (नूरमुहम्मदकृत)

इन्द्रायती (नूरमुहम्मदकृत)

ईरान के सूफी कवि
कबीर का रहस्यवाद

कबीर ग्रन्थावली

कबीर बचनावली
गोरखबानी

चित्रावली (उसमानकृत)

जायसी ग्रन्थावली (पदमावत, अक्षरावट,

आखिरी कलाम)

तसव्वुफ अथवा सूफीमत

भारतीय अनुशीलन ग्रन्थ

मध्यकालीन भारतीय संस्कृति

मीरा-पदावली

यामा

श्रीमद्भगवद्गीता रहस्य

संक्षिप्त सूरसागर

सन्तवानी संग्रह (भाग पहला)

सन्तवानी संग्रह (भाग दूसरा)

हिन्दी काव्यधारा

सम्पादक—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल

तथा श्री चन्द्रबली पाण्डे

सम्पादक—डॉ० श्यामसुन्दरदास

बी०ए०

श्री बाँकेबिहारी तथा श्री कन्हैयालाल

डॉ० रामकुमार वर्मा

एम० ए०, पी-एच० डी०

सम्पादक—डॉ० श्यामसुन्दरदास,

बी० ए०

सम्पादक—श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय

संपादक और टीकाकार—

डॉ० पीताम्बरदत्त बड़धवाल

एम० ए०, डी० लिट्०

सम्पादक—श्री जगन्मोहन वर्मा

सम्पादक—पं० रामचन्द्र शुक्ल

श्री चन्द्रबली पाण्डे

राधादेवी महामहोपाध्याय

गोशंकर हीराचन्द ओझा

सम्पादक—श्री विष्णुकुमारी

विष्णुदेव 'मंसु'

श्री महादेवी वर्मा

श्रीकमान्य बालगंगाधर तिलक

सम्पादक—डॉ० बेनीप्रसाद एम० ए०

पी-एच० डी०, डी० एस-सी०,

श्री राहुल सांकृत्यायन

हिन्दी साहित्य

हिन्दी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास
हिन्दी-साहित्य का इतिहास
हिन्दी-साहित्य की भूमिका

डा० रामरतन भटनागर

एम० ए०, पी-एच० डी०

डा० रामकुमार वर्मा, एम० ए०

पं० रामचन्द्र शुक्ल

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी

संस्कृत-ग्रन्थ

ऋग्वेद

कठोपनिषद्

गीता

छान्दोग्योपनिषद्

पातंजलयोग-सूत्राणि

भागवत

महाभारत

मुंडकोपनिषद्

योगउपनिषद्

बृहदारण्यकोपनिषद्

शिव-संहिता

श्वेताश्वतरोपनिषद्